



**A GRACIOUS MESSAGE OF BLESSING**

FROM

His Holiness Jagadguru

**ŚRĪ ŚRĪ ŚAMKARĀCĀRYA MAHĀSVĀMINAH**

OF

**SRINGERI SĀRADĀ PĪṬHA**





श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्य पदवाक्यप्रमाणपारावारपारीण यमनियमासन प्राणायाम  
 प्रत्याहार ध्यानधारणासमाध्यष्टाङ्ग योगानुष्ठाननिष्ठ तपश्चक्रवर्त्यनाथविच्छिन्न श्रीशङ्करा-  
 चार्ये गुरुपरपराप्राप्तपङ्कदर्शनस्थापनाचार्ये व्याख्यानसिंहासनाधीश्वर सकलनिगमागम  
 सारहृदय साङ्ख्यत्रयप्रतिपादक वैदिकमार्गप्रवर्तक सर्वतन्त्रस्वतन्त्रादि राजधानी  
 विद्यानगर महाराजधानी कर्णाटकसिंहासन प्रतिष्ठापनाचार्ये श्रीमद्वाजाधिराज-  
 गुरु भूमण्डलाचार्ये ऋष्यशृङ्गपुरवराधीश्वर तुङ्गभद्रातीरवासि श्रीमद्विद्या-  
 शङ्कर पादपभाराधक श्रीजगद्गुरु श्रीचन्द्रशेखरभारतीस्वामि  
 गुरुकरकमलसञ्जात श्रीजगद्गुरु शृंगेरी  
 श्रीमद्भिनवविद्यातीर्थस्वामिनः ।

# श्री शृङ्गेरी जगद्गुरुमहासंस्थानम्, शारदापीठम् ।

शृङ्गेरी-कङ्कर (मैसूरु स्टेट्)

निवेशस्थान- शृङ्गेरी

दिवस - 11-4-1970

आचार्यभगवत्पादानां शिष्येषु श्रीमत्सुरेश्वराचार्याः विशिष्टं पदं  
अर्हन्ति । द्वितीये चाश्रमे विश्वरूपाचार्याभिधया विख्याताः । इमे कर्मणि  
ब्रह्मणि च निष्णाताः । कर्मणां अनुष्ठानावसरे तदेव परं अमन्यन्त ।  
अत्रैव च दृढा निष्ठा । कर्मपरं लोकमेव उत्तमं अमन्वन । तदानीं ब्रह्मवार्तानपि  
नासहन्त । आचार्यभगवत्पादानां व्याख्याप्रकारैः वेदस्य ब्रह्मतात्पर्यं  
अवाबुध्यन्त । अथ तु तेषां दृढः प्रत्ययः ब्रह्मण्येव । कर्म च अवरमभूत् ।  
निष्क्रियात्मस्वरूपेणावस्थानलक्षणनैष्कर्म्यं परमं पुरुषार्थं समाधानं बोधयितुं  
नैष्कर्म्यसिद्धिनामानं ग्रन्थं विरचय्य आत्मनः ज्ञाननिष्ठगरिष्ठतां प्राचीकशन् ।  
बृहदारण्यकवार्तिकादीन् मुमुक्षुजनोपयोगिनः नैकान्निबन्धान् निबबन्धुश्च ।  
भगवत्पादप्रतिष्ठापिते शृङ्गेरिशारदापीठे तदाज्ञया ब्रह्मविद्यासंप्रदायं  
प्रकाशयन्तः प्रचारयन्तः अज्ञान् उद्धरन्तश्च व्यलसन् । तद्विरचितानां  
ग्रन्थानां तदीयचरितानां च संग्रहं बहुभाषायामयं ग्रन्थं पुरातनमन्दिरसमुद्धरणा-  
वसरे श्रीवेङ्कटरामार्यप्रभृतयो भक्ताः प्रकाशयन्ते । तदिदमस्माकं तोषावहम् ।  
आशास्महे पुण्यं कर्मदं सर्वोपकारकं भूयादिति ॥

इति नारायणस्मरणम्

विद्यातीर्थः ।



माला सुधाकुंभ विबोधमुद्रा  
विद्याविराजत्करवारिजाताम् ।  
अपारकारुण्यसुधाभ्युराशिं  
श्रीशारदान्यां प्रणतोऽस्मि नित्यम् ॥

Prostrations for ever and ever to Śāradāmbā,  
the Ocean of Grace abundant,  
Her lotus hands decked with  
the rosary, the jar of nectar  
and the *mudra* of Enlightenment  
and of Knowledge.

## PREFACE

The renovation and the Kumbhabhishekam of the *Samadhi* of Sri Suresvaracharya, is a memorable event in the religious history of this country. It signifies the triumph of the Vedic religion, and of the philosophy of the Vedanta. The Upanishads form the most valuable of the spiritual heritage of this country, nay, of the world. There was a time when it looked as if all this would pass into oblivion. It was then that the great Sankaracharya appeared and re-established the authority of the Vedas, and the supremacy of the Upanishads.

In order to preserve this valuable spiritual heritage for all time to come, and to ensure its propagation from generation to generation, the Bhagavatpada established in all the four quarters what are known as Amnaya Mutts. Among them the pride of place must be given to the Dakshinamnaya Mutt at Sringeri. It was the first Mutt to be established by the Bhagavatpada, and it was put in charge of Sri Suresvaracharya, for whose *Samadhi* Kumbhabhishekam is to be performed. It is no exaggeration to say that the Sringeri Mutt has been most successful in carrying out the objects with which the Amnaya Mutts were founded. From Suresvaracharya, down to the present, the thirtyfifth incumbent, Abhinava Vidya Tirtha Swami, there has been an unbroken succession of eminent Pontiffs, whose

record of achievements in the propagation of Vedanta has been superb and unequalled. The Sringeri Mutt is known as the Vyakhyana Pitha, and true to its name, many are the eminent Acharyas, who have written brilliant treatises, expounding the Advaita philosophy. The Mathadhipathis have been travelling far and wide, giving discourses on Vedanta, and inspiring faith in God and showing the way to self-realisation to the listeners. There is, besides, an institution at Sringeri devoted to the teaching of advanced studies in the Vedas and the Vedanta, and many are the eminent scholars and distinguished teachers all over India, including some Mathadhipathis of other Sankara Mutts, who have been the alumni of this institution.

Suresvaracharya, was, before he became a sishya of Sankaracharya, a staunch Mimamsaka, who believed that salvation could be attained only by the performance of the rites prescribed in the Vedas. Then he came into contact with the Bhagavatpada, and in a disputation with him, was converted to his view that it is Jnana that is the ultimate means of realisation of the Brahman, and not Karma. It is after this that he was named Suresvara and was installed as the head of the Sringeri Mutt. There is some controversy as to the real identity of the Mimamsaka, who became Suresvara. The traditional view is that he was called Mandana Misra in his Purva-Asrama. As against this it is stated that the writings of Suresvaracharya exhibit, both in point of the views expressed and the expressions used,

a marked difference from those to be found in the *Brahma-Siddhi* of Mandana Misra, and that Suresvaracharya was in his *Purastama* a Mimamsa scholar known as Visvarupa. Not much turns on the controversy, as it does not affect the value of the writings of Suresvaracharya as monumental expositions of Advaita.

Among the works of Suresvaracharya, the most important are his *Vartikas* on the *Taittiriya* and *Brihadaranyaka Upanishads*. They are in the nature of commentaries on the Bhasya of the Bhagavat-pada on those Upanishads, and are unrivalled as brilliant and lucid exposition thereof. They are so outstanding in their merits, that Suresvaracharya came to be known popularly as the *Vartikalara Naistarmya Siddhi* is another work of Suresvara-

saint and philosopher, Suresvaracharya, on the occasion of the Kumbhabhishekam. It contains hymns in praise of the great Acharya, as well as articles breathing devotion, reverence and appreciation of all his writings. The contributions are not merely from Vaidwans brought up in the traditional learning but also from scholars whose approach is critical and modern; from Sanyasins as well as Grihasthas and from gentlemen as well as ladies. The writers hail from all parts of India, from Delhi, Varanasi and Darbhanga in the North to Trivandrum in the South, from Gujarat in the West to Calcutta in the East. The articles are also varied in their character; they are expository, dialectic and polemical, critical and analytical; and they are in a variety of languages, Sanskrit, English, Tamil, Telugu, Canarese, Malayalam, Marathi, Hindi, Gujarati and Bengali. The Souvenir volume can aptly be described as a garland woven with a number of brilliant fragrant flowers to be laid on the *Samadhi* of the Acharya on the occasion of the Kumbhabhishekam, as a humble tribute by a grateful and admiring public.

It is my pleasant duty now to express my sincere thanks to all the writers who have contributed articles for this Souvenir and to Siromani T. H. Viswanatha Sastri, who has edited the *Pancikarana Vartika* with commentary. I must specially mention my deep debt of gratitude to Sri K. R. Venkatarama Ayyar who has been in charge of this publication, for his strenuous and selfless work. Last but not least, I must thank Sri Vani Vilas Press, Srirangam and the



other printing houses mentioned in the appended note for the neat and excellent printing of this work, with its articles in several languages. Before concluding let me offer my humble *Pranamams* to the great Acharya who fills the transcendant Pitha with so much distinction, for taking up this great work of renovation and Kumbhabhishekam of Sri Suresvaracharya.

Madras, }  
29-3-70. }

T. L. VENKATARAMA AIYAR.

## OUR PRINTERS:

1. Sri Vani Vilas Press, Srirangam, Tiruchirapalli-6.  
(Sanskrit, Tamil, Hindi and English)
2. Vavilla Press, Madras. (Telugu)
3. Sri Samkara Kripa Mudrana Prakasnlaya, Mysore.  
(Kannada)
4. Pioneer Electric Printers, Palghat. (Malayalam)
5. Kalpa Printers & Publishers, New Alipore, Calcutta.  
(Bengali)
6. Indian National Press, Bombay. (Gujarati)
7. Sarada Mudrana Siddhi Mandiram, Poona. (Marathi)

All the sections were assembled and bound at the Sri Vani Vilas Press, Srirangam, to the Managing Director of which, Mr. V. Kothandaraman, we are indebted for the attractive format.

## DRAWINGS:

Sri Sathkara and Sri Sureśvara in Sringeri by Mr. K. K. Raman, Chembur, Bombay.

The *adhityānam* in perspective on the cover by Mr. K. R. Jagannathan of the School of Architecture, Madras.

The other blocks belong to the Sri Vani Vilas Press.

The Editors express sincere thanks for all the help from Mr. T. Ramalingeswara Rao (Madras), Mr. P. R. Hariharan (Mysore), Mr. P. S. Narayanan (Parli), Mr. P. Subramaniam (Calcutta), Mr. M. Sundaresan (Bombay), Prof. A. Subramaniam (Tiruchirapalli); Siromani K. S. Venkatarama Sastri (Srirangam), and Mr. V. A. Gadgil (Poona).

ओं

वेदान्तोदरवर्ति भास्वरमलं ध्वान्तच्छिदस्मद्वियो

दिव्यं ज्ञानमतीन्द्रियेऽपि विषये व्याहन्यते न क्वचित् ।

यो नो न्यायशलाक्यैर्न निखिलं संसारबीजं तमः

मोक्षार्याविरकार्थीद् गुरुगुरुः पूज्याय तस्मै नमः ॥

( नैऋत्यसिद्धि ४-७७ )

By Whom was proclaimed this stainless, luminous divine knowledge hidden in the Vedānta, which dispels the darkness of the mind, and which reveals the supersensuous but strikes not a single false note ;

By Whom the seed of ignorance and of all the bondage of saṃsāra is dug out with the rod of reasoning,

To Him, the ever adorable Guru of Gurus my obeisance.

॥ श्री. ॥



## INTRODUCTION

यस्तं पूज्याभिषूज्यं परमगुरुममु पादपातेनैतोऽस्मि ॥

• • •

यत्पादावाश्रितानां श्रुतिशमविनयप्राप्तिरमया ह्यमोक्षा

तत्पादो पावनीयो भक्त्यायविन्दुरौ सर्वभावेनमस्ये ॥

Adoration to the three Gauda sages — Sri Gauḍapāda, Sri Sureśvarapada and Sri Jñānottamapada, of the line of ācāryas of the Sringerī Śārada Pīṭha, also called Vyakhyāna Pīṭha. Viśvarūpa was a Gauḍa Brahmin of Mithilā, belonging to the 'clan' of Miśras. *Miśra*, which is a surname, signifies respectability and culture, and the family of Viśvarūpa lived up to the noble traditions of the group. Viśvarūpa's father Paṇḍit Hima Miśra was honoured as *Rajguru* in Kashmir.

### VIŚVARŪPA'S BIRTH-PLACE

Māhiṣmati, the birth-place of Viśvarūpa is sometimes identified with Mahēśvar on the Narmadā. Praised as the city of the legendary Kārtavīryārjuna, this Māhiṣmati is also referred to by *Kāśīdāsa* in the *Raghuvamśa* as the capital of the Haihaya dynasty. It is now remembered for the temple which contains the tomb of Rāṇī Ahalyābbālī. A stream called Mahēśvari joins the main river, and on either side of the confluence is a temple to Śiva. In close vicinity are other temples to Śiva and Devī.

This volume carries two papers in Hindi, which dispute this identification and seek to prove that the Māhiṣmati of

about 1736. The poem clearly says that Kumārila Sri Sankara to meet his disciple Viśvarūpa Maṇḍana Magadhā — शिष्यो ममास्ति ममघेषु न विश्वरूप. On Magadhā Sri Sankara saw the renowned ghaṭṭa Viśva 'the foremost among the wise' —

ममघं गतवाद्दर्श तं विश्वरूपगृहिणं विबुधाग्रगण्यम् । १

### VISVARŪPĀ'S NAMES

Viśvarūpa was a Maṇḍana meaning an 'ornament of learning.' The *Guruvamśa Kāvya* clearly differentiates between Maṇḍana Miśra, the author of *Brahmasiddhi* who was a throughout life and Viśvarūpa Maṇḍana who became Sureśvara-cārya. This distinction has been apparent in the writings of all the later advaita ācāryas, who have consistently held that the author of the *Brahmasiddhi* gives an independent interpretation of advaita which, in several essentials, differ from those of Sri Sankara and Sri Sureśvara. Modern scholars of the eminence of Hiriyanna, Kuppasvami Sastri and Dinēsh chandra Bhattacharya strongly uphold the distinction.

Curiously enough the poet Bhavabhūti is identified with Viśvarūpa. This identification is farfetched. Neither in Bhavabhūti's dramas nor in any of Sri Sureśvara's works is there the slightest indication to suggest this interpretation. Bhavabhūti, born in Berar, rose to fame along with Vakpati-rāja in the court of Yaśo, urman of Kanouj (C. 730). The only reference available is a verse in the *Vibhāṣanā*, a commentary on *Bālakriṣṇā*, which reads —

यत्प्रसादादयं लोको धर्ममार्गस्थितः सुखी ।

भवभूतिसुदेशात्तयं विश्वरूपं प्रणम्य तम् ॥

Ganapāti Sastri, the editor of *Bālakriṣṇā* clarifies the statement as follows:—

धर्मशास्त्रव्याकर्तारं विश्वरूपं सुरेश्वरश्चेत्येव परामृशति । तत्र भवभूतिशब्दभ्नु शिवविभूतिरित्यर्थकः शिवभक्त्यप्रकाशनार्थः शिवदासादिपदवत् किमप्युपनामधेयः स्यात् ॥ १ ॥

Bhavabhūti, meaning the 'splendour of Siva' is a surname.

## IN SRINGERI

Śringeri (Śringagiri), named after the sage Ṛṣyaśringa, is a few miles from the source of the twin rivers Tungā and Bhadrā. In the heart of the town is a low hill with a shrine atop to mark the place where Vibhāṇḍaka, Ṛṣyaśringa's father, cast off his mortal coil. On the northern bank of the river, to the south of Vibhāṇḍaka's hill shrine is the spot where Śrī Śaṅkara consecrated Śārada, the Mother of the Universe, on a Śrī Yantra carved on a rock. The Divine Mother, it is said, deigned to manifest Herself in Śringeri in answer to Śrī Śaṅkara's prayers when he visited the ancient Śārada kṣetra in North Kashmir, where he ascended the *sarvajña piṭha* or 'seat of omniscience'. The *piṭha* that he founded in Śringeri is a replica of that ancient seat of learning, and it came to be known as the *Vyākhyāna piṭha*, 'the seat of exposition of transcendental wisdom'. When Śrī Sureśvara was installed on this *piṭha*, Śrī Śaṅkara enjoined him to propagate the truths of the Upaniṣadic lore, and, for the welfare of the world, to worship Śārada, the Brahmavidyāsvarūpiṇī, installed on a Śrī Yantra, and the crystal lingam of Candramaulīśvara and the icon of Gaṇapati, partly crystal and partly ruby, which he himself had been worshipping. The pure white crystal lingam is iconically the nearest approach to the representation of the formless Brahman, itself without attributes of colour, shape etc., but reflecting the colour, shape etc., of whatever is brought near it (*adhyāsa*). The Gaṇapati icon represents the *praṇava*. That Śrī Sureśvara did not fail to encourage the devotional approach to Īvara, is evident from his *Mānasollāsa* and the verses in the other works in the form of invocation or prayer to one or other of the *Saguṇa mūrtis*. Round Śrī Sureśvara's hermitage in Śringeri, rapidly clustered several others, which provided homes for the saints and scholars who flocked to learn at his feet; and they came from all over the land. When they left Śringeri, full of wisdom, they spread all over the land carrying the message of advaita and spreading the fame of Śringeri. In a succinct but charming description, the poet says of the Ācārya, that he taught others the knowledge that

and is in four chapters. In Jacobi's view this is the best of Śrī Sureśvara's writings. In the introduction, Śrī Sureśvara states that this work is an epitome of the whole range of Vedānta —

अक्षेपवेदान्तसारसंग्रहप्रकरणमिदम् ।

Masters of the eminence of Jñānottama Miśra<sup>11</sup> and Citsukha have commented upon this work and Sarvajñātman is much indebted to it. Several others including the opponents of advaita give copious quotations from it. *Bālakṛīdā* is a commentary on *Yājñavalkya Smṛti*. It is in three *adhyayas* — *acāra*, *Vyavahara* and *prayaścitta*, and Viṅṅaneśvara has largely based his *Mūlāksara* on this work. It is therefore of perennial interest to jurists and scholars interested in the study of the development of socio-religious practices. A manuscript on *Mokṣa nīrnaya* in the Madras Oriental Manuscripts' Library carries the colophon — इति सुरेश्वराचार्यविरचित ... .. (composed by Śrī Sureśvarācārya). Curiously enough there occurs in the text a reference to Sarvajñātman's *Sanksepaśārīraka*, and the citation of a verse in it<sup>12</sup>. *Sanksepaśārīraka* was written late in the 10th century! The writer of *Mokṣanīrnaya* has obviously sought to father his work on Śrī Sureśvara, but was so careless as not to notice the anachronism. *Vedantasāra Vārtikarāja samgraha*, a manuscript copy of 50 verses in the Tanjavur Palace Sarasvatī Mahal Library, with the colophon that it was written by Śrī Sureśvarācārya, published by the Śrī Vaṅṅī Vilas Syndicate Press, Srirangam, and another minor work *Mahāvākyaṛtha pañcīkaraṇam* cannot be readily accepted as the Ācārya's works in the absence of convincing evidence.

### GLIMPSES OF HIS MESSAGE

In his works the Vārtikakara reiterates Śrī Saṅkara's message that the only Reality is Brahman who is Sat Chit-Ānanda. Through the power of Maya, the Absolute Reality causes the appearance of the universe of gross and subtle matter — of names and forms. From the absolute standpoint there is neither Maya nor creation, but from the relative standpoint Maya inheres in Brahman. Everything else than Brahma

is a superimposition (*adhyāsa*) caused by *Māyā* or *avidyā*, which veils the true nature of Brahman, and makes it appear as the world. The only base (*aśraya*) of *avidyā* is Brahman, not even the *Jīva*, which is only the effect of *avidyā*. The cessation of *avidyā* is the realization that the *Jīva* is the *Ātman* (Brahman).

The critical part of the Ācārya's works is largely a refutation of the views of Cārvākas, Naiyāyikas (Vaiśeṣikas), Mīmāṃsakas and the Buddhist schools of Sūnyavāda, Kṣānika Vijnānavāda etc. While considering some features of the Ācārya's teachings, the points of difference between him and some other advaita writers may also be indicated. The Mīmāṃsakas aver that by avoiding *pratīkṣiddha* (prohibited) and *kāmya* (with expectation of fruits) *karmas* and by performing *nitya* (daily and prescribed) and *namittika* (periodical or optional) *karmas* without desire for merit, all past *karmas* are destroyed, and this leads to emancipation after the *prārabdha karma* is worked out. This release, as visualized by the Mīmāṃsakas, resulting from the avoidance of demerit by performing the obligatory and special rites in a spirit of *niskāma* (desirelessness) is only that of *karma*. *Avidyā*, the base of *karma*, persists. *Jñāna* alone is capable of destroying *avidyā*. That is not to say that *karma* has no place in the Ācārya's scheme. It is a means of rising to different stages of perfection, of desirelessness, leading to the purification of the mind (*cittasuddhi*) and eventually through *śravaṇa*, *manana* etc to *sanyāsa* and to *Jñāna*. Then it can be said that 'all *karmas* disappear like clouds at the close of the rainy season'. This explains why the Ācārya rejects the idea expounded by some writers of *karma-jñāna-samuccayam*, or integration of rites with Brahmanjñāna. Ignorance, he asserts, can be removed only by *jñāna*, which alone constitutes emancipation or 'Self awareness' and which emancipation or *mukti* is *stidha*, ever inhering in the Self as opposed to *sādhyā* or something to be externally cultivated.

Śrī Sureśvara is an exponent of what is described as *ābhāsa-vāda*. According to this view, the *śivā* is a reflection of the



Brahman in the *antaḥkaraṇa*—(*chid-ābhāsa*) The mind together with the *samskāras* or impressions based upon reminiscences is a form of *avidyā*. The reflection, which is different from the original—the Real Self, cannot have the reality of the Self, it is so to say a 'false phenomenon', and that is what *ābhāsa* means.

In the *Mānasollāsa* Śrī Sureśvara reproduces a sloka from Gauḍapāda's *Māṇḍūkya kārīkā* —

अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते ।  
जजमनिद्रमस्वप्नमद्वैतं बुध्यते तदा ॥ १३

(Waking from the sleep of beginningless *Māyā*, the Jīva realises that there is no birth, no sleep, no dream, no non-duality). How is this awakening into Self-knowledge brought about? The answer is found in the same work.

श्रुत्याऽऽचार्यप्रसादेन योगाभ्यासवशेन च ।  
ईश्वरानुग्रहेणापि स्वात्मबोधो यदा भवेत् ॥ १४

(The means comprise the teachings of the *Śruti* (the *mahāvakyas*), the grace of the Guru and of *Īśvara* and the practice of *Yoga*.)

To take *Yoga* first — The ninth *Ullāsa* in *Mānasollāsa* deals with *aṣṭāṅga* (eight limbed) *yoga Samādhi* (the superconscious state) is brought about by deep *dhyāna*. During *samādhi* the difference between the 'knower' and the 'known' continues to subsist, this is the state of *samanaska* or *savikalpa samādhi*. The final step is the destruction of all mental *vrittis* (thought waves or 'modifications'), this is the state of *amanaska* or *nirvikalpa samādhi*. To attain this, the *Ācārya* reminds us that self-reliance alone is of no avail, but

गुरुप्रसादाद्ब्रह्मते योगमष्टाङ्गलक्षणम् ।  
शिवप्रसादाद्ब्रह्मते योगसिद्धि च शाश्वतीम् ॥ १५

through the grace of the Guru is the 'eight limbed' *yoga* attained, and through the grace of *Śiva*, its final and lasting *siddhi*. The grace of the Guru and of *Īśvara* is indispensable.

*Vicāra* (inquiry into the nature of the Self) and *Vairāgya* (dispassion) constitute the principal *sādhana* for *Jāna*. For the average *sādhaka* who has not the capacity to take to this discipline beginning with *śravaṇa*, *manana* etc, what is the means? —

ईश्वरोपासनारूपः तदुपायः प्रकीर्त्यते ॥<sup>१६</sup>

It is through *upāsana*-meditation and worship of *Īśvara*. How best to worship *Īśvara*? Worship Him as not different from one's *Ātman*. स्तीति स्वात्मानं परमेश्वरम् ।<sup>१७</sup> This is the last word in *upāsana*. In sublimating *bhakti* and *upāsana* into the means of understanding the nature of the *Ātman* *Śrī Sureśvara* only enlarges upon *Śrī Saṅkara's* theme that *bhakti* is

स्वरूपानुसन्धानं-स त्मत्त्वानुसन्धानम् ।<sup>१८</sup>

In addition to *yoga* and grace, *Śruti* is one of the means<sup>१९</sup> The question may be raised: when Brahman alone is real is not *Śruti* illusory? *Śrī Sureśvara* answers that the question is irrelevant. As long as there is *avidyā*, *Śruti* is real and when *avidyā* goes and realization is attained, *Śruti* is unnecessary. The *Śruti* sublates the prevailing ignorance about the non-dual Self, and to that extent it is the guide and authority.

When through the discipline mentioned above, the mental *vrittis* are stilled and tranquilized the stage comes for the perception of the *Śruti mahāvākya*s such as *Tat-tvam-asi*. The *śabda* generates immediate knowledge or *Vijñāna* *Maṇḍana*, for example, and after him *Vācaspati Miśra* hold a different view. They say that the testimony of the *Śruti* texts gives only mediate knowledge, and there is the further need for deep meditation (*dhyaṇa*) and constant repetition (*prasāṅghyaṇa*) to transmute the mediate knowledge into intuitive awareness. The *buddhi* must be perfected and stimulated to produce final intuition. The *Vārtikakāra* rejects this view.<sup>२०</sup> He reminds his critics that meditation is a form of action, and comprehension of the Self is possible only after the cessation of all actions. When the *Śruti* texts are comprehended *avidyā* is destroyed and the Self stands comprehended. There is no need

for any process of intellection, such that meditation involves It is, so to say the constant presence or flow of the conviction *Aham Brahmasmi* (I am Brahman) that is *vijnāna* and *vijyāna* is not a mental activity it is absolute consciousness the final realization, freedom, Brahman bliss (*ānanda*)<sup>21</sup> — (दिहानमानन्द ब्रह्म, says the Śrutī)

Then the Ācārya's description of a *stddha*, a realised person — "What duty remains for him to perform" he asks, "when all delusion is burnt up?"<sup>22</sup> (किं कार्यमवशिष्यते ?) — the realised sage does not so much as deign to have a look at action or inaction (न प्रवृत्तिं निवृत्तिं वा वटाक्षेणापि वीक्षते ।) —<sup>23</sup>, is there anything for him to know or is there any ignorance waiting to be removed and what duty remains to be performed? ननुत्पन्नमदग्धं वा ज्ञानमज्ञानमस्य न . किं कार्यमवशिष्यते ?<sup>24</sup> The realised sage is in *sarvātmabhava* with the vision of Brahman everywhere the Ācārya exalts it as *sarvātmabhava samrajya* — "the sovereign state of ātma perception everywhere"<sup>25</sup>

The Ācārya affirms the reality of the *jivanmukti* state even before the dissolution of the physical body The *jivanmukta* is a person of 'attained blessedness' he has transcended both evil and good Naught of evil will he do or think of To the sceptic on this point, the Ācārya has a crushing answer — "What then is the difference between a dog and a man of realization in the matter of eating dirty food if a realized person should act without restraint like any worldly minded ignoramus" ?

बुद्धाद्वैतपतयस्य यथेपाचरणं यदि ।

शुर्ना तत्रदृशा चैव को मेदोऽशुचिभक्षणे ॥<sup>26</sup>

The sceptic is silenced with the query, "how can one who is free from any kind of attachment to anything in the three worlds, bring himself to do any worldly action?"

लोकत्रयविरक्तत्वान्मुमुक्षुः किमितीहते ? ॥<sup>27</sup>

In quite a picturesque simile does the Ācārya present to us the state of *Jivanmukti* "Even as a tree (that has been pulled

out of its roots withers and gradually dries up, the *Jivan-mukta* awaits the gradual working out of the little remaining karma for the final dissolution of the body "

सरोरंत्नातमूलस्य शीयेणैव यथा ध्रुवः ।

तथा बुद्धात्मतत्त्वस्य निवृत्त्येव तनुक्षयः ॥ २१

Sri Sureśvara's devotion to his Master, Śrī Śaṅkara, stands out boldly in several contexts. He makes it clear that his Guru's support and command are behind his writings. "Though many have expounded the path of *Jñāna*, yet I expound it in obedience to my Guru's commands" is his avowal:—

ज्ञाने व्याकृतमप्यन्यैर्देह्ये गुर्यनुशिष्यया ॥ २०

Mark his extreme humility when he disclaims desire for fame or even appreciation:—

न ख्यातिलाभपूजार्थं ग्रन्थोऽस्माभिरदीयते ॥ २१

He often strengthens his arguments with quotations from Śrī Gaudapāda and Śrī Śaṅkara. In *Naṭṣkarmasiddhi* alone there are seventeen passages reproduced from Śrī Śaṅkara's *Upadeśasāhasrī*. In another context he avers that his views bear the stamp of the authority of the *Gauḍa* and the *Drāviḍa* "both of whom we adore".

एवं गौडेर्द्राविडेनः पूज्यैरर्थं प्रमादितः ॥ २१

The *Gauḍa* is Śrī Gaudapāda and the *Drāviḍa* is Śrī Śaṅkara bhagavatpāda. And mark his declaration that he obtained Vedāntic knowledge from Śrī Śaṅkara even as Bhagīratha obtained the Gaṅgā from Śiva, २२ and having served the lotus feet of Śrī Śaṅkara he got from the Master that sacred knowledge that will remove all ignorance—the knowledge that befits a *paramahansa*.

धीमच्छक्रपादपद्मयुगले संसेव्य लक्ष्योचितान्

ज्ञानं पारमहंस्यमेतद्मल्लभ्यान्गन्धकारानुत् ॥ २२

We may conclude this sketch with a reference to what may be considered a great and comprehensive message. It is this:

The unknowable absolute Reality is in *Īśvara* — the cause and sustainer of the world acting through *Māyā*. The absolute Reality is again in the Guru who leads to the extirpation of *Māyā* (*avidyā*). Approach *Īśvara* for grace and He comes as the Guru. *Śrī Sureśvara* expresses this in one of the verses expatiating upon the first verse in the *Dakṣiṇāmūrti Śiōtra* which ends with the line —

तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥

The sloka is a *mantra* to be meditated upon ;

ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभाजिते ।

व्योमचद्वयात्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॥ २४

I bow to *Śrī Dakṣiṇāmūrti*, the 'South facing Deity' as He is popularly visualised, but in truth *dakṣiṇa* (dexterous) *a-mūrti* (formless) ; formless as He is, He with the power of His *Māyā* (*Śrī*) dexterously projects the world of appearances, of name and form etc. I bow to *Śrī Dakṣiṇāmūrti* who like the *ākāśa* abides everywhere and appears as *Īśvara*, Guru and *Ātman*.

Again ;

ध्यानिलान्घञ्घरिद्व्यन्तं स्रक्कृणीवोद्गमं यतः ।

ध्यान्तच्छिदे नमस्तस्मै हरये बुद्धिमाक्षिणे ॥ २५

I bow to *Harī*, the *sākṣī* (silent witness) of the *buddhi* (this is the aspect of pure *Ātman-impersonal*), who causes the illusion of the world composed of ether, air, fire, water and earth, like that of a snake in a rope (this is the personal or *Īśvara* aspect functioning through *Māyā*) and who destroys the darkness of ignorance (*Guru aspect*).

May we adore in the *Vārtikakāra Śrī Sureśvara* as well as in each of his successors in the *Śringeri Śaradā Pīṭha*, the supreme Guru and *Īśvara* in one, and offer our hearts' prayer that He may illumine our understanding and lead us to Liberation and Bliss.

शंकरं नमि सुरेश्वरं च ॥

K. R. Venkataraman.

## NOTES

1. Bhāratiya Vidyā Bhavan's *History and Culture of the Indian people*. Vol. IV. p. 266
2. The legends that Vasiṣṭha found fulfilment in spiritual life through Tantra *sādhana*, and introduced Tārā worship into India from across the Himalayas, are narrated in the works of *Mahācina Tantra*, which are eroto-centred. Śrī Sureśvara, like Śrī Saṃkara, reformed and purified this faith even as they did all Āgama and Tantra rituals and creeds and converted them into *sādhana* for the realization of Brahman.
3. II. 45
4. II. 50
5. Introduction (p. 3) to '*Yājñavalkya smṛiti*' with the commentary '*Balakridā*'. (Trivandrum Samskrit Series No. LXXIV) edited by Mahāmahopādyaḥya T. Ganapati Sastri.)
6. *MSDV*. VII-116  
 अवेरु इत्यमिहितस्य हि तस्य लोकेऽवेति यान्धवजनैरभिधीयमाना।
7. Copiously cited by the contributors to the *History and Culture of the Indian People IV*. (Bhavan)
8. *HDS*. I. p. 253
9. *The Historical Background and Theoretical Basis of Hindu Law* by Justice P. B. Gajendragadkar. (*Cultural Heritage of India II*. p. 419 — Published by the Ramakrishna Mission Institute of Culture, Calcutta )
10. *GVK*. IV. 3
11. Not to be confused with Śrī Jñānottama, the fifth acārya of Sringeri, who succeeded Śrī Jñānaghāṇa. A native of Maṅgalam in the Coja country, Mahopādhyaya Jñānottama Miśra was named after his father's guru. It is quite possible that his father's guru was Śrī Jñānottama, Jagadguru of Sringeri.

12. उक्तं च संक्षेपशरीरके ... ..

सुतो जन्तुः स्वल्पमात्रेऽपि काले . कोटीः पश्येद्ब्रुत्तसंवत्सराणाम् ।  
कोटीः पश्येद्देवमागामिनां च जामत्काले योजयेत्सर्षमेतत् ॥

13. *M K* I. 16; *Man.* I. 13

14. *Man* I. 14

15. *ibid* IX-46

16. *ibid* IX-1

17. *ibid* I-2

18. *V C.* 32-33

19. *Man.* I. 14. *op. cit.*

20. *N S.* III-63 ff. and 123-6.

21. Modern scholars such as Hiriyanna, Dinesh Chandra Bhattacharya, T. P. Mahadevan, S. S. Raghavachar and Svami Gambhirananda, have dealt with this question with perspicuity. Mahadevan in his book, *The Philosophy of Advaita*, (pp. 272-3 - pp. 253-4. 1938 Edn. Luzac & Co.) summarises Vācaspati's views *contra* Suresvara. Vācaspati also lived and wrote in the 9th century. One of his works, *Nyāyasūcinibandha* was written in A. D. 842 (V S. 898).

22. *N S* IV 59

23. *ibid* IV. 54

24. *ibid* 58-59

25. *Man.* X. 19

26. *N S.* IV. 62

27. *ibid* IV. 65. This is a quotation from Śrī Śaṅkara's *Upadeśasāhasri* XVIII. 231.

28. *ibid* IV. 61

29. *ibid* I. 3

30. *ibid* I. 6

31. *ibid* IV. 44


32. *ibid* IV. 76

33. *ibid* IV. 74  
 34. *Man.* I. 30  
 35. *NS.* I. 1

### ABBREVIATIONS

1. *G V K.* *Guruvamsakāvya.*
  2. *H D S.* *History of Dharma Sastras* by Mahamahōpadhyāya  
Dr. P. V. Kane.
  3. *M S D V.* *Mādhaviya Sāmlaradīgviḷaya.*
  4. *Man.* *Mānasollāsa*
  5. *M K.* *Māṇḍukya Kārika.*
  6. *NS.* *Naiṣkarmyasiddhī.*
  7. *V C.* *Vivekacūḍāmaṇī.*
-





The Establishment of the Sarada Pitha in Sriageri.




श्रीचन्द्रमौलीशरङ्गिणमस्तौ  
सद्रत्नगर्भं गणनायकं च ।  
... ..

सुरेश्वराचार्यं सरस्वतीं त्वं  
संपूजयन्नास्त्व चिरादिहेति ।  
दत्त्वाऽभ्यनुज्ञां विनताय तस्मै  
... .. (शुक्लवंशशाब्दे III ३३-३४)

अपास्य लोकैकगुरोरनुज्ञया  
सुरेश्वराचार्ययतीश्वरो महान् ।  
स शुक्लभद्रातटिनीतटे मठे  
जगत्प्रतीते जयकृच्चिरं वभौ ॥ *ibid* IV-1.

To Suresvara Saṅkara gave instruction to reside in Sringeri and offer worship to Sri Candramauliśvara Lingam, Ratnagarbha Gaṇaśyaka and Sarasvatī (Śaradā).

As directed by the Lokaguru, the illustrious Yati Suresvara presided for long in glory in the world-famous maṭh on the banks of the Tuṅgabhadra.



The Establishment of the Sarada Pit̥ha in Sr̥ngeri



श्रीचन्द्रमौलीश्वरलिङ्गमस्यै  
सद्रत्नगर्भं गणनायकं च ।  
... ..

सुरेश्वराचार्य सरस्वतीं त्वं  
सपूजयन्नास्व चिरादिहेति ।  
दत्त्वाऽभ्यनुज्ञां चिन्ताय तस्यै  
... .. (गुरुवेश्मकाव्ये III ३३-३४)

अथास्य लोकैकगुरोरनुज्ञया  
सुरेश्वराचार्ययतीश्वरो महान् ।  
स तुङ्गभद्रातटिनीतटे मठे  
जगत्प्रतीने जयकृच्चिरं वभौ ॥ *ibid* IV-1.

To Suresvara Samkara gave instruction to reside in Sringeri and offer worship to Sri Candramaulisvara Lingam, Ratnagarbha Gananayaka and Sarasvati (Sarada).

As directed by the Lokaguru, the illustrious Yati Suresvara presided for long in glory in the world-famous math on the banks of the Tungabhadra.



I HYMNS

1. *Stotra Triveṇī*

- (1) *Mimāmsaka śīromaṇi Maithilappravara*  
*Maṇḍana Miśra praśastih* ... २

Pandit Shobakant Jayadeo Jha,  
 Acharya, (Sahitya, Vedanta, Nyaya,  
 Vyakarana darsana), Professor,  
 Mithila Research Institute,  
 Darbhanga.

- (2) *Srīmat Sureśvara praśastih* ... ३

Paramahansa Sri Bhashya Svami  
 (Sri Sachchidananda Tirtha),  
 Mahadanapuram.

- (3) *Sri Sureśvara stutih* ... ८

Paramahansa Sri Jnanananda Bharati  
 Svami.

2. *Bhakta Prārthanā* ... १०

A V. Subrahmanyam, I R A. S.,  
 Dy. Financial Adviser,  
 S. C. Railway.

## II. PAPERS

1. Vārtikakāro Naiṣkarmya siddhīśca ... 1  
Paramahansa Sri Dhasya Svami.
2. Vārtikalakṣaṇa samanvayaḥ ... 11  
K. P. Sankara Sastrī,  
Vidvanmani, Vidhyabhushana;  
Professor of Advaita Vedanta,  
Sri Chamarajendra Sanskrit College,  
Bangalore.
3. Kiñcidadhi Naiṣkarmya siddhī ... 20  
V. S. Ramachandra Sastrī,  
Vidyavidhi, Panditaratna;  
formerly Principal, Girvanā prauḍha  
Vidyabhivardini Pathasala,  
Sringeri Math, Bangalore;  
later Principal,  
Sanskrit Mahavidyalaya, Banaras.
4. Mānasollāsa sparśānugūṇo Vicāraḥ ... 29  
K. S. Krishnamurti Sastrī,  
Mahamahopadhyaya; Panditaraja,  
Sastrāratnakara;  
Former Poet-laureate in Sanskrit,  
Madras; Certificate of Honour  
from the President of India.
5. Taittirīya Vārtikāni (Brahmāvallī) ... 39  
N. S. Krishna Sastrī,  
Vedanta Vidvan (Myśore);  
Vedanta Siromani (Madras);  
Asthana Vidvan Sringeri Math;  
Lecturer in Sanskrit  
Sri Sankara College, Kalady.

6. **Lokottaram Caritam** ... 82  
 Rajnarayan Sastri,  
 Acharya, Head of the Department  
 of Samkhya and Yoga,  
 Samskrit University;  
 Pradhan Mantri,  
 Sri Kasi Vidvat parishad ;  
 Samstapaka, Sastra Mahavidyalaya  
 (Sanskrit degree College) Varanasi
7. **Sri Sureśvarācāryā Vivṛtaḥ  
 Maitreyyai Yājñavalkyopadeśaḥ** ... 55  
 'Vicharaka'
8. **Sri Sureśvarācāryāḥ ābhāsa Vādaśca** ... 60  
 Dr. Gaurinath Sastri,  
 Vice-chancellor,  
 Samskrit University, Varanasi
9. **Sambandhavārtika adhikāri parikṣā** ... 64  
 K. S. Venkatarama Sastri,  
 Vyakarana Śiromani,  
 Vedanta Vidwan,  
 Asst. Editor,  
 'Sri Sankara Kr̥pa' Srirangam

श्रीसुरेश्वराचार्यजीवितस्मरणम्

॥ श्रीः ॥



स्तोत्रत्रिवेणी ॥



मैथिलस्य मीमांसाचक्रवर्तिनः  
मण्डनमिश्र विश्वरूपस्य प्रशस्तिरेका,



तस्यैव संन्यासानन्तरं श्री शृङ्गगिरि शारदापीठाधिष्ठितस्य व्याख्यान  
सिंहासनाधीश्वरस्य परमहंसपरिव्राजकर्यतपश्चक्रवर्तिनः  
( विश्वरूप ) सुरेश्वराचार्यस्य प्रशस्तिद्वयम्  
आहत्य स्तोत्रत्रिवेणी



(१)

मीमांसकशिरोमणि  
मैथिलप्रवर मण्डनमिश्रप्रशस्तिः ॥

नेपाल गिरि-सम्भूत-धर्ममूलानदीतटे ।  
माहिष्मतीपुरी चोत्रतारापीठविलासिनी ॥ १ ॥

आसीत्तत्र सुधीः सर्वदर्शनार्थविचारवान् ।  
मण्डनः सर्वथा शश्वजगन्मण्डलमण्डनः ॥ २ ॥

तस्मिन्कालेऽनवद्यप्रचुरतरलसद्विद्यया द्योतमानः  
विद्वत्तापारगन्ता निजमहिमवरैः शास्त्रतत्त्वैर्विशालैः ।  
शास्त्रार्थे तस्य बुद्धिः विविधकृतिमती वादिपक्षप्रहन्त्री  
आसीत्तत्र स्वतन्त्रो विमलप्रतिपुतैः शिष्यवृन्दैः समेतः ॥ ३ ॥

प्रख्यातः सर्वतन्त्रे श्रुतिमतिलसितः सत्पथाचारशीलः  
विज्ञानां सुप्रशस्तः बुधजनमनसां मोदकृद्यो विशेषात् ।  
विद्या-शस्त्रप्रभावेर्जितसकलरिपुः भासमानः समन्तात्  
विद्वद्बृन्दावृतः सन् सुविशदवचसा ख्यातिमाप प्रकृष्टात् ॥

प्रसिद्धं मण्डनं श्रुत्वा जगद्गुरुपदाश्रितः ।

शङ्करस्तु प्रयागाद्वै मिथिलामाजगाम सः ॥ ५ ॥

शास्त्रार्थवादमुद्दिश्य शङ्करो दिग्जय-क्रमे ।

महिषीमागतस्तत्र यत्नासीन्मण्डनः सुधीः ॥ ६ ॥

दासीं पप्रच्छ मेधावी कृत-दिग्विजयस्तु सः ।

मण्डनस्य गृहं कुत्र कथयाशु जलप्रदे ॥ ७ ॥

तस्येमं प्रश्नमुद्दिश्य सा दासी ज्ञाननिष्ठिता ।  
स्वतः प्रमाणमित्यादि वाक्यं सा निजगाद वै ॥ ८ ॥

तत्तस्य ख्यातिविषये श्रूयतेऽद्यापि सज्जनेः ।  
स्वतः प्रमाणमित्यादि किंवदन्तीपदोच्चयः ॥ ९ ॥

सौख्यं शास्त्रकलाभिज्ञः विजेता सकलस्य च ।  
मिथिला-मणिमालायाः सुमेरुः सर्वथा महान् ॥ १० ॥

गुणानामाकरः श्रीमान् सर्वतन्त्रविचक्षणः ।  
मिथिलाजन्मतो यस्य मिथिलेयं सनाथिता ॥ ११ ॥

किं वर्णयामि माहात्म्यं यस्यावासे शुक्रा अपि ।  
आसन् शास्त्रविचारज्ञास्तस्य विद्यानिधेर्महत् ॥ १२ ॥

अनेनैव प्रभातज्ञाः प्रभावं मण्डनस्य च ।  
विदांकुर्वन्तु धीमन्तः सन्ध्यास्रपरिशीलकाः ॥ १३ ॥

इति श्री दर्भज्ञानगरविराजमान मिथिलाशोधनसंस्थानप्राध्यापकवर्य साहित्य-  
वेदान्तन्यायव्याकरणदर्शनावार्य शोभाकान्त जयदेव ज्ञा पण्डितेन  
विरचिता मण्डनमिश्रप्रशस्तः संपूर्णा ॥



## श्रीमत्सुरेश्वरप्रशस्तिः ॥

—❀—

पूर्वं मण्डनपण्डितः किल वभौ माहिष्मतीभूषणः  
 निष्णातोऽखिलवेदशास्त्रनिचये मीमांसकाग्रसरः ।  
 श्रीमच्छङ्करदेशिकेन च पुनर्वादादवे निर्जितः  
 तस्यान्ते वसतिस्म तं गुरुवरं वन्दे सुरेशामिधम् ॥ १ ॥

श्रीमच्छङ्करदेशिको मुनिवरः श्रीब्रह्मविद्यात्मिकां  
 श्रीचक्रोपरि भाषयन् भगवतीं श्रीशारदामन्त्रिकाम् ।  
 तां संस्थाप्य च मन्दिरेऽतिमहिते शृङ्गाचलस्थेऽर्चयन्  
 स्वान्तेवासिवरं सुरेशमपि तत्पूजार्थमाजिज्ञिषत् ॥ २ ॥

श्रीमद्रत्नगणाधिपं सुरुचिरं श्रीचन्द्रमौलीश्वरं  
 वाग्देवीं च समर्चयन्नत्रिकलं श्रीमान् सुरेशो गुरुः ।  
 स्वस्यान्ते वसतो बहून्नुदिनं भाष्याणि चाध्यापयन्  
 श्रीमच्छङ्करसंप्रदायमतनोच्छृङ्गाचले तं भजे ॥ ३ ॥

श्रीचक्रार्चनतत्परं गुरुगिरा श्रीशारदाऽऽगधकं  
 श्रीमत्सद्गुरुत्नगर्भगणपश्रीचन्द्रमौल्यर्चकम् ।  
 भाष्याध्यापनतत्परं च यमिनां सर्वज्ञचूडामणिं  
 वन्दे वार्तिककारसद्गुरुवरं श्रीमत्सुरेशामिधम् ॥ ४ ॥

कर्मभ्यः किल मुक्तिरित्यभिदधुर्मीमांसकाः केचन  
 ज्ञानं कर्मसमुच्चितं निजगदुर्मोक्षप्रदं चापरे ।  
 एतादृक्षसमस्तवादनिक्यं कर्त्रात्मवादांस्तथा  
 यो युक्त्या श्रुतिमिश्रखण्ड परमं भाष्याश्रयं व्यावृणोत् ॥ ५ ॥

वेदान्ताभिधकाननेऽतिगहने मञ्चारपञ्चाननो

मीमांसादिसमस्तशास्त्रवचनं तस्यानुकूलं व्यधात् । ३

<sup>१</sup> श्रीमद्भद्रहमारिलस्य वचनं नास्तिक्वयनिन्दाकरं

ब्रह्मास्तित्वसमर्थकं च बहुधा संदर्शयामास यः ॥ ६ ॥

अन्येषां च निरीश्वरत्ववचनं मर्वात्मना खण्डयन्

यो वेदप्रतिपाद्यमीश्वरमहो संमाधयन् युक्तिभिः ।

वेदानां परमेश्वरादधिगतेनित्यत्वमेव ब्रुवन्

तत्रापौरुषतां वदन् श्रुतिततेः प्रामाण्यमातिष्ठिषत् ॥ ७ ॥

वेदानां परतः प्रमाणकथनं मीमांसकादेर्मतं

दूरीकृत्य सुयुक्तिभिः श्रुतिश्रुतेर्यैः स्वानुभूत्या तथा ।

शब्दादप्यपरोक्षबोधजननं दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकैः

युक्त्या स्वानुभवेन चातिगहनं सिद्धान्तमादर्शयत् ॥ ८ ॥

वेदान्ताशयसूचनेन परमां शाब्दापरोक्षप्रथां

यः स्पष्टीकुरुते स वार्तिकचये नैष्कर्म्यसिद्धौ तथा ।

संख्यानादिमतं च युक्तिनिचयैर्विद्राव्य शार्द्धां प्रमां

भाष्याद्यर्थविवेचनेन सुतरामाविशकार स्वयम् ॥ ९ ॥

योऽन्येषां सहपाठिनां मतिमतां तृप्त्यर्थमत्यादरात्

गुर्वाज्ञावशतश्चकार रुचिरां नैष्कर्म्यसिद्धिं स्फुटाम् ।

भूयो वार्तिकनिर्मितौ गुरुवरस्याज्ञावलादज्ञसा

योऽकार्पादय तीचिरीयवृहदारण्यादिमद्वार्तिकम् ॥ १० ॥

१ इत्याह नास्तिक्वयनिराकरिष्णुरात्मास्तितां भाष्यवृद्धत्र युक्त्या ।

दृढत्वमेतद्विषयश्च बोधः प्रयाति वेदान्तनिषेवणेन ॥

इति कुमारिलमहृष्यवचनम् ॥

श्रीमत्कृष्णयजुर्गता ह्युपनिषत् श्रीतैत्तिरीयाभिधा  
 ह्यन्या शुक्ययजुर्गता च परमा श्रीवार्हदारण्यकी ।  
 एका शङ्करमद्गुरोः तदपरा स्वीया च शाखा क्रमात्  
 योऽकार्पीद्गुमयत्त वार्तिकचयं सोऽयं गुरुः पातु नः ॥ ११ ॥

सोऽयं वार्तिककारसद्गुरुररः सन्मानसोऽस्त्रासकं  
 वेदान्तार्थविभामर्कं व्यतनुत् श्रीमद्गुरोराज्ञया ।  
 इत्थं ग्रन्थवरान् बन्धु सुबहून् लोकोपकारक्षमान्  
 तत्तादृक्षसुरेश्वराय गुरवे भूयोऽपि भूयो नमः ॥ १२ ॥

श्रीमच्छङ्करसंप्रतिष्ठितमहापीठेऽपमाद्यो गुरुः  
 विद्यारण्यमुखाश्च देशिकवराः तस्यानुगाः पावनाः ।  
 अन्ये ये च तपस्विनो गुरुवराः श्रीशारदापीठगाः  
 तान् प्रातःस्मरणीयचारुचरितान् नित्यं नमस्कृमहे ॥ १३ ॥

श्रीमच्छङ्करगिरौ च शङ्करगिरा श्रीशारदापीठिका-  
 मारूढस्य सुरेश्वरस्य जगदाचार्यस्य सन्मन्दिरे ।  
 विद्यातीर्थगुरुत्तमेन कलिते कुम्भामिपेकोत्सवे  
 तत्पादस्मृतिभासुरा स्तुतिरियं तत्पादयोरर्पिता ॥ १४ ॥

मङ्गलं शारदापीठप्रथमाचार्ययोगिने ।  
 श्रीमद्वार्तिककाराय सुरेशायास्तु मङ्गलम् ॥ १५ ॥

सच्चिदानन्दतीर्थेन भिक्षुणा मोक्षलिप्सुना ।  
 सुरेश्वरप्रशंसेयं तत्पादयुगलेऽर्पिता ॥ १६ ॥

सच्चिदानन्दतीर्थस्य भाष्यस्वाम्यभिधातुषः ।

कृतिरेषा तदीयांत्रिकमले वम्भरायताम् ॥ १७ ॥

इति श्रीमच्छृङ्गगिरि जगद्गुरुचरणसरोरुह सेवासमाप्तादित सारस्वतविभवलेशस्य

श्रीशिवानन्दतीर्थस्वामिपूज्यपादशिष्यस्य श्रीसच्चिदानन्दतीर्थस्य

(श्रीभाष्यस्वामिनः) कृतिः श्रीसुरेश्वरप्रशस्तिनामेयं

स्तुतिः संपूर्णा ॥



(३)

श्रीसुरेश्वरस्तुतिः ॥

—\*—

ईशज्ञपा शुभमवाप्य पुरा विधाता  
काश्मीरदेशविलसद्दिममितस्रजुः ।  
श्रीविश्वरूप इति यः प्रथितो व्यराजीत्  
तं श्रीसुरेश्वरगुरुं शरणं प्रपद्ये ॥ १ ॥

भीमांसकोत्तमकुमारिलभट्टपादात्  
वालयेऽप्यधीत्य सकलागमतन्त्रसारम् ।  
कर्मैकनिष्ठितमना गृहिणां वरो यः  
तं श्रीसुरेश्वरगुरुं शरणं प्रपद्ये ॥ २ ॥

श्रीविष्णुमिश्रदुहितोभयभारतीति  
यस्यानुकूलगृहिणी वचसां सवित्री ।  
ब्रह्मर्षिशापनिपतो धृतमर्त्यरूपा  
तं श्रीसुरेश्वरगुरुं शरणं प्रपद्ये ॥ ३ ॥

श्रीभट्टपादवचसा प्रथमं विजेतुं  
अन्विष्य यस्य भवनं प्रविशन् यवाचे ।  
श्रीशङ्करः किल यदीयविवादमिक्षां  
तं श्रीसुरेश्वरगुरुं शरणं प्रपद्ये ॥ ४ ॥

भादे विजित्य गुरुराद् श्रुतियुक्तिजालैः  
तत्त्वं विबोध्य विशदं यतितां वितीर्य ।  
यस्मै ददौ पदनवाय सुरेश्वरारूपां  
तं श्रीसुरेश्वरगुरुं शरणं प्रपद्ये ॥ ५ ॥

## ॥ भक्तप्रार्थना ॥

( अ. वे. सुनक्षत्रः )

यस्मिन्नीश्वर इत्यपारकरुणावारांनिधिः सर्ववित्  
 त्रैलोक्यस्य निधाननिग्रहकरः कर्तते त्नेतेति च ।  
 सर्वैरेव विधास्यमानपुरुषः स्वातन्त्र्यहीनः कृतः  
 मन्त्राणां च विधेयतासुपगतः कौमारिकं तन्मवम् ॥ १ ॥

यस्मिन्नात्मविमुक्तये न गणितं ज्ञानं तमोनाशनं  
 यस्मिन्नव्यभिचारिणी स्थिरतया भक्तिस्तिरस्कारिता ।  
 यस्मिन् कर्म सुमुक्षुभिर्निगमजं नित्यं च नैमित्तिकं  
 एकोपायतयाऽवलम्ब्य विधिना कर्तव्यमाजीवितम् ॥ २ ॥

दित्वा भाट्टमुदस्य कर्मवदधीं ज्ञाने स्थिरं स्थापितः  
 ज्ञानादित्यवदागतेन गुरुणा मार्गं ध्रुव प्रापितः ।  
 कृत्वा वार्तिकमिक्षुसाररुचिरं योऽद्भैतभातुः स्फुर-  
 त्याचार्य. स हुरेश्वरो मम मनः कुर्यान्सुमुखायनम् ॥ ३ ॥





॥ श्रीः ॥

वार्तिककारो नैष्कर्म्यसिद्धिश्च ॥

—श्री भाष्यस्वामी

भगवत्पादसंभूतां आत्मन्मोनिधिगामिनीम् ।  
भाष्यभागीरथीं भूयो भजामो भवशान्तये ॥

ब्रह्मसूत्रावलिं चैव नमामो यमुनासमाम् ।  
सरस्वतीसमानां च वार्तिकावलिमन्वहम् ॥

इह खलु सर्वलोकहितैषी भगवान् वादरायणः सर्वतः समेवमान-  
समधिकसंसारदावद्रहनदन्दह्यमानान् प्राणिनिकायानालक्ष्य तानेतान् कथञ्चि-  
दुन्मुमोचयिषुः निविधपुराणेतिहासब्रह्मसूत्रादिप्रणयनद्वारा सदुपदेशामृतमयीं  
वृष्टिं वितीर्य सर्वमेव जगतीतल्माह्लावयामास । 'सैव हि लोके शारीरक-  
मीमांसारूपेण परिणमे ॥

सैषा सूत्रात्मिका शारीरकमीमांसा यमुनातटिनीव स्वान्तर्गत-  
निरवधिकपदार्यनिगूढनात् अस्फुटीकृताभ्यन्तरभावा भाष्यभागीरथीपाथः-  
संगमसाभिलषेव चिरादवतस्थे । कलिन्दजा हि स्वयमेव पवित्रसलिलाऽपि  
अभङ्गुरगङ्गातुङ्गतरङ्गानुपेक्षेणैव पावनता प्रतिपद्यते । तथा स्वान्तर्निगूढ-  
पदार्यजातप्रकृटीकरणनाटवं च प्रतिपद्यते । तथैव हि शारीरकमीमांसा सेयं  
स्वान्तर्निगूढानां तत्त्वानां मलिनचित्तेषु स्वयमेव स्फुटीकृते अशक्यतया  
भाष्यगङ्गासंगमेनैव तत् सुशक्यमिति तदाविर्भावसरमेव चिरादपि प्रतीक्षमाणेव  
समदृश्यत ॥

अथ स भगवान् सर्वविद्याधिपतिः सर्वमङ्गलाजानिः भगवत्पादात्मना  
स्वयमवनीर्य सर्वगुणोपपन्ना नातिविस्तरामतिगम्भीरा परमानन्दसिन्धुमनुपतन्ती

भाष्यगङ्गामुत्पादयामास । इमामेव भाष्यभागीरथीमालम्ब्य वैयासिकसूत्रावलिरूपा यमुना सुरेश्वरवार्तिकावलिरूपा सरस्वती च धन्यं मेनाते आत्मानम् । तथा च सूत्रभाष्यवार्तिकरूपा त्रिवेणी स्वसंसेविनां सकलविधसंशयपङ्क-निर्णेजनेन तदीयं चिचं स्फटिकवृत्तपरिशुद्धं करोतीति स्फुटमेवेतदनुभवशालिनाम् । प्रकृते च वार्तिकं वा नैष्कर्म्यसिद्धिर्वा कथमात्मानमलमत इति विषये शङ्करविजयरूपां किञ्चिदिव स्मारयामः ॥

भगवत्पादानां हि परःशताः शिष्याः समभूवन् । तन्मध्ये प्रधानशिष्याश्चत्वारः पद्मपादसुरेश्वरदस्तामलकनोटकाख्या आचार्याः । कदाचित् स्वशिष्येभ्यः भाष्यप्रवचनानन्तरं स्वकृतभाष्यस्य विशेषतः सर्वत्र प्रचारार्थं केनचित् वार्तिकनिर्माणं अवश्यं कर्तव्यम् । तत्र तु सुरेश्वर एव समर्थः सर्वशास्त्रपारङ्गतत्वात् इति भगवत्पादैः खाशयाः प्रकटीकृतः । तदुक्तं —

<sup>1</sup> 'स मण्डनस्त्वर्हति शुद्धतच्चः सरस्वतीसाक्षिकसर्वविचवः' इति ॥

इमं च भगवत्पादानामाशयं अन्ये तदीयछात्राः आचिक्षिपुः । यतः सुरेश्वराचार्यः पूर्वाश्रमे कर्मवासनावासितान्तःकरणोऽभूत् । अधुनापि कर्म-काण्डाभिनिवेशः पूर्णतया न गतः । अतः तस्मै वार्तिकनिर्माणाधिकारो दत्तश्चेत् सः भाष्यं सर्वं कर्मकाण्डानुगुणतया योजयित्वा वार्तिकनिर्माणं करिष्यति चेत् ज्ञानकाण्डप्रामाण्यमेव शिथिलीकृतं स्यात् । अतः तस्मै अधिकारो न देयः इति शिष्याः सर्वे गुरुं निर्बन्धुः । तदुक्तम् —

<sup>2</sup> तात्पर्यं ते गेहिर्धर्मेषु दृष्ट्वा

तत्संस्कारं सांप्रतं शङ्कमानाः ।

भाष्ये कृत्वा वार्तिकं योजयेत्सः

भाष्यं प्राहुः स्वीयसिद्धान्तशेषम् ॥ इति ॥

1. भाष्यविशङ्करविजये स १३-श्लो ३९

2. " स १३-श्लो ४५

तथा वार्तिकनिर्माणे पद्मपादाचार्य एव समर्थः अतः तस्मै वार्तिक-  
निर्माणानुज्ञा दीयतां इत्यपि शिष्याः समवोचन्; परं तु भगवत्पादाः तत्  
नाङ्गीचक्रुः; भाष्यव्याख्यानमेकं निर्मातुमेव अनुज्ञां ददुः । तदुक्तं शङ्करविजये  
माधवीये —

३ सनन्दनो नन्दयिता जनानां  
निबन्धमेकं विदधातु भाष्ये ।  
न वार्तिकं, तत्तु परप्रतिज्ञं,  
व्यधात् प्रतिज्ञां स हि नूनदीक्षः ॥ इति ।

नूतनतया संन्यासदीक्षावान् सुरेश्वराचार्यः वार्तिकनिर्माणे यस्मात्  
प्रतिज्ञां कृतवान्, तस्मात् वार्तिकनिर्माणे तं विना नान्यस्य अधिकारः इति  
हि भगवत्पादानामाशयः ॥

तथा च भगवत्पादानां इच्छानुसारं सूत्रभाष्यग्रन्थस्य वार्तिकनिर्माणे  
प्रत्यूह एव संजातः; तथापि अन्यभाष्याणां वार्तिकं कारयितुमेव भगवत्पादा  
उदयुञ्जत । तदुक्तम् —

४ शिष्योक्तिभिः शिथिलितात्ममनोरथोऽसा-  
वेन स्वतन्त्रकृतिनिर्मितये न्यधुंक्त । इति ॥

इतरशिष्याणामपि प्रलयोत्पादनाय आदौ आध्यात्मिकविषये स्वातन्त्र्येण  
ग्रन्थमेकं रचय इत्यादिपृथक् सुरेश्वराचार्यः नैऋतार्थसिद्धिनामकं प्रकरणग्रन्थमेकं  
रचयित्वा स्वगुरवे प्रादर्शयत् । ते च भगवत्पादाः तं ग्रन्थं आमूलाग्रं  
दृष्ट्वा दृष्ट्वा परमानन्दमन्त्रभूवन् । तदीयपाण्डित्यप्रकर्षं वाग्माधुरीं  
प्रतिपादनशैलीं च समबलोन्य 'अहो! ईदृशोऽयं महान् पाण्डितः शिष्यः  
मदीयभाष्याणां वार्तिकं करोति चेत् कियत् रमणीयं स्यात्; तादृशभाग्यं

नास्ति खलु' इति सुतरां दूषमानदृष्ट्या. सन्तः तैत्तिरीयवृहदारण्यकभाष्ययोः परं वार्तिककरणाय सुरेश्वरमाज्ञापयामासुः। सुरेश्वरोऽपि तामाज्ञां अङ्गीचकार। तदुक्तं शङ्करविजये—

५ स्वातन्त्र्याख्यं ग्रन्थमेकं महात्मन्  
कृत्वा मह्यं दर्शयाध्यात्मनिष्ठम् ॥ इति,

६ तद्वत् त्वदीया खलु काण्वशाखा  
ममापि तत्रास्ति तदन्तभाष्यम् । इति,

७ तत्रोभयत्र कुरु वार्तिकमार्तिहारि  
कीर्तिं च याहि जितकार्तिकचन्द्रिकाभाम् ।

... ..

मद्वाक्यमेव शरणं ब्रज मा विचारीः ॥ इति च ।

तदाज्ञानुसारेण च श्रीसुरेश्वराचार्यः प्रथमतो नैष्कर्म्यसिद्धि विरचय्य गुरवे समर्प्य तद्दर्शनसन्तुष्टेन गुरुणा पुनराज्ञप्तः सन् तैत्तिरीयभाष्यवार्तिकं वृहदारण्यकभाष्यवार्तिकं च निर्माय गुरवे प्रादर्शयत् । तदाशिषा च वार्तिकद्वयमिदं तथा नैष्कर्म्यसिद्धिश्च अद्यापि अविच्छिन्नतया भारते सर्वत्र प्रपतेतराम् । श्रीपद्मपादाचार्यकृता तु टीका स्वमातुलगृहे दग्धा पुनर्लिखितापि लुप्तप्रचारा भूत्वा कालक्रमात् पञ्चपादिकानामत्रशेषा समजनि । तत्रापि लोपात् पुनः चतुःसूत्रीमात्रपरिशेषा अल्पाकारा च सांप्रतमुपलभ्यते । इत्थं वर्तते वार्तिकग्रन्थानां नैष्कर्म्यसिद्धेश्च आधिर्भावकया विचित्रा ॥

प्रकृते नैष्कर्म्यसिद्धिमात्रमवलम्ब्य तत्र प्रतिपाद्यमानां विचारपरिपाटी प्रक्रियाविशेषान् ग्रन्थान्तरेभ्यः तस्य वैशिष्ट्यं, सर्वशास्त्रार्थनिर्मथनसार-

संप्रद्वणादिषु अनन्यसाधारणीं प्रतिपादनशैलीं च ग्रन्थकर्तृवाक्यान्वेष समुपादाय  
स्फुटीकर्तुं अधुना किञ्चिदिव लेखनीं व्यापारयामः ॥

नैष्कर्म्यसिद्धिरियं चतुरध्यायात्मिका । तत्र प्रथमाध्याये वेदान्त-  
वाक्यानां सर्वेषां ब्रह्मणि समन्वयः प्रतिपाद्यते । द्वितीये प्रमाणान्तराविरोध-  
समर्पनं क्रियते । तृतीये साधननिरूपणं, चतुर्थे फलनिरूपणं च स्पष्टतया  
वर्ण्यते । अयं च ग्रन्थः प्रकरणरूपः । प्रकरणलक्षणं च —

शास्त्रैकदेशसंबद्धं शास्त्रकार्यान्तरे स्थितम् ।

आहुः प्रकरणं नाम ग्रन्थमेदं विपश्चितः ॥

इति वर्णयन्ति । शास्त्रादौ प्रकरणारम्भे च अनुबन्धचतुष्टयं सूचनीयम् ।  
विषयप्रयोजनाधिकारिसंबन्धा एव अनुबन्धचतुष्टयं नाम । तत्सर्वं शास्त्रवत्  
प्रकरणेऽपि अवश्यं निरूपणीयम्; यतः —

सिद्धार्थं सिद्धसंबन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते ।

ग्रन्थादौ तेन वक्तव्यः संबन्धः सप्रयोजनः ॥

इत्यभिहितम् । इदं च अनुबन्धचतुष्टयं प्रेक्षाध्वप्रवृत्त्यङ्गमिति दि वदन्त्यभि-  
युक्ताः ॥

अत्र आरम्भे, 'आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तैः सर्वप्राणिभिः सर्वप्रकारस्यापि  
दुःखस्य स्वरसत एव जिहासितत्वात् तन्निवृत्त्यर्था प्रवृत्तिरस्ति स्वत एव'  
इति वाक्येन प्रयोजनं अधिकारी च संसृज्येते । 'दुःखनिवृत्त्यर्था प्रवृत्तिः'  
इति वाक्यैकदेशे दुःखनिवृत्तिः प्रयोजनं, दुःखनिवृत्तिकामः अधिकारी इत्यपि  
अर्थाङ्गम्यते । दुःखनिवृत्तिश्च न तात्कालिकी, अपि तु आलान्तिकी सा  
समपेक्ष्यते । आलान्तिकत्वं च स्वसमानाधिकरणदुःखप्रागभावासमान-  
कालीनत्वम् । एतादृशदुःखनिवृत्तिमेव प्रेक्षावान् प्रतीक्षते । भाविदुःखं यथा  
न स्यात् तथा समप्रदुःखनिवृत्तिरेव हि समपेक्षिता समुक्षणाम्; अतः

दुःखनिवृत्तिरूपप्रयोजनं सूचितम् । तादृशदुःखनिवृत्तिकाम एव च प्रकृत-  
ग्रन्थाध्ययने अधिकारी इत्यपि अर्थात् लभ्यते ॥

तथा 'सुखस्य चानागमापायिनः' इति ग्रन्थेन निरतिशयसुखस्वरूप-  
मोक्षप्राप्तिरपि प्रकृतग्रन्थाम्यासस्य प्रयोजनमित्यपि सूच्यते । अत एव  
निरतिशयानन्दस्वरूपः आत्मैव विषयः ; ग्रन्थस्य विषयस्य च प्रतिपाद्यप्रति-  
पादकभावः संबन्धः ; प्रयोजनस्य अधिकारिणश्च प्राप्यप्रापकभावः संबन्धः  
इति अनुबन्धचतुष्टयमिदं ग्रन्थारम्भ एव सूचयति ग्रन्थकारः ॥

ततः परं गुरुणैव वेदान्तार्थस्य परिसमापितत्वात् प्रकरणोक्तौ  
दृष्टात्यादिलाभ एव निमित्तं वा इति शङ्कामुत्पाद्य तां निरसयति स्वयमेव —

१ न ख्यातिलाभपूजार्थं ग्रन्थोऽस्माभिरुदीर्यते ।

किंतु स्वबोधशुद्धयर्थं ब्रह्मविन्निरूपाश्मसु ॥ इति ।

ब्रह्मविदां समाजे खबोधः समीचीनोऽस्ति वा न वा इति  
परिशोधनार्थं ग्रन्थोऽयं प्रणीयते इति तदर्थः । अनेन पद्मपादादीनां ब्रह्मविदां  
स्वविषये यः संशयः पूर्वमासीत्, 'अयं कर्मवासनां अद्यापि न मुञ्चतीति'  
तादृशसंशयस्यापि एतद्ग्रन्थद्वारा निवृत्तिरवश्यंभाविनी इत्यपि व्यङ्ग्यतया  
सूचितमस्ति । एतद्ग्रन्थदर्शनात्परं पद्मपादादीनां तद्विषये पूर्वमुत्पन्नसंशय-  
निवृत्तिद्वारा अत्यन्तं विश्वासोत्पत्तिः पश्चाज्जाता इति कथाशवर्णनात् ॥

ततः परं कर्मभ्य एव मोक्षसंभवात् किं ब्रह्मविषया इति आशंक्य  
समाधत्ते —

१ यावन्त्यश्वेह विद्यन्ते श्रुतयः स्मृतिभिः सह ।

विदधत्युरुपत्नेन कर्माती मोक्षसाधनम् ॥ इति शंका ,

10 अतः सर्वाश्रमाणां हि वाङ्मनःकायकर्मभिः ।  
स्वनुष्ठितैर्यथाशक्ति मुक्तिः स्यान्नान्यसाधनात् ॥

इत्युपसंहारः । पूर्वपक्षसमाधानारंभे —

11 इति हृष्टधियां वाचः स्वप्रज्ञाध्मात्चेतसाम् ।  
धुष्यन्ते यज्ञशालासु धूमानद्धधियां किल ॥

इति 'अग्निमुग्धो ह्यैव धूमतान्तः । खं लोकं न प्रतिप्रजानाति' इति श्रुति-  
तात्पर्यमेव श्लोकरूपेण वर्णयति ग्रन्थकारः । पद्मपादादीनामन्यशिष्याणां  
आक्षेपसमाधानार्थं विद्यासजननार्थं च इदमेकमेवात्मम् । यतः कर्मिणां  
कर्मण्यो मोक्षः इति सिद्धान्तं केवलमुपहासास्पदं प्रदर्शयति ग्रन्थकारः ॥

एवं पूर्वपक्षिणां वादं प्रदर्श्य ततः परं —

12 अत्राभिदध्महे दोषान् क्रमशो न्यायवृंहितैः ।  
वचोभिः पूर्वपक्षोक्तिघातिभिर्नातिसंभ्रमात् ॥

इत्यादिना । ततः ज्ञानकर्मसमुच्चयवादं निरस्य कर्मणां चित्तशुद्धयर्थत्वमेव  
न तु मोक्षार्थत्वं इति सिद्धान्तयति —

13 प्रत्यक्प्रवणतां युद्धेः कर्माण्णुत्पाद्य शुद्धितः ।  
कृतार्थान्यस्तमायान्ति प्रावृडन्ते घना इव ॥

इत्यादिना । तथा —

14 अतः सर्वाश्रमाणां हि वाङ्मनःकायकर्मभिः ।  
स्वनुष्ठितैर्न मुक्तिः स्यात् ज्ञानादेव हि सा यतः ॥

इति कर्मण्यो न मुक्तिः किन्तु आत्मतत्त्वज्ञानादेवेति सिद्धान्तमुपसंहरति ॥

तदित्थं प्रथमाध्याये सर्वोपनिषदां ज्ञानपरत्वमेवेत्युपपाद्य तदविरोध-  
समर्थनाय द्वितीयाध्यायमारभते ग्रन्थकारः । तत्र च तत्त्वमस्यादिवाक्यादेव  
अपरोक्षज्ञानसिद्धिरिति खमनमाविष्करोति —

<sup>15</sup>सर्वोऽयं महिमा ज्ञेयो वाक्यस्यैव यथोदितः ।

वाक्यार्थं न दृष्टे वाक्यात् कश्चिज्जानाति तत्त्वतः ॥

इत्यादिना । तत्त्वमस्यादिवाक्यं कथं बोधं जनयतीत्येतत् दृष्टान्तद्वारा  
प्रदर्शयति —

<sup>16</sup>योऽयं स्थाणुः पुमानेपः पुंघिया स्थाणुधीरिव ।

ब्रह्मास्मीति घियाऽशेषामहंयुद्धि निवर्तयेत् ॥

इत्यादिना । ततः परम् —

<sup>17</sup>यत्र त्वस्येति साटोपं कृत्स्नद्वैतनिषेधिनीम् ।

प्रोत्सारयन्तीं संसारमप्यश्रौपं न किं श्रुतिम् ॥

इति, अन्ते 'यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत् केन कं पश्येत्' इत्यादिश्रुतिवचनानां  
सर्वसंसारविनिर्मुक्तपरिशुद्धब्रह्मात्मपरत्वस्य सम्यगुपपादनात् सर्वोपनिषदां अज्ञ-  
परत्वे न कोपि विरोधः इति अविरोधसमर्थनं सम्यगेव प्रदर्शितं श्रीमद्भि-  
र्वातिकाचार्यैः ॥

तदुपरि तृतीयाध्यायारंभे आत्मानात्मविवेचनं क्रियते । एतादौ  
अज्ञानस्य आत्मविषयकत्वमेव, न अनात्मविषयकत्वमिति सोपपत्तिक निरूप्य  
तादृग्ज्ञानं आत्मज्ञानमात्रादेव निवर्तने इति अनेकप्रमाणैर्युक्तिभिश्च उच्यते चित्तम् ।  
क्रमेण च तत्पदार्थविचारणं स्वंपदार्थपरिष्करणं असिपदेन तयोरेक्यं च  
सम्यगेव निरूपितम् ॥



तत परं साख्यादिमनं निरस्य बौद्धादिप्रक्रियामपि दूरीकृत्य,

<sup>18</sup> बोधेऽप्यनुभवो यस्य न कथञ्चन जायते ।

तं कथं बोधयेच्छास्त्रं लोट नरसमाकृतिम् ॥

इत्यादिना आत्मनो बोधरूपत्वं सर्वानुभवसिद्धमेवेत्युपपाद्य ततः परं भावनारूप-  
प्रसङ्गानवाद्मपि निराकरोति —

<sup>19</sup> भावनाजं फलं यत्स्यात् यच्च स्यात् कर्मणः फलम् ।

न तत् स्थास्तिन्वति विज्ञेयं द्रमिडेष्विव संगतम् ॥

इत्यादिना द्वाविडस्नेहस्य अनित्यत्वदृष्टान्तेन प्रसङ्गानस्य अनित्यफलत्वमुपपाद-  
यति । अनेन च स्वसतीर्थ्यभूतं द्वाविडं पद्मपादाचार्यमुपहसतीव । निद्रादोष-  
निवृत्त्यनुपदमेव यथा बोधो भवति संन्यग्रहणाभावेऽपि, तथैव सन्न्यग्रहणं  
विनापि वाक्यश्रवणमालेगापि क्वचित् आत्मबोधोऽसंभवतीति दृष्टान्तेन  
समर्थयति —

<sup>20</sup> शयानाः प्रायशो लोके बोध्यमानाः स्वनामभिः ।

सहसैव प्रबुध्यन्ते यथैव प्रत्यगात्मनि ॥

इत्यादिना । इत्ये तत्त्वंपदार्थनिरूपणद्वारा साधनाध्यायमुपसंहरति । ततः परं  
चतुर्थाध्यायारम्भे पूर्वोक्तानुवादपुरसर सक्षेपतः आत्मानात्मविशेषचक्रप्रक्रिया  
पुनर्निरूप्य तत्कठं आत्मतत्त्वज्ञानमेवेति साधयति ॥

<sup>21</sup> गुण्मदस्मद्विभागज्ञे स्यादर्थत्रयिदं यच्चः ।

यतोऽनभिज्ञे चाक्यं स्यात् वधिरेष्विव गायनम् ॥

इत्यादिना गुण्मदस्मदर्थविशेषचक्रचतुराणां आत्मानात्मविभागज्ञानामेव चाक्यं  
बोधं जनयितुमीष्टे अन्वेषा विषये तु वधिरे गानकलायत् निष्फलत्व-  
मेवेति साधयति । चतुर्थाध्यायान्ते च एतद्व्यवहारेण विरक्तैरेव कर्तव्यमिति

संप्रदानत्रिभिमुपदिश्य तादृशवनीनानेः यथार्थबो- भवति नान्येषामिति  
उपसंहरति—

22 “ निरस्तसर्वकर्माणः प्रत्यक्प्रवणबुद्धयः ।

निष्कामा यतयः शान्ता जानन्तीदं यथोदितम् ” ॥

इति । शान्तचित्तानां संन्यासिनामेव एतद्ग्रन्थस्य तत्त्वार्थो गोचरीभवति  
नान्येषामिति वार्तिकनिर्माणे विघ्नकरान् स्वसतीर्थान् सूचयतीव । अन्ते,

23 श्रीमच्छङ्करपादपद्मपुगलं संसेव्य लब्धोचिषान्

ज्ञानं पारमहंस्यमेतदमलं स्वान्तान्धकारापनुत् ।

माभूदत्र विरोधिनी मतिरतः सद्भिः परीक्ष्यं युधैः

सर्वत्रैव विशुद्धये मतमिदं सन्तः परं कारणम् ॥

इति उपसंहरति ग्रन्थम् । अत्र च ‘माभूदत्र विरोधिनी मतिः’ इति वाक्यं  
वार्तिकनिर्माणप्रतिबन्धकान् पद्मपादादीन् प्रत्येवेति स्फुटमेवेदम् । एतद्ग्रन्थ-  
पठनात्परं तु पद्मपादादयः शान्तचित्ता आसन्नित्यपि किंवदन्ती श्रूयते ।  
ग्रन्थसमाप्तौ च भगवत्पादेषु कृपज्ञतां सूचयति —

24 वेदान्तोदरवर्ति भास्वदमलं ध्वान्तच्छिदस्मद्धियो

दिव्यज्ञानमतीन्द्रियेऽपि विषये व्याहन्यते न क्वचित् ।

यो नो न्यायशलाकैव निखिलं संसारबीजं तमः

प्रोत्सार्याविरकार्पीत् गुरुगुरुः पृज्याय तस्मै नमः ॥

अहमपि अन्ते सूत्रकारसहितं भगवत्पादमेव भूयो भूयो नमस्करोमि ॥

शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणम् ।

सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ॥

# वार्तिकलक्षणसमन्वयः ॥

विद्वन्मणि, विद्याभूषण  
श्री K. P. शंकरशास्त्री,  
Bangalore.

त्रिश्वं मायामयत्वेन रूपितं यत्प्रबोधतः ।

विश्वं च यत्स्वरूपं तं वार्तिकाचार्यमाश्रये ॥

श्रीमच्छङ्करभगवत्पादानां चतुस्संख्याकेषु प्रधानशिष्येषु एकतमे श्रीसुरेश्वराचार्याः इति सुविदितमेव सर्वेषामपि । ये किल पूर्वाश्रमे श्रीमत्कुमारिलभट्टपादानां मुह्यान्तेवासिनो महाकर्मनिष्ठा भगवन् । यांश्च चतुर्मुखस्यैव अपरांशावतारमामनन्ति । येषां च धर्मरत्नी उभयभारत्यपि महामाहेश्वरस्य मुलमकोपस्य महर्षेर्दुर्वाससो वचनमभिनथीकतुं अवनिमवतीर्णा भगवती वाग्देवतैवेति तद्विदामाधोषः । ये च तदात्वे भगवत्पादाचार्यैः सार्कं बह्वधा व्युद्य, अन्ते तेषामेव मुह्यान्तेवासिपदमवाप्ताः, अनन्तरं च शृङ्गगिरावेव जगद्गुरूपीठऽऽद्याचार्यपदमलमकुर्वन् ॥

येषां च विदेहकैवल्यानन्तरं भीतिकठेवसमाधिस्थले चिरकालसुरक्षिते, नूतनतया आलयनिर्माणपारमेश्वरलिङ्गप्रतिष्ठापनादिपूर्वकं पुनः कुम्भाभिषेकादि-महोत्सवाः नानादेशीयानां भक्तजनसार्धानां प्रार्थनानुरोधेन, संप्रति जगद्गुरु-पीठमलंकुर्ताणैः विद्यातीर्थापरस्वरूपैः अभिनवविद्यार्थिमहास्वामिचरणैः महता समारम्भेण निर्वर्त्यन्ते ॥

तेऽपि सुरेश्वराचार्यवर्याः वार्तिकाचार्यप्रयाहेतुत्वेन महान्तं बृहदारण्य-कोपनिषद्भाष्यवार्तिकप्रबन्धं तत्तिरीयोपनिषद्भाष्यवार्तिकप्रबन्धं च भगवत्पादीय-ग्रन्थव्याख्यानरूपतया व्यतीरचन् । स्वानुभवेण च नैष्यार्थसिद्धयभिधानं प्रकरणप्रबन्धं जप्रन्धुः । तद्येत्थं श्रूयते —

भगवत्पादाः किल दिग्विजयसर्पेणपीठारोहणाद्यनन्तरं शृङ्गगिरौ कञ्चन कालं स्वप्रणीतान् भाष्यारिग्रन्थान् शिष्यान्ध्यापयन्त आसन् । तदा च “ अष्टौ सहस्राणि विभान्ति विद्वन् सद्वातिज्ञाना प्रथमेऽत्र भाष्ये ” इति प्राक्तनी भट्टपादोक्तिं स्मृत्वा, तेषामभावेऽपि, तच्छिष्यमुखेनैव म्वकीय-भाष्यस्य व्याख्यां कारयिष्यामीति मन्वानाः श्रीमदाचार्यपादा ब्रह्मसूत्रभाष्य-व्याख्यानरूपेण वार्तिकग्रन्थरचनाय सुरेश्वरमाज्ञापयामासु । परन्तु तद्विषये इतरशिष्याणामसम्मतिमवगम्य, स्वातन्त्र्येणैवं ग्रन्थं, तैत्तिरीयकबृहदारण्य-कोपनिषद्भाष्ययोः वार्तिकग्रन्थं च विरचयितुमाज्ञापयन् । तदनुसारेण नैष्कर्म्य-सिद्ध्याख्यं प्रकरणं, तैत्तिरीयभाष्यवार्तिकं, बृहदारण्यकभाष्यवार्तिकं च भाष्यार्थाशयाविष्कारकं प्राणैषु, येनैतेषा ‘वार्तिककाराः’ इति प्रथा संजाता ॥

ज्ञानं व्याकृतमप्यन्यैः वक्ष्ये गुर्वनुशिक्षया । (ने. सि. १-३)

तत्र वार्तिकं नाम—

‘ उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्तनं यत्र वा भवेत् ।

तमाहुर्वार्तिकं नाम प्रथं ग्रन्थविचक्षणा ’ ॥

इत्युक्तलक्षणम् । तत्रात्र ग्रन्थे बहुत्र सुस्पष्टमुपलभ्यते । तदत्र स्थाली-पुत्राकनयेन किञ्चिदुदाह्रियते —

बृहदारण्यके तृतीयाध्याये पञ्चमे कहेळब्राह्मणे श्रूयते—

“ एतं वै तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रैपणायाश्च वित्तिपणायाश्च लोकैपणायाश्च व्युत्थायाय भिक्षाचर्यं चरन्ति ” इति । तत्र च भाष्यम् — ‘ ब्राह्मणग्रहणं ब्राह्मणानामेवाधिकारो व्युत्थाने इति ज्ञापनार्थम् ’ इति । अत्र प्रकरणे एतद्भाष्यव्याख्यानानामरे इदं वार्तिकम् —

“ अधिकारिविशेषस्य ज्ञानाय ब्राह्मणग्रहः ।

न संन्यासविधिर्यस्मात् श्रुतौ क्षत्रियवैश्ययोः ॥ ” ३-५-८८

इति । इदं च वार्तिकं यथाश्रुतभाष्यशब्दार्थविवरणमात्रपरम् । न तु स्वाभिप्रेतमुख्यतास्यैव प्रतिपादनपरम् यतः तदुपरीत्यमाक्षेपो भवति । कथम् ? “यदि नेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत् गृहाद्वा वनाद्वा, यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रव्रजेत्” इति जावालश्रुत्या ब्राह्मणादीनामधिकारिविशेषणामग्रहणेन सामान्यतः प्रवृत्तया क्षयाणामपि वर्णानां संन्यासेऽधिकारः उक्तो भवति । तथा — ‘ब्राह्मणः क्षत्रियो वापि वैश्यो वा प्रव्रजेद्गृहात् । क्षयाणामपि वर्णानाममी चत्वार आश्रमाः’ इति स्मृत्यापि अयमेवाभिप्रायो व्यक्तीकृतः । एवं सति कथमत्र ब्राह्मणानामेव संन्यासेऽधिकारो नान्येषामिति वर्ण्यते ? इति ॥

अपिच संन्यासस्य ब्राह्मणमात्राधिकारिकत्वे संन्यासरहितयोः क्षत्रिय-वैश्ययोः वेदान्तश्रवणाधिकारोऽपि न सिद्धयेत् । तथाहि — “शान्तो दान्त उपरतस्तिक्षुः” इत्यादिश्रुतौ ‘उपरतशब्दगृहीतस्य संन्यासस्य साधन-चतुष्टयान्तर्गतत्वात् । “सहकार्यन्तरविधिः पक्षेण तृतीयं तद्वतो विद्यादि-वन्” इति सूत्रभाष्ये — “तद्वतः-विद्यावतः संन्यासिनः वाच्यपाण्डित्या-पेक्षया तृतीयमिदं मौलं विधीयते — ‘तस्माद्ब्राह्मणः पाण्डित्यं निर्विधेति’ श्रुतौ ततः प्राक् ‘भिक्षाचर्यं चरन्तीति’ संन्यासाधिकारात्” इति प्रतिपादनात् । तदभिप्रायेणैव वार्तिककारैरपि —

त्यक्ताशेषक्रियस्यैव संसारं प्रजिहासतः ।

त्रिज्ञासोरेव चैकात्म्यं त्रय्यन्तेष्वधिकारिता ॥

इत्युक्तवाच्य । अत्र वार्तिकश्लोके त्यक्ताशेषक्रियस्य संन्यासिन इत्यर्थः । संसारं प्रजिहासतः मुमुक्षोः, त्रय्यन्तेषु-वेदान्तश्रवणे अधिकार इत्यर्थः । तथा च संन्यासस्य ज्ञानसाधनवेदान्तश्रवणाधिकारिविशेषणतया द्विधोपयोगित्वाद्यगमात्, ‘राजा राजसूयेन स्वराज्यकामो यजेत’ इत्यत्र

मूर्धामिपिक्तभ्य राजस्रमतः स्वाराज्यकामस्य राजसूयाधिकारवत् संन्यासवत् एव वेदान्तश्रवणेऽधिकार इत्यवगम्यते । तथा च सति तद्रहितयोः क्षत्रियवैश्ययोः श्रवणाधिकारो न स्यात् इति । तथा च कथं भाष्यकाराणां ब्राह्मणस्यैव संन्यासेऽधिकारोक्तिः हृदयंगमा स्यात्' इति शङ्कायाम् वार्तिककारा वदन्ति-

त्रयाणामविशेषेण संन्यासः श्रूयते श्रुतौ ।'

यदोपलक्षणार्थं स्यात् ब्राह्मणग्रहणं तदा ॥ ( ३-५-८९ )

अयमाशयः — ' ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत् ', ' यद्गृहरेव विरजेत्तद्गृहे प्रव्रजेत् ' इत्यादिश्रुतौ सामान्यतः अधिकारिविशेषाग्रहणेन विरक्तमात्रसंन्यासः प्रतिपाद्यते । न ' च सामान्यविधिरस्पष्टः संहियेत विशेषतः ' इति न्यायेन " ब्राह्मणो निर्वेदमायात् ' ' ब्राह्मणः प्रव्रजेद्गृहात् ', इत्यादि विशेषवचनानुसारेण सामान्यवचनस्य विशेषे संकोचः क्रियतामिति शक्यम् " ब्राह्मणः क्षत्रियो वापि वैश्यो वा प्रव्रजेत् गृहादिति " विशेषस्मृत्यः गृहीतायाः सामान्यश्रुतेः अर्थसंकोचकल्पनायोगात् । एवं च यदा ब्राह्मणवत् क्षत्रियवैश्ययोरपि प्रबलप्रमाणानुसारेण संन्यासेऽधिकारः सिद्धः तदा — ' ब्राह्मणाः प्रव्रजन्ति ', ' ब्राह्मणो निर्वेदमायात् ' इत्यादि श्रूयमाणं ब्राह्मणपदं त्रयाणामपि उपलक्षणार्थमिति ज्ञेयम् । इति श्रुत्याशब्दाव्याख्यानानेन वार्तिककाराः समादधुः ॥

नन्वेवं सति प्रबलो भाष्यकारोक्तिविरोधः प्रसज्यते, यतो भाष्यकारा किल श्रुतौ ब्राह्मणपदं इतरेषामनधिकारबोधनेनैव सार्थकमिति स्पष्टमामनन्ति त्रैवर्णिक्ताधिकारित्वे कथंकारं भाष्यविरोधः परिह्रियते इति चेत् इत्थम् - भाष्ये ब्राह्मणमात्रस्याधिकारोक्तिः विविदिषासंन्यासविषया, न तु विसंन्यासविषया । तथाहि - द्विविधः संन्यासः - विविदिषासंन्यासो विसंन्यासश्चेति । यः पुमान् नित्यनैमित्तिककर्मानुष्ठानेन परिपक्वकपाय

विविधश्लेशानुभवेन त्रिपयदोषानुभवेन चोत्पन्नवेराग्यः आत्मतत्त्वजिज्ञासुश्च  
 सन्नपि अनन्यव्यापारतया श्रवणादिकं कर्तुं न शक्नोति, तादृशस्य निष्प्रत्यूह-  
 श्रवणाद्यनुष्ठानसम्पत्त्यर्थं विधिप्राप्तानामपि कर्मणां, 'त्रिंशद्वा वर्णाणि,  
 जीर्णां वा विरमेत्' इत्यादिश्रुत्यनुसारेण त्रिंशतं वस्त्रान् नित्यादिकर्मा-  
 नुष्ठानानन्तरं, वार्धकप्राप्तौ वा, "यज्ञोपवीतं वेदाश्च सर्वं तद्वर्जयेद्यतिः"—  
 यज्ञोपवीतादिसाध्यानि वेदप्रतिपाद्यानि सर्वकर्माणि वर्जयेत् 'सन्यस्य श्रवणं  
 कुर्यात्' इत्युक्तप्रकारेण विधिपूर्वकमेव यत्सन्वसनं सोऽयं विविदिपासंन्यासः ॥

यस्य तु ऐहिकेन आमुष्मिन्नेण वा नित्यनैमित्तिकाद्यनुष्ठानेन  
 चित्तशुद्धिद्वारा परमेश्वरप्रसादाच्च निष्प्रत्यूहं श्रवणादिनिष्पत्त्या आत्मापरोक्षज्ञानं  
 निर्विचिकित्स उत्पन्नं, तस्य 'सन्यासेन देहत्यागं करोति स परमहंसो  
 नाम' इत्यादिप्रमाणानुसारेण क्रियमाण सन्यासः 'विद्वत्सन्यासः'  
 इत्युच्यते ॥

तत्र प्रथमे विविदिपासंन्यासे 'ब्राह्मणस्त्वैवाधिकारो नेतरेषां' इति  
 भाष्यकाराशयः । स च अधिकारिविशेषस्य ज्ञापनाय ब्राह्मणपदप्रहणमित्युक्तः ।  
 यस्तु द्वितीयो विद्वत्सन्यासः 'एतावदुक्त्वा याज्ञवल्क्यो विजहार' इति याज्ञ-  
 वल्क्यादिभिः गृहीतः तत्र त्रयाणामपि वर्णानामस्त्यधिकारः इति श्रुतिस्मृति-  
 वचनपर्यालोचनेनावगम्यते । तदेतद्वार्तिककारैरेव समनन्तरवार्तिकाम्यामुप-  
 पादितमस्ति —

कर्माधिकारविच्छेदि ज्ञानं चेदभ्युपेयते ।

कुतोऽधिकारनियमो व्युत्थाने क्रियते वलात् ॥ ३-५-१०

प्रत्यापायात्स्यविज्ञानस्वभावश्चेत् समर्थ्यते ।

व्युत्थानं यस्य यस्य स्यात् स स व्युत्थान्तुमर्हति ॥ इति ॥ ११

‘एतं वै तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणा व्युत्पाय प्रव्रजन्ति’ इति श्रुति-  
प्रमाणेन, ‘न तु वेदान्तवेद्यं अशनायाधतीतं अपेतब्रह्मक्षत्तादिभावं अखण्ड-  
मद्वितीयं असंसार्यात्मतत्वं इति ज्ञानं कर्मानुष्ठानोपयोगि’ इति भाष्यकारोक्त-  
रीत्या च अकर्त्तात्मज्ञानं यदा जातं तदनन्तरं, संन्यासविषये ब्राह्मणस्याधिकारः  
नतु क्षत्रियादेः इत्याद्यधिकारनियमे प्रयोजनं नास्त्येव । तादृशप्रज्ञात्म-  
यायात्म्यविज्ञानं यस्य यस्य भवति स सः व्युत्पातुमर्हत्येवैत्यर्थः । तथा च  
विद्वत्संन्यासः वैवर्णिकाधिकारिकः, विविदिपासंन्यासस्तु ब्राह्मणस्यैवेति  
निर्णयात् न श्रुतिभाष्यविरोधलोकोऽपि ॥

तथाच सुष्ठु निरूपितमेतत् श्रीमद्भिरप्पय्यदीक्षितेन्द्रैः पूर्वोत्तरमीमांसक-  
मूर्धन्यैः स्वकीयसिद्धान्तलेशसमूहे तृतीयपरिच्छेदे—‘यत्तु संन्यासस्य सर्वाधि-  
कारित्वेन कर्तिकवचनं तत् विद्वत्संन्यासविषयं, नतु आतुर-विविदिपासंन्यासे  
भाष्याभिप्रायविरुद्धसर्वाधिकारप्रतिपादनपरम् । सर्वाधिकारविच्छेदीति सम-  
नन्तरश्लोकेन ब्रह्मज्ञानोदयानन्तरं जीवन्मुक्तिकाले विद्वत्संन्यास एव अधिकार-  
नियमनिराकरणात्’ इति ॥

न चैवं ‘ब्राह्मणाः प्रव्रजन्ति’ इत्यादिश्रुतौ ब्राह्मणपदग्रहणवैयर्थ्यं  
शक्यम् । यतः—

एवं चेद्ब्राह्मणोक्तिः स्यात् ध्वस्ताविद्यगृहीतये ।

स ब्राह्मणः इति स्पष्टं श्रुतिरन्ते च वक्ष्यति ॥ ३-५-९२

अयमर्थः— वैवर्णिकाधिकृते चेद्विज्ञानं, तदा ध्वस्ताविद्यगृहीतये—  
विज्ञानपूर्वकसाक्षात्कारफलभूतं यत् अविद्यारहितारम्भस्वरूपं, तदनुवादार्थं  
ब्राह्मणपदम् । युक्तं च विशेषान्वयार्थां क्षत्रियादेरपि ब्राह्मण्यं राजसूयादी,  
तत्रापि ताच्छब्दादिनि भावः । कथं वास ब्राह्मणपदेन फगवत्योच्यते ?  
वाक्यशेषादित्याह— ‘स ब्राह्मण’ इति । अस्यामेव वृहदारण्यकश्रुतौ



एतद्वाक्यसन्दर्भान्ते द्वितीयवारं पूगेशालण्य (मलानिष्ठतास्वरूप) मान्यर्थरू-  
 प्राक्षणपदप्रहणादित्यर्थः । अत्रेदं प्रासङ्गिकतया किञ्चिद्विचार्यते विषयविशु-  
 द्धपर्यम् । किं संन्यासस्य दृष्टद्वारा वा अदृष्टद्वारा वा, श्रवणाङ्गत्वं वा उतादो  
 आत्मज्ञानाङ्गत्वं वा इत्यादि । तत्र 'शान्तो दान्त उपरतः' इत्यादिश्रुति-  
 सहकार्यन्तरविधिसूत्र-तद्वाच्यानुसारेण, त्यक्ताशेषक्रियस्यैवेत्यादिपूर्वोदाहन-  
 वार्तिकानुसारेण च संन्यासजन्यादृष्टस्य पापध्वंसरूपस्य, ज्ञानोत्पत्तियोग्यता-  
 प्रयोजकरूप्यरूपस्य वा ज्ञानसाधनवेदान्तश्रवणाधिकारिविशेषणत्वात् अदृष्ट-  
 द्वारा संन्यासस्य श्रवणाङ्गत्वमिति केषाञ्चिदाशय ॥

संभवति दृष्टद्वारे अदृष्टद्वारकत्वादिकल्पना न न्याप्येति श्वा  
 अनन्यव्यापारतया श्रवणादिनिष्पादनं कुर्यात् संन्यासस्य श्रवणाङ्गतया  
 आत्मज्ञानफलकत्वं युक्तमिति बहुना विवरणकाराद्याचार्याणामाशयः । तथाहि-  
 कादाचिदं श्रवणादिकं विनोदयद्वारा नामृतप्रसाधनं भवति, किन्तु  
 सारिकाठिकमेव, 'मदसंख्योऽमृतत्वमेति' 'आप्तोऽमृतः फलं नये-  
 द्वेदान्तचिन्तया', इत्यादिबहुप्रमाणानुरोधत् । तथा चानन्यव्यापारतया  
 श्रवणाङ्गनुष्ठानं विदधता शास्त्रेण संन्यासोऽपेक्ष्यते । गृहस्थादेः स्वाध्या-  
 विहितकर्मजन्यस्य विशेषेण कुतुम्बोपगव्यापारशान्तावृत्तस्य कदा श्रवणाङ्ग-  
 णानासंभवात् । तथा विद्यासाधनत्वेन संन्यासं विदधतापि शास्त्रेण द्वास्तया  
 निरन्तरश्रवणाङ्गनुष्ठानमपेक्ष्यते संन्यासस्य साक्षात् विद्यासाधनत्वाभावात् ।  
 नहि संन्यासप्रदक्षमात्रेण ज्ञानसिद्धिः मुक्तिर्वा भवित्ती, किन्तु अनन्य-  
 व्यापारतया अनुष्ठितश्रवणादिद्वारेण । दृष्टद्वारसंभवे अदृष्टरूपनानुपपत्तेश्च ।  
 तथापि श्रवणादिकं तावन्न्यग्रहणत्वात् अर्थतः (फलतः) प्रधानं भवति ।  
 संन्यासस्तु तदभावात् गुणानुत्तया व्यवनिष्ठे । एवंप्रकारं श्रवणविधेः  
 संन्यासविधेः परस्पररोधापत्तौ एवमात्मज्ञानमादत्ताभ्यां तत्तद्विधिम्यां  
 संन्यासाङ्गकं मनननिदिष्यामनमहितं श्रवणं विधीयते इति सिद्धा संन्यासस्य  
 अनन्यव्यापारतया श्रवणादिस्वरूपत्वेन श्रवणाङ्गतया आत्मज्ञानसिद्धि-

फलकृता इति । अत्रेदं प्रतिभाति — यद्यपि संन्यासविषये भाष्यकारोक्तब्रह्मण-  
मात्राधिकारिकत्वस्य त्रिविदिपासंन्यासपरत्वेन, धार्तिककारोक्तत्रैवर्णिकाधि-  
कारिकत्वस्य त्रिद्वसंन्यासविषयत्वेन च व्यस्योक्त्या भाष्यवार्तिकयोर्विरोध  
परिहृतो भवति, श्रुतिस्मृतिवचनानामपि व्यस्यितविषये प्रामाण्यमुक्तं भवति,  
तथापि किञ्चिद्विचार्यमाणे त्रिविदिपासंन्यासेऽपि श्रवणाङ्गभूते इतरेषा-  
मधिकारोऽस्तीत्येव वक्तव्यं भवति । कथमन्यथा गीताया — ‘संन्यासं  
कर्मणा कृत्वा पुनर्योगं च शंससि । यच्छ्रेय एतयोरेक तन्मे ब्रूहि  
सुनिश्चितम्’ ॥ इति पृष्टवन्तमर्जुन प्रति इत्थं समाधानमुक्तम् — ‘संन्यासः  
कर्मयोगश्च निःश्रेयसकण्ठवुमी । तयोस्तु कर्मसंन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ॥’  
इति । वीरक्षत्रियस्यार्जुनस्य सर्वथा संन्यासानधिकारित्वे, ‘क्षत्रियस्त्वं  
सर्वथा संन्यासेऽनधिकारी, अतस्त्वया कर्मैव कर्तव्यम्’ इत्येव भगवता  
समाधानं वक्तव्यमासीत् । परन्तु तथाऽनुक्त्वा कर्मफलत्यागरूपं गौणं  
संन्यासं कर्तव्यमुक्तं भगवता । कुन ? ‘यददरेव विरजेत् तददरेव प्रव्रजेत्’ ।  
यदा पूर्णवैराग्योत्पत्तिपूर्वकं आत्मविविदिषोत्पद्यते, तदानीमेव पारिव्राज्यं  
स्वीकार्यम् । अर्जुनस्तु न तथा विरक्तः । किन्तु कौरवादीनेकेन बाणेन  
मस्मसात्करोति इत्येवं महता क्रोधावेशेनैव युद्धे प्रवृत्तः । तथाप्याचार्य-  
वन्धादिषु ममतानिमित्तं मध्ये धर्म्यादपि युद्धादुपरतिं प्राप्तवान् । तं च  
स्वधर्मभ्रष्टं परधर्ममुपादानं पुनः स्वधर्मे स्थापयितुं भगवान् ‘धर्म्याद्धि  
युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते । स्वधर्मे निधनं श्रेयं परधर्मो भयावहः ।  
इत्याद्युपदेशेन पुनर्युद्धे प्रवर्तयामासेति गम्यते ॥

अतश्च — ‘ब्राह्मणः क्षत्रियो वापि वैश्यो वा प्रव्रजेद्गृह्यात् ।  
स्रवाणामपि वर्णानां संन्यासं श्रूयते श्रुतौ ॥’ इत्यादिस्मृत्यनुसारेण त्रैवर्णिका-  
नामपि श्रवणाङ्गभूते त्रिविदिपासंन्यासेऽपि अस्येवाधिकार इत्येव वक्तव्यम् ।  
स च कर्मफलत्यागरूपः कर्म (स्वरूप) त्यागरूपो वा भवितुमर्हति ॥

परन्तु एतावद्विज्ञायते — ‘मुखजानामयं धर्मो वैष्णवं लिङ्गधारणम् ।  
 बाहुजातोरुजातानां नार्यं धर्मः प्रकीर्तितः ॥’ इत्युक्तत्वात् ब्राह्मणज्यतिरिक्तानां  
 काषाय-दण्डधारणादिरूपलिङ्ग ( चिह्न ) धारणवजं कर्मस्वरूप-तत्फलत्यागरूपे  
 गौणे श्रवणाङ्गविविदिपासंन्यासेऽधिकारः; न दण्डकाषायादिलिङ्गविशिष्टे इति ।  
 अन्यथां युद्ध-गोरक्षा वाणिज्यादिव्यापृतत्वेन तेषामनन्यन्यापारतया आत्मैक्य-  
 श्रवणाद्यसंभवात् । अपशूद्राधिकरणे ‘श्रुतिपूर्वकस्तु नाधिकारः शूद्राणामिति  
 स्थितम्’ इत्युक्त्वा भाष्यकारैरेव — ‘श्रावयेच्चतुरो वर्णान् कृत्वा ब्राह्मण-  
 मग्रतः’ इति वचनेन पुराणादिद्वारा शूद्रादेरपि आत्मज्ञानं संपादयितुं  
 शक्यमित्युक्तम् । अतश्च स्त्रीशूद्रादेरपि कर्मान्तरव्यापृतत्वे पुराणादिद्वारापि  
 निरन्तरं आत्मविषयकश्रवणादिकं कथं कर्तुं पार्यते? गार्गीविदुरादयोपि  
 ज्ञानिन लिङ्गमदृशं बिना संन्यासिधर्मेण श्रवणादिकं निरवर्तयन्निषेधावगम्यते ।  
 अत एव च — ‘द्विविधाः स्त्रियः ब्रह्मवादिन्यः सद्योवध्वश्च’ , इत्यादि  
 हारीतादिस्मृतिषु उच्यते । तथा च भाष्यवार्तिके श्रुति स्मृति वचनानां  
 सर्वेषामेकवाच्यतया अविरोधोऽपि सिद्धयतीति प्रतीयते । परन्तु धर्मत्रिषये  
 नास्माभिरभिनिवेशः कर्तव्यः । ‘महाजनो येन गतः स पन्थाः’ ‘पूर्वैः  
 पूर्वतरं कृतम्’ इत्यादिभगवद्वचनमेव शरणम् ॥

इत्थं श्रीसुरेश्वराचार्याः श्रीमद्भगवत्पादभक्तयेषु शिष्येषु चाग्रगण्याः  
 तदीयपरमानुग्रहपालीभूताः स्वयं मन्त्रोन्नया ब्रह्मनिष्ठाश्च भगवत्पादीय-  
 सूत्रभाष्यवदेव चतुरध्यायात्मिकां निखिलदुर्वादिमदमङ्गनीं करतलामलकवदेव  
 सकलवेदान्तार्थावभासिनीं स्वतन्त्रां नैष्कर्म्यसिद्धिं निर्माय मन्दाधिकारिणो-  
 ऽप्यनुजगृह्णरिति तत्तादृक्षाणां महाचार्यपुरुषाणामुपदेशोक्तिमवलम्ब्यास्माभिः  
 गोष्पदीकृतसंसारवाराशिभिः परमपुरुषार्थभागिमर्भान्वयमिति शिवम् ॥

॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥

## किञ्चिदधिनेष्कर्म्यसिद्धिं

-V S. रामचन्द्रशास्त्री

यत्कटाक्षलघेनैव पशुता मे व्यनीनशत् ।

तच्छ्रुताभयदं ब्रह्म चन्द्रशेखरमाश्रये ॥

हृदि भातु चन्द्रशेखरभारत्यभिधं सदा परं ज्योतिः ।

यच्छ्रीसुरेश्वरादिमदर्शितपदवीमदीदृशच्छिष्यान् ॥

सिद्धयन्तपदप्रतिपाद्याः केचन ग्रन्थाः प्रसिद्धा दार्शनिकानाम् ।  
येषां विश्वसिमात्रासिद्धिः, वाह्यार्थसिद्धिरित्यादयः । औपनिषदानां ब्रह्म-  
सिद्धिप्रभृतयः प्रतीताः । यदाहुः श्रीमधुसूदनसरस्वत्योऽद्वैतसिद्धिसमाप्तौ ॥

‘सिद्धीनामिष्टनैष्कर्म्यब्रह्मगानामियं चिरात् ।

अद्वैतसिद्धिरधुना चतुर्थी समजायत’ ॥

इति । चतसृष्वामु श्रीमत्सुरेश्वराचार्यप्रणीता ‘नैष्कर्म्यसिद्धिः’ ग्रन्थतो-  
ऽल्पापि बहुर्यावहा नायकमणिरिव शोभते । संप्रतिपन्नगार्हस्थ्य्याः श्रीविश्वरूपा-  
चार्याः जल्पकथार्या विजितास्तुरीयमात्रमं भगवत्पादेभ्यः स्वीकृत्य तदन्ते-  
वासितानितास्तत्सन्निधौ ब्रह्मसूत्रभाष्यादिकमध्यैषत । तदादेशवशंवदतया,  
न ह्यातिलभूजायं, किन्तु ब्रह्मविन्निकषादमामु स्वबोधपरिगुह्यवर्थं ‘नैष्कर्म्य-  
सिद्धिः’ इति प्रथितं ग्रन्थं रचयामासुः । तदुक्तम्—

<sup>1</sup> शिष्योक्तिभिः शिष्यिल्लित्तात्ममनोरयोऽसा-

वेन स्वतन्त्रकृतिनिर्मितये न्ययुङ्क्त ।

नैष्कर्म्यसिद्धिगचिराद्विदधत्त चेत्यं

न्याय्यामविन्दत सुरेश्वरदेशिकाद्याम् ॥ इति,

<sup>1</sup> नैष्कर्म्यसिद्धिकृतिमाद्यु विधाय सोऽपि

ब्रह्मैक्यबोधनपरं गुरवे निवेद्य ।

ते वार्तिके अपि समर्प्य सुरेश्वरार्य-

संज्ञां प्रहर्षितगुरो पृथ्याशु लेभे ॥

इति च । श्लोकरूपेयमध्यायचतुष्टयात्मिका । अस्याः सुखप्रतिपत्तये गद्यरूपा संबन्धोक्तिरपि सुरेश्वराचार्याणामेव, यतस्तैरेवोक्तम्—

<sup>2</sup> 'संबन्धोक्तिरियं साध्वी प्रतिश्लोकमुदाहृता ।

नैष्कर्म्यसिद्धेर्ज्ञात्वेमां व्याख्यातासौ भवेद्भुवम् ॥ इति ।

प्रकरणं चेदम् निष्प्रपञ्चब्रह्मप्रतिपादनेन शास्त्रैरुदेशसंबद्धं शास्त्रे विस्तरेण प्रतिपादितानां संक्षेपत प्रतिपादनं संपादयत्,

'शास्त्रैरुदेशसंबद्धं शास्त्रकार्यान्तरे स्थितम् ।

आहुः प्रकरणं नाम मन्यमेदं विपश्चिनः' ॥

इति प्रोक्तलक्षणमुग्भवति ॥

ब्रह्मसिद्धिः, नैष्कर्म्यसिद्धिः, इष्टसिद्धिः, अद्वैतसिद्धिः इति प्रथितासु चतसृषु मण्डनमिश्रप्रणीता ब्रह्मसिद्धिः प्रथमा । ततः नैष्कर्म्यसिद्धिः सुरेश्वराचार्यैः व्यरचि, यत्कारणं तत्र मण्डनमनमनूय निरस्यन्ति । यथा चैतत्तयोत्तरत निरूपयिष्यते । इष्टसिद्धिः विमुक्तामकृता नैष्कर्म्य-सिद्धयनन्तरकालिकी, यतस्तत्र 'तदुक्तं वार्तिककारैः—

१ 'नेहात्मविन्मदन्योऽस्ति न मत्तोऽज्ञोस्ति' कश्चन ।

इत्यजानन्विजानानि यः स ब्रह्मविदुत्तमः ॥'

इति नैष्कर्म्यसिद्धिरचनं साभिमायोपोद्बलकृतयोदाजाहार ॥

ग्रन्थस्यास्य नैष्कर्म्यसिद्धिरिति नामकरणे 'नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां  
संन्यासेनाधिगच्छति' इति भगवद्गीता मूलं स्यादिति वितर्कये । नैष्कर्म्यं  
निष्कर्मभावं कर्मशून्यतां ज्ञानयोगेन निष्ठां निष्क्रियात्मस्वरूपेणावस्थानमिति  
नैष्कर्म्यशब्दार्थः भगवद्भेदेः 'न कर्मणामनारंभात्नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते' इति  
गीताभाष्ये विवृतः । 'नैष्कर्म्यसिद्धिं परमा' इत्यत्रापि 'निर्गतानि कर्माणि  
यस्मात् निष्क्रियब्रह्मात्ममंत्रोधारस निष्कर्मा तस्य भावो नैष्कर्म्यं, नैष्कर्म्यं च  
तत्सिद्धिश्च सा नैष्कर्म्यसिद्धिः, नैष्कर्म्यस्य वा सिद्धिः निष्क्रियात्मस्वरूप-  
स्थानलक्षणस्य निष्पत्तिः तां नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां प्रकृष्टां कर्मजसिद्धिविलक्षणां  
सद्योमुक्त्ववस्थानरूपाम्' इति नैष्कर्म्यसिद्धिपदं स्पष्टमर्थापितम् । ईदृशी  
नैष्कर्म्यसिद्धिं प्रति ज्ञानद्वारा हेतुभावेन ग्रन्थोऽपि नैष्कर्म्यसिद्धिरिति व्यपदेश-  
मर्हति । अथवा अद्वैतसिद्धिरित्यादिषु सिद्धिपदं निश्चयपरतया व्याचक्षते ।  
इहापि नैष्कर्म्यस्य सकलकर्मशून्यब्रह्मात्मस्वरूपस्य सिद्धिः निश्चयः नैष्कर्म्य-  
सिद्धिं तद्वेतुत्वाद्ग्रन्थोऽपि तथा व्यपदिश्यते लाङ्गलं जीवनमिति च ॥

२ 'सुभाषितं चार्वापि नामहात्मनां

दिवाकरो नक्तदृशामिवार्मलः १'

प्रभाति भात्येवं विशुद्धचेतसां

निधिर्यथापास्तवृषां महाधनः ॥'

इति नैष्कर्म्यसिद्धीयचतुर्थाध्यायगतपद्येनेदं सूच्यते — यदेतद्ग्रन्थप्रतिपादिताः  
केचन सिद्धान्ताः केषाञ्चिदसम्भवाः । युक्तिभिः प्रतिबोधिता अपि न तांस्वी

कुर्वन्तीति । भगवत्पादसप्तकालीना मण्डनमिश्रा ब्रह्मसिद्धौ बहुत्र भगवत्-  
पादमतं खण्डयन्ति । भगवत्पादानुयायिनः सुरेश्वराचार्या नैष्कर्म्यसिद्धौ  
बृहदारण्यकभाष्यवार्तिके चाचार्यमण्डनमतं , पराकृत्य भगवत्पादसिद्धान्तं  
समर्थयन्ति । नैष्कर्म्यसिद्धौ द्विहाणि मण्डनमतनिराकरणपूर्वकं । भगवत्पाद-  
सिद्धान्तसमर्थनानि प्रदर्शयन्ते ॥

व्यवहारदशाया भासमानं अनात्मवस्तुजातमाज्ञानिकमिति वेदान्त-  
राद्धान्तः । अज्ञानं किञ्चिदाश्रयते विषयीकरोति च । अज्ञानविषयो  
ब्रह्मेत्यत्र न विप्रतिपद्यन्ते । आश्रयेऽस्ति विमति । जीव आश्रय इति  
मण्डनाभिप्रायः । आह च ब्रह्मसिद्धौ 'यत्तु कत्याविधेति ? जीवानामिति  
ब्रूमः' इति । अनेकत्र मण्डनमतमनुसरन्त आचार्ययावत्प्रतिमिश्रा अपि  
'तदधीनत्वादर्थवत्' इति सूत्रभाष्ये 'परमेश्वराश्रया मायामयी महासुप्तितिः'  
इति वचनेन यथाश्रुतं प्रतीयमानं ब्रह्माश्रयत्वमज्ञानस्य निरसिष्णवः 'तस्मा-  
ज्जीवाधिकरणाप्यविद्या निमित्ततया विषयतया चेश्वरमाश्रयत इति  
ईश्वराश्रया इत्युच्यते, नतु आधारतया, विद्यास्वभावे ब्रह्मणि तदनुपपत्तेरिति  
व्याख्यन् । 'पारिशेष्यादात्मन एवास्त्वज्ञान तस्याज्ञोऽसीत्तनुभवदर्शनात् ।  
किंविषयं पुनस्तदज्ञानम्? आत्मविषयमिति ब्रूम' इति नैष्कर्म्यसिद्धिवचने-  
नाज्ञानस्य समानाश्रयविषयत्वं सुरेश्वराचार्या मन्यन्ते । 'विद्याविधानाच्चाविद्या  
ब्रह्मण्यस्तीति गम्यताम्' इत्यादिना बृहदारण्यकभाष्यवार्तिके ब्रह्मैवाज्ञानस्या-  
श्रयो विषयश्चेति तैस्समर्थितं च । 'आश्रयत्वविषयत्वभागिनी निर्विभागचित्तिरेव  
केवला । पूर्वसिद्धतमसो हि पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गौचरः ॥' इति  
षदन्त. संक्षेपशारीरकाचार्या अपि मतमिदमुपोदबल्यन् । 'अक्षरमव्याकृतं  
नामरूपबीजशक्तिरूपं भूतसूक्ष्ममीश्वराश्रयं तस्यैवोपाधिभूतं' इति 'विशेषण-  
भेदव्यपदेशाभ्या च नेतरी' इति सूत्रस्थभाष्यानुगुणं चैतन्मतम् ॥

'निश्चितेपि प्रमाणात्तत्त्वे सर्वत्र मिथ्यावभासा निवर्तन्ते, हेतुविशेषा-  
दनुवर्तन्तेपि । तन्नित्यस्येऽन्यदस्यपेक्ष्यम् । तच्च तत्त्वदर्शनाभ्यासो लोकसिद्धः,

यज्ञादयश्च शब्दप्रमाणकाः । अभ्यासो हि संस्कारं द्रढयन् पूर्वसंस्कारं प्रतिबध्य स्वकार्यं सन्तनोति । यज्ञादयश्च केनाप्यदृष्टेन प्रकारेण ।' इति वदन्तो मण्डनाचार्याः शब्दात्प्रमाणान्निर्विचिकित्सज्ञानोत्पत्तावपि मिथ्यादर्शनाभ्यासोपचितबलवत्संस्कारसामर्थ्यान्मिथ्यावभासानुवृत्तिं, तन्निवृत्तये तत्त्वदर्शनाभ्यासं यज्ञादिकर्माणि च ध्यासाक्षात्कारं करणीयानि मन्यन्ते । मण्डनमतमिदं 'केचित्स्वसंप्रदायबलावष्टंभादाद्बुधैः-यदेतद्वेदान्तवाक्यादहं ब्रह्मास्मीति ज्ञानं समुत्पद्यते । तत्रैव स्वोत्पत्तिमात्रेणाज्ञानं निरस्यति । किं तर्हि ? अहन्यहनि द्वाधीयसा कालेनोपासीनस्य सतो भावनाप्रचयानि शेषमज्ञानमपगच्छति देवो भूत्वा देवानप्येति' इति श्रुतेः' इत्यादिना ग्रन्थेनानूय,

<sup>१</sup> सकृत्प्रवृत्त्या मृद्नाति क्रियाकारकरूपभृत् ।

अज्ञानमागमज्ञानं सांगत्यं नास्त्यतोऽनयोः ॥

इत्यादिना सुरेश्वराचार्याः निराचक्रुः । एतदुक्तं भवति । तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्यनिर्विचिकित्सज्ञानोत्तरं तत्त्वदर्शनाभ्यासः, यज्ञादीनि च कर्माणि नापेक्षितानि । तेजस्तिमिरयोरिव ज्ञानकर्मणोर्विरोधात्, ज्ञानोत्पत्तौ तयो-रसंभवात् । शब्दान्निर्विचिकित्सज्ञानोत्पत्तावपि प्रमेयासंभावनाविपरीतभावना-रूपप्रतिबन्धनिरासद्वारा मनननिदिध्यासनयोरुपयोगः । निर्विचिकित्समागमिकं ज्ञानं नान्यत्किमप्यपेक्षतेऽज्ञानध्वस्ती ॥

<sup>२</sup> 'हेतुस्वरूपकार्याणि प्रकाशतमसोरिव ।

विरोधीनि ततो नास्ति सांगत्यं ज्ञानकर्मणोः' ॥

इति । निर्विचिकित्सशब्दज्ञानकर्मणोरपि समुच्चयो नास्तीति भगवत्पादानां मतमेतेन समर्थितम् ॥

ऊर्ध्वरेतसामाश्रमिणामिव गृहस्थानामपि विशुद्धा विद्योःपद्यते । यज्ञादिरूपसाधनहीनत्वात् चिरेण चिरंतरेण वोत्पत्तिस्तस्या ऊर्ध्वरेतसाम् ।



गृहस्थानां तु यज्ञायुपकृता शान्दप्रमा शीघ्रं शीघ्रतरं वा साक्षात्कारं जनयति । 'सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्ववत्' ( ३-४-२६ ) इति सूत्रस्याय-  
मर्थः—यद्यज्ञेन दानेनेत्यादिश्रवणात्कर्माण्यपेक्ष्यन्ते विद्यायामभ्यासलभ्यायामपि ;  
यथाऽन्तरेणाप्यथं ग्रामप्राप्तौ सिद्धवन्त्यां शैषयायाक्लेशाय वाऽधोऽपेक्ष्यत  
इति । तमिमं मण्डनामिप्रायं—

१ प्रत्यक्प्रवणतां बुद्धेः कर्माण्युत्पाद्य शुद्धितः ।

कृतार्थान्यस्तमायान्ति प्रावृडन्ते घना इव ॥

२ नित्यनैमित्तिकं कर्म सदैवात्मविशुद्धये ॥

इति सुरेश्वराचार्या निराचक्रुः । कर्माणि चित्तस्य शुद्धिद्वारा प्रत्यक्प्रवणतां  
सपाद्य कृतार्थानि निवर्तन्ते । न कथमपि ज्ञानसहभावः एषाम् । 'अपेक्षते  
च विद्या सर्वाभ्याश्रमकर्माणि, नात्यन्तमनपेक्षेव । उत्पन्ना हि विद्या फलसिद्धिं  
प्रति न किञ्चिदन्यदपेक्षते, उत्पत्तिं प्रति त्वपेक्षते । कुतः ? तमेतं वेदानुवचने-  
नेत्यादिश्रुतिः यज्ञादीनां विद्यासाधनभावं दर्शयति । विविदिषासंयोगाच्चैषा-  
मुत्पत्तिसाधनभावोऽवगम्यते । यथा च योग्यतावशेनाश्वो न छाङ्गलाकर्षणे  
युज्यते, रथचर्यायां तु युज्यते' इति भाष्यमप्येतदनुगुणम् । अवाधितं  
हि ब्राह्मणोऽहमित्यादिज्ञानं कर्माधिकारे निमित्तम् । निर्विचिकित्ससाम्प्रज्ञानेन  
तस्य वाधितत्वात्कृतः शाब्दज्ञानानन्तरं कर्माणि ? अतः शब्दादपरोक्षा-  
भ्युपगमे, अनभ्युपगमेऽपि शाब्दज्ञानफले भावनायां, तत्फले साक्षात्कारे,  
तत्फलेऽपवर्गे वा न कथञ्चिदप्यपेक्ष्यन्ते कर्माणि । एतेन गृहस्थानां  
यज्ञायुतिष्ठतां तदननुतिष्ठद्भ्य ऊर्ध्वरेतोभ्यः शीघ्रं शीघ्रतरं वा साक्षात्कारोदय  
इति वादः पराहतः ॥

अद्वैतवेदान्तिषु मुक्तिविषये पक्षद्वयं गम्यते; एकः सधोमुक्तिपक्षः,  
अपरः जीवन्मुक्तिपक्षः । नैऋत्यसिद्धिकृतां सधोमुक्तावेव पक्षपातोऽभ्युह्यते ॥

१. नै. सि. १-४९. २. नै. सि. १-५०.

S, S. 4.

1 सम्यग्ज्ञानशिशिपुष्टुष्टमोहत्कार्यरूपिणः ।  
सकृन्निवृत्तेर्नाध्यस्य किं कार्यमवशिष्यते ॥

इत्युक्त्वा अविद्यात्कार्यरूपससारस्य सम्यग्ज्ञानाग्निना बाधाईस्य सर्वस्यापि  
बाधाःसचोमुक्तिरुक्ता । अत्रेयं शंका समुत्पिपति — कस्तत्त्वोपदेष्टेति ?  
अज्ञोऽज्ञत्वादेव नोपदिशति । विज्ञस्य ज्ञानोत्पत्तिसमनन्तरमेव विगलित-  
वेचान्तरत्वेन शिष्यशसित्नादिभानापेक्षमुपदेष्टृत्वं कथं धटेत ?

2 यथा स्वापनिमित्तेन स्वप्नदृक्प्रतिबोधितः ।  
करण कर्म कर्तारं स्यान्न नैवेक्षते स्वतः ॥

3 अनात्मज्ञस्तथैवायं सम्यक्श्रुत्यावबोधितः ।  
गुरुं शास्त्रं तथा मूढं स्वात्मनोन्यं न पश्यति ॥

इति सुरेश्वराचार्यैरेवास्याः शंकाया उत्तरं दत्तम् । स्वप्नद्रष्टा स्वाविद्यापरिकल्पितं  
चोरयात्रादि पश्यन् विभेति । ततः प्रतिबुद्धः स्वप्नकल्पितं स्वतो भिन्नं न  
पश्यति । तयानाद्यविद्यानिद्राधीन स्वाविद्यापरिकल्पितेन तत्त्वविदाचार्येण  
तत्त्वमसीति प्रतिबोधितोऽविद्यानिद्रया दिमुक्तः स्वविलक्षणत्वेन कल्पितं  
श्रुत्याचार्यादिकं नैक्षते । श्रुत्यादेरविद्यात्रिलासत्वान्नाद्वैतव्याहति , नोपदेष्टृत्वा-  
द्यनुपपत्तिरिति । शंकेयं संक्षेपशारीरकेपि तथैव समाहिता — ‘परिकल्पितोपि  
सरुलङ्घतया गुरुरेव पूर्णमवबोधयति । परिकल्पितोपि मरणाय भवेद्गुरो  
यथा ननु नभो मलिनम्” ॥ ( २-२२७ ) इति श्लोकेन ।

सचोमुक्तिं स्वाग्निमतां प्रदर्श्य ‘अथापरं सांप्रदायिकं —

4 निवृत्तसर्पः सर्पोत्यं यथा कम्प न मुञ्चति ।  
विष्वस्ताखिलमोहोपि मोहकार्यं तथात्मवित्” ॥

1 नै. सि. ४-६९

2. नै. सि. ४-२६.

3. नै. सि. ४-३७.

4. नै. सि. ४-६०.

इत्यादिना जीवन्मुक्तिपक्षमपि न्यरूपयन्सुरेश्वर(आचार्याः । विद्योदये सह संचितेना-  
 विद्या नश्यति । आगामि च नैवं श्लिष्यति । प्रारब्धशरीरं च कर्म भोगेन  
 क्षीयते । न यथेष्टचेष्टाचरणप्रसंगः । अतीतेष्वनेकजन्मसु प्रतिपिद्भवर्जनेन  
 विव्यधीनप्रवृत्तितया च यथेष्टाचरणाभावेन तत्संस्कारस्य सुतरामभावात् ।  
 लोकत्रयादिरक्तो मुमुक्षुरपि न यथेष्टं चेष्टते । जीवन्मुक्तस्य तदभावः  
 केमुल्यसिद्धः । नहि मिष्टान्नभोजनपरिहृतवृषः कदाचिदपि विषं जिवसति  
 विवेकी । न मातृवधेनेत्यादीनि ज्ञानमाहात्म्यपराणि न स्वच्छन्दाचरण-  
 साधकानि । सुरेश्वराचार्यैर्जीवन्मुक्तेः सांप्रदायिकत्वोक्तौ निमित्तमिदं यद्भाष्य-  
 कारैरियं समर्थितं । “अनारब्धकार्यं एव तु पूर्वं तदवधेः” इति (ब्रह्मसूत्रं  
 ४-१-१५) सूत्रे भाष्यकारैः “अपि च नैवात्र विवदितव्यं ब्रह्मविदा  
 कंचित्कालं शरीरं ध्रियते न वा ध्रियत इति । कथं श्लोकस्य स्वहृदयप्रलयं  
 ब्रह्मवेदनं देहधारणं चापरेण प्रतिक्षेप्तुं शक्यते” इत्युक्तम् । ये तु भाष्यकार-  
 मासं मन्यन्ते तान्प्रत्याहेति भागलवतारिक्या जीवन्मुक्तौ स्वानुभवं भाष्यकारः  
 प्रमाणयतीति गम्यते ॥

सद्योमुक्तिवादिनस्वाहुः— ब्रह्मविदः शरीरधारणं न तद्दृष्ट्या तस्य  
 ब्रह्मव्यतिरिक्ताभानात् । यद्यन्ये कल्पयन्ति कल्पयन्तु नाम स्वाविधया, न  
 तेन मुक्तस्य कोपि संस्पर्शः । नच ‘तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये’  
 इत्यादिश्रुतिः कथमुपपादनीयेति वाच्यम् । नहीयं श्रुतिः तत्त्वविदः शरीरपान-  
 प्रतीक्षां क्षेमप्राप्तेराचष्टे । किं तर्हि ? यथा कश्चित् क्षिप्रतरं गम्यतामिति  
 प्रेरितः क्षेपीयस्तां प्रतिपादयन्नाह ‘तावदेव चिरं यस्नातो भुञ्जानस्याश्वं वा  
 यश्तः’ इति, तथैतदपि । यद्वि क्षेमप्राप्तौ चिरतामात्रं विप्रक्षितं तर्हि  
 तावदेवेति न ग्राह्यश्रुतिः । अतो मन्यामहे ज्ञानोत्तरं विना विलम्बं मुक्तिरिति ।  
 विस्तरस्वाकरे द्रष्टव्यः ॥

अहं ब्रह्मास्मीत्यादिमदात्मन्येष्वभेदे सामानधिकरण्यमिति सिद्धान्त  
 औपनिषदानाम् ॥

“सामानाधिकरण्यं च विशेषणविशेष्यता ।

लक्ष्यलक्षणसंबन्धः पदार्थप्रत्यगात्मनाम् ॥” (३-३)

इति वदन् नैष्कर्म्यसिद्धिकृदपि संमनुते । एतदनुसारिण्येव संक्षेपशारीरकोक्तिः—

सामानाधिकरण्यमत्र पदयोर्ज्ञेयस्तदीयार्थयोः

संबन्धस्तु विशेषणेतरतया ताभ्यां सहास्यात्मनः ।

संबन्धोऽप्यय लक्ष्यलक्षणतया विज्ञेय एवं बुधैः

रेतान्यर्थपदानि बुद्धिपदत्रीमारोहणीयानि तु ॥ (१-१९७)

इति । परन्तु अहं ब्रह्मास्मीत्यत्र बाधायां सामानाधिकरण्यमपि वक्तुं शक्यत  
इति नैष्कर्म्यसिद्धिकाराः । यदाहुः —

योऽयं स्याणुः पुमानेष पुंधिया स्याणुधीरिव ।

ब्रह्मास्मीति धियाऽशेषामहंबुद्धिं निवारयेत् ॥ (१-२९)

इति । अहंबुद्धिनिवृत्तौ सर्वं द्वैतजातं निवर्तते तमोभावे फणीवेति  
तदाशयः ॥

पदवक्ष्यप्रमाणपारावारपारीणाः कर्मज्ञानकाण्डोभयपारगाः श्रीशङ्कर-  
भगवत्पादानां शिष्येषु वरिष्ठाः श्रीसुरेश्वराचार्यपादाः सर्वथा स्वाचार्यमते  
समर्थायन्तो नैष्कर्म्यसिद्ध्यादिग्रन्थप्रणयनमुखेनाचार्यशिष्यान्वगृह्णन् ॥

समग्रहीषं नैष्कर्म्यसिद्धे कांश्चिद्यथामति ।

विषयानत्र लेखे, तमर्पये गुरुपादयोः ॥

# मानसोल्लासस्पर्शानुगुणो

विचारः ॥

-श्री के. एस्. कृष्णमूर्तिशास्त्री,

श्रीकैलासनाथापरावतारतया शिष्टैः सम्प्रतिपन्ना जगद्गुरुपदयथार्थाभिप्रेयाः श्रीमच्छङ्करभगवत्पादा लोककल्याणकलन्कुशलाः समचक्रुः श्रीदक्षिणामूर्ति-स्तोत्रं श्रुतिशिखरसिद्धान्तपरिवृंहितं मन्दमत्यनुजिघृक्षया परमिति विदुस्तरां सर्वेऽपि । तेषामन्तेवासिप्रधिकतरप्रियावेशारथा इति प्रसिद्धाः सुरेश्वराचार्या निरमुः श्रीदक्षिणामूर्त्यष्टकस्य व्याख्यां कामपि वार्तिकरूपेण ; यस्या एतस्याः सञ्चक्रुस्ति यथार्थाभिधानं 'मानसोल्लासः' इति । सर्वतन्त्रस्वतन्त्राणां वार्तिकमधिकृत्यैतेषां विघ्नष्टं नास्माकमधिकारः कोऽपि परिमितमतीनामथवा मन्दतरप्रज्ञानामथापि शङ्करकिङ्कराणां कतीनाञ्चन निदेशमनुरुध्यैव किञ्चिदिव स्मृशामः स्यालीपुलाकनीत्या ; न तु विमृशामः । सोऽयं महान्साहस्रात्मकः क्षन्तव्यो व्यापार इति प्रथमं प्रार्थयामहे । ततः पूर्वं विपश्चिदपश्चिमानां संवादं लिप्सवः कमपि विचारं प्रवर्तयाम ; य एषोऽभीष्टः स्यात्सुरेश्वरा-चार्याणां वार्तिकमुत्पादभिव्यञ्जयता तत्त्वं श्रुतिशिखरसम्भनम् ॥

धर्मार्थकाममोक्षेषु मोक्ष एव परमः पुरुषार्थः । मुक्तः पुनः संसारी न भवतीत्यर्थिक्रया 'न स पुनरावर्तते' इति श्रुत्या तस्य नित्यत्वावगमात् । प्रयाणान्निवृत्तरेषा दत्कृतकं तद्वनित्यमिति ध्यात्पुपोदृष्टिन्या 'तस्येह वर्नचितो लोकः क्षीयते एतमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते' इति दृष्टान्तदार्ष्टान्तिक्रमात्प्रदर्शनपुरस्सरं श्रुत्याऽनि यत्स्य प्रतिपादनात् ॥

अत एव मुप्यट्श्यभूतापवर्गारपर्यायमोक्षप्रदायकृतया प्रसिद्धो भगवान्भक्ताय धारयतपि मोक्षं हरिन्तराले परमकरुणया प्रददानि स्वभक्तेभ्य-रित्त्वर्गत्वेन प्रदद्यायमानान्धर्मार्थकामानप्यानुब्रह्मिकानिनि एतं भागवतादी ॥

सोऽयं मोक्षोऽविद्यास्तमयलक्षणः । अविद्या च बन्धः । “अविद्यास्तं-  
मयो मोक्ष सा च बन्ध उदाहृतः । <sup>2</sup> निवृत्तिरात्मा <sup>1</sup> मोहस्य ज्ञातत्वेनोप-  
लक्षितः ॥” इति वार्तिकेन मोक्षस्य सर्वदृश्योच्छेदोपलक्षितात्मरूपकैवल्य-  
स्वरूपत्वावगमात् । नात्राविद्यात्प्रयुक्तदृश्यत्वावच्छिन्नध्वंसः परं विद्याजन्यो  
मोक्षः ; नित्यनिरतिशयपूर्णानन्दस्वरूपेणावस्थित्यात्मकः स इति ध्येयम् ।  
अखिलजलमलविलयं कलयन्कतफरेणुरन्ते यथा स्वयमपि विलीयते ; तथा  
अखण्डाकारवृत्तिरितिवृत्तीर्विध्वंस्यन्ते स्वयमेव नश्यतीति ; तस्याश्वरमत्व-  
मिदमेव , यदविद्यात्प्रयुक्तदृश्यक्षणपूर्वत्वाभाववत्त्वेनेत्यं स्रोत्परिक्षणस्येति  
निष्कर्षः । अस्या अव्यग्रहितोत्तरत्वेन ब्रह्मभावापत्तिरिति प्रक्रियैवा शाखीया ।  
“शाखेषु प्रक्रियाभेदैरविधैवोपवर्ण्यते । समारम्भास्तु भावानामनादि ब्रह्म  
ज्ञाञ्चतम् ॥” (हरिपद्यमेतत् । अत्र शाखपदं सर्वशाखपरं ; समारम्भपदं च  
तद्विर्वर्तपरम्) अत एव समुद्रजगदाकारेण परिणममानमायाधिष्ठानरूपत्व-  
मुपवर्णितं तत्र तत्र मध्येषु । विशेषतश्चात्मिन्मानसोल्लासे भूयस्तराम् ॥

सोऽयं मोक्षो भवति ब्रह्मज्ञानात् , “नान्यः पन्थाः” इति श्रुतेः ।  
अत्र ब्रह्मज्ञानादित्यस्य ब्रह्मात्मैक्यज्ञानादित्यर्थः । तस्मादेव हि सः , न  
त्यात्मव्यतिरिक्तब्रह्मज्ञानात् । नात्रैक्यमित्यस्याभेद इत्यर्थः , किन्तु भेदाभावः ।  
भेदस्यावच्छिन्नप्रनियोगिताकाभावा इति , त्रिविधभेदाभाव इत्यर्थो प्राणः ।  
अत एव “न ययमैक्यमित्यभेदं श्रुतः , किन्तु भेद व्यासेधामः” इत्युक्तं  
वाचस्पतिमिश्रैः ॥

परिशीत्नेन सर्वांसामुपनिषदां (पदवाच्यप्रमाणपरिरोधेन) ब्रह्म-  
व्यतिरेकस्य कथमपि प्रत्यात्मव्यतिरेक्या , द्वैतभिरन्यैर्वा साधयितुमशक्यत्व-  
मेवेति श्रुत्या , निरुक्तज्ञानस्यैव मोक्षं प्रति प्रयोजकत्वा कथिता ; न तु  
व्यतिरेकमेवेति म-तव्या । धुनिरपि ‘तन् आमानमेवापेत् , अहं ब्रह्मास्मीति  
तन्नात्तंमांममम्’ इत्याह । अत तद् इति बुद्ध्याशुभाधिर्जाय । अत्र तत्

इत्यस्य 'ब्रह्मभाषी कश्चिदुपासकोऽर्थः' इति भर्तृप्रपञ्चादिवृत्तमपन्यास्यान-  
मिति खण्डितश्च भगवत्पादैः । विस्तरमिया नेह तन्यते । जीवस्य वास्तवो  
यो ब्रह्मभावः, तस्य स्फुरणभावः स्वाभाविकः । अत्र स्वभावोऽविद्या ;  
तच्छून इति यावत् । अनया ह्यविद्यया नित्यसिद्धमपि, मुक्तत्वं शुद्धत्वं  
बुद्धत्वञ्च सच्चिदानन्दलक्षणस्य भूमपदवाच्यदिदेशकालपरिच्छेदरहितस्य ब्रह्मणो  
ऽद्वैतभावमापन्नस्य प्रतीच आत्मन आव्रियते । शाखाचार्योपदेशसंस्कृतान्तः-  
करणैकप्रयोज्ययाऽखण्डाकारवृत्त्या चरमयाऽपरोक्षवाक्षात्कारलक्षणया, द्विविध-  
शक्तिमत्या अप्यविद्याया नाशे प्रकाशते स्वयमेव स्वं ब्रह्मस्वरूपं ; ब्रह्मभावश्च  
प्रसीदतीति श्रौतविज्ञानसमुत्कर्षः ॥

अन्तःकरणस्य संस्कारश्चात्र सूक्ष्मतमप्रत्यगात्मप्रद्वेगसामर्थ्यापादनमेव ;  
येनाखण्डाकारवृत्तिरूपत्तुमीशीत । इयमेव न्यपदिश्यते ब्रह्मविद्येति । अस्याश्वा-  
विद्यानिवृत्तिव्यतिरेकेण नेतरः कोऽपि व्यापारः । अविद्यारूपावरणभङ्गे  
स्वरूपप्रकाशादेव प्रत्यगात्मिनस्य ब्रह्मणः स्फुरणं, दीपेन तमोनाशे घटादेरिव सत  
इति शास्त्रमर्यादा । चरमवृत्त्या अपि नाशे ब्रह्मभावरूपः सर्वात्मभावः । अत  
उच्यते श्रुत्या 'ब्रह्मविद्ब्रह्मैव भवतीति' ॥

ननु यो यं वेत्ति तस्य तद्भावापत्तिः कथं घटताम् ? न हि वेत्ता  
घटादेर्भवति घटादितादात्म्यमापन्नः इति चेत् न, विप्रयत्नेन हानात्मनां घटादीनां  
वेदनान्न तद्भावापत्तिः सेद्ध्यमर्हति । प्रतीचस्वात्मनो ज्ञानृत्तरूपोद्भेदाभावेन,  
न तद्भावाभावापत्तिरूपदोषावकाराः । द्वैतप्रपञ्चस्य कृत्स्नस्यापि जीवेश्वरजगद्रूपस्य  
तच्छतभेदस्य च त्रिविधस्य ; वस्तुतो ब्रह्मरूपे प्रत्यगात्मन्यविद्ययाऽध्यस्तत्वेन,  
अध्यस्तस्य चाधिष्ठानसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावेन, स्वामेदस्येत्यस्य च  
स्वसत्तातिरिक्तसत्ताशून्यस्येत्यर्थेन, स्वाभिन्नसर्वात्मिभावः श्रुत्युक्तः सामञ्जस्य-  
मद्भुनेतरान् । एषैव ग्राही स्थितिर्जीवन्मुक्तिरिच्छुच्यते । एतल्लक्षणादिकं,  
जीवन्मुक्तिविवेकादितोऽनुसन्धेयमिति नात्र प्रपञ्च्यते विस्तरमयात् । तथा

मायाया अविद्यापरपर्यायायाः श्रौतत्वं, सत्त्वं, अनादित्वं, भावरूपत्वं, स्वसमानविषयकज्ञाननाश्यत्वञ्चेत्यादिकमपि, विशेषतो ज्ञातव्यं मन्यानन्तरात् । एष एवामरणभावः सर्वात्मभावापतिरूपोऽमृतशब्देन कथ्यते श्रुतिषु । इदमेव निःश्रेयसात्मकं फलं सर्वोत्तममिति भण्यते मोक्ष इति । नेदं लोकान्तर-गमनवददृष्टं फलम् । 'न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति' इत्यादिना ब्रह्म-त्रिप्राणानां तदुपलक्षितलिङ्गशरीरस्य चोत्क्रान्त्याद्यभावस्य प्रतिपादितत्वा-दुपनिषद्भिः । 'अत्र ब्रह्म समश्नुते' 'य एवं विद्वानमृत इह भवति' 'न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः' इत्यादिभिर्मोक्षे दृष्टफलत्वस्य स्पष्टं प्रतिपादनात् ॥

निरुक्तलक्षणमोक्षोपयोगिज्ञानाङ्गतयैवैषणालयलागलक्षणः संन्यासः, साध्यसाधनभावाद्विरक्तं प्रति संसाराद्विधीयते श्रुत्या, यो मुख्यः यज्ञोपवीतादि-कर्मसाधनपरिव्यागात्मकः ; सुतरां व्यतिरिक्तः स्मार्ताद्रौणात्संन्यासाद्यज्ञोपवीत-त्रिदण्डकमण्डवज्यादिपरिमृष्टात्मकादिति स्पष्टं भाष्यादी । न हि ब्रह्म-लोकादिपातेः ऋते, फलमात्मज्ञानरूपमर्हति सेद्भुं गौणस्य संन्यासस्य । हिरण्यगर्भोऽपि हि प्रथमजत्वेन प्रथितः संसारी परम इति ययमवगच्छामः, यतस्तस्यापि महानिप्रश्नरूपमृत्युप्रासादनिर्भोक एवेति हि भगवती प्राह वृहदारण्यकोपनिषत् ॥

तस्माद्ब्रह्मस्थानमेवणालयात्संन्यासलक्षणं कृत्वा, श्रवणादिसाधनार्थं परमावश्यतां शरीरस्थितिमपेक्ष्य भिक्षाचर्यं चरन् गुरुभगिण्य, तच्छुश्रूषा-पुरःसरं अरणादि शृत्वा लभेतात्मज्ञानसम्पत्तिम् । ततश्च, तिष्ठसेद्वाल्येन ततो मुनिभाष्यरूपमुपगच्छेन्मौनं ब्राह्मण इत्याहोपनिषत् । अथवा विचाररूपं प्रश्नप्रतिषवनात्मकतया निर्वैयर्थ्यमार्गं शिष्येण तत्त्वबुभुक्षुना, वादलक्षणं, यदेतत् ज्ञानं प्रति मुस्यमङ्गम्, कारणत्वात् । ज्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्धकनिवृत्तिमात्र-प्रयोजकतया युक्तिभिरनुचिन्तनात्मकस्य मननस्य, विजातीयप्रत्ययानन्तरित-



सनातीयप्रत्ययप्रवाहरूपस्य निदिध्यासनस्य चाद्भवेनाप्राधान्यमेवेति बोध्यम् ।  
 ध्रुवो पाण्डित्यमित्यस्य , गुरुपरिचरणपुरःसरं सर्ववेदान्तानां तात्पर्यावगम  
 इत्यर्थः । बाल्यमित्यस्य अनात्मविषयकदृष्टितिरस्कार इत्यर्थः । मौनमित्यस्य च  
 ब्रह्मैवाहमस्मि, नास्ति मतो व्यतिरिक्तं किञ्चनेत्यवधार्य वर्तमानत्वमित्यर्थः ।  
 ब्राह्मण्यञ्च महावाक्यार्थावगमरूपमित्यादि स्पष्टमानन्दगिरिणोक्तम् । एतदपर्यैव  
 ब्राह्मण्यं भवति यथार्थनामववाद्ब्राह्मणः कृतकृत्य इति ; इतरथा ब्रह्मबन्धुरेवेति  
 च प्रतिपादितमुपनिषत्सु , वितथरमन्यदार्तमिति च । ज्ञानसाध्यतया प्रतीति-  
 माश्रयमानो मोक्षोऽपि संसारवत्कल्पित एवाविद्यया ; न तु पारमार्थिक इति ,  
 तस्यापि संसाररामकत्वमेव ; नित्यमुक्त्यादात्मन इति न विस्मर्तव्यम् । अत एव  
 'जाग्रदादिविबोक्षान्तः संसारो जीवकल्पितः' इति पञ्चदश्यां तस्यापि  
 संसारपदैनाभिधानम् ॥

ईदृशो क्षमरणभावरूपावस्थालाभः सर्वथा भवति प्राणिनां कामनाया  
 निसर्गसिद्धाया विषय इत्यतिरोहितमेवत् ॥

अयं क्षतितरां विस्मयारहो विषय. — यत् "जातस्य हि ध्रुवो  
 मृत्युर्धुंजं जन्म मृतस्य च" इति भगवद्भूतमपि , "मरणं प्रकृतिः  
 शरीरिणाम्" इति स्मारितमपि कालिदासादिभिः , प्रत्यक्षमद्भुतदृश्यमानमपि ,  
 सर्वोऽपि जन उपलभमानो हन्त । स्थास्तुमेवात्यन्तमात्मानं मनुने  
 शरीरात्माभिमानपरिमृतस्तथापि विशिष्य मर्त्यनामान्वयंभूतः पण्डितः पामरो  
 वा । व्यवशरे हि नातिर्नते पण्डितोऽपि नंस्तिर्पगविशिष्टनामिति खलु चण्ड  
 भगवान्भाष्यकार. "पद्वादिभिधाविशेषादिनि" । शरीरसम्बन्धप्रयुक्तत्वेन  
 निसर्गसिद्धमपि मरणमयं , न्यायमाप्तमपि स्थगयतितरां खल्व्वात्मनित्यत्व-  
 युद्धिर्बलवती । यस्या यथाहकृत्यति महान्तं कृत्यानां प्रारम्भं ; तथा सन्तत-  
 चिन्तामशरिमितामन्तकार्यक्रमविषयिणां सुरीर्येकावर्त्यन्ताम् ॥

भवेदमाहूतम् — शाश्वतोक्तमरणभावज्ञाप्यं वेद वा न वा , तत्रेष्टा

परं बलवती जायते जनिमतम् । आशायाश्चायं स्वभावः, यत्स्वविषय-  
प्राप्तौ शमनमिति । विषयस्यैव तु खलुप्रायमाणतायां, न तत्रोत्पत्तु-  
मर्हति स्पृहा । अन्नपानीयरूपविषयस्यैवाभावे, बुभुक्षायाः पिपासायाश्चा-  
शारूपायाः सर्वथा भवत्यसम्भव एवेति साम्प्रतं खलु वक्तुम् । गुणैः  
पातेश्चेच्छारूपे ह्यर्थे सन् । एवञ्च सर्वस्या अप्याशायाः स्वशमकविषय-  
संत्वानुमापकत्वायश्यक्तत्वेनैत्यमित्यर्थं स्वभावः । अद्यतनं चन्द्रमण्डलगमनादिक-  
मपि, चिरनिहृदबैज्ञानिकस्पृहायाः शमकार्थकविषयतया सिद्धमित्युत्पश्यामः ।  
आस्तामेतत् ॥

ननु तत्तद्धर्मवच्छिन्नार्थनिरूपितशक्यत्वाश्रयैर्ब्रह्मण्यसाधारण्याभिप्रायेण  
प्रयुज्यमानैः ज्ञानघनः, सर्वान्तर, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेत्यादिभिः कथं बोधः  
शब्दैर्निर्धर्मकस्य ब्रह्मणः ? “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह”  
इत्यादिश्रुत्या शब्दमनोवृत्त्यविषयत्वस्य प्रतिपादनात् । किञ्चिद्धर्मवच्छिन्नत्वे च  
ब्रह्मणः शब्दवृत्तेर्मनोवृत्तेषु नियतमविषयत्वं सुदुर्घटमेवेति चेत्—न, शब्देषु  
शक्तानां तेषां शब्दानां तत्तद्धर्मरहिते स्वरूपमात्रे लक्षणाया अभ्युपगमात् ।  
तत्तच्छक्यतावच्छेदकावच्छिन्नत्वमेव शब्दत्वम् । अत्र च, तात्पर्यप्राहकनया  
‘नेति नेति’ ‘नेह नानास्ति किञ्चन’त्यादीनामुपयोगः श्रुतिवाक्याना-  
मित्यानन्दगिरिणैव बृहदारण्यकभाष्यव्याख्याने स्पष्टमुक्तत्वात् । यद्वा ;  
निर्धर्मके ब्रह्मणि सधर्मकत्वबुद्धिर्भवतु विकल्पादयया पृथया शास्त्रीयप्रक्रिया-  
मात्रोपयोगिन्या ; यया बोधे सौकर्यं स्यान्निर्धर्मकस्यापि । शाब्दबुद्धौ  
योग्यताज्ञानस्य हेतुत्वमपवाऽयोग्यतानिश्चयस्य प्रतिबन्धकत्वं नान्युपेयते,  
फलव्यात् । अत एव घटिना सिद्धतीत्यादेरपि वाक्यादौधोषपरिः । अत  
एवोक्तं — “अत्यन्तासत्यपि त्वर्थे ज्ञानं शब्दः करोति हि” इति  
वृत्तमधिकोक्त्या ॥

यत्त्वेतिश्वेत्तुदेशिनः ‘तत्त्वमसि’ महावाक्यमेतदुपादाय व्याचक्षते;  
तदिति सर्वज्ञःशक्तिश्चमुच्यते चैतन्यम् । त्वमिति च किञ्चिच्छब्दविशिष्टम् ।

सर्वज्ञश्च मायोपाधिक ईश्वरः । किञ्चिद्भ्रान्तःकरणोपाधिको जीवः ।  
 'कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः' इत्युक्तेः । एवञ्च, विशेषण-  
 विशिष्टयोस्तत्त्वंपदार्थयोरेकार्यबोधकत्वलक्षणमसिपदावगम्यमानं सामानाधि-  
 करण्यं, तत्प्रयोजकामेदस्य बाधात्र संभवतीति कृत्या, विशेषणशे लक्षणया  
 भागत्यागरूपया, सिद्धयत्यखण्डं चैतन्यं महावाक्यार्थो मुख्यतात्पर्यविषय इति  
 सिद्धं जीवेश्वरैक्यमिति ॥

अपरे तु, 'सविशेषणे हि विधिनिषेधौ सति विशेष्ये बाधे  
 विशेषणमुपसंक्रामतः' । यथा शिखी ध्वस्त इत्यादौ ध्वंसप्रतियोगित्वं  
 विशेष्ये बाधादनेन न्यायेन विशेषणे शिखायां पर्यवस्यति ? तथा, विशेषणे  
 बाधे, विशेष्यमात्रे पर्यवसानस्यौचित्येन, प्रकृते विशेषणयोः सर्वज्ञत्व-  
 किञ्चिद्भ्रान्त्ययोर्बाधे, विशेष्ययोश्चैतन्ययोरमेदस्य बोधः सम्भवतीति ॥

उभयमपि न रोचयामहे । तच्छब्दस्य हि परोक्षे विप्रकृष्टे च शक्तिः ।  
 'इदमस्तु सन्निकृष्टं समीपतरवर्ति चैतदो रूपम् । अदसस्तु विप्रकृष्टं  
 तदिति परोक्षे विजानीयात्' । इत्युक्तेः, तच्छब्दस्य विप्रकृष्टे परोक्षे च  
 ब्रह्मणि शक्तत्वाभ्युपगमस्यौचित्यात् । ब्रह्मणः प्रत्यगभिनस्य वास्तवत्वेऽपि  
 परोक्षभ्रान्त्या 'यत्साक्षादपरोक्षाद्ब्रह्मे'ति श्रुत्या प्रतिबोधितस्यापि सन्निकृष्ट-  
 तमत्वरूपप्रत्यक्षत्वस्य तिरोधानपूर्वकं तद्विपरीतपरोक्षत्वस्य विप्रकृष्टत्वस्य च  
 प्रतीत्या, तन्निकृष्टिपुरःसरं जीवामनि वास्तविकब्रह्मामेदस्य ब्रह्ममेदा-  
 भावात्मकस्य प्रतिपादनं हि कृत्यं महावाक्यानां चतुर्णामपीति श्रुत्यन्तानां  
 विषयो मुख्यः सर्वेषाम् । दशमस्त्वमसीत्यादिवाक्यैः शान्दापरोक्षज्ञानोत्पत्तेरातु-  
 भविकत्वादीदृशतत्त्वमसीत्यादिवाक्यानां ब्रह्मत्वैक्यज्ञानजनकत्वेन खलु महा-  
 वाक्यार्थं स्फुरतितरामनर्गळम् ; नेतरेषामतथाबोधजनकानां, ब्रह्ममात्रस्य  
 जीवमात्रस्य वा स्वरूपं प्रतिपादयितुं प्रवृत्तानां वाक्यानामौपनिषदानामपीति  
 निष्कर्षः । अमाधारणतया सिद्धः समुत्कर्षधतुणमिवैषां महावाक्यानामित्यप्यत्र  
 स्फुटतरं प्रत्यपादि यथाश्रुतियुक्त्यनुभवं तैत्तिरीयोपनिषत्सायणभाष्येऽपि ॥

एवञ्च पदशक्यनुरोधेनैव वाच्यः पदार्थः ; तथा , गद्याशाब्दिक-  
प्रक्रियं वाक्यशक्तिवृत्तेन वाक्यार्थश्चेति ; तत्त्वमसीत्यत्र , तच्छब्दस्य  
परोक्षत्वावच्छिन्नं चैतन्यमर्थः । त्वादस्य च प्रत्यक्षत्वावच्छिन्नं चैतन्यमर्थः ।  
युष्मदः संबोधचेतने शक्तेः प्रसिद्धत्वात् । स्वावच्छिन्नचैतन्येऽध्यस्तात्वात्  
सर्वेषाम् । अर्थगतस्यैव तच्छब्दगतस्यापि धर्मस्य सर्वस्याविचारूपत्वस्या-  
विद्यकरूपत्वस्य वा कैणटादिभिर्हर्यादिभिश्च भ्रुष्टं प्रतिपादनात् । परोक्षत्वादिकं  
जातिरूपाधिर्वेति तु नात्र विचारार्हः । यतो , घटोऽयं घटोऽयमित्यादि-  
व्यवहारेण व्यवहर्तव्यतावच्छेदकतया घटत्वाख्यधर्मस्य सिद्धावपि , सम-  
वायस्यैवासिद्ध्या समवेतत्वादिघटितजातिलक्षणाङ्गीकारे प्रमाणाभावादित्यादि  
प्रपञ्चितं ग्रन्थान्तर इति नालावसरो विस्तरस्य ॥

एवञ्च , शब्दशक्तिबलात्प्रतीयमानयोः परोक्षत्वप्रत्यक्षत्वयोः , परस्पर-  
विरुद्धयोः असिपदप्रतिपाद्यसामानाधिकरण्यान्यथानुपपत्त्या तत्त्वंपदयोः तद्वद्विते-  
ऽखण्डे चैतन्ये तात्पर्यवशाद्भ्रूक्षणा भागवत्यागलक्षणात्मिका स्वीक्रियते ।  
विशेषणे चापे विशेष्यमात्रेऽभेदः पर्यवस्य यथाधादिति शक्तिरेव वेति कथनं  
भवेदश्रितम् ॥

‘स आत्मा तत्त्वमसि’ इत्यत्र तच्छब्दात्मशब्दाभ्यां ब्रह्मणः  
प्रतीचक्षेत्र क्रमेणोक्तत्वाच्च , नात्रापकृतस्येश्वरस्य मायाशबलस्य युक्तं ग्रहणम् ।  
एतदतिरिक्तेषु ‘अहं ब्रह्मास्मि’ इत्येतादृशेषु त्रिष्वपि महावाक्येषु , ईश्वर-  
परामर्शस्य सुतरामभावाच्च ॥

सोपाधिकनिरूपाधिकयोरुपाधिपरित्यागेन जीवब्रह्मणोरैक्यरूपभेदाभाव-  
बोधकत्वात्मकत्वमेव महत्त्वं ‘तत्त्वमसि’ मुखानां वाक्यानां चतुर्णां ;  
नेतेरेषां ब्रह्ममात्रस्य प्रत्यङ्गात्रस्य वा स्वरूपं प्रतिपादयतां वाक्यानामित्यवोचाम ।  
एवञ्च , ‘सदेव सोम्येदमग्र आसीत्’ ‘एकमेशद्वितीयं ब्रह्म’ ‘नेह  
नानास्ति किञ्चन’ इत्यादीनां ‘दृष्टेर्द्रष्टा’ ‘न हि द्रष्टुर्दृष्टेर्विपरिलोपो

विद्यते' इत्यादीनां च उपनिषद्वाक्यानां 'ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म' 'ओं तत्सदिति निर्देशः' इत्यादिस्मृतिरूपगीतावाक्यानाञ्च महावाक्यत्वमभ्याहतमतो महावाक्यानां नेवेद्येति घटन्तो ये बत ! ते माग्याः । अभापरूपपरमफलाजनक-  
ज्ञानजनकत्वाच्चतुरितरवाक्यानाममहावाक्यत्वे स्पुटं प्रतिभासमानेऽप्याग्रहेण  
तरसाधयितुं प्रवृत्ता नैव स्युर्निर्वर्त्याः । नहि जीवब्रह्मैक्यज्ञानादृते प्राप्तिरभयस्य  
संभवतीति निभालयन्तु सुधियः । एवं सति, महावाक्यत्वाभावः मृग्यमाणः  
कुत्रापि न भवेदित्यलम् ॥

एतेन, त्यदादीनां बुद्धिविशेषविषयतत्तद्गर्भावच्छिन्ने शक्तिः । नच  
हर्यादिपदानामिव नानार्थतापत्तिः । अननुगतनानाधर्मावच्छिन्नार्थनिरूपित-  
नानाशक्तिमत्त्वं वा तन्निरूपितैकशक्तिमत्त्वं वा नानार्थकत्वम् । त्यदादीनां तु  
न नानार्थत्वम् । तत्तद्गर्माणां, बुद्धिविशेषविषयतावच्छेदकत्वेन धर्मेणोपलक्षण-  
भूतेनानुगमस्य संभवात् । बुद्धिविशेषस्योपलक्षणत्वेन तस्य पदजन्यपदार्थस्मृतौ  
न भानापत्तिः । तथा च, घटादिशब्दैर्यथा घटत्वादिनैवोपस्थितिस्तथैव  
तदादिशब्दैरपि तत्तद्गर्मावच्छिन्नोपस्थितिर्निर्गर्धैवेति ; तत्रमसीत्यादौ ईश्वर-  
पदेनेव तत्पदेनेश्वरत्वप्रकारकपदार्थज्ञानं ; तथा जीवपदेनेव त्वंपदेनापि पदार्थ-  
ज्ञानं, तत्पूर्वैकवाक्यार्थज्ञानरूपश्च शब्दबोधः । एषञ्चोक्तरीत्या सिद्धयति  
जीवेश्वरैक्यमिति, केयाञ्चन मङ्गलमपि सतां, तत्त्वमसीत्यादिवाक्यार्थकथनं  
परं प्रौढयैवेत्यवधेयम् । जीवेश्वरैक्यस्याप्रकृतत्वाच्छाब्दोग्य इत्यलम् ॥

पदार्थयोस्तादात्म्यस्यैव, तत्त्वमसीत्यादौ वाक्यवाक्यार्थयोरपि  
प्रमाणसिद्धयः तस्याध्यासिरुन्ममेव लक्ष्यार्थयोरिति मतं वैयाकरणानाम् ।  
वाक्यार्थत्वं विशेषणविशेष्यभावस्यैव भेदसंसर्गावच्छिन्नस्य तदनवच्छिन्नस्य वा  
सम्बन्धस्य, नातिरिक्तस्य कस्यापि । तत्रैवापूर्वं वाक्यस्य शक्तिः । तस्य  
शक्यत्वेऽपि संसर्गतयैव भानं न प्रकारतया । कष्टं श्रित इत्यादौ क्रिया-  
कर्मभावरूपकारकसम्बन्धस्य द्वितीया वाचिका ; राज्ञः पुरुष इत्यादौ

स्वस्वामिभाष्यस्य पट्टी वाचिकेति माध्यातुरोधेन संबन्धस्य द्वितीयादि-  
 वाच्यत्वाभ्युत्पत्तेऽपि, संसर्गतयैव भानं, तथा भाने शब्दवाच्यत्वमप्रतिबन्धक-  
 मिति च स्वीक्रियते । तथैव विशेषणविशेष्यभावलक्षकस्यापि निरुक्तोभय-  
 रूपस्य वाक्यार्थत्वेऽपि, न प्रकारतया भानमित्यवगन्तव्यम् । राज्ञः पुरुष  
 इत्यादौ विशेषणविशेष्यभावो भेदसंसर्गावच्छिन्नः । राजा पुरुष इत्यादौ तु  
 तदनवच्छिन्नः सः । न त्वभेदसंसर्गावच्छिन्नः, अभेदस्यासंबन्धत्वात् ॥

तस्यमसीत्यादावपि, भेदसंबन्धानवच्छिन्न एव विशेषणविशेष्यभावः ;  
 लक्ष्यार्थबोक्तादात्म्यवदाध्यासिक एवेष्टव्यो वाक्यार्थत्वान्यथानुपपत्त्येति युक्तम् ।  
 तादात्म्यस्य धर्मत्वमेव, तदात्मनो भावस्तादात्म्यमिति स्मरसिक्तन्युत्पत्त्या  
 घटत्वादेरिव यथापदशक्ति स्वीकर्तव्यम् । न तु तस्य कथमपि संबन्धत्वम् ।  
 संबन्धो हि भवितुमर्हति भिन्नः संबन्धिभ्यां द्विष्टश्चेति ; धर्मरूपस्यैतस्य  
 संबन्धत्वं, भेदाभेदघटितत्वादिकं च कथमपि शब्दमर्पादया दुरुपपादमेवेति  
 सुभियो विभावयन्त्यति वृत्तं बहुना ॥

# तैत्तिरीयवार्तिकम् (ब्रह्मवल्ली) ॥

-एन्. एस्. कृष्णशास्त्री,

॥ श्रीशारदा विजयते ॥

अस्ति समस्तजगति प्रथिताभिधानं तुङ्गापगासङ्गमसङ्गतसौभाग्य-  
भूमावहं ऋष्यशृङ्गमुनिपुङ्गवसद्वाससञ्जातदिव्यवैभवं शृङ्गगिर्याढ्यं परम-  
पवित्रं क्षेत्रमतिचिह्नम् । यत्र किल श्रीशङ्करभगवत्पादकरकमलकलित-  
सांनिध्या सकललोकहितकारिणी वाणीविप्रहा विद्याधिदेवना देवी विराजते  
शारदा । यदभ्याशे सुशोभते श्रीशङ्करभगवत्पादप्रतिष्ठापितदक्षिणाम्नाय-  
पीठाभिधानशारदापीठाधिष्ठितगुरुपरम्पराप्रथमगणनीयानां श्रीशङ्करकिङ्करी-  
भूतानां तस्यैव श्रीशङ्करगुरोरन्तेवसतामगण्यवानां श्रीसुरेश्वराचार्याणां प्रतिष्ठित-  
मधिष्ठानम् । तत्राय,

‘यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ।

तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोशसम्भवम्’ ॥

इति भागवती सूक्तिमनुसृत्य यत्र विभूतिरतिशयिता विभोक्तयते तत्र पतति  
मनो जनानामिति नीतिगुरोरुच्यते चास्तिकानामपि जनानामान्तरं सारम-  
चिन्तयतीति वदिराडम्बररमणानां भक्तिश्रद्धासंवर्धनकाम्यया स्वस्य च परम-  
गुर्वादरातिशयवशीकृतताश्रयज्ञनाय च तेषामेषामाचार्यवर्षाणामधिष्ठानस्य परि-  
ष्कारणे बद्धश्रद्धाः श्रीशृङ्गगिरिगुरुपरम्परायामथ विद्योत्तमानाः श्रीमदभिनव-  
विद्यातीर्थगुरुचरणाः आलयमेतत्परिष्कृत्य कुम्भामिषेकमहोत्सवमस्य कार-  
विष्यन्तीति वृत्तान्तमिममधिगम्य सन्तोषपरीताः तत्रादृशे सुशोभनेऽस्मिन्नवसरे  
तेषां गुरुवर्षाणामपदानं किमपि वाचा प्रकीर्त्तये कृनार्थमात्मानमाकलयितुकामाः

‘आचार्यकृतिनिवेशनमप्यवधूतं वचोऽस्मद्वादीनाम् । रथ्योदकमिव गङ्गाप्रवाह-  
पातः पविस्रयति ॥’ इति वाचस्पतिमूक्तिमनुचिन्त्य सुरेश्वराचार्यविरचित-  
तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्यार्तिकविवरणाय यथामति प्रयतामहे ॥

एवं हि वार्तिकस्यास्य समुद्भवनिमित्तं माधवीये शङ्करविजये प्रस्तुत-  
मवगम्यते । तद्यथा — श्रीशङ्करभगवत्पादो ब्राह्मप्रवृत्तिमोक्षापदेशेन गणुरनुमति-  
मादाय स्वयं मनसा गृहीतसन्वासोऽपि गोविन्दभगवत्पादमासाद्य ततो  
यथाविधिगृहीतोपदेशस्तदादेशादेव बादरायणविरचितब्रह्मसूत्राणां भाष्यं प्रणीय  
तद्विवरणकाम्यया स्वमतिसवादाय च कुमारावतारभूतेन कुमारिलभट्टेन वार्तिक-  
मस्य करणीयमिति मनीषया प्रयागक्षेत्रमागत्य यावत्पश्यति तावत् स्ववृत्त  
गुरुपचारपरिहाराय तुषानलसनिविष्टं भट्टपादमालोक्य तदा तस्यैतस्मिन्  
प्रवर्तनमशक्यमाकूलम्य तन्निदेशेन माद्विभतीमागत्य भट्टपादशिष्येण परमेष्ठि-  
प्रतिमूर्तिना मण्डनपण्डितेन सङ्गमम् । तदनु तदानीन्तनं कर्ममीमांसकं  
वादे विजित्य बादारम्भकृतपरस्पराश्रमपरिग्रहसमयानुरोधेन तस्मै दत्त्वा तुरीय  
माश्रमं तं सुरेश्वराभिधानं विधाय स्वान्तेवसतामन्यतमं तं परिजग्राह च  
तदनन्तरसमयान्तरे तेन वार्तिकरूपप्रस्तावे चिरकालात् कर्माध्यनिवद्ध  
श्रद्धोऽयं भाष्यमिदमैद्वैताध्यनो विध्वंसयेदिति सन्दिग्धबुद्धिभिः पद्मपादादिभि  
रन्यैर्निरुद्धाभिप्रायस्तेषां बुद्धिमनुरुध्य सुरेश्वरबुद्धिपरिशुद्धिकरणाद्यैव स्वीय  
शास्त्रान्तर्गततैत्तिरीयोपनिषदः तदीयशाण्वशाखान्तर्गतवृहदारण्यकोपनिषदश्च  
भाष्यस्य वार्तिकरूपेण तं प्रचोदयामास च । यद्यपि तन्नाशय्यं दोषः स्यादेव-  
यथा तयोरपि भाष्ययोर्द्वैतप्रतिष्ठापनपरयोः वार्तिकेनानेनान्यथानयनं कुतो ;  
समाव्येतेति, तथापि श्रुत्याभिप्रायस्यान्यथा व्याख्यानेऽपि न्यायेन तदर्थं  
विनिर्णापरुमत्तमूलनद्भाष्ययोः सद्वावाचाभ्यां श्रुतित्वाचार्यावगतिः समाव्यते  
सूत्रभाष्यस्यैव दुर्व्याख्याने न पुनरपरः सरणिस्तत्राधिगम इतीव श्रीशङ्कर  
गुरोराशयोऽस्माभिरुन्नीयते । स च गुरुनिदेशं शिरसा पश्यन् वार्तिकमि-  
रचयामास ॥



अत्रेदं माधुरीयं वचनम् — 'सत्यं यदात्य विनयिन्मम याजुषी या शाखा तदन्तगतभाष्यनिबन्ध इष्टः । तद्वार्तिकं मम कृते भवता प्रणेयं सचेष्टितं परहितरूपफलं प्रसिद्धम् ॥ तद्वश्वदीया खलु काण्वशाखा मवापि तलास्ति तदन्तभाष्यम् । तद्वार्तिकं चापि विधेयनिष्ठं परोपकाराय सतां प्रवृत्तिः ॥' इति । सतीर्थानामपार्थमिममभिप्रायं परिज्ञाय तेषु गृहीतमात्सर्यं इवाचार्यवर्योयं श्रीशङ्कराचार्यमर्यादयैव महता प्रयत्नेन वार्तिकेऽस्मिन्नद्वैत-सिद्धान्तमल्यन्तादरेण समर्थयामास । प्रस्तुते वस्तुनि वस्तुतो विचार्यमाणे वार्तिककारोऽयं भाष्यकारमप्यतिशेत् इति तद्वार्तिकपरीक्षकाणामपरोक्षमेतत् । यतो न केवलं श्रुतित्, अपितु न्यायेनापि तत्तदर्थसमर्थनं कुर्वन् सतीर्थ्या-नामपार्थमभिप्रायमापादयितुं ग्रन्थस्यास्य सूत्रभाष्यानुकारितामेव व्यञ्जयतीत्यय-मयो ग्रन्थारम्भ एव सम्भाव्यते । तथाहि प्रारम्भवार्तिकम् —

‘तैत्तिरीयकसारस्य मयाऽऽचार्यप्रसादतः ।

विस्पष्टार्थरुचीनां हि व्याख्येयं संप्रणीयते’ ॥ इति ।

अयमस्या सूयतेराशयः—उपनिषदर्थस्य यथावत्प्रकाशकस्य भाष्यस्य का नाम व्याख्यापेक्षेति शङ्कमानाना व्याख्यानप्रयोजनमिदं प्रदर्शयति विस्पष्टार्थरुचीनामिति । ततश्च सन्देहविपर्ययाम्या अस्पष्टप्रतिपन्नभाष्यार्थानां न्यायेनापि तदर्थप्रतिपादनेन विस्पष्टभाष्यार्थप्रतिपत्तये व्याख्येय मयाऽऽख्यायत इति । सोऽयमर्थ ‘हिशब्देनास्या व्याख्यायाः न्यायसन्धत्वेतोपनिषत्तद्भाष्यार्थ प्रकटीकरणसामर्थ्यं द्योत्यते’ इति तत्रत्यानन्दगिरिव्याख्याने स्पष्टमनिविष्टः । इदमप्यस्य वार्तिकत्वप्रयोजकमवश्यमपेक्षितम् ; यत् उक्तानुक्तदुरुक्ताना चिन्तनं हि वार्तिकमभिप्रयन्त्यभिज्ञाः । ततश्च भाष्योक्तानामर्थानां तदनुकैः न्यायैः स्थान एव समर्थनम् । इदमपि वार्तिकप्रारम्भे द्वितीयच्छेकचतुर्थपादे ‘भक्त्या पूज्यतमं प्रणम्य तमहं तद्भाष्यनीती यते’ इत्यत्र ग्रन्थकारेण प्रतिज्ञानमस्ति । तत्र हि ‘तद्भाष्यनीती यते’ इति पदमादाय ‘तेन गुरुणा कृतस्य तैत्तिरीयक-

फलस्य विवेकस्य च धैर्यस्य 'परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृन्ः कृत्वेन' इति श्रुतिप्रमिनस्य प्रतिपादनं, तद्द्वारा विद्याप्रकाशनार्थप्रवृत्तायामभ्यासुपनिषदि शिक्षावह्यां कर्मणां प्रस्तावस्य उक्तविधया ज्ञानार्थत्वकञ्चमूचनमपि तथानुक्तार्थविचिन्तनमेव । एवं प्रतिश्लोक-विवरणमनवसरप्राप्तमित्यतो दिव्यात्रमत्रोदाहृत्येतः परमन्यत्र चरामः ॥

एवं 'ब्रह्मविदान्नोति पर'मित्यादावेवोपनिषदि विद्याफलकीर्तनस्य श्रोतुः प्रवृत्तिसिद्धि फलमिति भाष्योक्तस्यार्थस्य — अविद्योद्भूतवृष्येण पुंसा यत्कल्पितं फलम् । अनन्तफलसिद्ध्यर्थं तदनुक्तिः प्रवृत्तये ॥' इत्याद्यैः श्लोकैः विवरणानन्तरं तस्यैवार्थस्य समर्थनं — 'शिखा ते वर्धते वत्स गुडूचीं श्रद्धया पिव । मानेव प्रेरयेद्वाञ्छं सदसंभाष्यसिद्धये (ज्ञानातिरिक्त-साधनान्तरासंभाष्यमोक्षसिद्धये इत्यर्थः) इति भाष्यानुक्तदृष्टान्तेन, 'लौकिकी वैदिकी चाथ प्रवृत्तिर्यह काचन । नर्ते प्रयोजनं यस्मात् तदेवातः प्रवृत्तिश्च ॥' इति श्लोकेन 'प्रयोजनमनुदिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते' इति भाष्यानुक्तन्यायेनापि कृतम् । एवमेव तत्र तत्रापेक्षितै सरसैरुदाहरणैः समीचीनैर्याथैरपि भाष्यार्थस्य विवरणं स्वग्रन्थस्य सूत्रभाष्यानुकारितामाकारयति, पूर्वोक्त-सन्देहविपर्यासनिरासेन विस्पष्टभाष्यार्थप्रतिपत्तये च प्रकल्पत इति पूर्वमेवावेदित-मस्माभिः ॥

एवं 'अज्ञानुरूप' इति श्रुत्यर्थविवरणे — 'अदनाहं तथाञ्चं च ताभ्यः समभिजायते, अथादन्नाद्रसोत्पत्तिः शोणितं जायते रसात् ॥' इत्यारभ्य 'घनादङ्गाभिनिष्पत्तिः केशरोमाणि चाङ्गनः' इत्यन्तै श्लोकै पुरुषशरीरोत्पत्ति-प्रकाशनेन गर्भोपनिषदर्थस्य यत्समर्थनं कृतं तदपि भाष्यानुक्तार्थसमर्थनमेव । । च तदतपेक्षितमपितु प्रेक्षावर्भा परीक्षणार्थैव व्याचक्षे तद्विचक्षणः सुरेश्वरः । यतो विरक्तस्यैवैदिकानामुष्मिमाच्च भोगात् ब्रह्मविद्यायामधिकार इति स्थितिमास्यायोक्तप्रकारेण परिनिष्पन्ने शरीरे 'पूर्वजन्मनि यान्यासन् भूतानि

करणानि च । तान्येवेहापि देहाय तथयेति श्रुनेर्वलात् ॥' इति श्लोकेन  
 करणानामभिव्यक्तिमुक्त्वा तदनु — 'समप्रकरणस्यास्य तन्मे मासि देहिनः ।  
 व्यतीतानेकजन्मोऽस्या व्यज्यन्ते वासनाः क्रमात् ॥ आविर्भूतप्रबोधोऽसौ  
 गर्भेदु खादिसंस्कृतः । हा कष्टमिति निर्विण्णः स्वात्मानं शोशुचीत्यथ ॥'  
 इत्याद्यैः बहुभिः श्लोकैः गर्भवासतन्निष्क्रमणतदनन्तरवाक्यकौमार्यौवन-  
 वार्धक्यावस्थास्वनुभूयमानविविधदुःखानुवर्णनेन 'विरक्तितीव्रवनिदानमाहुर्भोग्येषु  
 दोषेक्षणमेव सन्तः' इति भगवत्पादीयविवेकचूडामणिसूक्तयुक्तरिल्ली' वैराग्यो-  
 दयहेतुत्वमेतस्य सम्यगुपवर्णितं ग्रन्थकारेण ॥

एवं क्रमशः परिचिन्त्यमाने उक्तानुक्तचिन्तनं बहु सन्ततमेवात्र  
 सन्दृश्यते । तत्र किमेतै परिमितैरुदाहरणैः ? 'यदन्ते 'यतो वाचो निवर्तन्ते'  
 इति श्रुतिव्याख्यानावसरे — यत्र शब्दः प्रवर्तते अतीन्द्रियेऽप्यर्थे तत्रैव  
 मनःशब्दोदितस्य विज्ञानस्यापि प्रवृत्तिः, यत्र च विज्ञानं तत्रैव च  
 शब्दोऽपीति सहैव वाक्यनसोः प्रवृत्तिः सत्यत । तदिहैकनिवृत्तावपरमपि  
 निवर्ततेऽसौ मनोवाचामगोचरं ब्रह्मेत्युच्यते इति भाष्योक्तमर्थं — 'शब्दप्रवृत्ति-  
 हेतूनां मत्यात्मन्यसम्भवात् । शब्दार्थासंभवं प्राह स्याप्येत्यादराच्छ्रुतिः ॥'  
 इति श्लोकेन शब्दस्यार्थे प्रवृत्तिहेतूनां जातिगुणक्रियासम्बन्धानामभावात्  
 शब्दप्रवृत्तेरसम्भव इति, 'उदपादि च यच्छब्दैर्ज्ञानमाकारबद्धियः । स्वतो  
 बुद्धं तदप्राप्य नाम्ना सह निवर्तते' इत्यनेन शब्दाविषयत्वादेव ज्ञानस्याप्यविषय  
 आत्मा इति च ध्यास्याय 'माहारम्यमेतच्छब्दस्य यदविद्यां निरस्यति ।  
 सुपुत्र इव निद्राय दूर्वञ्ज्वाच्च वाप्यते । अगृहीत्वैव सम्बन्धमभिधाना-  
 भिवेययोः, हित्वा निद्रा प्रबु-यन्ते सुपुत्रे बोधिताः परैः ॥' इत्याद्यैर्वचनैः सुप्तः  
 पुरुषः 'देवदत्तोत्तिष्ठ' इति पूर्वोद्धितः शब्दतदर्थतात्कालिकस्मरणाभावेऽपि  
 शब्दोत्थविज्ञानादेव निद्रां विधूय प्रबु यते यथा तथा प्रवृत्तेऽपि शब्दशक्य-  
 विषये आत्मनि शब्दार्थमन्वन्धप्रज्ञानपेक्षेऽपि लक्षणाश्रुत्या तत्त्वमसि,  
 सत्यं ज्ञानमित्यादिशब्दोदितादेव विज्ञानादविद्यां विधूय परमात्मनि प्रति-

तिष्ठतीत्यपि भाष्याश्च विवृत्य तदनन्तरं — 'अवशिष्टं स्वतो बुद्धं शुभं मुक्तं ततो भवेत् । नातः स्याद्भाषनापेक्षा नापि मानान्तरं प्रति ॥' इत्यारम्भ 'कैवल्यकारिता बुद्धेर्नियोगादेव चेद्भवेत् । नियोगार्थावगतये नियोगोऽन्योऽस्म्यनाम् ॥' इत्यन्तैः शताधिकैः श्लोकैः ज्ञानेनाज्ञाननिवृत्त्याख्यकैवल्यप्राप्तं आत्मनि विषये तज्ज्ञाने परोक्षपरोक्षात्मके वा कथमपि नियोगो सम्भवतीति प्रकृतब्रह्मण्य्या निर्विशेषात्मपरत्वस्य भाष्यकाराभिमतस्य प्रसाधना विधिरत्वनिराकरणं यत्कृतं तदेतद्भाष्यानुकार्यचिन्तनविषये प्रथमगणना महतीति शक्यते वक्तुम् ॥

तथा ह्यस्य 'ब्रह्मविदामोति पर'मिति प्रस्तुतस्य ब्रह्मणः स्वरूपविवरण प्रकृतेन सत्यं ज्ञानमन्तं ब्रह्मेति मन्त्रेण सत्यज्ञानानन्तपदद्वयसामानाधिकरूप्येन विशिष्य च देशकालवस्तुपरिच्छेदापनोदकानन्तपदेन च निर्विशेषतया प्रतिपादितस्य यतो वाचो निवर्तन्त इत्युपसंहारेऽपि तथैव निर्धाणान् उपक्रमोपसंहारकरूप्यामकनात्पर्यलिङ्गेन पर्यसितं निर्विशेषे तत्र एवाद्वितीये प्रत्यत्र प्रतिब्रह्मवत्यास्तात्पर्यम् । तथैवैतदसन्दिग्धं भाष्यनिबन्धनेन व्याख्यातं चेति विशदं च विदधिनाम् । तथाप्यत्र कतिचन विशदन्ते प्रायद्भूताः । तथया —

'ब्रह्म वेदं ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवती'ति चान्यत्र तत्र तत्र भूतौ सिद्धव्यक्तनिर्देशेऽपि प्रकृते 'ब्रह्मविदामोति पर'मिति फलवचनं प्राप्तव्यं किञ्च फलमावेदितं, तत्र च तत्साधनतयोपदिष्टं वेदनमपि स्यादुपासनं । विष्णुसारस्योक्तं मद्रयोगोऽपि धुनिषु बहुल भाष्योदाहृतः, तत्र च ब्रह्मण उपासनेन तद्भाष्यो मोक्षः प्राप्तव्यः, एवं च नियोगपर्यं यत्कीनि वयमेतेषामासाद्य सूत्रभाष्ये सम्प्रयाधिकरणद्वितीयधर्मेण वृत्तिकारभूतं प्रथमं विश्वरूपमरे 'तदुपासनाद्य शास्त्रेषोऽस्तो मोक्षः फलं भविष्यती'ति भाष्येण विवृतं । अनेनेषासादेनानन्दमपन्नब्रह्मसादोऽप्यत्र प्रमत्तः । तथापि सूत्रभाष्ये आनन्दमयाधिकरणं वृत्तिकारमात्मानुरोधेन आनन्दमयब्रह्मवत्प्रसाधनप्रथमं व्याख्यातं भाष्यकारैः । तत्रैवार्थे यथोक्तमनुपसंहारगतमित्थं 'आनन्दमप

मात्मानमुपपन्नानि वाक्यमवलम्ब्य तत्रोपसक्रमणमपि प्राप्तिमभिधेय्य  
प्राप्तिलक्षणस्य फलस्याप्युपक्रमोपसहारस्वभावलक्षणासुपपत्तिमपि ते समाचक्षते ॥

स एव तेषां सोपपत्तिक इव सलक्षित पूर्वपक्षोऽत्र महत्त्वा विवक्षया  
प्रतिक्षेप्तव्यः । प्रतिक्षिप्तश्च भाष्ये । तद्यथा—ब्रह्मविदित्युपक्रान्तस्य ब्रह्मण  
स्वरूपनिर्धारणार्थप्रवृत्ता सत्यं ज्ञानमित्युचमुदाहृत्य ब्रह्मणो लक्षणार्थं वाक्यमिति  
तदर्थं विवृण्वता भाष्यकारेण सजातीयविजातीयव्यावृत्त सत्यज्ञानानन्तरूपं  
पूर्वोक्तविध्या निर्विशेषं ब्रह्मेति स्थापितम् । तथैवैतद्व्याख्यातं वार्तिककारेण  
च । अत एव प्रियमोदादिविशिष्टतया सविशेषतया प्रकाशितस्य नात्र  
प्राधान्येन प्रतिपादनमिति सूचनेन तस्य ब्रह्मत्ववादीप्यप्योदितो वेदितव्यः ।  
विशिष्य चानन्दमयराक्षयद्याद्यावसरे तस्य ब्रह्मत्वं भाष्यवार्तिककाराभ्या-  
मत्यादरेण बहुयुक्त्या निराकृतं च । तथा तद्वेदनं 'यो वेद निहितं गुह्याया  
परमे व्योमन्' इति श्रुतिवृत्तविवरणानुसारेण ब्रह्मणः प्रत्यक्त्वेन साक्षात्कार-  
रूपमित्याद्युभाभ्यां सिद्धान्तितम् । अतश्च न तदुपासनं, न च विधेयमिति  
च बोधनेन वृत्तिकारस्याख्या प्रत्याख्याता । एतदर्थसमर्थनायैव ज्ञानविधि-  
विधूननपरं तावानपि भूयान् यतः समाश्रितो वार्तिककारेण । अनेनैव  
व्याजेन चिरकाठकर्मश्रद्धावहृदोऽयमद्वैताध्यानं विध्वंसयेदपीति स्वस्मिन्  
परिगृहीतस्य सब्रह्मचारिणा मात्सर्यस्य उत्सारणमपि प्रयोजनमभिसंहितं  
स्यादिति वार्तिककाराणामाशयविशेषं सूक्ष्मवक्षुषा त्रयमुत्प्रेक्षामहे ॥

यद्यपि — 'शिरश्चादिभक्तलक्षित्वा स्थादुपासनकर्मणे । तस्मादेवं  
चितीरेता मानसीर्व्याचक्षिरे ॥' इति अन्नमयादिकोशनिरूपणसन्दर्भसमायेत-  
श्लोकेनानन्दमयान्तेषु पञ्चस्यपि कोशेषु वार्तिककारस्याप्यभिमतमुपासनमिति  
प्रतीयते, तथाचि— 'उपासीनश्चितीरेवं विद्वानेता यथानुमम् । पूर्वपक्षप्रहाणेन  
ह्यन्तरन्तं प्रपद्यते ॥' इति तदनन्तरवचनेनोपासनस्य बुद्धिशुद्धिद्वारा  
कोशपञ्चकप्रविलापनप्रयोजकतया पञ्चवोशातीतप्रत्यभूतपुष्टब्रह्मप्रतिपद्युपाय-

सैवावेदितेति उगये नियोगस्वीकारेऽपि उपेये विज्ञाने नियोगनिराकरणं न प्रकृतविरोधि । अपि च—

‘समावतो वा संप्राप्तमनूद्योपासनं श्रुतिः ।

नामादाविव भूमानं विधत्ते ज्ञानमात्मनि ॥

श्रुत्यन्तराद्वा संप्राप्तं मोक्षादर्वाक् फलाय तु ।

तदनूद्य परं श्रेयःप्राप्तये ज्ञानमुच्यते ॥

इति श्लोकाभ्यां तत्राप्यविवक्षां व्याचक्ष एव ॥

एवं प्राप्तिरप्यत्र भाष्योक्तद्वयमप्राप्तिन्यायेन वार्तिकोदाहृतकण्ठचामीकर-  
न्यायेनापि अप्राप्तः स्वप्ननिवृत्तिरेव, न ग्रामप्राप्तिव्यापाराधीनेति भाष्य-  
वार्तिकभाष्यामपि व्याख्यातम् । अतश्चानन्दमयस्य ब्रह्मत्वेऽपि तदात्मना-  
ऽवस्थितस्य जीवात्मनस्तत्प्राप्तिरसंभवत् ‘आनन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति ।  
इत्यत्रोपसंक्रमणं न प्राप्तिरपि तु तस्यापि बाधनमेव तदतोऽपि नानन्दमयो  
ब्रह्म, न च तत्प्राप्तिर्ब्रह्मविद्याफलमित्यपि व्याख्यातत्वेन वृत्तिकारीयतया-  
भूतव्याख्या प्रत्याख्यातैव । ततश्च न तदुदितन्यायेन ब्रह्मप्राप्तिफलस्योप-  
संहारस्पर्शित्वमपि इति तन्मनमपनुद्य आनन्दमयस्यापि बाधनाधीनपुच्छब्रह्मप्राप्तेः  
‘यतो वाचो निर्वर्तन्ते’ इति समनन्तरमन्त्रवर्णितायाः नित्यसिद्धाया  
अप्यनाद्यज्ञाननिरोहितायाः पूर्वोदितकण्ठचामीकरादिन्यायेन विद्यया अभिध्यक्ति-  
रेवेति च सुष्ठु प्रतिष्ठापनेन सर्वथापि नियोगाविषयनिर्बिंशोपात्मप्रतिपत्तिपरये  
वल्ली समुल्लसिता भाष्येण च वार्तिकेन च ॥

तथा अद्वैतसिद्धान्तसपर्यनेऽपि बद्धपरिकरोऽयमित्यपि तन्निबन्धन-  
परिसन्धानवचामनुमन्वातुं शक्यम् । तथाहि— ब्रह्मविद्यामोति परमिति  
वाक्यव्याख्याने— ‘ब्रह्मैवात्र परं ब्रह्मं तज्ज्ञानं नान्यसिद्धये । अन्यज्ञानं  
दि नान्यस्य कचिदप्याप्तये यतः ॥’ इत्यत्रान्यज्ञानादन्यप्राप्त्यसंभवयुक्त्या पर-  
शब्दार्थो ब्रह्मेति विदुष्वतोक्तयुक्त्या जीवो ब्रह्मेत्यपि व्याख्यातम् । एवं

‘ज्ञातुर्दृष्टिगुहान्तःस्थं प्रतीचोऽन्यत्र लभ्यते । सत्यादिमदतो मल प्रत्यगात्मैव तद्विदः ॥’ इति गुहानिहितवाक्यार्थवर्णनेनापि जीवपरैक्यं समर्थितम् । तथा ‘सोऽश्रुते निखिलान् कामान्’ इत्यर्थः श्लोकेः सहस्रशब्दस्य योग-पचार्यसमर्थनेनापि प्रत्यग्रज्ञामेदः प्रसाधितः । एवमेव — ‘तरुशाखाप्रदृष्ट्येव सोमं यद्वत्प्रदर्शयेत् । निष्कोशं कोशदृष्ट्येव प्रतीचि मल दर्श्यते ॥’ इत्यत्र कोशपञ्चकनिरूपणस्यैक्यबोधकत्वं प्रदर्शितम् । अथ च ‘तस्यैव एव शारीर आत्मेयेवं भ्रुमणया । ऐकान्त्यमुच्यते श्रुत्या ध्वविष्टाप्रविष्टयोः ॥’ इत्यक्षरि तथा तयोरेक्यं समर्थितम् । ततश्च ‘यदा बोधेन एतस्मिन्नदृश्ये’ इति श्रुतिगतादृश्यादिशब्दार्थनिरूपणे — भावाभावाभिरुक्ता बुद्धिर्पत आत्माप-हारिणी । भावाभावनियेधेन प्रतीचि स्याप्यते ततः ॥ दृश्यादिप्रतिषेधोक्त्वा प्रतीचि मल बोध्यते । न तदन्यत्तदन्यस्य परमार्थात्मना कुतः ॥’ इत्यादि-वाक्येनापि तद्वैक्यं व्याख्यानम् । प्रदर्शनार्थमेतावदुदाहरणम्, यथावसरमन्यत्तापि बहुत्र तद्वैक्योपपादनसमादरो वार्तिककारस्य स्फुटदर्शनः । मलविदिति मलोपक्रम्य ततो जगत्सृष्टिवचने ‘तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः’ इत्यत्रात्मशब्दात्, ‘तसृष्ट्वा तदेवानुनाविशत्’ इति प्रवेशवर्गने प्रवेश-शब्दार्थः सृष्टे शरीरे तादात्म्याभिमानेन जीवमाय एव नाग्न्यः प्रतिविम्ब-भावादिरित्यर्थसमर्थनात्, ‘स यश्चायं पुरुषे यश्चासायादित्ये’ इति श्रोत्रोपाधिद्वयपरामर्शस्य च रूपनिकर्तारोद्धार्यैवसमर्थनात् यस्या अस्या ऐक्य-परत्वंप्रमाण भाव्ये स्फुटम् । तत्तद्वैक्य वार्तिककारेणापि व्याख्यानम् । इतः पर्यादि बहुत्र तत्प्रसाधनसमादरो वार्तिककारस्य पूर्वमस्माभिर्दृश्यातः । तदस्पृहाहरणमनुकथिततस्य ।

अथ कथमस्य दृशकथिततात्पर्यं तूरोक्तविषया गौणमपि घटन इत्येवमपि विविक्तमित्येव । तथाहि — अत्रैव श्रुती ‘अपानोऽनु-प्रश्नाः’ इति कथितविधानमनुकीर्तनम् । तत्र च उक्तविधानिकादिप्रति-विष्टः तद्विष्टो मलमल्लनानिवित्त्य एकः, विष्टुमलद्विरयश्चरः, प्रश्ना

इति बहुवचनसूचितः ब्रह्मणोऽस्तित्वनास्तित्वविषयकश्चान्य इति भाष्य-  
व्याख्याता तत्र प्रश्ना । एतेषामपाकरणप्रकारपरिबोधनात्मकं स य एवं-  
विदिति वाक्यावतरणभाष्यमेवं प्रवृत्त — ‘अस्ति नास्तीत्यनुप्रश्नो व्याख्यातः  
(प्रत्याख्यात इत्यर्थे) कार्यरसलामप्राणनाभयप्रतिष्ठाभयदर्शनीपपत्तिभ्यः  
अस्येव तदाकाशादिकारण ब्रह्मेत्यपाकृतः प्रश्न एक । द्वावन्वावतुप्रश्नौ  
विद्वद्विदुषो ब्रह्मप्राप्त्यप्राप्तिविषयौ । तत्र विद्वान् समश्नुते न समश्नुत  
इत्यनुप्रश्नोऽन्य । तदपाकरणाद्योच्यते स य एवंविदिति । मध्यमोऽनुप्रश्नः  
(अविदुषो ब्रह्मप्राप्तिविषय) अन्वयापाकरणादेवापाकृत इति तदपाकरणमि-  
न यत्यते’ इति ।

अत्र किल वार्तिककार ‘कार्येण रसलामेन प्राणनाद्युपपत्तिभिः ।  
अस्तीत्यपाक्रियतस्य प्राहुर्भाष्यकृतः स्वयम् । प्रश्नयोरस्तिनास्तीति व्याख्या-  
तत्वादयाधुना । आहो विद्वानमु लोकमित्यस्यापाक्रियोच्यते ॥’ इति  
श्लोकाग्या भाष्याभिप्रायं व्याख्याय तत्र भाष्ये मध्यमानुप्रश्नस्यापाकरणमर्थ-  
सिद्धमित्युक्तेऽर्थे अस्वरसं मनसि निधाय शब्देनैव तदपाकरणसिद्धिरिति  
स्वाभिप्रायमाह समनन्तरश्लोकेन — ‘तद्वाणीभानुसंलुष्टबहुलाज्ञानधीरहम् ।  
यदाहीत्यादिना मन्ये उतेत्यादेर्विनिर्णयम् ॥’ इति । एवं व्याख्याने यदा  
हीत्यादिना विद्वद्विदुषोः ब्रह्मप्राप्त्यप्राप्तिप्रश्नद्वयसमाधाने, असतोऽर्थस्य ज्ञाना-  
ज्ञानाभ्या मुक्तिबन्धनायोग्यत्वात् तेनैव तदस्तित्वनिर्णयोऽपि संभाव्यत इति  
तत एव त्रयाणामपि परिहार प्रश्नानामिति लाभान्तरमभ्याह समनन्तरश्लोकेन—  
‘उताविद्वानमु लोकांमिति प्रश्नविनिर्णयात् । अस्ति नास्तीति सिद्ध  
स्यात्प्रश्नयोरपि निर्णय ॥’ इति ।

तदनेव वचनेव भाष्योक्तं दुरुक्तमिव व्यञ्जयति, न तु दुरुक्तमेव  
स्थापयति, यत तत्रैव स्वाभिप्रायकथनाप्रागेव ‘तद्वाणीभानुसंलुष्टबहुला-  
ज्ञानधीरह’मिति विनयो हि महान् भाष्यकारे प्रदर्शितः । तथोपक्रम एव ।



च — ' तैत्तिरीयकसारस्य मयाचार्यप्रसादतः । विस्मयार्थरुचीनां हि व्याख्येयं  
संप्रणीयते ' ॥ इति भगवति भगवत्पादे भूयसी हि दर्शिता भक्तिः ।

तदेवमितरयोरुक्तानुकचिन्तनयोः सुलभत्वेऽपि दुष्कचिन्तनस्यास्य  
दुर्लभत्वान्नातिपरीक्षणेनैकेनैवोदाहरणेन विरम्यते । सर्वथापि परिशोध्यमाने  
शाङ्करेणैवाध्वना अद्वैतसिद्धान्तसमर्थनधुरन्धरोऽयमाचार्य इति प्रतिसंधानात्तदनु-  
सन्धानेनैव निबन्धमधुना प्रवृत्तमुत्संहरामः ॥

इति शिवमस्तु ॥

—x—



# लोकोत्तरं चरितम् ॥

— श्रीराजनारायणशास्त्री

येनेरिताः प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु ।

तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनाम् ॥

‘इह चेदवेदीदय सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः’ इति श्रुतेः सकलानर्थघ्नीजभूतानाद्यनिर्वचनीयाविद्यानिवर्द्धणपुरस्सरं निरतिशयानन्द-रूपब्रह्मस्वरूपावस्थितिरूपस्य धर्मार्थकाममोक्षाख्यगुरुपर्येषु परमगुरुपर्यरूपस्य मोक्षस्य कारणं निष्कामकर्मोपासनानुष्ठानद्वारकचिरशुद्धि चित्तकाप्रपोषयुक्त-श्रवणमनननिदिध्यासनाद्यखिलोपायेभ्यः प्रसादप्राप्तं ज्ञानमेव कारणम् । तस्य च ज्ञानस्य कारणनिर्णयप्रसङ्गे ‘तं त्वीपनिषद् पुरुषं पृच्छामि’ इति श्रुते-रुपनिषद् एवेति निश्चीयते । अत एव ,

श्रोतव्यं श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यथोरगतिभिः ।

मया च सततं त्येयः इति दर्शनतेनवः ॥

इति । तत्रेदमनुमन्धेयम् । श्रुतिद्वारा श्रवणे सत्यपि विनाऽन्तःकरणशुद्धि न कश्चिदाप्तुं प्रगुर्भक्त्युद्धिम् । अत एव ‘तपसा कर्मसु हन्ति’ ‘विद्ययाऽमृत-ममनुते’ ‘तमेतं वेदानुवचनेन प्राजगा विविदिदन्ति यज्ञेन दानेन तपमाऽनाशयेत्’ इत्यादि । अन्तःकरणनिर्मल्याभावे श्रुतमपि श्रुतिवाक्यं न जनसायेष तत्प्रज्ञानम् । अत एव ,

गृहः शुभादि लक्ष्णु न जदानी विगृहताम् ।

निर्विकल्पो वन्द्येतादन्तर्विषयदाभतः ॥

इति । निष्कारंण मोक्षप्राप्तीभूतत्वरानस्य तत्प्राप्तीभूतान्तरुदेय

कारणं वेदज्ञानमेव । वेदज्ञानद्वारा ज्ञातस्वस्ववर्णाश्रमादिनिष्कामकर्मानुष्ठानैः  
शुद्धान्तःकरणस्य पुरुषस्य तत्त्वमस्यादिमहावाक्यैरुत्पद्यतेऽखण्डाकारं ब्रह्मज्ञानम् ।  
धर्मज्ञानब्रह्मज्ञानयोः परमं प्रमाणं श्रुतिरेवेति । अत एव ,

धर्मे प्रमीयमाणे हि वेदेन करणात्मना ।

इतिकर्तव्यताभागं मीमांसा प्रविष्यति ॥

इति । ब्रह्मज्ञाने वेदान्तवाक्यविचारस्य कारणत्वमपि प्रतिपादितम् । तथाहि—  
'कुर्वाणस्यात्ममीमांसां वेदान्तोक्तेन कर्मणा । मुक्तिः संपद्यते सद्यो नित्यानन्द-  
प्रकाशिनी ' इति । एवं च धर्मब्रह्मणोः परमप्रमाणभूतस्य अनधिगतावाधित-  
प्रयोजनवदर्यावयोधजनकस्य वेदस्य केचन भागाः कर्मपराः परे च ब्रह्मपरा  
इति विवेकः । तत्र के भागविशेषा अशेषान् कर्मप्रमेदान् प्रतिपादयन्ति,  
के च निर्विदोषं ब्रह्मेति ज्ञानाय पूर्वोत्तरमीमांसयोः परम उपयोगः ॥

अतीव गभीरयोस्तयोस्तत्त्वाधिगमाय आचार्यचक्रचूडामणभगवतः  
श्रीसुरेश्वराचार्यस्यावतारः । तदीयासु नैकासु कृतिषु विधिविवेक-भावना-  
विवेकनामकौ द्वावपि ग्रन्थौ विशेषतो गहृत्त्वमुपस्थापयतः । यदीयव्याख्यारूपा  
दार्शनिकवाचस्पतेर्वाचस्पतिमिश्रमहोदयस्य वाणी विद्वद्भ्रमजस्य चेतश्मत्कुरुते ।  
मीमांसानुक्रमणिकापि मीमांसापथमवतारयति ब्रह्मादिव चिन्तकान् । तत्त्व-  
प्रदीपिकाग्रन्थस्य नयनप्रस्तादिन्यां टीकायां बहुलमुद्धरणमेपाभाचार्याणां वचसा-  
गभिप्रकाशयति मीमांसापारदर्शितान् ॥

उत्तरमीमांसायां प्रमुखं स्थानमलं कुर्वाणमौपनिषदं सिद्धान्तमेकत्वं  
प्रतिपादयत ब्रह्मसिद्धिनामकं ग्रन्थरत्नमाचार्यचरणैर्निबद्धं ; यदुपजीव्यता च  
श्रीमधुसूदनसरस्वतीस्वामिपादैः स्वीये अद्वैतसिद्धिनामके बहुशः समुदघोषि ।  
तथादि—

सिद्धीनामिष्टनैः कर्म्यमल्लगानामियं चिरात् ।

अद्वैतसिद्धिरप्रुता चतुर्थी समजायत ॥ इति ।

नैऋर्षिसिद्धिरपि पूज्यैः श्रीसुरेश्वराचार्यपादेरेव निबद्धेति परम्परया श्रूयते । एते च सनातनवेदिकधर्मोद्धारकाणां भगवदाद्यशुक्लाचार्यचरणानां प्रियाशिष्या इति तन्मतसंरक्षणे प्रतिष्ठापने तत्प्रचारणे च तथा कृतश्रमा यथानान्य आचार्याः । एवंविधानामाचार्यपादानां विषये वचोविन्यासैर्न सन्तोषोऽपितु ,

आचार्यकृतिनिवेशनमप्यवधूतं वचोऽस्मदादीनाम् ।

रथोदकमिव गङ्गाप्रवाहपात पवित्रयति ॥

केचन कथयन्ति — यदमी ग्रन्थाः श्रीमण्डनमिश्ररचिता, न श्रीसुरेश्वरकृता इति । तत्र भेदाभेदविवादे विचारं त्रिहाय बृहदारण्यकभाष्यवार्तिकग्रन्थसुपस्थापयामि ; यत्र आचार्यचरणैर्गभीरा औपलिपदाः पदार्था विवेचिताः । अनन्तरलेखकैः तेषां सरणिरेव प्रमाणतया समुद्धृता ॥

एवं पूज्यपादानां श्रीमदाचार्याणां स्मारकं किमपि तत्रभवद्विराक्लनीयमभिधुतिगतं मोमुदीति सर्वथा मदान्तरमिति किं विशेषतः ?

# श्रीसुरेश्वराचार्यविवृतः मैत्रेय्यै याज्ञवल्क्योपदेशः ॥

— विचारकः

कस्मिंश्चिदेशे काले च याज्ञवल्क्यो नाम ब्रह्मविद्वरिष्ठः इमं  
भारतमुवमलंचकार । स चाधिगतब्रह्मात्मनरोऽपि जीवन्मुक्तिपदं लब्धुं,  
कर्माणि विधिर्वत्संन्यस्यं यथाशास्त्रं 'अनिकेतः स्थिरमतिः' इत्यादिरीत्या  
सञ्चरितुमियेष । 'किं प्रजया करिष्यामो देवा नोऽयमात्माऽयं लोकः'

‘प्रवृत्तिलक्षणो योगो ज्ञानं संन्यासलक्षणम् ।

तस्माज्ज्ञानं पुरस्कृत्य सन्यसेदिह बुद्धिमान् ॥

इत्यादिश्रुतिस्मृतयो हि ज्ञानसंन्यासयोः समुच्चयमाहुः ॥

एवं कृतसंकल्पो भगवान् याज्ञवल्क्यः, गृहस्थस्य उत्तमाश्रमं जिगमिषोः  
भार्याद्यभ्यनुज्ञायाः श्रुतौ विद्वितत्वात् स्त्रीया ज्येष्ठा ब्रह्मवादिनी मैत्रेयीमाहूय  
जगाद— 'अरे मैत्रेयि, अहमस्मात् गार्हस्थ्यलक्षणात् स्थानात् उपरि गन्तुं  
कृतसंकल्पोऽस्मि, अनुजानीहि मां' इति ॥

सा चाह— 'भवान् वयसो ज्ञानस्य देशकालयोश्चानुरूपं विस्तीर्षति ।  
एवं सति आवाभ्यां यत्कर्तव्यं तदनुशास्तु' इति ॥

याज्ञवल्क्य आह— 'स्त्रीणां धनादिषु स्वत्वाभावात् मयि प्रवर्जिते  
युवयोः नार्थसंबन्धः स्यादित्यंतः युवाभ्यां मदीर्यं धनं विमज्य प्रदास्यामि ;  
इत्थं 'तान् अनुरूपाभिर्वृत्तिभिः संयोज्य सन्यसेत्' इति श्रुतिस्मृतौ  
भवेत्' इति ॥

सा आह — 'नूनमस्मद्वितकरमेव धनं, भवता सन्यासवत् ।  
मद्दानुभावाना भवता संपर्कं ममोन्नतिकारणमेव । दृश्यते हि रथोदकमपि  
गङ्गा प्राप्य पत्रिलभावं प्राप्नुवन् । भवःसपर्कादेव मे भाति मोक्षादन्यः न  
परमः पुरुषार्थ इति । अतः पृच्छामि कथमिदं धनं मम मोक्षं साधयिष्यति  
इति । तिष्ठतु तावदिदं धनं, धनपूर्णा पृथिवी समप्राऽस्ति चेत् स्वाधीना  
तदापि मोक्षो भविष्यति न वा ? धनं हि न सत्तामत्वेण मोक्षोपयोगि  
अक्रियात्वात् । अतः पृच्छामि धनसाध्यकर्मणा मोक्षो भवेद्वेति' ॥

आह याज्ञवल्क्य — 'न धनेन तत्साध्यकर्मणा वा मोक्ष' इति ॥

मैत्रेयी प्रत्याह— 'कस्मात्तर्हि मह्यं धनं दिःससी'ति ॥

आहेतरः— 'यथा लोके वित्तात् समीचीनं जीवनं तथैव तवापि  
गृहपत्यादिवहुपरिकरयुक्तं जीवनं भवेत् । अविद्यानिवर्तकज्ञानादेव हि  
अमृतत्वं । कर्मणा मोक्षप्राप्तौ आशा न कार्या । न हि तापः अग्निसेवनान्नि-  
वर्तते' इति ॥

मैत्रेय्याह— 'साधूना स्वभावादेवोपकारिणी प्रवृत्तिः अपकारिण्यपि  
दृश्यते । भवन्तस्तु मा प्रति प्रतिकूलं चिन्तयन्ति । नूनं ममैवापराधोऽयम् ।  
भवदन्य, को वा मम हितकृत्स्यात्' अनुरक्ता प्रिया साध्वी विरेल वदूष्णा  
कामोच्छ्रितिमकृत्वा न हि सन्यसितुं युक्तं भवादृशानाम् । यदि वित्तादमृतत्वं  
भवेत् तर्हि किमिति तत् लज्यते ? यदि नामृतत्वं भवेत्तर्हि ममापि  
किं तेन । यदि मध्यनुजिघृक्षा करुणा वा स्यात् भवत तर्हि यदेव भगवान्  
मोक्षसाधनं वेद तेन मा संविभजल । यद्विज्ञानाद्भवान् स्वाराध्यमिच्छति तदेव  
धनं मे देहि । यद्वि पितं आद्यन्तरहित भोगेन च क्षयं न याति तद्धनं  
भवःसु विषते । तत्परिव्यय्य किमिति अन्तःसहनं दीयते, अनन्तमेव धनं  
दीयताम्' इति ॥

स आह— 'यतो हि सांसारिकपुरुषार्थेभ्योऽभ्युत्थितस्य मुक्तिसाधनं ज्ञानं दातुं न शक्यते, अतः तन्नामुपश्रुत्वमाशङ्क्य मया लौकिकं धनं भक्त्यै दत्तिसतम् । यदि त्वं संनाराद्धिरक्तासि तर्हि गृहाणेदममृतम् । मोक्षं यान्तं सहजा अपि मुञ्चन्तीति प्रसिद्धं, त्वं तु अत्यन्तमकल्या मोक्षेऽप्यनुगन्तुमिच्छसि । अतिस्नेहाकृष्टा देवी उमा परमेश्वरस्य अर्धं जप्राह । त्वं तु पृथ्गस्मिन्मम मामाप्तुमिच्छसि सर्वान्मभावप्राप्त्या । अहो बुद्धिमत्ता तन ! । अमृतत्वसाधनं ज्ञानं तव वक्ष्यामि तच्छ्रुत्वा निदिध्यासस्व' इति । एवमुक्त्वा भगवान् याज्ञवल्क्य इत्यमुपादिशत् —

आद्यन्तवत्त्वात् सर्वमेवानात्मवस्तु स्वतः दुःखहेतुरेव । तयापि पुरुषस्य रागद्वेषादिपूर्वकं शोभनाशोभनाभ्यासाभ्या कदाचि सुखमपि जनयति ; यथा प्रीप्ते शैत्यं, शिशिरे तापः ; यथा वा शब्दः रक्तं प्रियं, द्विष्टं अप्रियं । आत्मा तु सर्वदैव प्रियः । आत्मप्रीत्यर्थंनया तु जायादिकं सर्वं कदाचित् प्रीतिगोचरं । अतः अनात्मवस्तु सर्वमेव दुःखभावनया परित्यज्य आत्मानमेव संशयेत् । 'न तदस्ति सुखं लोके यत्र दुःखमर भवेत् । तदसंप्राप्तिविच्छेद-क्षयेष्वसुखकृषत ॥' इति च महर्ता वचनम् । ततश्चानात्मवस्तुज्ञानतः सर्वाह्लादप्राप्तिः, सर्वानर्धनिवृत्तिश्च नैव भवेताम् । अतश्च अनात्मनि याः आसङ्ग आसीत् तमात्मनि निवेशयेत् । महालोकायान्ते मन्कादिव यस्य निर्वेदो नागतः तस्य न ज्ञानेऽधिकारोऽस्ति ॥

आत्मा द्रष्टव्यः । आत्मदर्शनं च अनात्मनि आत्मदर्शननिवृत्तिरेव, आत्मनः स्वप्रकाशत्वात् । अत्र विधिश्चाज्ञातज्ञापनमेव, न तु अप्रवृत्तप्रवर्तनम् अक्रियात्वात् ज्ञानस्य । श्रवणं मननं च आत्मविषयं प्रयत्नसाध्यत्वादिधीयते । श्रयणं च वेदान्तानामेव सन्निहितत्वात्तेषाम् ॥

शक्तिनामपर्यनिश्चायकैर्न्यायैः श्रुत्यादिभिश्च महात्मनि वेदान्तनामपर्या-  
कारणं श्रयणम् । श्रुत्यादिना ज्ञातस्य तत्त्वस्य अतःभावनानिरासेन द्वैतमिष्यात्व-

साधकतर्कानुसन्धानं मननम् । कृतश्रवणमननस्यानायासेन तत्त्वज्ञानं निदिध्यासनमुच्यते । यदि कश्चिदमध्याश्रितया ब्राह्मणादिजातिं आत्मनः पृथक्त्वेन मन्यते तं मूढं सैव जातिः पुरुषार्थात् भ्रंशयेत् आत्मनः सर्वात्मतयाऽवेदनात् ॥

इत्थं श्रवणमुपपादितम् । इदानीं मननं विस्तरेणोपपाद्यते । जगदिदं नामरूपादिमेदमिन्नं, तत्कथं आत्मैव सर्वमिति द्रष्टुं शक्यते इति चेत्, अव्यावृत्ताविसंवादिधीव्याप्तत्वात् चिन्मयमेव जगत् । यथा दुन्दुभि शङ्खवीणादिशब्दगता विशेषाः न सामान्यशब्दातिरेकेण प्रहीतुं शक्यन्ते, तथा चिन्मात्रव्यतिरेकेण जगत् प्रहीतुं शक्यते । यथा वा महासामान्यव्यतिरेकेण सामान्यमेदरूपाणां विशेषाणामभाव तद्वत् । सद्विशेषाणां सर्ववस्तूनां सद्व्यतिरेकेणाभावः ॥

इदं स्थितिकाले उक्तम् । एवमुत्पत्तिकालेऽपि ; यथाहि एकबहुव्युत्पन्नानां धूमज्वालदीनामुत्पत्तेः पूर्वं वह्निरूपेणैकत्वं तद्वत् नामरूपादिमेदमिन्नानामनात्मनामुत्पत्तेः पूर्वमैकात्म्यमिति । न च वेदस्य शब्दराशिन्वेन बुद्धादिव्यक्यवदप्रामाण्यम् ; ईश्वरश्चास्तुल्यस्य वेदस्य आकाशादिवदीश्वरेणाप्रयत्नोत्पादितत्वात् स्वनश्च प्रमाणत्वात् । न चैकात्म्ये वेदानामपि मिथ्यात्वात् अप्रामाण्यं शङ्कनीयम् ; इदं सर्वं यदयमात्मेत्युक्त्यैव पुरुषार्थस्य समाप्तत्वात् ततः परं तदप्रामाण्यस्य सम्मतत्वात् । 'सर्वोपायोऽनुपायः स्यादुपेयावसितौ यतः' ॥

यथैव स्थितिकाले उत्पत्तिकाले च प्रज्ञानव्यतिरेकेण प्रपञ्चाभावः तथा प्रलयेऽपि । यथा सर्वासामपां समुद्रे लीयमानानां तद्व्यतिरेकेणाभावः एवं गृदुर्कशक्तिनादिस्रर्शानां स्पर्शसामान्यव्यतिरेकेणाभावः स च तथा दृष्टः तत्र लीयते तच्च मनःसंकल्पे, मनोविषयश्च बुद्धिविषये, स च विज्ञानघने लीनः तद्व्यतिरेकेण नास्ति । कारणमपि विषयसाजालात् विषयैः सार्कं



लीयत एव । तस्माद्दुत्पत्तिस्थितिउपकालेऽपि प्रज्ञानव्यतिरेकेणाभावात् प्रज्ञानं  
मल्ल ॥

सोऽयं बुद्धिपूर्वकः प्रपञ्चलयः ब्रह्मविश विद्यानिमित्तः आत्यन्तिक-  
प्रलय इति भण्यते शास्त्रेषु । जीव एतेभ्यः भूतेभ्यः सैधवविविचयवत्  
अद्वय सूर्यादिप्रतिबिम्बवद्वा समुत्थाय शास्त्राचार्योपदेशेन ब्रह्मविद्यया उदक-  
नाशे प्रतिबिम्बवत् विनश्यति । यथा प्रतिबिम्ब उपाधिनाशे विनश्येव प्राप्नोति  
तथा जीव शुद्ध ब्रह्मैव भवति ॥

एवं याज्ञवल्क्येन प्रोक्ते मैत्रेय्याः सशयो बभूव । आह च 'भगवन्  
विज्ञानघन एव इत्युक्त्वा पुनः 'न प्रेत्य संज्ञास्ति' इति वचनान्मम मोहो  
जातः जीवोऽपि नश्येदिति' ॥

याज्ञवल्क्य आह — नाहं मोहापनयाम प्रवृत्त मोहं ब्रूयाम् । तत्रैवाप-  
राधादयं मोह उत्पन्न । विज्ञानघन इति मया कृत्स्नैकात्म्यमुक्तम् । अविद्योत्य-  
विशेषविज्ञाननाश एव न प्रेत्य संज्ञाऽस्तीत्यनेनात्रोचम् । यतः यदा मिथ्या  
द्वैतं अज्ञानवशाद्भवति तदा इतर इतरं पश्यति इव विशेषविज्ञानवानिष  
भवति जीव । यदा तु मल्लसाक्षात्कारवशात् सर्वमात्मेति ज्ञानं तदा द्वैताभावात्  
विशेषज्ञाने हेतुर्नास्ति स ब्रह्मैव भवति । एवमुपदिश्य कर्मणा ज्ञानस्य सह-  
भावायोगात् याज्ञवल्क्यः ससाधनं कर्म परित्यज्य उत्तममाश्रमं स्त्रीश्रुत्य  
विजहार ॥

# श्रीसुरेश्वराचार्याः आभासवादश्च ॥

डा० गौरीनाथशास्त्री (वाराणसी)

वेदान्तेषु तत्र तत्र जीवस्वरूपनिरूपणप्रस्तावे जीवोऽन्तःकरणावच्छिन्नं चैतन्यमिति, ब्रह्मणः प्रतिबिम्बो जीव इति, ब्रह्मण आभासो जीव इति च त्रयो वादाः शास्त्रकारैरुल्लिख्यन्ते । तत्र सर्वेऽपीमे वादाः श्रुतिस्मृतिमूलकाः भाष्यमूलकाश्च । तत्र तावदवच्छेदवादसमर्थकं प्रमाणम् — 'यथाऽग्नेः क्षुद्राः विस्फुलिङ्गाः व्युच्चरन्ति एवमेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति' (बृह-२-१) इति श्रुतिः । अपि च 'यथा सुदीप्तात् पाषकात् विस्फुलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः । तथा-ऽक्षराद्विबिधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥' (मु. २-१) अयमर्थः — विस्फुलिङ्गो यथा अल्पकाष्ठावच्छिन्नोऽग्निः तथा जीवोऽहान्तः-करणावच्छिन्न इति । स्मृतिरपि —

'नमैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः' (भगवद्गीता १५-७)

अथ प्रतिबिम्बवादसमर्थनपरा श्रुतिः —

यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विबह्वान्  
अपो भिन्ना बहुधैकोऽनुगच्छन् ।  
उपाधिना क्रियते मेदरूपो  
देवः क्षेत्रेष्वेवमजोऽयमात्मा ॥

अपि च,

एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः ।

एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत् ॥ (म. वि. १२) इति ।

स्मृतिश्च—

‘यद्यज्जनो भगवते विदधीन मानं

तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः’ । (भागवते)

‘अत्र दृष्टान्तमुखेन प्रतिबिम्बवादः प्रतीयते । यद्यपि आभास-  
वादः प्रायः प्रतिबिम्ब एव आभासपदप्रयोगात्, प्रतिबिम्बवाद एव नातिरिक्त  
इति वक्तुं शक्यते । बिम्ब एव हि प्रतिबिम्ब नातिरिक्त । दर्पणप्रतिहतैर्नयन-  
रश्मिभिः परावृत्त्य बिम्बस्यैव प्रज्ञात् कथं बिम्बे चक्षुःसंयोग इति शङ्कानव-  
काशः । तथापि आभासवादे प्रतिबिम्बो बिम्बाद्भिन्न प्रातीनिकः शुक्लो  
रजतमिव दर्पणे अभ्यस्तः । तस्य च अधिष्ठानज्ञाने सत्यपि यावद्दर्पणसान्निध्यं  
सत्त्वं, दर्पणापनयने नाश इत्यभ्युपगमः । अथ च सिद्धान्तलेशसंग्रहे  
द्वितीयपरिच्छेदे ‘अद्वैतविद्याकृतस्तु’ इत्यादिना सयुक्तिकं विस्तरेणोपपादितः ।  
वेदे ‘जीवेशी आभासेन करोति माया चाविद्या च स्वयमेव भवति’  
इत्यादिषु आभासपदप्रयोगः प्रतिबिम्बमिथ्यात्वतात्पर्यक इत्येतेषां मतम् ॥

आचार्यभगवत्पादैस्तु ‘पर एवात्मा देहेन्द्रियमनोबुद्ध्युपाधिभिः परिच्छिद्य-  
मानो बालेः शरीर इत्युपचर्यते’ (सू. भा. १-२-६) इत्यादौ अवच्छेदवादः,  
‘आभास एव च एष जीवः परस्यात्मनः जलसूर्यकादिवत् प्रतिपत्तव्यः  
(सू. भा. २-३-५०) इत्यादौ प्रतिबिम्बवादः, तत्रैव आभास-  
पदप्रयोगात् आभासवादश्च व्यवह्रियते । परं तु उपदेशसाहस्र्यां (तत्त्वमसि  
प्रकरणे) आचार्यैः आभासवादः स्पष्टतयैव व्यवहृतः, ‘आभासासत्त्वमेव च’  
(२-१८-४३) ‘आभासस्याव्यवस्तुतः’ (२-१८-४४) इत्यादौ ।  
अयमाभासवादः श्रीविद्यारण्यश्रीचरणैः कूटस्थदीपे ‘कूटस्थो ब्रह्म जीवेशी  
इत्येवं विचतुर्विधा’ इत्यारम्य सम्यगुपपादितः । तत्रैव च आभासस्यावस्तुत्ये  
तत्त्वमसि इत्यादिवाक्यात् जीवेशरयोरेक्यप्रतिपत्तिः कर्षं युग्यत इत्याशङ्क्य  
नेदममेदे सामानाधिकरण्यमपितु बाधायां, यत् त्वमित्यनिमनं तत् तथा न,  
अपि तु ब्रह्मैव ‘यः स्याणुः स पुमान्’ इतिवत् इत्यर्थं इति समाहितम् ।

तैत्त्वमसीत्यादौ बाधायां सामानाधिकरण्यं भगवत्पादैरपि 'व्योतिष्व समञ्जसम्'  
( ३-३ ९ ) इति सूत्रभाष्ये अङ्गीकृतमेव ॥

कूटस्थदीपे च आभासवादे काचन शंका उत्थापिता । सा चेत्यम् —

परागर्थप्रमेयेषु या फलत्वेन संमता ।

संवित् सैवेह मेयोऽर्थो वेदान्तोक्तिप्रमाणतः ॥

इति वार्तिकविरुद्धोऽयमाभासवादः । अस्मिन् हि वार्तिके फलत्वेन समता  
सवित् विदाभास एव, न तु शुद्धं चैतन्यम्, तस्य प्रागपि सत्त्वेन फलत्वा-  
संभवात् । सैव च वेदान्तोक्तिप्रमाणतः प्रमेया प्रतीयते । तथा च आभासस्य  
शुद्धब्रह्मणा अमेदः खन्वत्र प्रतिपाद्यते । तथा च भवदुक्तोऽयमाभासवादो  
वार्तिकविरुद्ध इत्याशङ्क्य श्रीविद्यारण्यैः —

इति वार्तिककारेण चित्सादृश्यं विशक्षितम् ।

ब्रह्मचित्फल्योर्भेदः साहस्रधा विश्रुतो यतः ॥

इति श्लोकेन वार्तिककारैः कृतः 'सैव मेयोऽर्थः' इति प्रयोगः सादृश्यात्  
गौणो इति समाहितम् ॥

एवं सति आभासवादो वार्तिककारोपहृ इति केषांचित् कथनं  
कथं वा संगच्छन् इति न प्रतीतिपयमारोहति । वार्तिककारा हि बृहदारण्यक-  
वार्तिके 'स एव इह प्रविष्टः' इति श्रुतिवाक्यव्याख्यानावसरे आत्मनो  
बुद्ध्यादौ प्रवेशः 'प्रवेशो मुखविम्बवत्' इति बदन्त आदर्शो मुखववेशवत्  
प्रतिविम्बनयेति समादधुः । प्रतिविम्बस्य मुखविम्बतया तस्य महणे चक्षुः-  
संयोगः कपमुपपादनीय इति शक्याम्,

दर्पणाभिहता दृष्टिः पर्याप्त्यत्वं स्वमाननम् ।

व्याप्नुवन्त्यविभागेन भ्रान्ति नो जनयेद्यथा ॥ (१-४-६१८)

इति प्रतिविम्बवादिभिरुक्तमेव समाधानं वार्तिककारा अप्यूजुः ॥

सुरेश्वराचार्याणां प्रतिविम्बवाद एवाभिप्रेत इत्यत्र न केवलमिदं वार्तिकं प्रमाणं अपि तु श्रीविद्यारण्यैः पूर्वोक्तवार्तिकस्य सादृश्येन गौणतया व्याख्यानमपि (यथाश्रुते प्रतिविम्बवादबोधनात्) प्रमाणमेव । अन्येषां तु वार्तिके चिदाभासपदप्रयोगः बहुश. अग्न्यस्त सुरेश्वरभ्य आभासवाद एव संमत इति भ्रान्तिमजनयत् । किं च आभासपदस्य प्रतिविम्ब एष रूढिः । अत एव 'आभास एव च' इति सूत्रे प्रतिविम्बे आभासपद प्रयुञ्ज भगवान् सूत्रकारः ॥

अपि च 'अत्रैव मा भगवान्भूमुदत् न प्रेस्य संज्ञाऽस्ति' इति मेक्षे जीवनाशशङ्कां भैक्षेयीकृतां परिहरन् याज्ञवल्क्य. 'न वारेऽहं मोहं ब्रवीमि अविनाशी वा अरेऽपनात्मा अनुच्छित्तिधर्मा' इति जगाद । अनेन च मोक्षे जीवस्य न नाश, अपि तु मात्राभिरससर्ग एव इति परिहार. सूच्यते । यदि च याज्ञवल्क्य आभासवादपर. स्यात् तदा आभासस्य मोक्षे नाशमेव यात्, न ब्रूयात् 'अविनाशी वा अरेऽयमात्मा' इति । वार्तिककारोपि -

विशेषसंज्ञा योऽस्याभूत् विज्ञानात्मादिलक्षणा ।  
सम्यग्धीध्वस्तमोहस्य सा कृत्स्ना विनिवर्तते ॥

इत्यर्थे षट् प्रतिविम्बवादमेवानुसरति न आभासवादम् ॥

# संबन्धवार्तिके अधिकारिपरीक्षा

K. S. वेङ्कटरामशास्त्री

श्रीमच्छंकरभगवत्पादाचार्याणां निदेशानुसारेण तैत्तिरीयबृहदारण्यक-  
भाष्ययोः श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रपञ्चीकरणयोश्च वार्तिकानि प्रणीय वार्तिकाचार्या  
इति प्रथमवाच्य श्रीसुरेश्वराचार्याः स्वीयगुरोराज्ञया तत्प्रतिष्ठितेषु चतुरान्नाय-  
पीठेषु प्रधानभूतं दक्षिणान्नायशृङ्गगिरि श्रीशारदापीठव्याख्यान सिंहासन-  
प्रविरूढाः श्रीशृङ्गगिरि श्रीजगद्गुरुपरंपरायामादिमगुरवो व्यराजन्त । तेषा-  
मधिष्ठाने कुम्भाभिषेकः, श्रीमतां तत्रभवतामस्मदाचार्यपादानां श्रीसुरेश्वर-  
समारब्धश्रीजगद्गुरुपरंपराहारमणीनां, भारतभूमौ सर्वत्रापि विजययात्रां  
निर्वृत्य तत्र तत्र ब्रह्मविद्यायाः श्रीजगदाचार्याणां च दिव्यं महिमानं  
प्रकाशीकृतवतां श्रीमद्भिनवविद्यातीर्थस्वामिपादानामनुग्रहेण श्रीभगवत्पादाव-  
तारपरिपूते सुदिने प्रचलिष्यतीति, तत्सन्दर्भे प्रकाशीकरणाय श्रीसुरेश्वराचार्य-  
स्मरणसंपादकं तन्महिमतः प्रणीतग्रन्थप्रतिपाद्यविषयप्रदर्शकं, नानाभाषासु  
पण्डितप्रकाण्डविरचितानेकलेखनमल्लभृतं किमपि ग्रन्थरत्नं मुद्रापयन्ति भक्त-  
प्रवराः । ग्रन्थे चास्मिन् श्रीसुरेश्वराचार्यविरचितबृहदारण्यकसंबन्धवार्तिके  
अधिकारिनिर्माणमधिकृत्य किञ्चिदिव चिन्तयामो यथामति संमहेण ज्ञान-  
परिशुद्धेय ॥

इच्छयञ्जेदीयवाजसनेयिब्राह्मणोपनिषदः अन्वयं नाम बृहदारण्यकमिति ।  
तदुक्तं भाष्ये — 'अरण्येऽनूच्यमानत्वात् आरण्यकं, बृहत्त्वात् परिमाणतो  
बृहदारण्यकम्' इति । वार्तिकेऽपि —

अरण्याध्ययनाच्चैतत् आरण्यकमितीर्षते ।

बृहत्त्वात् ग्रन्थतोऽर्थाच्च बृहदारण्यकं मतम् ॥ इति । (सं. वा. ९)

त्रिविधव्युत्पत्त्या अविद्यां तत्कार्यं संसारं च नाशयति, ब्रह्म गमयति

इत्यर्थलामेन उपनिषद्बद्धः ब्रह्मविद्या बोधयति । तदर्थत्वात् ग्रन्थोऽपि उपनिषदित्युच्यते । एवं उपनिषद्नामनिर्वाचनेन सर्वासामपि उपनिषदां मुक्तिरेव फलमिति लभ्यते । शाखादौ च प्रेक्षावत्प्रवृत्त्यङ्गभूतं विषयप्रयोजनादिक-  
मवश्यमनुवर्णनीयम् । यदाहुः —

सिद्धार्थे सिद्धसंबन्धे श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते ।

शाखादौ तेन वक्तव्यः संबन्धः सप्रयोजनः ॥ इति ।

शाखारंभप्रयोजकं चैतत् भाष्योक्तमे प्रदर्शितं 'तस्या इयमङ्गग्रन्था वृत्तिरारभ्यते संसारव्यानिवृत्तिसुभ्य' संसारहेतुनिवृत्तिमाधनब्रह्मात्मैकत्वविद्याप्रति-  
पत्तये' इति । अनेन विरक्तोऽधिकारी, अविद्यातःकार्यनिवृत्तिः प्रयोजनं, ब्रह्मात्मैक्यविद्या तदुपायः, तदैक्यं विषय ज्ञानफलयोरुपायोपेयत्वं संबन्धः इति ज्ञायते । अनन्तरं च अनुवर्णितं कर्मकाण्डेन सह संबन्धादिकम् । इत्थं भाष्यनिर्दिष्टस्यार्थजातस्य विवरणाय प्रवृत्ते संबन्धवार्तिके अधिकारः, संबन्धः, प्रामाण्यं, प्रमेयं इति चत्वारोऽंशाः सम्यक् विचारिताः । तदुक्तं श्रीविचारण्यस्वामिप्रणीते बृहदारण्यकवार्तिकसारे

अधिकारश्च संबन्धः प्रामाण्यं मेयनिर्णयः ।

चातुर्विध्यं विचार्येदं वेदान्तोऽन्नावतारितः ॥ इति ।

(प्रमेयपरीक्षा १७८)

सर्वस्माद्विरक्तो यथाविधि त्यक्तकर्मा जिज्ञासुरेव वेदान्ते अधिकारी । न सिपाधयिषुः अविरक्तः कर्मजन्यफलकामः कर्मनिष्ठः, तस्य कर्मण्येवाधि-  
कारात् । तदुक्तम् —

त्यक्ताशेषक्रियस्यैव संसारं प्रजिहामतः ।

जिज्ञासोरेव चैकात्म्यं व्रयन्तेऽधिकारिता ॥ इति ।

(स. वा. १२)

अथ च उत्तमाधिकारी गुरुमुखतो वेदान्तविचारणया मनननिदिष्या-  
सनाभ्यां च प्रत्याग्रहैक्यसाक्षात्कार लब्ध्या सकार्याविद्याविनाशेन नित्यसिद्धां  
सच्चिदानन्दपरब्रह्मात्मस्थितिरूपां मुक्तिं लभते इति बलुस्थितिः ॥

सिद्धान्तमेतमसहमानाः बहवः तीर्थकाराः प्राधान्येन मीमांसकाः  
बहूनाक्षेपान् कथयन्ति । तथाहि—

यावज्जीवं कर्मणां कर्तव्यतया श्रुतिविहितत्वात् तस्याग एव न  
संभवति । विहितस्य त्यागोऽनर्थकरः । मुक्तिरूपफलमपि कर्मणैव जायते ।  
कर्मातिरेकेण मुक्तिसाधनं किमपि वेदे न विहितम् । 'आन्नायस्य  
क्रियार्थत्वात्' 'विधिना त्वेकवाक्यत्वात्' इत्यादिना अक्रियार्थानां सिद्धबोधि-  
वाक्यानां विधिशेषत्वेनैव प्रामाण्यं समर्थयति जैगिनिराचार्यः । अतः  
उपनिषदामपि विधिशेषतया विहितस्य, कर्मण एव अभ्युदयवत् मुक्तेरपि  
साधनत्वात् भवदभिमतोऽधिकारी न संभवति ॥

सामान्यतः कर्मफलस्य जन्यत्वेपि नित्यभूतमुक्तिहेतुत्वमपि कर्मणः  
संभवत्येव । आत्यन्तिकदेहोच्छित्तिरेव किल मुक्तिरित्युच्यते । सा च विना  
ज्ञानं कर्मणैव भवितुमर्हति । कथमिति चेत् सर्वशरीरारम्भकं कर्मैव ।  
शरीरपरिग्रहेणैव बन्धो भवति । पूर्वोपार्जितानि सर्वाणि कर्माणि संभूय  
देहमेकमारभन्ते । तत्र ममाहंबुद्धिभागी कश्चित् दैवयोगात् यदि मुमुक्षुः  
स्यात् तदा निषिद्धकर्मत्यागात् नरकयोनिनिरासः । काम्यकर्मत्यागात्  
देवादिदेहाप्राप्तिः । नित्याद्यनुष्ठानात् अकरणनिमित्तप्रत्यवायाभावः । वर्तमान-  
देहारम्भककर्मणा च भोगेन क्षयः । अतो वर्तमानदेहपाते देहान्तरपरिग्रहे  
हेत्वभावात् आत्यन्तिकदेहोच्छित्तिः मुक्तिरनायाससिद्धा । एवं च भविष्यदेहा-  
संबन्धनिबन्धनाया मुक्तेः तत्संबन्धनिमित्ताभावमात्राधीनत्वात् निमित्ताभावे  
नैमित्तिकाभावात् कर्मणैव स्वरूपावस्थितिः मुक्तिः न तु ज्ञानात् । वेदे  
कश्चित् ज्ञानात् मुक्तिप्रतिपादनं आत्मज्ञस्य शोकादिनिवृत्तिप्रतिपादनं च



अर्थवाद एव । कर्तुरात्मनः कर्मशेषतया तज्ज्ञानस्यापि कर्मशेषत्वात् तादृश-  
ज्ञानफलश्रयणं अर्थवाद एवेति अवश्यमभ्युपगन्तव्यम् । ज्ञानफलस्य शोकादि-  
निवृत्तेः लोके कुत्रापि अदर्शनात् । सर्वत्रापि शोकादिदिदर्शनात् । तदुक्तं —

निपिद्वकाम्पयोस्त्यागात्कर्मणोः, नित्यकर्मणः ।

करणात्प्रत्यत्रायस्य हतेः, भोगेन च क्षयात् ॥

शरीरात्मकस्यैवं मुक्तिः सिद्धाऽन्तरात्मनः ।

विनाऽप्यैकात्म्यसंबन्धात्कर्मणैवोक्तवर्त्मना ॥

ननु चात्मावबोधस्य निचाय्येति फलं श्रुतम् ।

ब्रह्म वेदेति च तथा, नैवं तस्यार्थवादतः ॥ (सं. वा. ४१-४३)

किं च भवदुक्तं अद्वैतब्रह्मात्मैकत्वज्ञानमेव न संभवति प्रत्यक्षविरुद्ध-  
त्वात् । प्रत्यक्षप्रमाणेन भेदस्य सत्यतया प्रतीयमानत्वात् तद्विरुद्धमर्थं न  
कदाचिदपि श्रुतिः बोधयेत् । स्वप्रकाशे ब्रह्मणि अविद्याया असंभवात् न  
तन्निवृत्त्यर्थं ज्ञानापेक्षा । किं च केवलात् वाक्यात् अपरोक्षात्मज्ञानमपि न  
संभवति । तस्मात् ज्ञानाधिकार्यसंभवात् वेदान्ता न विचारणीयाः इति ॥

इत्थं परैर्ब्रह्मविदानाक्षेपान् सर्वानपि परिहरन्ति श्रीसुरेश्वराचार्याः ।  
यथा वा कामनावन्तं प्रति कर्मणि विदधाति वेदः तथा विरक्तं प्रति स एव  
वेदः कर्मत्यागमपि विदधाति । 'एतमेव प्रव्राजिनो लोकं इच्छन्तः प्रव्रजन्ति,'  
'त्यागेनैके' इति । अतः विहितानामपि कर्मणां यथाशास्त्रं त्यागः कर्तुं  
शक्यते । कर्मभिरेव मुक्तिरिति तु असंभावितमेव । कर्मफलस्य उत्पाद्या-  
प्यविकार्यसंस्कार्यान्यतमरूपेणैव दर्शनात्, तस्य चानित्यत्वात् नित्यसिद्धमुक्ति-  
साधनत्वं कदाचिदपि कर्मणां न संभवति ॥

चिकित्सयेव संप्राप्य स्वास्थ्यं रोगार्दितस्य तु ।

आत्माविद्याहतेर्बोधात्तत्कैवल्यमवाप्यते ॥ (सं. वा. २८)

यदपि उक्तं निषिद्धकाम्यकर्मव्यागात् नित्यकर्मकरणात् शरीरसंबन्ध-  
निवृत्तिरूपा मुक्तिः विनापि ज्ञानं सिध्यतीति तदपि न समञ्जसम् । लोके  
तावत् स्वरूपावस्थानरूपं स्वास्थ्यं रोगेणाभिभूतमासीत् । औपधसेवया रोग-  
निवृत्तौ पूर्वसिद्धमेव स्वास्थ्यं सम्यक् अभिव्यज्यते । एवमेव स्वात्मसंस्थिति-  
रूपा मुक्तिः अत्रिद्यातिरोहिता आसीत् । तस्मादेव बन्धः । ज्ञानेनाविद्या-  
निवृत्तौ स्वात्मसंस्थितिः नित्यसिद्धा अभिव्यज्यते । एवं च स्वरूपावस्थिते  
नित्यसिद्धत्वात् काम्यादिवर्जनसाध्यत्वं कथमपि न संभवति । न हि सिद्धं  
साध्यं भवति । साध्यं चेत् तत् स्वरूपमेव न भवेत् । सिद्धं चेत् किमर्थं  
साधनापेक्षा ? सिद्धेऽपि साधनापेक्षा चेत् अतिमोक्षप्रसङ्गः ॥

यदपि उच्यते— न हि स्वरूपावस्थानार्थं कर्मापेक्षा किं तु असष्टत्  
विषयानुभवजनितास्वास्थ्यपनुत्पर्यम् इति तदपि न, असष्टे आत्मनि  
परमार्थतो विषयसंपर्कस्य कथमप्यसम्भवात् । कर्तृत्वादिकं आत्मनः स्वभावधेत्  
तस्य अनिर्वर्त्यत्वात् मुक्तिरेव न संभवेत् ॥

न हि स्वभावो भावानां व्यावर्तेतौष्ण्यद्रवैः । (सं. वा. ५६)

अतः यथा स्वतः सिद्धमेव स्वास्थ्यं रोगादिना अभिभूतं औपधसेवया  
तन्निवृत्तौ अभिव्यज्यते एवं सच्चिदानन्दप्रसन्नमावस्थाया मुक्तिरपि स्वतःसिद्धा  
अज्ञानावृता ज्ञानेन अज्ञाननिवृत्तौ स्वयं प्रकाशते । यथा वा अन्धकारे  
अज्ञातो घटः प्रदीपेन तन्निवृत्तौ प्रकाशते । एवं चात्र ज्ञानस्यैवोपयोगः न  
कर्मणः । किं च महतामपि सूक्ष्मापराधदर्शनात् जन्ममृति मरणपर्यन्तं  
सर्वदा निषिद्धकाम्यवर्जनं दुष्कर्मैव । कथंचित् काम्यकर्मणां त्यागेपि  
निषिद्धकर्मणां त्यागो न संभवति । नित्यकर्मभिः दुरितनिवृत्तावपि  
पूर्ववद्बन्नाजिनानामनन्तमुत्थनकर्मणां अनिवारणात् तत्प्रयुक्तशरीरप्रदणत्या-  
निकापत्वात् । सर्वाभ्यपि कर्माणि संभूय एकदेहमारभन्ते इति तु भ्रुति-  
स्मृतिभ्यापविरुद्धम् । अनन्तजन्मारभन्तस्तानां पापानां पुण्यानां च दर्शनात् ।

‘तद्य इह रमणीयचरणाः रमणीयां-योनिमापद्येरन्’ ‘ततः शेषेण जन्म प्रतिपद्यन्ते’ इत्यादिप्रमाणात् अनारब्धफलानां कर्मणां बहूनां सत्त्वाच्च ॥

किञ्च नित्यकर्मणां न केवलं दुरितनिवृत्तिः फलम्, अपि तु स्वर्गादिकर्मपि इति ‘आद्ये फलार्थे निमित्ते छोपागन्धावनूंपद्येते एवं धर्म धर्ममाणं अर्था अनूपद्यन्ते’ इत्यापस्तम्बवचनात् ज्ञायते । एवं च नित्यकर्मणां अकरणे प्रत्यवायेन नरकप्राप्तिः, -करणे -पितृलोकप्राप्तिरिति -उभयथापि कर्मणां देहारेमकत्वम् । तथा च कर्मभिः जन्मपरंपरा उपर्युपरि -अभिवर्धते इति आत्यन्तिकदेहोच्छित्तिरूपा मुक्तिः कर्मिणां कदापि न संभवति । सर्वाण्यपि कर्माणि विधिपूर्वं परित्यज्य श्रवणादिना प्रत्यग्रहैक्यज्ञानं संपादितं चेत्, तादृशज्ञानमहिम्ना अज्ञाननिवृत्तेः तन्मूलकानि सर्वाण्यपि कर्माणि सद्य एव विनश्यन्ति ॥

‘ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुर्वते तथा’ ।

अज्ञाननिवृत्तौ ज्ञानमेकमेव साधनम् इति न तत्रापि कर्मापेक्षः ।

प्रत्यग्याथात्म्यधीरेव प्रत्यगज्ञानहानिकृत् ।

सा चात्सोत्पचितो नान्यत् ध्वान्तध्वस्तावपेक्षते ॥ (सं. वा. १८)

परस्परविरोधात् तयोः समुच्चयोऽपि न संभवति । अविद्याकार्यं च कर्म नाविद्यां निवर्तयितुं शक्तम् । अथापि श्रुतिस्मृतिविहितानां कर्मणां न आनर्थक्यम् । तेषां त्रिविदितासाधनत्वात् । त्रिविदितासिद्ध्यनन्तरं तु तेषामनुपयोग एव । ‘तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन’ इति श्रुतेः ।

आहरुशोर्मुनेयोगं कर्म कारणमुच्यते ।

योगासुदृश्यं तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥

इति गीतावचनाच्च ।

। विधिशेषतयैश्च वेद्वाक्यानां प्रामाण्यमिति जमिनिवर्णनं तु कर्मकाण्ड-  
द्विपयकमेव 'अथातो धर्मजिज्ञासा' इति उपक्रमात् ॥ 'अथातो ब्रह्म-  
जिज्ञासा' इति उपक्रम्य व्यामाचौर्गं पृथक् शास्त्रप्रणयनात् न तत्र  
विधिशेषतया प्रामाण्यम् । सिद्धवाक्यानामपि मुक्तिरूपफलश्रवणात् प्रामाण्यमेव ॥

किं च ज्ञाने विधेरुपयोग एव नास्ति । आत्मानन्दस्य स्वत एव  
परुषार्थत्वात्, तस्य च प्रत्यक्षत्वात्, आत्मज्ञानस्य बाधकाभावात्, ज्ञान-  
मात्रेणाविद्यानिवृत्तिरूपफलसिद्धेः, मुक्तिफलस्य उत्पाद्याप्यविकार्यसंस्कारान्य-  
तरूपकर्मफलवैलक्षण्याच्च ॥

वस्तुनस्तु वेदान्ते विध्यभावोऽस्माक भूषणमैव न तु दूषणम् । लोके  
तावत् भृत्य एव नियुज्यते न तु स्वामी । स तु वन्दिभिः संबोध्यते । एवं  
विविदिषोः विरक्तस्य संसारमार्गादस्तीर्णत्वात् सः वेदस्य स्वामी भवति । अतः  
सः न वेदैः प्रेर्यते अपि तु 'देहादिसाक्षी त्वं ब्रह्मवासि' इति वेदैरसौ  
बोधनीयो भवति । ज्ञानिनस्तु अहं ब्रह्मास्मीत्यनुभवात् कर्तृत्वादिज्ञानाभावात्  
सोऽपि न नियुज्यते । एवं नियोज्याभावादेव न वेदान्तेषु विधिः ॥

स्वामी सन्नहि भृत्येन स्वामिनेव नियुज्यते ।

संबोधनीय एवासौ सुप्तो राजेवं वन्दिभिः ॥ (सं. वा. २४०)

वेदान्तप्रमेयस्य च आत्मनः सन्नहिततमत्वात्, अधिष्ठानरूपेण  
द्वैतप्रपञ्चाश्रयत्वात् चैतन्यरूपेण स्वयंप्रकाशत्वात् प्रत्यक्षापेक्षया वेदान्तप्रमाणस्य  
वलीयस्त्वात् न दुर्बलेन द्वैतप्रपञ्चमाहारेण प्रत्यक्षेण वेदान्तप्रमाणस्य बाधो  
न्याय्यः ॥

स्वप्रकाशेपि ब्रह्मणि अविचारादविद्या भवितुमर्हत्येव । कृते तु विचारे  
अविद्या नास्त्येव ॥

तत्त्वमस्यादिवाक्योत्पत्त्यसम्यग्धीजन्ममात्रतः ॥

अविद्या सह कार्येण नासीदस्ति भविष्यति ॥ (सं. वा. १८३)

तस्त्वमस्यादिवाक्यादेव जीवब्रह्मैक्यमाक्षात्कारो भवति । यथा वा  
 कश्चित् - स्वात्मानं पश्यन्पि नवगुरुपगणनमुपितबुद्धिः दशमोऽऽमिति न  
 जानाति, असवाक्यात् अपरोक्षतया जानाति एवं महावाक्यात् अद्वैतब्रह्म-  
 साक्षात्कारो भवति । सन्निकृष्टं विषये शब्दादपि अपरोक्षज्ञानं जायत एव ॥

शोधितत्वंपदार्थज्ञः साक्षादेव प्रपद्यते ।

वाक्यादद्वैतमात्मानं दशमस्त्वमसीतिवत् ॥

नवमंख्याहृतज्ञानो दशमो विभ्रमाद्यथा ।

न वेत्ति दशमोऽस्मीति वीक्षमाणोऽपि तान्त्र ॥

अपविद्वद्द्वयोऽप्येवं तत्त्वमित्यादिना विना ।

वेत्ति नैकलमात्मानं प्रत्यङ्गोहाप्रबोधतः ॥

दशमस्त्वमसीत्यन्मात् दशमत्वं निजात्मनि ।

साक्षात्करोति ब्रह्मत्वमेवं वाक्याच्चिदात्मनि ॥

(वा. सा. ४३-४६)

वेदान्तेषु ज्ञानफलश्रवणं भूतार्थवाद एव विद्वदनुभवसिद्धत्वात् ।  
 व्याधकुचसंघर्षितस्य राजसूनोः भासवाक्येन स्मृतिप्राप्तौ आरोपितव्याधभावः  
 सद्य एव निवर्तते । एवं महावाक्यनन्यात्मज्ञानमात्रेण सकार्याविद्यानिवृत्त्या  
 शोकमोहादिनिवृत्तेः मुक्तिफलयनुभूयत एव ।

राजसूनोः स्मृतिप्राप्तौ व्याधभावो निवर्तते ॥

यथैवमात्मनोऽजस्य तत्त्वमस्यादिवाक्यतः ।

लघ्वर्थात्म्यस्मृतेष्वेति सर्वाऽविद्या सकार्यका ॥

(सं. वा. २३३-२३४)

जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिरुन्म्यानतयसञ्चारिणः प्रतिविम्बभूतस्य चिदात्मसत्स्यैव  
 शोक्तमोहाद्यनुभवः । विम्बभूतस्य चिदात्मनस्तु असत्त्वात् न शोक्तमोहादि ।

विदाभासगतं सुखदुःखादि अविद्यया विदाःमनि आरोप्य अहं दुःखीत्यनुभवः  
 पूर्वमासीत् विदुषः । ज्ञानात्परं तु आरोपनिवृत्त्या शोकमोहाद्यनुभवो न ।  
 विदुषा बोधानन्तरमपि प्रारब्धप्रापितपुत्रदुःखयोर्भोक्तव्यत्वेऽपि भ्रान्तिमाप्त-  
 जन्यद्वेषशोकयोर्नानुवृत्तिः । अत एवोक्तम्—

‘दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः’

‘मत्वा धीरो द्वेषशोकौ जहाति’ इति ॥

एवं च व्यक्ताशेषक्रियो विरक्तः आत्मतत्त्वजिज्ञासुरेव वेदान्ते  
 अधिकारी । तादृशस्य चाधिकारिण नित्यनिरतिशयानन्दरूपमोक्षफलार्थिनः  
 संभवात् वेदान्ताः विचारणीयाः इति ॥

अधिकारोपि तस्यां च सिद्धोऽश्लेषक्रियात्पजः ।

जिज्ञासोरेव, कर्तुस्तु न सिषाद्यपिपोः सदा ॥ (सं. वा. २४२)

संबन्धवार्तिके श्रीमत्सुरेश्वरविनिर्मिते ।

अधिकारिपरीक्षेयं समग्राहि यथामति ॥

वन्दे सुरेश्वरं श्रीमद्वार्तिकाचार्यमन्यहम् ।

शङ्कराचार्यसंप्रीतिभाजनं जगतां गुरुम् ॥

रत्नगर्मगणेशानं चन्द्रमूर्तिं च शारदाम् ।

निघातीर्यगुरुं चैव स्मरामि हृदि सर्वदा ॥

अस्तु प्रणामो जगतां गुरुभ्यः कारुण्यसंपूर्णदाम्बुजेभ्यः ।

भक्तेष्टसंपूर्तिगुरुद्वैभ्यः श्रीशारदाप्रीतिसुभाजनेभ्यः ॥

(Summary)

## THE VĀRTIKAKĀRA AND NAIŚĪKĀRMYĀ SIDDHĪ (Paramahansa Bhashya Svami)

It is well known that Sri Samkara's *bhashyas*, the *Brahma Sutras* and the *Vartika* are together like the confluence of the Ganga, Yamuna and Sarasvati, and this Triveni removes our sin and emancipates us.

Among the hundreds of Sishyas of Sri Samkara, the four, namely Padmapada, Suresvara, Totaka and Hastamalaka were the most important, and among these Suresvara, the *Vartikakara*, was the foremost.

Sri Samkara who through his instruction was spreading the Advaita Vidya throughout the land, desired that a *Vartikam* should be composed for his *bhashyas*, similar to the *Mimamsa and Vyakarana Vartikas*, and expressed it to his sishyas. He wished that Suresvara should write such a *Vartika*, which the other sishyas opposed on the ground that Suresvara, as Mandana Misra in his *Purvasramya*, was a follower of the *Karma margu*, and there was the danger of his importing that bias into a Vedantic work. They preferred that Padmapada should compose it. Not wishing to cause any mental agitation in his sishyas, Sri Samkara told Suresvara in private to write a *Vartika* on the *bhashya* of the *Bhahadaranyaka Upanishad* belonging to the *Kanvarakha* of Sukla Yajus and on the *Taittiriya Upanishad bhashya*, and in addition to write an independent work that would remove the suspicions of the other sishyas. Suresvara wrote the *Naishkarmya siddhi* which immensely pleased the Master and then the other two works.

Being a *prakarana*, *Naishkarmya siddhi* lays down the *Vishaya* (topic) its significance, *adhikara* (qualification) and

correlation (*sambhanda*). The first *adhyaya* inquires into the authority of the *sruti* and lays down that all of them have for their final goal (*Parama tatparya*), the Brahman. The second chapter correlates the other authorities, the third deals with the disciplines, *sravana*, *manana* etc. and the fourth and concluding chapter explains *Kaivalya* or liberation and *Jivanmukti*. The Vartikakara concludes with adoration to his great Master.



(Summary)

## VĀRTIKALAKṢAṆA SAMANVAYA

(K. P. Sankara Sastrī)

The paper discusses the eligibility of all varnas to take Sanyasa. The views propounded in the *Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad*, Sri Sankara's *bhāṣya*, *Jābāla Upaniṣad* and the *Gita* are examined. The Vārtikakāra's conclusion is that since all are entitled to realization, sanyasa is necessary to learn the Vedantic truths (śravaṇa) and for meditation. All are eligible to take sanyasa; the symbols viz, *kāṣāya*, *daṇḍa* etc. are necessary for Brahmins while others may renounce Karma, and become sanyasins. Śrī Suresvara reconciles the different views.

## NAIṢKARMYA SIDDHI

(*Vidyantidhi V S Ramachandra Sastrī*)

Naiṣkarmya siddhi, of Śrī Suresvaracharya pādāh well-known as Vārtikakārapādāh, is though comparatively short, an outstanding accomplishment of exceptional importance among the works of the Aupanishadās or the Advaita Vedāntins. The other 'siddhi' works are, Iṣṭa siddhi by Śrī Vimuktātman and Advaita siddhi by Śrī Madhusūdana Sarasvatī which, like the Naiṣkarmya siddhi, closely follow the Bhaṣhyas of Pūjya Śrī Sankara Bhagavatpādāh, and the earliest of these viz Brahma-siddhi by Mandana presumably an elderly contemporary of the Bhaṣhyakara, which differs in certain respects from the view points of the Bhaṣhyas

Naiṣkarmya siddhi—the name could be believed to have arisen from the word in the Gīta verse—"Naiṣkarmyasiddhim paramāṃ sanyāsenādhigachhati" rendered in the Bhaṣhya as 'Naiṣkarmyam cha tat siddhischa' or Naiṣkarmyasiddhi meaning attainment of the state of Actionlessness i e, Brahman Atman or the decisive conclusion as to the Actionlessness of Brahman-Atman, the work being called so because of its role in leading to that state—is an independent work (Madhaviya Sankara Vijaya Sarga 13, Śloka 49, and Guruvamsa Kavya, Sarga 2 and Śloka 89) of Śrī Sureśvara which has won the appreciation of his Master who initiated him into the Sanyāsa āsrama after his defeat in controversy. It is a manual of Advaita-Vedānta, in four chapters, in verse, and providing the necessary links between them and the elucidations of their contents given in prose by the author himself, written not for securing fame, return or praiseworthiness but as a measure intended to purify and elevate his own intellect. It establishes the Nishprapancha Brahma, the

transcendental Reality unconnected with and unconditioned by the world which itself is shown to be mithya i. e., devôid of fundamental existence. The work, like the Vartikas, revels in Yuktis, upholds the view point of the Bhashyakara and refutes those of others especially of Mandana. A few illustrations are given below.

It is the decision of the Vedantin that whatever 'appears' in our parlance is to be regarded as due to Ajñāna (Nescience). The question arises as to what are the locus (Asraya) and the object (Vishaya) ignorance. That Brahman is the Vishaya is agreed upon by all without dispute. Mandana and Bhamatikara who follows Mandana in this respect as also in a few other respects, believe that Jiva is the Asraya. Sri Suresvaracharya, however, maintains that Brahman is the Asraya in accordance with the Bhashya. He is faithfully followed by Samskhepa Sarirakacharya.

A second question arises when Mandana, a kind of Jnana-karma Samuchchayavadin that he is, says that Tattvadarsana Abhyasa (a kind of upasana) as also the performance of Yagnas are to be resorted to till the end of one's life even if Sabda Jnana has been attained. As a corollary it is maintained that a Grihasta has greater chances of gaining Visuddha Vidya than a Sanyasin who has renounced even the Nitya and Naimittika Karmas. These views are strongly refuted by Sri Suresvaracharya, who maintains and supports the view point of the Bhashyakara that in their cause, context and results (means, make up or constitution, fruit) the Karmas turn out to be very different, nay the very opposite of Samyagnāna, and as such, like light and darkness the two cannot coexist. Nidhidhyasana on this view is only to get rid of Viparitabhavana. Necessarily, it follows that renunciation of all action is vital for securing Atmajñāna. The Nitya and Naimittika karmas are not absolutely useless. They cannot coexist with Jñāna. They work themselves out on producing Vividishā. No Jñāna karma Samuchchaya is possible. At least only karma Samuchchaya with the karmas as preliminary to Jñāna.

Regarding Mukti, Sri Suresvaracharya subscribes to the doctrine of Sadyo mukti, release immediately on attaining Jñāna. He explains the text 'Tasya tāvadeva chiram' accordingly and solves the problem of the Gurusishya paramparā by the analogy of the dream or by tracing the whole thing to the Avidya of the Sishya who regards the Mukta as his Guru etc., though the latter is not aware of anything else except the only abiding Reality viz. Brahman-Atman. He also mentions the 'Sāmpradāyika View' as it is called of the Jivan Mukti and refutes the possibility of Yathestācharana by pointing out its absence even in the Mumukshu. The texts like 'Na mē Matr vadhena' etc., are only eulogies in praise of Jivanmukti. This view also solves the problem of the Brahma Vidya Sampradaya by Gurusishyaparampara.

The Mahavakyas such as Aham Brahmāsmi are to be understood on the basis of Abheda samānādhikaranyam. This again is faithfully followed in Samkshepa sariraka. However, in the case of Aham Brahmāsmi the principle of Bādhāyām Samānādhikaranyam may be employed as well. If the 'Aham buddhi is removed, the duality disappears as the snake (in the rope) does on the disappearance of darkness.

Thus, the 'Great Srīmat Suresvaracharyapadaḥ,' the 'expert in Pada, Vakya and Pramāna,' Master of both the Karma kanda and Gnana Kanda, who is always faithful to the views of his Acharya has, by composing the Naishkarmya siddhi, conferred Anugraha on his Sishyas in every respect.

(Summary)

MĀNASOLLASA-SPARŚĀṆUGUṆO VICĀRAH ,

(K. S. Krishnamurti Sastri)

The most important of the four *puruṣārthas* is *mokṣa*. It is the removal of *avidyā* and the sense of *ānanda*. This state is not one to be achieved; it is already present, and to perceive it, *avidyā* must be removed. The author clearly elucidates the meaning of *Tat-tvam-asi*.

(Summary.)

## AN EPITOME OF THE BHĀṢYA ON BRAHMAVALLI IN THE TAITTIRIYA UPANIṢAD

(Vidwan N. S. Krishna Sastri)

Perhaps as a challenge to his detractors among his brother disciples, did the Vārtikakāra bring to bear upon his work close reasoning and apt illustrations to emphasise on the faithfulness of his vārtika to the conclusions of the bhāṣya. A vārtika is defined as a treatise which elucidates what has been said, and what is implicit in the text and points out the faults. This paper gives instances of elucidation of what have been said and what left implicit. For example while commenting on the *mantra*—*yaō vācō nivartante* in hundred verses and more the vārtikakāra declares that *jāna* does not admit of any *vidhi*, and the *valli* simply expatiates upon the Absolute Brahman. These verses reflect the conclusions of Bhāṣyakāra. 'can a faulty statement ever emanate from the disciple of Govinda' asks Suresvara; 'how can one as much as think that there is a fault'? This particular sense of the term vārtika may apply to a vārtika or vyākaraṇa, but not here. The vārtikakāra's comment on the bhāṣya commentary on *sa ya evam vit* may appear to contradict, but in reality, it is a clarification. In every respect the vārtika truly brings out the sense of the bhāṣya.

(Summary)

## LOKOTTARAM CARITAM

(Rajnarayan Śāstri)

Brahma jñāna is necessary for mokṣa and it can be got through the study of the Upaniṣads. Dharmic rituals are prescribed in the Vedas, and these bring about the purification of the mind. Pūrvamīmāṃsā deals with Vedic dharmas and Uttaramīmāṃsā with Brahman knowledge. Śrī Sureśvara has expatiated on both. Vācaspati Miśra has commented upon one of his works. Sureśvara is largely quoted in *Nayana prasādinī*, a commentary on *Tatvapradiptkā*. Śrī Sureśvara has fully propounded the message of Sankara Bhagavatpada.

(Summary)

SRI SURESVARĀCĀRYA VIVṚTAH MAITREYYAI  
YĀJNAVALKYOPADEŚAH

(Vīcharaka)

Yājñavalkya's teachings to his wife Maitreyi are contained in the *Bṛhadāraṇyakopaniṣad* and are fully explained by the vārtikakāra. Atma alone is capable of giving happiness and none else. If anything seems to bring happiness it is because of the *ātman* that is in association with it. With a wealth of illustrations, it is explained that *atman* is the only truth. This constitutes *manana* and through *nidhidhyasa* is realised the Jiva-Brahma identity.



(Summary)

## SRI SUREŚVARĀCĀRYA AND ĀBHĀSAVĀDA

(Dr. Gaurinath Sastri)

In Vedānta there are three conceptions of the Jīva. One is that Jīva is caitanya limited by the mind (*antaḥkāraṇa*), the second that it is a reflection of Brahman and the third an illusion of Brahman. These are respectively *avaccedavāda*, *pratibimbavāda* and *abhāsavāda*, and they are all based on the authority of the *upaniṣads* and the *bhāṣya*. The spark in the fuel is an illustration of the first, the reflection of the sun in the water of the second. The difference between the *pratibimba* and *abhāsa vādas* is that in the latter the *pratibimba* is only illusory. Śrī Vidyāranya deals with this at length in the *Pancadasī* and the *Vartikakara* mentions the term *abhāsa* in several places, but from this it should not be deduced that the *Vartikakara* accepts the *abhāsa vāda* alone. *Ābhāsa* in the *sūtra-ābhāsa eva ac* signifies only reflection (*pratibimba*). Just as the face takes its *pratibimba* (image) in a mirror Brahma caitanya takes its image in the *antaḥkāraṇa*. This will show that the *Vartikakara* supports only the *pratibimba vāda* and not *abhāsa vāda*.

## SAMBANDHA VĀRTIKA ADHIKĀRIPARIKṢĀ

( K S Venkatarāma Sastrī )

*Sambandha Vārtika*, which is the introduction to the *Bṛhadāraṇya bhāṣya Vārtika*, deals with the problems of competence, subject matter, authority and co-ordination. One who with *Vatāgya* renounces karma and is keen for realization is qualified to investigate into the Upaniṣadic truth. The Vārtikakāra rejects the Mīmāṃsaka's standpoint regarding the necessity for karma and answers their contention that *śabda* cannot impart *jñāna*. *Mukti* is the real state of the Self as Sachchidānanda Brahman and is not anything to be acquired. *Ajñāna* hides this state, and when it is removed, the real state of *gnāna* and bliss stands revealed. The competent aspirant must investigate the truths of the Upaniṣads to secure *jñāna*.



1. *Sri Sureśvarācārya ; His contribution to Indian Philosophic Thought* ... 1  
*Svami Virupakshananda,*  
*Sri Ramakrishna Mission, Madras.*
2. *Sureśvarācārya's 'Naiṣkarmyasiddhi'* ... 11  
*Prof. M. K. Venkatarama Iyer, M. A.,*  
*(Gold Medalist)*  
*Formerly Professor and Head of*  
*the Department of Philosophy,*  
*National College, Tiruchirappalli.*
3. *Advaita and Ethics* ... 21  
*Svami Adidevananda,*  
*President, Sri Ramakrishna Mission,*  
*Mangalore.*
4. *Sureśvarācārya :*  
*The Great Advaita Philosopher* ... 25  
*Dr. (Miss) Anirba Sen Gupta,*  
*M. A., Ph. D.,*  
*Reader in Philosophy—*  
*Patna University and Head of the*  
*Department of Philosophy,*  
*Magadha Mahila College, Patna.*
5. *The Truth Eternal* ... 32  
*A. V. Venkatasubban, M. A.,*  
*Retd. Joint Secretary,*  
*Ministry of Home Affairs,*  
*Govt. of India, New Delhi.*

6. **Sambandha Vārtika of Sureśvarācārya ...** 37  
 T. V. Anantaramaseshan, M. A.,  
 Asst. Editor 'The Hindu'.  
 (Formerly, Lecturer in Economics,  
 Loyola College, Madras)
7. **Ācārya Sureśvara — the Unique Syncretist** 47  
 V. Venkatachalam, M. A.,  
 Vedanta Siromani; Vedanta Vīsarada,  
 Head of the Department of Sanskrit,  
 Vikrama University, Ujjain.

SRI SUREŚVARĀCĀRYA:  
HIS CONTRIBUTION TO  
INDIAN PHILOSOPHIC THOUGHT

— Swami Virupakshananda

Never has a system of thought so dominated the cultural history of India as the *Advaitic* Thought. It has ever been the Soul of the East. The subtle infusion of this Asiatic soul has rejuvenated many a wearied body. It has been the effective cure to the 'pessimistic oriental stoicism of Schopenhauer and the despondent epicureanism of Renan', as it had been to the *viṣāda* of Arjuna, of epic fame. Ever since the dawn of civilisation this Monistic Philosophy has been shaping the speculative thought in India. As Swami Vivekananda puts it, it has saved India and her hoary culture from dogmatic slumber and materialistic onslaught twice, once when the Buddha brought the *Vedāntā* to light and gave it to the people, and again, when Sankaracarya arose and revived the *Vedānta* Philosophy.<sup>1</sup>

It was given to Sankara, in whom "the devotion of Francis of Assisi, the intellect of Abelard, the virile force and freedom of Martin Luther and the political efficiency of Ignatius Loyola united<sup>2</sup>", to formulate and establish the *Advalta Vedānta* as the basis of every religious sect that India has known. By his enlightening dialogues, encyclopaedic learning, and

unshakable confidence in the utter perfectibility of man, he attracted a number of disciples. Some came to argue, but remained to pray; some challenged but renounced to serve and to spread his message. Śrī Sureśvarācārya is one such luminary who challenged the Master. The challenging soul of the hardened *Mīmāṃsaka* must have found a new joy in combating the dialectic skill of Śankara. Never had he experienced a tougher kind of dialectical wrestling which incidentally turned him into a passionate lover of Wisdom and an ardent follower of his Master. The redoubtable challenger remained to follow the foot-steps of the Master and dedicated his life to interpret, amplify and vindicate the thoughts of his divine Master.

General tradition equates Sureśvara with Maṇḍana, the doughty champion of *Pūrva Mimāṃsa* before he was converted to the *Advaitic* view and way of life, and also with Viśvarūpa. In his *Śankara-Digvijaya*, Vidyāraṇya identifies Maṇḍana with Viśvarūpa.<sup>3</sup> This equation has been regarded by many scholars as untenable. Maṇḍana is the author of *Brahma Siddhi* and Sureśvara is the author of *Naiṣkarmya Siddhi*. The doctrinal differences in the two works have, to a great extent, been marshalled to set aside the traditional view of equation.<sup>4</sup> Some hold that there existed two different personalities bearing the same name. One who was met by Śankara on his way to Viśvarūpa, died as a *gṛhastha*; and the other, known also as Viśvarūpa and Umbeka, was converted by Śankara to his view-point and was

ordained a *Sannyāsin* with the new name of Sureśvara and was placed in charge of Śringeri Mutt. Of the two, the former does not lay any claim to literary fame whilst the second Maṇḍana alias Viśvarūpa is the reputed author of many works in various fields.<sup>6</sup> Thus an assertive conclusion either way has become hardly possible. Long ago the wise old Socrates said to Crito, "Do you then be reasonable and do not mind whether the teachers of philosophy are good or bad, but think only of philosophy herself". With slight modification the same sentiment can be reechoed for our benefit. "Do you be reasonable and do not mind the equation of two different personalities; but think only of philosophy herself".

Sureśvara stands out in undiminished splendour among the post-Sankara philosophers. His celebrated *Naiṣkarmya Siddhi* and *Vārtika* on the *Bṛhadārāṇyaka-bhāṣya* are very often quoted as an authority by later philosophers. In all, five works have been attributed to him. Tradition has it that immediately after his conversion into *Sannyāsūśrama*, Sankara commanded Sureśvara to write a *Vārtika* on his *Sūtra-bhāṣya*. The pupils of Sankara distrusted the genuineness of Sureśvara's conversion and feared that he, an incorrigible *karmaṭha* prior to his conversion, might misinterpret *Sūtra-bhāṣya* to favour his own ideals. Pained at this, Sankara commissioned Sureśvara to vindicate his stand by writing an independent treatise. The result is *Naiṣkarmya Siddhi* in which the author takes particular care to interpret, amplify and vindicate the thoughts of

his divine Master. It has five commentaries, viz., *Bhāvatāttvaprakāśikā* by Citṣukha, *Vidyāsurabhi* of Jñānāmṛta, the pupil of Uttamāmṛta, *Naiṣkarmya-siddhi vivaraṇa* of Akhilātman, the pupil of Daśarathapriya, *Sārātha* by Rāmadatta and *Candrikā* of Jñānottama. He also wrote, at the behest of his Master, a *Vārtika* on the *Bṛhadāraṇyakopaniṣad-bhāṣya*, consisting of 11,151 verses. Here he elucidates, elaborates and often improves upon the masterpiece of his Master. It is considered second only to the masterpieces of Śankara and is widely quoted as an authority by the later writers. This has been commented upon by Ānandagiri in his *Sāstraprakāśikā* and by Ānandapūrṇa in his *Nyāyakaḷpalatikā*. He wrote a similar *Vārtika* on the *Taittirīyopaniṣad-bhāṣya* which throws much light upon the text and the *bhāṣya*. By virtue of the *Vārtikas* he wrote, Sureśvara is popularly known as the *Vārtikakāra* in the *Advaita* tradition. The *Manasollāsa*, a metrical commentary on Śankara's *Dakṣiṇāmūrti Stotra*, and the *Pañcikaṛaṇa Vārtika* based on a prose work of Śankara's, named *Pañcikaṛaṇa*, are also ascribed to Sureśvara, though scholars are not unanimous in ascribing the originals to Śankara.

If one wants to have a peep into the individual viewpoints and the doctrines of Sureśvara one must investigate *Naiṣkarmya Siddhi*, his independent treatise. It presents, in the words of the author, "the quintessence of *Advaita Vedānta*". The book is divided into four *adhyāyas*. The first Chapter



deals with the validity of the claims of Vedic rites and of *Jñāna* as means for the attainment of Wisdom, and concludes by establishing that only *jñāna* is the means, though *karma* might be of use in the preliminary stage. The second chapter is devoted to the exposition of self-realisation which can be attained through the proper interpretation of the unity of *Ātman* as taught by the *Śruti* texts like *tat-tvam-asi*. In the third chapter is discussed the nature of nescience (*ajñāna*), its relation with the self, and the manner of its destruction. The fourth chapter summarises the central ideas of the first three chapters and concludes with a description of the nature and behaviour of the perfected sage and the enlightened *sādhaka*.

The word *Naiṣkarmya siddhi* occurs for the first time in the *Bhagavad Gītā* in the verse *Naiṣkarmya siddhiṁ paramāṁ sanyāsēnābhigaccati* where the Lord tells Arjuna, "One attains the supreme state of freedom from action, by renunciation"<sup>7</sup> Students of *Gītā* know it well that one can not attain the stage of *Naiṣkarmya* by mere nonperformance of action nor can one attain perfection by mere renunciation.<sup>8</sup> Following this, *Śankara* too interprets *naiṣkarmya siddhi* as the perfect state of one who has transcended all *karmas* through the knowledge of the highest Self and remains as the actionless Self, and he fortifies this by quoting another verse from the *Gītā* where the Lord says, "Renouncing all actions by thought and being self-controlled, the embodied one rests happily in the nine-gated city, neither at all acting

nor causing to act.<sup>9</sup> To Sureśvara too the term *Naiṣkarmya siddhi* is a synonym of *samyagjñānam*—right intuition. When right knowledge dawns, the self together with all that is objectivity in knowledge vanishes. All the illusory appearances are due to the imposition of *ajñāna* on the pure Self, which, however, cannot thereby disturb the unity of the Self. A correct intuitive knowledge of the *Vedāntic* texts like *tat-tvam-asi* wipes out ignorance about the Self. This becomes clear when the author himself says that “religious ceremonies do not, and cannot lead to the holy and that for the released there is no more need for religious activity” (4. 54).

In his *Naiṣkarmya siddhi* Sureśvara refutes in a number of verses the theory that *mukti* can be attained by the observance of obligatory *karmas* to the exclusion of *kāmya* and *niṣiddha karmas* by stating that obligatory action cannot lead one to release. It is intended to remove sins and not for conferring liberation which can be had only by right intuition of the unity of *Ātman*. *Ekātmasya svata evānubhavamātrātmakatvāt*, (1-89). The view of *Bhartṛprapañca* that conjunction of knowledge and work (*jñāna-karma samuccayā*) leads to liberation and that Brahman was both *Dvaitic* and *Advaitic* too has been refuted (1-68 to 78). The view that ‘by injunctions like ‘*ātmetyevamupāsita*’ and ‘*ātmā vāre draṣṭavyaḥ*’ etc, the seeker is directed to perform action’ is also summarily rejected by a remark that ‘the knowledge of Reality which destroys the ignorance about the Self, the root-cause of all evil,

and which is the means of release is not dependent on human effort to be the theme of injunction. (see *saṃbandokti* 1-88 *Apuruṣatantratvād vastuyāthātmya-jñānasya*).

Surcśvara's interpretation of the *Vedāntic* text 'tat-tvam asi' is elaborately given in the second Chapter of *Naiṣkarmya siddhi*. The intuitive apprehension of the true meaning of *tat-tvam-asi* alone gives rise to direct realisation of the unity of *Ātman* which is the only means of obliterating all traces of *avidyā*. A mere empirical mode of reasoning (3-47 to 50) or even the *Vedic* reasoning (3-57, 113; 4-15, 16) is not capable of delivering the goods with regard to the knowledge of the intuition of the unity of the Self.

Surcśvara's deep reverence for and devotion to his Master is highlighted in his *Naiṣkarmya siddhi* as well as in his *vārikas*. As if to compensate for the distrust of his brother disciples, he pays reverence to his teacher in many verses at the beginning and at the end of the work and endeavours in many ways to vindicate the soundness of his entire work on the authority of *Śankarācārya*. He speaks of the far-reaching fame of the Master in superlative terms (*Tait. Vār. 1-2*; *Bṛh. Vār. 6-5-25*); he calls him the teacher of teachers (*gariyasi*, N. S. 1-2); he even draws comparison between the Philosopher and God when he says that "the knowledge which flows from the feet of Viṣṇu, which destroys the entire worlds of births; that knowledge Śankara had acquired through Yoga. I worshipped with great

devotion the all-knowing preceptor established in *Brahman* and accompanied by a group of sages, I received through him, the treasure of excellent virtues, the knowledge illumined by the Upaniṣads, even exactly as Bhagratha obtained the sacred Ganga from Śiva. I have communicated it to the sufferers, out of compassion for them, so that with that their transmigratory existence may be put an end to" (N S. 4-76).

Sureśvara's ironical sneerings may sometimes baffle his opponent, sometimes they may even incense him, for he sarcastically says, "Thus you prattle in dream, since sleep has enveloped your spirit (1-89)", sometimes he becomes even harsher and does not hesitate to call his opponents dialectical dogs (*tārkiḱaśvabhīh* 2-85). His contempt for the body and his tirade against women in general betray a sort of enmity to the world. He calls the body an impure mass (2-13), a skeleton fit to be the cause of the quarrel of dogs (*Śvabhīh krodikṛte dehe etc.*, 2-13-14). Many a half-truth and untruth is treated mercilessly. His indictment, 'Thus O (foolishly) happy hearts, allow (yourselves) to be blown up in spirit in respect of your cleverness, your words echo too very loudly, and your understanding is clouded with the smoke of the sacrificial hall (1-22)' reveals his impatience with the opponents.

It is a stupendous task indeed to attempt to present the mind and work of a genius like Sureśvarācārya clearly and distinctly. But a sustained effort at probing into the fundamental contents of his

works will leave one and all the wiser and help clarify and solve many a riddle of *Vedānta* philosophy. *Naiṣkarmya siddhī* is a spiritual treat in which logic and mysticism play their parts freely, hand in hand, in close co-operation. The author has Knowledge; he has a felicity of expression; he declares that *happiness* is the supreme good of human life; and points the way to it. *Brahman* is *happiness itself*; *brahma sūkṣātkāra* culminates in *ātmānubhava*; the golden mean that leads to *Bliss of Self* is the right intuition of Unitive Knowledge. *Let the wise then drink deep its nectar and be free!*

---

#### NOTES

1. Complete Works of Swāmi Vivekānanda, Vol. II, pp. 138-139. Advaita Ashrama, 1963.
2. Sister Nivedita.
3. *Sānkara Digvijaya* of Vidyāraṇya, VIII-63.
4. After a thorough examination of the entire data, Prof. Kuppuswāmi Śāstri, in his historic introduction to *Brahma Siddhī*, comes to the conclusion that Maṇḍana Miśra is not to be identified with Sureśvara. See introduction to *Brahma-siddhī*.
5. See foreword by P. P. Subrahmanya Śāstri to *Brahma-siddhī*.
6. *Naiṣkarmya Siddhī* 1-1. *Aṭeṣa-vedānta-sūrasaṅgraha*.
7. Bhagavad Gītā, XVII-49.
8. *Ibid* III-4.
9. *Ibid* V-13.

# ŚUREŚVARĀCĀRYA'S NAIŠKARMYA SIDDHI

— M. K. Venkatarama Iyer.

Though Sureśvara is generally known as the Vārtikakāra by reason of the gloss that he wrote on Sri Sankara's *Taittiriyaopaniṣad Bhāṣya* and *Brihadāranyakopaniṣad Bhāṣya*, he is equally famous as the author of *Naiṣkarmya siddhi*. There is evidence in this work (I. 3; IV. 74, 76) to show that he wrote it at the express command of his Guru, Sri Sankara. The latter had a special reason in asking him to write on this particular theme. Before his conversion to the Advaitic persuasion, Sri Sureśvara was a staunch Mimāmsaka and was known as Mandana Miśra, though he may not be the same as the Mandana Miśra, well known as the author of *Brahma siddhi*. Eminent scholars like the late Prof. M. Hiriyanna of Mysore and the late Prof. S. Kuppaswami Sastri, have adduced sufficient proof to show that the two Mandana Miśras are different. They base their conclusion on the doctrinal differences between the *Brahma siddhi* of Mandana Miśra and the *Naiṣkarmya siddhi* and the *Vārtikas* of Sri Sureśvara. Yet other scholars like the late Prof. P. P. S. Sastri, have shown that the doctrinal differences are not after all so formidable as to be incapable of explanation in view of the debate and the consequent conversion that came upon Mandana Miśra. We need not however enter into this question as it is not quite relevant to our theme.

As a Mimamsaka, Sureśvara firmly believed that the meticulous performance of the karma enjoined in the earlier portion of the Veda was the royal road to liberation and the propositions in which works were enjoined were the truly purportful ones. Assertive sentences like 'Tat Tvam Asi' were somehow to be made subservient to the former. Jnana regarding the nature of the Self, as conveyed by the assertive sentences was considered ancillary to the proper performance of Vedic ritual.

In the course of his walking tours through the length and breadth of this vast sub-continent, Sri Sankara first happened to meet Kumarila Bhatta, one of the chief exponents of release through works. But as he was immolating himself for an offence that he gave to his teacher, there was no question of holding a dialogue with him. At his suggestion Sri Sankara proceeded to Māhiṣmati to meet Mandana, his direct disciple.

The dialogue with Mandana lasted several days, his learned wife acting as the umpire. At length she gave the decision in favour of the visiting Sanyasin. In fulfilment of the original agreement, Mandana had to embrace the ascetic way of life, and he did so, cheerfully. Thereafter he came to be known as Sureśvara. He was the first disciple of Sri Sankara and proved to be an able exponent of the Advaita of his master. The latter had so much faith in him that he asked him to write on a theme which meant the complete negation of his previous convictions.

The term *Naiṣkarmya siddhi* literally means the attainment of the state when action, sacred or secular, ceases to be binding on an individual. निर्गतं कर्म यस्मात्स निष्कर्मि । निष्कर्मणो भावः नैष्कर्म्यम् । तस्य सिद्धिः निश्चयः । The term occurs in the Gita (xviii-49). Sri Sankara explains it as follows:—

निर्गतानि कर्माणि यस्माच्चिक्वियद्ब्रह्मसंयोज्यास्त निष्कर्मा तस्य भावो नैष्कर्म्यम् । नैष्कर्म्यं च तत्सिद्धिश्च सा नैष्कर्म्यसिद्धिः । नैष्कर्म्यस्य वा निष्क्रियामरूपानुगमन लक्षणस्य सिद्धिः निष्पत्तिः । It is the state where action ceases to be obligatory on a man by virtue of his knowledge of the actionless Brahman as his very Self. According to the second explanation given by Sri Sankara, *Naiṣkarmya Siddhi* is the attainment of the state in which one remains firmly established as the actionless Self. There is not much difference between the two explanations. Whether it is the realisation of the identity of one's Self with the Brahman as transcending the sphere of relativity or the realisation of one's own true Self as neither an agent (*kartā*) nor an enjoyer (*bhoktā*), it makes little difference. It is this realisation or the attainment of the perfect state where one feels that he is a *kritakriya* that is connoted by the term *Naiṣkarmya siddhi*. Needless to say that the acceptance of the command to write on this theme meant for Sureśvara a thorough break with his past, a complete repudiation of his previous convictions. Asking him to write on this theme meant also that Sri Sankara was convinced that his disciple's conversion was complete and without reservations of any kind. It incidentally set at rest the misgivings in the minds of the other disciples.



The work is partly in verse and partly in prose. There is reason to think that the verse portion, amounting to over four hundred slokās, constituted the original work and that the prose passages, called *Sambandhokti*, were added later to supply connecting links between the verses, though the latter by themselves make a coherent whole. The book is divided into four chapters. The first is mainly polemical, devoted as it is to the refutation of rival views regarding the means to release, whether it is solely *Karma*, or solely *Jnana* or a combination of both, what is known as *Jnana Karma Samuccaya*. The second sets forth the qualifications, general and special, requisite in the student who could profit from the instruction of the Guru. The third deals with the nature of Brahman, whether it is *Saguna* or *Nirguna*, the relation between the Atman and Brahman and whether the Self stands in need of any proof. The fourth sets forth the nature of release, both here and hereafter. Though the work is called '*Naiṣkarmya siddhi*', it is really a work on Advaita metaphysics, as the author himself says in one place अशेषवेदान्तसारसंग्रहप्रकरणम् । It is modelled after Sri Sankara's *Upadēśa Sāhasri*. Many quotations from it are to be found in the concluding chapter. Hence it serves as a very useful introduction to the study of *Upadēśa Sāhasri*. Though there are several commentaries on this work, the best known is the *Candrikā* of Jnānōttama. It is very lucid, neither too brief nor too elaborate. It comes to the rescue of the student just where he feels some difficulty in following the exact sense of the original text.

In the initial passage the author sets forth the aim of the work as follows "All living beings, from Brahma down to the tuft of grass, exhibit a natural tendency to be rid of every kind of misery and therefore make a spontaneous effort to overcome it. But the experience of misery arises from our association with the gross physical body which, in its turn, is the outcome of the merit and demerit that we have acquired in our previous janmas. So long as we engage in action, whether of the enjoined or of the prohibited variety, we cannot avert the accumulation of merit and demerit. As long as we are under the sway of desire and aversion, we cannot abstain from action; desire and aversion are our natural reactions to the attractive and repulsive feature of the objects outside of us. Objects will appear to be outside of us and therefore as not belonging to us so long as we are in the grip of the sense of dualism. Belief in dualism is the natural outcome of primeval ignorance. Therefore ignorance is the ultimate cause of misery. The only effective remedy is to acquire right knowledge regarding the nature of the Self. With the advent of right knowledge, ignorance will automatically disappear and the bliss that is natural to the Self will stand self-revealed. Misery will then vanish without leaving a trace behind.

From this statement it is clear that in the author's opinion, *jnana* or knowledge relating to the real nature of the Self, as embodied in *Mahāvākya*s like 'Tat Tvam Asi' is the direct and infallible means to the attainment of everlasting bliss which is only

another name for liberation or Mōkṣa. Works, though of the enjoined variety, will only serve to forge fetters in the shape of *punya* or merit. This will entangle us in the cycle of repeated births and deaths. Continued performance of *karma* will further strengthen the sense of dualism.

Surēśvara, therefore, first joins issue with the Mimamsakas who maintained that the proper performance of *Nityakarma* and firm absention from *Kāmya* and *Pratiṣiddha Karma* was the sole means to the attainment of liberation by which they meant only freedom from the limitations of empirical life. *Kāmya* and *Pratiṣiddha Karma* was no doubt to be given up but not *Nitya Karma*. Performance of the former will entail the sin of commission while absention from the latter will entail the sin of omission. At no stage in life could one think of giving up the performance of *Varnāśrama dharma* which is what they mean by *Nityakarma*.

As a natural corollary they maintained that passages which enjoined action were the really purportful ones and assertive propositions like *Tat Tvam Asi* were subordinate to the former. Taken by themselves the latter were meaningless. This view they stated in the form of a sūtra; "आद्यस्य कियार्थत्वादानर्थक्यमतवर्थात्" .

It is well known that Sri Sankara has combated this view most vigorously in his commentary on *Vedānta Sūtra* I. i. 4. Sureśvara states the *Pūrvapakṣa* in I. 9. मुक्तेः किं गमिः सिद्धत्वात्प्राज्ञानं तत्र करोति किम्. By way of refutation, Sureśvara points out that so long

as we believe in the binding nature of *Kāmya*, all talk of release is meaningless. In the first place, it is not quite possible to completely abstain from *Kāmya* and *Pratiṣiddha Karma* (I. 81.). Even granting that we succeed in abstaining from them, the performance of *Nitya Karma* will only serve to confirm our belief in dualism and not dispel it (I 96.). The prescription of abstention from *Kāmya* and *Pratiṣiddha Karma* and the correct performance of *Nitya Karma* amounts only to tinkering with the problem and not solving it. Further analysis is necessary to discover the root cause of our bondage. It is foundational ignorance and the sense of dualism resulting from it. Just as darkness can be removed only by light and not by any other means, even so fundamental ignorance can be dispelled only by the acquisition of right knowledge relating to the Self. This conclusion he states in unmistakable terms in I. 99.

अतः सर्वाश्रमाणां तु वाङ्मनःशायकर्मभिः ।

स्नुष्टितः न मुक्तिः स्याज्ज्ञानादेव हि सा यतः ॥

Though Sureśvara, like his Guru, denies the competence of *Nityakarma* to lead to release directly, he yet admits that it is indirectly helpful and that it is incumbent so long as right knowledge has not dawned on us. It is *Ārādupakāra* (I. 45 and I. 52). The performance of *Varnāśrama dharma* will help to eradicate the selfishness natural to man and make him conscious of the rights and privileges of others. It will rationalise his first impulses and cure him of his egoism and narrow-mindedness. Jnanottama states all this in his commentary on I. 45.

Even among the Vedantins there were thinkers who took the view that the real import of a vedic sentence was to convey an injunction; not about the performance of ritual, but about the practice of meditation. The statement in *Bṛihadāraṇyaka* (I. iv. 7) 'आत्मेत्येषोपासीत' is an instance in point. Assertive propositions like *Tat Tvam Asi* are subsidiary to such injunctive propositions as furnishing the theme for meditation. Knowledge of the highest reality as revealed in the so-called *Mahāvākyas*, is only mediate and indirect, for such is the nature of all knowledge conveyed through language. A further process known as *Bhūvana* or *upāsana* or *Prasamkhyāna* is necessary to transmute the mediate and indirect knowledge into an immediate and direct experience. Hence after receiving the instruction about *Mahāvākyas*, the student should engage in deep meditation. This is what is enjoined in Vedic statements. Long and continued practice of *Prasamkhyāna* will result in Brahman-realisation. Between receiving the instruction and the final realisation, there is an interval, long or short, when the student still continues in the realm of dualism. Hence he cannot abstain from *Nityakarma*.

This is the view of Brahmadatta and Mandana Miśra. In the *Sambandhokti* to I. 67 Sureśvara refers to this view though he does not mention the names of the thinkers who upheld it. Manottama identifies them as Brahmadatta and Mandana Miśra.

*Prasamkhyāna* is defined in III 90 as concentration or one-pointedness of mind brought about by continued practice.

अभ्यासोपचयाद्बुद्धेर्यस्यादेकाग्रयमेव तत् ।

In his *Brahmasiddhi* (P-35) Mandana Miśra states the need for *Prasamkhyāna* as follows:—

निर्विकल्पितत्वादास्रायादग्रगतात्मतत्त्वस्य अनादिमिथ्यादर्शनाभ्यासोपचितवलकत्संस्कारसामर्थ्यान्निमग्धावभासानुवृत्तिः । तद्विवृत्तयेऽस्यभ्यदपेक्षम् । तच्च तददर्शनाभ्यासो लोकसिद्धः । अभ्यासो हि संस्कारं द्रढयन् पूरेसंस्कार प्रतिबन्ध स्वकार्यं संतनोति ॥

Like Brahmadaṭṭa, Mandana also believed that in the interval between the hearing of the *Mahāvākyas* and the transmutation of that knowledge into an immediate experience, *Nityakarma* continues to be binding on the student.

Sureśvara denies the need for *Prasmkhyāna* after the hearing of *Mahāvākyas*. Assertive propositions like *Tat Tvam Asi* are self-sufficient in the matter of producing the direct and immediate experience of one's identity with Brahman. Since the latter is no other than the Self of the knower, the knowledge will be direct and immediate and not mediate and indirect. *Prasamkhyāna* may be useful in excluding distractions but for that reason it cannot be exalted to the status of a new *Pramāṇa*. Giving undue importance to *Prasamkhyāna* is as absurd, says Sureśvara, as making the eye the organ of taste:

अज्ञातममनादस्य प्रमाणं सद्सीति चे ।

युमुत्स-तंऽन्यतः कुर्युस्तेऽङ्गापि रसवेहनम् ॥ (III. 117)

There is a detailed refutation of the view held by Brahmadaṭṭa and Mandana Miśra relating to the need for *Prasamkhyāna* and the subordinate position

to be assigned to assertive propositions and exalting the injunctive passages to the rank of the really purportful ones in I 67, III 88-93 and III 123-126, but it is not possible to state it in full in a short paper, nor is it necessary.

Bhartṛprapaṅca was also a thinker of some eminence in the Pre-Samkara period. He also believed in *Jnana-Karma-samuccaya* though for a different reason. His notion of Brahman was that of an identity in the midst of differences. The one, by virtue of an inner impulse, has gone forth into the forms of the Many. Both the One and the Many are equally real. Just as the ocean is one when viewed as a mass of water but many when it appears as waves, foam and bubbles and just as the tree is one when viewed as one organism but many when viewed as branches, twigs, foliage, flowers and fruits, even so Brahman is one when viewed in isolation but many when taken in relation to the world of diversity. Since diversity is quite as real as Brahman, social obligations become binding on the individual even in the final stages. To appreciate the unity of Brahman *Jnana* has to be acquired. Thus there is need for both *Jnana* and *Karma*.

Bhartṛprapaṅca's notion of the concrete universal is self-discrepant. The substance of Sureśvara's criticism is that the notion is a self-contradictory one and the same entity cannot be both identical with itself and at the same time different from itself. Identity and difference are polar opposites and are mutually incompatible. They can

no more inhere in the same entity than darkness and light in the same room.

Viewed properly, it will be found that the one is the reality and the many are mere appearances. With the advent of right knowledge the appearances are bound to fall away and with them the need for obligatory deeds also. Śūresvara's criticism of the notion of the *Concrete Absolute* is contained in I.68-78.†

He goes further and 'points out that if *bhēdha* and *abhēdha* subsist together even in the final state the fate of the man who has realised his identity with all the finite selves will indeed be very miserable since he will have to share all their sorrows, if also their joys. In his unenlightened state he had to experience only the incidence of sorrow that fell to his lot, but in the enlightened state, by virtue of his feeling of identity with all the Jivas, he has necessarily to bear all their sorrows also. Thus the last condition becomes worse than the first. This is the *reductio ad absurdum* of the notion of *bhēdābhēda*. He states it thus :

भिन्नाभिन्नं विशेषैश्चेद्दुःखि स्याद्ब्रह्म ते भ्रुवम् ।

अशेषदुःखिता च स्याद्दो प्रशामवादिनाम् ॥ (I.78)

Brāhman cannot therefore be viewed as an identity in the midst of differences, but as bare identity with the appearances of difference. It is not *Pariṇāmi Nitya* but *Kūṣastha Nitya*; with the dawn of right knowledge, the apparent differences will drop away and the obligation to engage in *Nitya Karma* will automatically cease. The attainment of the state when action ceases to be binding on a man is called *Naiṣkarmya Siddhi*.



We again and again read in the sacred texts that a knower of Reality transcends good and evil. Western scholars have very often misunderstood texts of this nature. It may mean also when an evil act is committed before an enlightened sage he not only is indifferent to such act but also does condone it. So there is a necessity for explaining this transcendence of the moral values.

The last portion of the fourth chapter of *Naiṣh-karmyasiddhi* concerns itself with an elucidation of the characteristics of the enlightened sage. The perfected sage can never indulge in evil. It is true that enlightenment destroys the life of mortal coil; it wards off prohibitions and injunction to actions.<sup>1</sup> Knowledge removes the entire bondage by merely coming into being. Once when the basic avidyā is removed, misconception arising by that avidyā also goes.<sup>2</sup> Time and space are the effects of delusion; and the Self is not connected with them. When the Self is known there is no knowledge to be acquired, no ignorance to be destroyed.<sup>3</sup> Therefore the sage has no duty to perform. The illusion of the snake may have been sublated, but the trembling arising from the fear of the snake may linger a little while. In the same way, even after the delusion is destroyed, the effects of delusion may linger a little longer.<sup>4</sup> This is proved by our own experience and tradition.

An uprooted tree is destroyed by withering away; in the same way the sage who has known the Self lives till the cessation of his body is effectuated by the exhaustion of his actions<sup>5</sup> But he can never indulge in evil with impunity. Sri Sureśvara asks: If the man who has awakened to the non-dual Consciousness behaves as he likes, what is the difference between a dog and a man of knowledge in the matter of eating impure food!<sup>6</sup>

The reply is as follows: Licentious conduct is impossible for an enlightened sage. Vice springs from ignorance. From ignorance arises licentious conduct. How can there be licentious conduct in a condition which is the fruit of highest virtue? The *Gītā* also says, 'All his endeavours are free from taint of desire'.<sup>8</sup> Even the seeker after enlightenment hates evil even though he is liable to temptations. One of the pre-conditions of spiritual life is he should shun happiness arising from the life of senses—here and beyond. The sage, having become one with the Supreme Object, descends to no evil. His holiness and virtue are spontaneous. They are not sustained by ethics of closed morality. They are the dynamic expression of his spiritual life. There is a difference between closed morality and open morality. While open morality is spontaneous expression of a holy life, the closed morality is the expression of man-made laws and injunctions. If the former is vertical the latter is horizontal.

So according to Sri Sureśvara the enlightened sage can never indulge in evil though he is not

bounded by moral obligations. He quotes the telling words of Sri Sankara that even a hungry man does not like to eat poison, let alone a well-fed person unless he is an idiot ?

While transcendence of evil is negative, transcendence of good requires elucidation. Transcendence of the good has a different meaning. He transcends the good in so far as it is a means, an effort for self-realization. Means symbolizes moral and spiritual struggle. It is the result of a moral and spiritual effort. Even after moral struggle is transcended the goodness remains as a spontaneous expression of his nature. It is a superior form of sattva conducive to higher form of meditation. An enlightened man is not obliged to fight evil. The good is transmuted into the holy life. Underneath the good evil may persist though controlled and subjugated, but the holy life manifests after the entire destruction of the evil. In the holy life the *Viśuddha-Sattva* exercises infinite power and influence.

He has reached the pinnacle of moral discipline. This is the state of the *Jivan-Mukta*. His release is not a post mortem condition but immediate awareness of bliss.

The man of enlightenment, says Sri Sureśvara, accepts everything and denies everything, that is he accepts the world of duality from empirical standpoint and denies the world from the standpoint of ultimate reality<sup>10</sup>. Apart from virtues like non-hatred which are natural to him and not of the

nature of means, he engages himself with beneficent action in the *Gītā* way. He accepts the world in the lokasaṅgraha sense of the *Gītā*. Moreover, Sureśvara accepts the value of Śruti in the performance of the duties of an enlightened sage. Study of the scriptures, teaching, helping others in accordance with their nature, non-violence, practice of Dharma, etc., -mean accepting the world. These can never be given up as long as the body lasts but a man of wisdom knows that Ātman is the highest reality. It is well to remember that the author of *Naiṣkarmyasiddhi* became the first pontiff of Śringeri Piṭha and managed all the empirical business of the Maṭha.

It is exhilarating to learn that the Samādhi of Sri Sureśvara is being renovated and a Commemoration volume is planned.

#### NOTES

1. *Naiṣkarmya Siddhi*, IV. 56
  2. *Ibid* IV. 57
  3. *Ibid* IV. 58
  4. *Ibid* IV. 60
  5. *Ibid* IV. 61
  6. *Ibid* IV. 62
- बुद्धाद्वैतसत्त्वस्य यथेष्टाचरणं यदि ।  
शुनां तत्त्वदृशं चैव को भेदोऽशुविभङ्गणे ॥
7. *Ibid* IV. 63
  8. IV. 19
  9. *Upadeśa-Sahasri*, XVIII. 232
  10. *Ibid* IV. 51

SUREŚVARĀCHĀRYA:  
THE GREAT  
ADVAITA PHILOSOPHER,  
(800 A D )

— Dr Anuma Sen Gupta

That birth is not really a painful fall from the height of Divinity is best illustrated by the glorious life of Sureśvarāchārya who belonged to the ninth century A. D. By coming to this world, he was indeed able to serve the humanity as a source of never ending Light for ages to come. He was a worthy heir to Advaita tradition because he had to his credit a number of Advaita texts of which *Naiskarmyasiddhi* was the most valuable.

*Sureśvara and Maṇḍana Miśra*

The commonly-held view about Sureśvara is that he and Maṇḍana were not two different persons. It was Maṇḍana who was named Sureśvara when he became a disciple of Śaṅkara. Maṇḍana was a great *Mīmāṃsā* scholar, when he was defeated by Śaṅkara, he decided to become the pupil of Śaṅkaracharya. Prof Hiriyanna, however, is not in favour of identifying Sureśvara with Maṇḍana. According to him, Maṇḍana was the author of *Brahmasiddhi*, but nowhere in the available texts relating to Sureśvara, he was ever spoken of as the author of the said text. In his philosophical outlook also, Sureśvara differed fundamentally from Maṇḍana and so in the opinion

of Prof. Hiriyanna, he should not be identified with Maṇḍana Miśra.

*Some Aspects of his Philosophy :*

*Ābhāsavāda*:— In the Advaita Vedānta, we come across three important views regarding the relation between Brahman and the individual soul:—

1. Pratibimbavāda,
2. Ābhāsavāda,
3. Avacchedavāda.

Sureśvara was an upholder of *ābhāsavāda*. According to this view, *jīva* is a semblance (*ābhāsa*) of Brahman. Just as the *ābhāsa* of the face is different from the face and is false, in the same way, the semblance self (*cidābhāsa*) is different from Brahman and is false. Just as a jar, as different from its existence-part (*sadamśa*) is false, in the same manner, the *Jīva*, which as semblance is different from Brahman, is false. The *Jīva* is a mere appearance of Brahman in the *antaḥkāraṇa*. Since there are many *antaḥkāraṇas*, there are many *cidābhāsas* and so there are many *jīvas*. The *jīva*, however, is a mixed category. It is *cidābhāsa* plus *antaḥkāraṇa*. Being an *ābhāsa* of *cit*, it possesses consciousness, and being an *ābhāsa* in the *antaḥkāraṇa*, it seems to possess also *kartritva*, *bhoktritva* etc. which are really the characteristics of the internal organ. Again, this *ābhāsa* of *cit* is beginningless. It remains imprisoned in that internal organ till liberation. So, that *jīva* has to move round the cycle of births and deaths to reap the fruits of its actions,

The *Jiva* undergoes pleasure and pain according to its own actions and so it can never be regarded as non-different from Pure Immutable Consciousness. Just as pleasures, pains and their enjoyment are false, in the same manner the semblance enjoyers too are false. So, there can be no liberation unless the *cidābhāsa* is negated. Just as the form of a man (*puruṣa-svarūpa*) is realised only when the 'pillar-knowledge' or *sthānu-buddhi* is completely destroyed by *puruṣa-buddhi* in the same manner the nature of Brahman is realised when *jīva-buddhi* is completely negated by Brahma-awareness. The *samānā-dhikarāṇa* (apposition) between the *jīva* and Brahman is through sublation and not through identification.

The *ābhāsa* of *cit* in the *jaḍa* (unconscious) principle, cannot, however, be confirmed by logical arguments: but this is to be suggested as otherwise the apparently intelligent actions of the unconscious principle cannot be explained. The *antahkarana*, though unconscious, is yet acting in the manner of a conscious principle. So, to explain this apparently conscious activities of the internal organ, we have got to suppose the *ābhāsa* of *cit* through it. This view of the *advaita* has a close resemblance to *Sāṃkhya* because the latter also believes in the *cetanāvīṣṭa* (permeated with consciousness) condition of the *buddhi*. *Puruṣa*, however, does not undergo any change due to such *āveśa*. The intelligised *buddhi* acts in the manner of a conscious principle. (The intellect, which is essentially *sāttvika*, is very transparent and as such it bears close resemblance to *Puruṣa*.) There is beginningless *sannidhāna* between

the Buddhi and Puruṣa. In the bound condition, the Buddhi has no feeling like 'I am not conscious'; Jiva Puruṣa too which is caught in the snare of the intellect, is devoid of awareness in the form "I am not active." The absence of these two awarenesses which creates the bound condition is called *āveśa* and this is caused by *anādisannidhāna* and *aviveka*. Thus, both the sāmkhya and the advaita vedānta admit that in the bound condition, both cit and acit are perceived as one (*ekadarśanam*).

*Naiṣkarmya according to Sureśvara*:— In his Philosophy, Sureśvara has contended that emancipation cannot be obtained through performance of actions. It is the true knowledge revealed through *Vedānta vākya* which alone possesses the power of destroying ignorance completely; but action, which is not opposed to ignorance, cannot destroy it. Action thrives on ignorance and then blossoms into innumerable petals (in the forms of dharma, adharma etc.) which result in bondage and pain. Liberation is not anything which is produced: It is the same thing as destruction of ignorance and ignorance is destroyed only by knowledge. Daily and occasional duties only help the agent to purify his intellect and it is with this end in view that the aspirant is advised to perform his daily and occasional duties. (*Naiṣkarmyasiddhi* I . 50). Performance of daily duties results in the generation of merit; merit removes vices, and thereby the intellect is purified. Purified intellect then reveals the real painful nature of the world to the aspirant and this, in its turn, produces detachment to worldly



objects. Then the aspirant becomes extremely eager for liberation and follows the path of knowledge. Thus, action is only an indirect means (*upāya* by *paramparā*.) In fact, there is an antagonism between knowledge and action. Knowledge negates action. Just as a lamb cannot live in the company of a lion, in the same manner, knowledge and action cannot remain together in the same locus. So, knowledge must not be combined with the performance of duties (i. e., no *jñāna karma samuccaya*.) Since true knowledge and liberation are one and the same thing, it does not require the performance of the *nitya-naimittika* actions.

The view which Sureśvara has tried to refute so vehemently in his *Naiṣkarmyasiddhi* is *jñāna karma samuccaya vāda* of which Bhattriprapañca was an adherent. According to Bhatti the ultimate reality which is based on *dvaita* feeling is also real. So, the *prāmāṇya* of *karmakāṇḍa* must be admitted. There is, therefore, joint necessity for knowledge and action. But the *sāṃkhya* philosophy which is also dualistic is not in favour of the theory of *jñāna karma samuccaya*. According to *Pravacana bhāṣya* there can never be a synthesis of action and knowledge, just as dream objects and objects of waking experience can never be combined to serve any purpose of life. Sureśvara, however, has refuted the theory of *jñāna karma samuccaya* mainly on two grounds:—

- A. The conception of Reality as being both one and many is self-contradictory.

B. When oneness is realised and the otherness is removed by knowledge, there can be no duties to be performed.

We should remember that action which has been referred to in the *Naiṣkarmyasiddhi* by Sureśvara does not include *niṣkāma karma*. If we go through the texts carefully, we shall find that by action, he has really meant only the actions which are prescribed in the *Mimāṃsā* and which are all based on the feeling of duality. The different adherents of *jñāna-karma samuccava vāda* have interpreted actions in the sense of *vaidika* duties which pre-suppose a feeling of difference between the agent and his action. *Niṣkāma karma* which becomes possible only when the ego-sense is removed, does not pre-suppose duality. Hence, it is not improper to say that even in the opinion of Sureśvara, self-less action can be synthesised with knowledge and that there is no antagonism between the two. When Sureśvara describes the relation between knowledge and action as one of opposition, he really considers actions which are done with a sense of duality and which also bring about pleasures and happiness of this world or of heaven; but when the feeling of *sva* is absolutely destroyed, action is wholly spiritualised. To link one's life with the life of divinity is not only to lose one's existence as an individual but also to regain one's reality as egoless pure consciousness. In fact, when an individual has made himself totally free from the sense of agency, he does nothing even if he keeps himself engaged in disinterested social service. The freed soul works for the guidance of

men who are still steeped in ignorance. He is the doer of work and is yet not the doer because he has no sense of "I" and "mine". Disinterested service is the outer side of spirituality and knowledge is the inner side. The performance of actions in a disinterested manner is linked up with social consciousness which in turn produces the feeling of 'universal brotherhood'. Hence, selfless service cannot be decried. Sureśvara's main concern was to attack the *karma kāṇḍa* so as to refute the theory of *jñāna-karma samuccaya* and this he had done in his *Naiṣkarmya siddhi* with great success. Indeed the performance of actions based on the experience of duality and difference can never be synthesised with the advaita-realisation.

In the end may I offer my deep gratitude and sincere homage to Sureśvarāchārya whom I consider as the burning flame of advaita-vedānta.

---

## THE TRUTH ETERNAL

—A. V. Venkatasubban  
(New Delhi)

‘सत्यान्न प्रमदितव्यम् ।’

“Do not be negligent or casual regarding truth” commands the *Taittiriya Sruti*. Sri Sankara Bhagavatpada’s Bhashya for this is :

‘सत्यान्न प्रमदितव्यं प्रमादो न कर्तव्यः । सत्याच्च प्रमदनं अनृत-  
प्रसङ्गः— प्रमाद शब्द सामर्थ्यात् । विस्मृत्यापि अनृते न वक्तव्य-  
मित्यर्थः । अन्यथा असत्य वचन प्रतिषेध एव स्यात् ।’

Even absentmindedly one should not utter what is unrighteous or incorrect. Sri Suresvaracharya in his *varatika* clarifies this further, at the same time explaining the need for the *Sruti* to repeat this after the earlier injunction :—‘सत्यं वद’

‘विस्मृत्याप्यनृतं नित्यं न वक्तव्यमप्यपि ।  
इत्यस्य प्रतिपत्त्यर्थं सत्यादीति पुनर्षेचः ॥’

(The words underlined are taken from the *Bhashya*). The words ‘नित्यम्’ and ‘अप्यपि’ are significant. There should not be any occasion when one’s words can deviate from the path of rectitude even by a hair’s breadth. We may recall here the *Sruti* “योऽनृतं वदति समूलो वा एष परिशुष्यति”—“One whose speech deviates from the path of moral righteousness withers to his roots, perishes without any trace.”

At first sight it appears that the *Sruti* itself goes against this dictum in the next part ‘ब्रह्मबह्वी’ in the

statement — “ब्रह्मविदाप्नोति परम्” — that the “ब्रह्मविद्” (the one who has understood Brahman) attains the ‘परम्’ (Brahman), the eternal goal. This is against the *Śruti pramāṇa* “सर्वं खल्विदं ब्रह्म,” — “Everything is Brahman itself”. There is no question of going somewhere when you are already there. If one closes his eyes in broad daylight and states immediately on opening them that he has travelled from darkness to brightness, we will definitely accuse him of inexactitude, because the brightness has always been present. Sri Suresvaracharya’s interpretation of this *Śruti* is very interesting.

साध्वसाधनवद्वाक्यं तद्विद्वद्वाच्यप्रसिद्धय ।  
 प्राह ब्रह्मविदाप्नोति धृति प्रत्यक्षप्रयत्नेन ॥

शिक्षा ते वर्धते चक्षुःशुद्धौ श्रद्धया पिय ।  
 मातव प्रेत्येद्वाकं सादसमायासद्वये ॥

A child is not well. The mother wants to administer a bitter medicine to him which he refuses to take. She coaxes him by telling him that the effect of the medicine is that plenty of nice curly hair will grow on his head. This child, because of his implicit faith in his mother, takes the medicine and recovers from his illness. Similarly, the *Vedānta* which wants us to get cured of the disease of chronic ignorance and realise our actual self which is *svatassiddha* instructs us that ‘*Brahman*’ is the ‘cure’ and the knowledge thereof is the ‘medicine’.

This has to be so because we are under a mental delusion about the reality of the world we live in. Loshitadeva says in his *Kaṣṭhīśvara Stotra* —

‘दुःस्वप्न एव विषमो भवद्दुःखतामा  
 स्वामिन् कवं त्यजति मां विगतप्रशोधम् ।  
 यस्मान्ममानवरतध्रुवभूरिशारो  
 त्वयस्वर्नरपि न शान्थति मोहनिद्रा ॥’

“O, Lord Visweswara! In spite of the incessant and continuous melody of *sastraic* *nadaswara* music piercing through my ears straight into my brain, my deep slumber of ignorance and the bad and troublesome dream of *samsara* (during that sleep) does not leave me”.

“When I consider the matter carefully I do not find a single characteristic by means of which I can certainly determine whether I am awake or whether I dream. The visions of a dream and the experiences of my waking state are so much alike that I am completely puzzled and I do not really know that I am not dreaming at this moment” avers Descartes in his *Meditations*

“In this black dream which was a house of Void  
 A walk to Nowhere in a land of Nought

period of knowing the *Brahman* and finally the state of *Self-Realisation*. The Negation of Time is thus, the most important step in realisation. While the physical concepts of space and direction can be understood and conquered because they are the creation of the *Panchabhutas* and as such within the cognition of the five senses, *Time* is a concept of the intellect and the *individual* is *intellect*. To get over the past, the present and the future man has to soar beyond and plunge boldly into the timeless bright reality, leaving the so called secure shores of mind and intellect.

The Intellect of Truth which constitutes the essence of *Brahman* is as different from our intellect as a great and mighty bear in the forest is from the constellation "Great Bear" in the starry heavens. How then are we to comprehend the *Brahman* which is outside the understandable norms? Sri Sankara Bhagavadpada states that

‘शास्त्र आचार्योपदेश श्रवणमादि संस्कृतं मनः आत्मदर्शने करणम् ॥’  
(*Bhagavat Gita Bhashya* II-21)

The intellect purified by spiritual discipline and restored to its intrinsic state by the syllogistic reasoning of the Upanishads and the *Upadesa* of the preceptor is the instrument of perception of the Self in its real state. Such an intellect is necessary to destroy the magic which time is playing on our minds. Then only will we realise the भूतमद्यभवत्प्रभुः who is really कालायनवच्छिन्न । The excellent illustration given by Sri Sureswaracharya in his *Brihadaranya Vartika* stresses the necessity of *mahavakya upadesa* for realisation:—

‘ राजसूतोः स्मृतिप्राप्तौ व्याधभावो निवर्तते ।  
यथैवं आत्मनोऽज्ञस्य तत्त्वमस्यादिचाक्यतः ॥ ’

A princeling stolen from the cradle by thieves was abandoned in a forest. A cowherd found the child and brought him up as his own son. Ultimately as a result of careful investigations the prince was traced and when he was acquainted with his royal descent he gave up his occupation of a shepherd and realised his kingly status and nature. Similarly the *upadesa* of the Sadguru is essential in our effort to realise our true descent. To obtain Guru's Grace one has to efface his *ego* completely without a trace. The *sishya* by thus obliterating his free will loses his separate identity and merges in that of his Guru, Sri Sureswara was such a disciple. His Guru, Sri Sankara Bhagavatpada had first asked him to write *vartika* on *Brahmasutra Bhashya*, but later revoked the order when Sri Padmapada and others protested that Sri Sureswaracharya might detract the essence of Adwaita teaching. Sri Sureswara accepted the position without the least trace of annoyance. Later, in obedience to his Guru's command, he wrote *Naishkarmya Siddhi* and *Vartikas* on *Taittiriya* and *Brihadaranyaka* Upanishads — works which actually embellish Sankara's monism.

There is no other fitting prayer to conclude this article than the following sloka from Sri Sureswaracharya's *Taittiriya Vartika* :—

‘ विद्यार्थिता स्तुते मन्त्रां ब्रह्मायतु शुभं च मे ।  
विद्याग्रहण यत्कृत्य शक्तिभ्यां नी सदाऽयतु ॥ ’



SAMBANDHA VARTIKA  
OF  
SURESVARACHARYA

—T. V. Anantaramaseshan

नमस्सर्वैरसालंबवचनामृतवर्षिणे ।  
भारत्याराधनप्राप्तविद्यातीर्थाभिधाय ते ॥

This monumental work of Suresvaracharya is by itself an independent exposition of Advaita siddhanta, though, as its title implies, its purpose is to set forth the connection between the ritualistic and intellectually speculative sections of the Vedas,—the karma and jnana kandas. Vartika, according to Rajasekhara, is *ukta anukta durukta chinta*,—an analysis of what is said, what is not said and what is not well said. Sambandha Vartika is an introduction to Suresvara's own classic vartika on Brihadaranyaka Upanishad Bhasya. But it is much more than an introduction in so far as it provides a synoptic vision of the manner in which Sānkara siddhānta establishes, with the aid of cold logic and Vedic authority, the irrefutability of the Advaitic interpretation of Vedantic texts. It contains 1,136 verses each of which is packed with a depth of meaning which only the terseness of sublime scholarship can conceive of,—a heavy collection indeed which will require a tome to lay bare its content and import. Small minds like mine can make no pretence even of a summary but will, instead, have to remain satisfied with a few glimpses here and there just to excite curiosity and

Interest in similar minds. That is why this article is confined to an exposition of only a few of the thousand verses of the work.

It should humble many a scholar who takes to a discussion of Vedanta, merely because it provides an opportunity for logic and polemics, to be told by Suresvara that he alone is eligible for such study who has renounced every action, who seeks liberation from the cycle of birth and death and who is keen on experiencing the unity of the Self with the Infinite,

स्यकाशेषक्रियस्येव संसारं प्रजिहासतः ।

जिज्ञासोरेव चेकात्म्यं त्रय्यन्तेष्वधिकारिता ॥

The master, the Guru, provides the guidelines of logic not to enable the individual to show off in a conclave of intellectuals but to quell doubts that might arise in the mind of the seeker as he labours for the experience that opens up consciousness in the manner of arousing the knowledge that is the means to all other knowledge and by which all other knowledge is comprehended and transcended. Without disparagement to the scholars participating in vakyarta discussions, it can be safely averred that their purpose is best served only if they have helped elevate the cognition of the participants and listeners to a yet higher level and taken them one step closer to the experience of the unity with the Self.

Proceeding further, Suresvara says that the knowledge that destroys Avidya, the cause of samsara, is knowledge of the true nature of the Self which, once it arises, removes ignorance. Karma which operates

within the confines of Avidya cannot verily remove it  
Says Suresvara —

प्रत्यग्याथात्म्यधीरेव प्रत्यगज्ञानहानिकृत् ।  
सा चाऽऽत्मोत्पत्तितो नान्यद् ध्यान्तध्वस्तावपेक्षते ॥

When the inner light is lit, darkness disappears. In understanding the disappearance of darkness, one has to remind oneself of the actionless nature of the whole process in the sense of

तमो निह्न्यात् न तु सद्भिघत्ते ।

In an earlier verse Suresvara says that sacred acts like reciting Vedas are only for the sake of generating the desire to cultivate and attain to the experience of such knowledge. The need arises therefore to clarify how such negation of action could derive its authority from the Vedas which are manifestly based on action, the *do's* and *dont's*

The Mimamsaka argues that like *अभ्युदय* or prosperity, release is also the fruit of action. The Vedas prescribe *do's* and *dont's*. The actions of an individual will acquire merit or demerit, they acquire merit when they relate to optional deeds to attain certain finite ends like *swarga*, or demerit when they involve actions prohibited by the Vedas, or when there is an avoidance of the actions prescribed in the *प्रत्यग्य* texts. Salvation, *moksha* or release, is a condition in which there can be no iota of merit or demerit. Such release can be obtained by avoiding demerit through the performance of *नित्य* and *नैमित्तिक* actions and through eschewing *प्रतिषिद्धकर्म*, the prohibited deeds, and by avoiding merit by foregoing

optional deeds (for gaining private ends). When the seeker avoids optional and prohibited deeds, he does not acquire fresh merit or demerit; and by performing the enjoined deeds as prescribed in the Vedas, he avoids demerits. Thus, according to the Mimamsaka, when the account of action is rendered residueless, release becomes automatic. Renunciation of action on the other hand goes against the विधि and निषेध—the injunction and prohibition of the Vedas and so cannot derive any authority from the Vedas.

For lack of space, the answers to these objections as outlined by Suresvara are here summarised in the lecturer's technique of synthesising through cutting and pasting. A fuller exposition, as stated earlier, will become possible only by composing a tome rather than an article. First, Suresvara explains that अभ्युदय which is the result of deeds and मोक्ष which is release are mutually opposed to each other. अभ्युदय is साध्य or what is to be accomplished, while मुक्ति is असाध्य what is unaccomplished; the former is ephemeral, the latter is permanent. The point he makes is that release or मुक्ति is not a thing accomplished. By the very nature of the Self, it is eternally free and in a state of release; only because of avidya or nescience, we are unaware that we are eternally free. Quoting a text each from the Katha and Mundakopanishads, the master establishes that *Karma* is the means to प्रेयस्, the pleasure that perishes and *Jnana* is the means to श्रेयस् the eternal bliss, and that action has nothing to do with मोक्ष or release. Taking the Mimamsaka position that, without the acquisition of fresh merit

and demerit and through the avoidance of demerit, by performing नित्य and नैमित्तिक deeds as per Vedic injunctions, action leads to release, Suresvara points out that it is only release from action or karma that is accomplished in this manner and that the root of karma which is avidya or nescience is not destroyed. Avidya is annihilated not by actions but by knowledge alone.

Nor, says Suresvara, can it be claimed that, the Vedantin's position that release is the fruit of self-knowledge (ब्रह्मज्ञान) has no sanction or authority in the Vedas.

“ ननु चाऽऽत्मावयोरस्य निचाय्येति फलं श्रुतम् ।  
ब्रह्म वेदेति च तथा नैवं तस्यार्थवादतः ” ॥

The reference here is to the following verse of Kathopanishad:—

अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं  
तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत् ।  
अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं  
निचाय्य तन्मृत्युमुखात्प्रमुच्यते ॥

“ Devoid of sound, of touch, of form, without decay and likewise devoid of taste, eternal, and devoid of odour, beginningless, endless, superior to the great (mahat) and firm; having realised Him, one is released from the mouth of death”. The objection raised here is that as everywhere in scriptures, this is eulogistic, *arthavada* (रोचनार्था फलश्रुति). When it is said for instance that the “person whose sacrificial ladle is made of parna wood does not hear any evil of himself”, it is only a praise of the ladle, and the

text' does not enjoin 'the non-hearing of evil' as the real or actual result. So also 'the Upanishadic text' quoted above is an eulogy.

Suresvara's answer to this objection is classic:— Let us grant that resting of Self in its own nature is release, and that this is achieved by avoiding fresh merit and demerit, forgoing optional deeds and prohibited deeds and performing the prescribed deeds. The question that arises then is —

“ तत्रास्मा किं स्वरूपे प्राङ् न स्थितो येन तस्मिन् ।  
हेतुं व्यपेक्षते यत्नात् स्वरूपं हि न तद्भवेत् ॥  
स्वतोऽनवस्थितो यत्र हेतुना स्थाप्यते यत्नात् ।  
अथावस्थित एवाय किमर्थं हेतुमागमम् ॥  
कैवल्येऽपि च तत्तन्कोऽनिर्मोक्ष प्रसज्यते ।  
अथो निषिद्धकाम्यादिवर्जनात्तऽऽत्ममुक्तता ॥  
विश्याभ्यासज्ञास्वास्थ्यनुत्थर्थमिति चेन्मतम् ।  
स तु विषयसंर्कः कस्य द्रवति कारणात् ॥  
अकस्माद्भवतः सप्ततेमुक्तावप्यनिषेधतः ।  
अनिर्मोक्षप्रसक्तिर्वस्तथा सति-समापतेत् ॥  
धर्माधर्मनिमित्तञ्चेत्किं पनर्धर्मपातके ।  
अथसद्ब्रह्मप्राचस्य संपर्कं दुरुतो वलात् ॥”

Either the Self rests in its nature, or does not rest in its nature, before the performance of kārma, deeds or actions. If it did not, resting in its nature as connoting release or moksha does not make sense because such resting will be a passing phase like non-resting. If it did rest in its nature at the beginning, why perform any deeds to make it do so? If, in release, actions are enjoined, such attachment to

actions makes release only a form of bondage. If the karmás are to release the Self from the consequences of contacts with विषय or objects, how did the contact at all come about? If by accident, such accident cannot be prevented even in release, which makes it only a superior form of bondage. If the cause be merit or demerit, how can contact come about in as much as the Self, which is in its very nature unattached, cannot have been forced into such contact (except if it is conceded, as the advaitin does, through avidya or ignorance). And for removal of avidya, only knowledge can be the means.

If it is contended that the शक्ति or power alone remains and the causes for transmigration like agency or कर्तृत्व and status of being in enjoyment or भोग्यत्व are alone destroyed, it sins against the very nature of casual relationship. Cause and effect cannot be different in nature, else they would not be in that relationship. If they are not different, they would be identical. How can such a relationship as envisaged be imported? For instance, if the power or शक्ति and effect are not different so long as the former lasts, the latter cannot disappear. It may be contended that the destruction of either effect or potency is not release but the non-manifestation of the effect of the potency. But even this is illogical. The cause behind birth and death chain is some power present in it which will last as long as that power or excellence lasts. If the effect is independent or not dependent on potency, it would be like निदाघे शीतवत् chill in summer, impossible.

The more fundamental point that must be borne in mind is that nothing that does not reveal the true nature of the Self can lead to realisation of the Self much in the same sense that no potter can make a pot of ether nor can wind produce coolness in fire,—

सृष्ट्वद्योम घटी कुर्यान्मरुत्तः शीतताम् ॥

Truly the purport of Vedantic texts can only be to make the disciple aware of the non-difference of the Self and the Brahman. If nothing but Brahman is real, the question arises:— Is Sruti illusory? The Advaitin treats this question as inherently irrelevant. This is because before the destruction of Avidya, Sruti is real but after realisation dawns, it is unnecessary. The Sruti in the words of an exponent “only sublates the ignorance about the non-dual Self and thus fulfils its role as a pramana. After it has fulfilled its aim no useful purpose would be served by an examination of its ontological status.” The seeker has also to bear in mind that when Brahman is spoken of as non-dual, no contrast with the dual it meant. The Upanishadic message सत्त्वमसि is only intended to remove the plurality of conception about a multitude of souls and the related confusion about their equality with Brahman. There is a pointed reference to this in a verse of the *Srutigita* in *Bhagavatapurana* :—

अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगता-

स्तद्धि न शाम्यनेति नियमो ध्रुव नेतरथा ।

अज्ञानि च यन्मय तदविमुच्य नियन्तु भवेत्

सममनुजानतां यद्मतं मतदुष्टतया ॥



If there is no difference between individual souls and Brahman, and if Brahman is the नियन्ता, will there not be as many of them as there are souls, in which case what is the status of Brahman? The answer is, as I have indicated in a commentary of mine on this sloka,

नियन्तृकोट्यो न स्युरमेवादजजीवयो ।  
जीवे मन्ने यथा ब्रह्मण्येकनेताऽवशिष्यते ॥

When the Self realises its limitless condition and unity with the Brahman, it becomes one with the one reality without any multitudinous rivals or agents.

Before the knowledge of the Self dawns, the Self projects itself through nescience to the objects of attachment and becomes unaware of its true nature as limitless intelligence and eternal bliss. When the Vedic message 'Thou art that' is meditated upon and the attachments are cast away like the serpent's slough, the limitless intelligence and bliss become of the very essence of the soul. In this sense, Vedic texts constitute the authority for the advaitic siddhanta. Nor should it be imagined that bliss is mere absence of misery. On the contrary, the bliss that is spoken of here is the more positive type of infinite happiness. To say that we are दुःखिनः afflicted by misery and that Vedanta teaches us to be सुखिनः blissful is to confuse advaitic siddhanta and there, through the upanishadic guidelines, with mere nihilistic equanimity. On the contrary, the Bliss of consciousness and realisation is the most positive type of Bliss beyond which and outside which there can be no greater Bliss. If the quest of individuals is for greater and yet greater

happiness, it has to be towards this type of Bliss which is not mere absence of misery but which is the sum and substance of our real nature.

The pursuit of this Bliss is open to all who possess the requisite qualification. The qualification is passionless performance of the deeds enjoined in karma kanda of the Vedas without any tinge of attachment. In fact when these karmas are performed with no selfish motive, detachment becomes automatic, the karmas provide chittasuddhi which leads on to the elevation of experience higher and higher towards that of the Supreme Bliss. That bliss is thus the goal of both karma and jnana kandas. This is the sambandha which Suresvara's vartika establishes through its tightly rigorous logistics of inference, argument and conclusion. As stated earlier, only a faint glimpse of it has been attempted in these pages. It is my fervent hope that it will evoke interest in a larger segment of seekers than now who through their conference and discussion will lift the level of their achievement beyond the desire to win mere material recognition. Let us invoke Divine Grace for this by saying

यत्तदिशुद्धानुभवमात्रमेकं स्वतेजसा यत्तत्तुणव्यवस्थम् ।  
प्रत्यक्षशान्ते सुधियोऽलभन्मनामरूपं निरहं प्रपद्ये ॥

## ĀCĀRYA SUREŚVARA— THE UNIQUE SYNCRETIST

— Prof. V. Venkatachalam

Great men of all ages have all been great paradoxes. So was Ācārya Sureśvara. In his polemics with his philosophical rivals he would be uncompromising and would yield no ground; but with his supreme universality and catholicity he could accord to these very rivals a place in his all-embracing scheme of spiritual emancipation. Bhavabhūti struck the right note when he declared that the hearts of super-souls presented enigmatic paradoxes that defied all efforts to comprehend them. Speaking of Śrī Rāmacandra in the *Uttararāmacarita*, the poet affirmed that he was such a paradox of paradoxes, with his heart presenting an odd and complex amalgam of the tenderness of flower and the toughness of adamant.

“वञ्जादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि ।  
लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमर्हति ॥”<sup>1</sup>

To return to Ācārya Sureśvara. As a doughty champion of the cause of Advaita, he fought tooth and nail the rival religious and philosophical systems that clouded the atmosphere of his day and kept the banner of Advaita flying aloft, following the illustrious example of his Great Master. As a great protagonist of Advaita, he refused to yield even an inch of ground to Dvaitavādins in his metaphysical disputations and tore their systems to shreds without the least compunction. Well may we say of him—

borrowing the familiar Upaniṣadic *cliche*—that before the sharp “razor’s edge” of his incisive intellect (क्षुब्ध धारा निश्चिन्ना) no rival system ever lingered undamaged (दुरत्यया ।<sup>2</sup> But, paradoxically enough, this uncompromising Advaitin had a heart large enough ✓ to accommodate the most diametrically opposed of Dvaitins within his very fold and concede to them too a passport for Mukti—unlike some latter day sectarians who assigned eternal damnation (नित्यनरक) to those who professed a view contrary to their own!

Students of Advaita are, no doubt, aware of the development of these syncretic tendencies during the later periods of its history, when great Ācāryas like Vidyāranya,<sup>3</sup> Appaya Dikṣita<sup>4</sup> and Madhusūdana Sarasvati<sup>5</sup> strove hard not only to weave a unity out of the many mutually conflicting strands of thought that had developed within the Advaitic fold itself; but to evolve a happy symphony of the entire output of philosophical thought in the country from the earliest days, which saw the origin of the systems down to their own times. But it is a matter for unique gratification that an early Ācārya like Sureśvara, who witnessed the hey day of Advaita should have conceived the idea of such a grand philosophical symphony, in which every system of thought, including even the Epicureanism of Vātsyāyana and the Nihilism of Buddha, had its rightful place. In this, Ācārya Sureśvara stands almost unique

It is interesting to note that among the direct disciples of the Bhagavatpāda, it is only in the works of Ācārya Sureśvara that we find this spirit of broad

catholicity so boldly expressed; in such unambiguous terms. I propose, in this brief article, to throw some light on this unique bearing of his philosophical thinking.<sup>5</sup>

In a memorable tract of his colossal *Vārtikā* on the *Bṛhadāraṇyakopaniṣad-Bhāṣya*, Ācārya Sureśvara has expressed in the most unequivocal terms his broad sympathies for the rival philosophical systems and showed how every system of thought—even the meanest of it—had its place in the spiritual uplift of man. Taking his cue from a somewhat casual and cryptic reference in the *Bhāṣya* wherein Śrī Saṅkara speaks of the आत्मन्त्र as the ultimate end of all Sāstras (यदर्थः सर्वशास्त्रात्मन्त्र)<sup>6</sup> Ācārya Sureśvara expatiates upon the basic objectives behind the rank Materialism of the Kāmaśāstra and the apparent Nihilism of Buddha's metaphysics and boldly affirms that these systems too could be deemed as the essential stepping stones to lead the aspirant on to the lofty heights of Advaitic self-realisation. He goes to the extent of saying that even Vātsyāyana's Kāmaśāstra should be construed as a preliminary *निवृत्तिमार्ग*. The glorification of sensual pleasures in the Kāmaśāstra, he avers, was only a sort of inducement to persons so inclined—on the lines of गुडजिह्विना-न्याय—to egg them on to feel the futility of pandering to the flesh and thereby ultimately lead them to the paths of the spirit.<sup>7</sup>

अपि वात्स्यायनादीनां शाखाणामुक्तहेतुना ।  
प्रामाण्यमविरुद्धं स्याद् ऐकात्म्यज्ञानजनने ॥

प्रवर्तमानः पुरुष शालोद्दीपितवर्मना ।

प्रवृत्तिविषयं दुष्टं दृष्ट्वातो विनिवर्तते ॥ १०३, ५०९

The terms of Ācārya Sureśvara's reference to Kāmasāstra here merit special attention. It is not a mere half-hearted concession doled out out of expediency, but a considered affirmation of its *prāmāṇya* (mark the word!) as a valid source of knowledge leading to ātmajñāna. This gesture from a philosopher—a Sannyāsin at that!—to Erotics does, no doubt, look strange. But what can be a greater and nobler instance of universal vision and catholicity of spirit than this?

It is interesting to note that the underlying idea of employing Kāma as a decoy for alluring the aspirant to the higher realms of Dharma and Mokṣa is not altogether new. It is the basic motif on which the Buddhist philosopher-poet Āsvaghoṣa built his *Saundarananda*. This *mohākāvya* beautifully describes the conversion of his voluptuous cousin Nanda by Lord Buddha by first offering him the tempting prospect of the thrilling partnership of a bevy of divine beauties as the reward of renouncing things earth earthy. But later on, as Nanda grows spiritually mature, with his gradual advancement in *sādhana*, he himself spontaneously realises the absurdity of his earlier infantile aspirations, rejects them once for all and forges ahead towards the Truth Eternal with unflinching faith and determination.

Āsvaghoṣa himself has made this point clear in the two concluding verses, wherein he has declared

at the choice of the love motif and the medium of poetry for the dissemination of the Gospel was just a convenient contrivance for enticing even such persons who were epicureans by temperament to the paths of Peace, even as a bitter pill is coated with honey to make it palatable and acceptable. The world at large was devoted to sensual pleasures and was averse to Mokṣa. That was the reason why he opted for the fascinating medium of poetry to expound the Truth to the rank and file of the pleasure addicts who constituted the majority of the world. He had to speak to them in a language which they could understand. There was no escape from it. It was just Hobson's choice!

इत्येषा व्युत्पत्तयान्तये न रतये मोक्षार्थगर्भा वृत्ति  
 श्रोतॄणां प्रहृष्टार्थमन्वसना काव्योपचारा वृत्ता ।  
 यन्मोक्षाङ्कनमवदन्न हि मया तन्काव्यधर्मात् वृत्तं  
 पातुं तिकमिषौषधं मधुयुतं द्वयं कथं स्यादिति ॥

प्रायेगालोक्य लोकं विषयातिपर मोक्षात् प्रतिहृतं  
 काव्यव्यानेन तत्र कथितमिह मया मोक्ष परमिति ।  
 तद् बुद्ध्वा शमितं यत् तदवहितमितो प्राह न ललितं  
 पांसुभ्यो घातुजेभ्यो नियतमुपकर चागीरुरिति ॥<sup>१</sup>

Ācārya Sureśvara's preparedness to accommodate even the rank materialism of Vatsyayana and to assign a place to the Lokayatikas too—almost shunned as unworthy of being touched with a pair of tongs and tabooed as sacrilegious in religious circles!—in his universal scheme of philosophical

discipline is, no doubt, a glorious tribute to the dimensions of his syncretic spirit.

'But his attitude towards Buddhism breathes this spirit in an even more remarkable measure. It provides the unmistakable index of the uniqueness of his syncretism. It is here that we see this syncretic spirit tempered by the largeness of his heart in all its fullness, unbounded in its width, unbridled in its vigour, unparalleled in its freshness, unbigoted in its sympathies, untainted by prejudices, unblemished by inhibitions and unrestrained by narrow loyalties. Before this extraordinary magnanimity of spirit towards a sworn adversary, even the accomodation shown to the Lokāyatikas pales into insignificance. With the Buddhists, Ācārya Sureśvara's syncretism crashes all conventional frontiers, opens up new horizons, sets new records and, indeed, makes history.

For a proper appreciation of this aspect of Ācārya Sureśvara's mental attitude towards Buddhism and what this must have meant to him in those days, it is necessary to look at it in its historical context and clearly comprehend the conditions under which he lived, preached and wrote. That indeed must have been an age of great tensions; not the political tensions of the modern age, but what may be called 'intellectual' or 'philosophical' tensions, when the protagonists of different philosophies waged intellectual wars, each school aspiring to overthrow the other and establish its own supremacy over the whole country. And in this philosophical war — if I might use this rather inept and paradoxical phrase — the



Ādyaitins and the Buddhists were the arch-combatants. That was the age when Kumārila Bhaṭṭa and Ācārya Saṅkara posed a challenge to Buddhism and dealt the final and decisive blow to it, as a result of which the religion of Buddha had to seek asylum in foreign shores.

Students of Indian Philosophy are well aware that the followers of Buddha were the प्रधानमल्ल-s, whom the Mimāṃsakas and Vedāntins of the age had to grapple with, in their philosophical duels. This explains why Kumārila Bhaṭṭa and Ācārya Saṅkara are most uncompromising in their attitude towards Buddhism. As for Ācārya Saṅkara, not only is he particularly vehement, when he criticises the different sects of Buddhism but he does not hesitate to cast serious aspersions upon even the genuineness of the motives. The following passage from the *Brahmasūtrabhāṣya*, in which he questions the very credentials of Buddha should suffice as an illustration:—

॥ सर्वप्रकारेण यथा यथाऽयं वैनाशिकममयः उररत्तिमस्त्राय, परीक्ष्यते, तया तथा सिक्तताकूपवद् विदीर्यते एव । ... .. अपि च बाह्यार्थ-  
विज्ञानशून्यवादक्षयम् इतरेतरविरुद्धम् उपदिशता सुगतेन स्वथीकृतम्  
आत्मनोऽयम्बद्धमलापिष्वं प्रदेयो वा प्रजासु विरुद्धार्थमतिपत्त्या विमुक्तोऽयं  
ऋणाः प्रजा, इति । सर्वथापि अनादरणीयोऽयं सुगतसमयः श्रेयस्कारिणित्वमि-  
माय ॥<sup>10</sup>

The Buddhist philosophy, says Ācārya Saṅkara, collapses like a well dug in sand, in spite of all honest efforts to prop it up with every possible aid of logic. By propagating the three mutually conflicting doct-

lines of Realism, Idealism and Nihilism among his own disciples, Buddha had himself proved that either he was a person given to talk incoherent jargon or that, prompted by hatred for the people, he had deliberately propounded such mutually contradictory doctrines to hoodwink and confuse the innocent masses.

This apart, he looked upon the Sūnyavāda doctrine of the Bauddhas as unfit even for honest criticism and enquiry, and therefore discarded it as unworthy of consideration. His statement—

‘शून्यवादिपक्षस्तु सर्वप्रमाणविप्रतिषिद्ध इति तस्मिन्करणाय नादरः क्रियते’<sup>11</sup> which is repeated *verbatim* in the *Bhāṣyas* on *Brahma-sūtra* as well as *Bṛhadāraṇyakopaniṣad*, reflects his attitude very clearly. It looks as though he had an honest contempt for the Sūnyavāda doctrine and wanted it to be ignored altogether.

Bhaṭṭa Kumārila, who according to a tradition, had incarnated in the world for clearing it of the Buddhist religion and re-establishing the religion of the Veda in its pristine purity has also given vent to his animosity against Buddhism in a language which reveals the same uncompromising attitude towards the religion of Buddha. He goes to the extent of declaring that even the good things like *ahiṃsā* which were preached by Buddha should not be accepted in that form from him. The *Purāṇas* speak of Buddha and others as responsible for upsetting *dharma* in *Kaliyuga* and as such they deserved no credence. Even a noble gospel like *ahiṃsā* lost its alitarian value when it got mixed up with the false

dharma preached by Buddha, even as pure milk kept in a container of dog's skin ceased to be acceptable. The following is the relevant extract from his Tantra-vārtika :—

तथाऽतिक्रान्तवेदोक्तमर्यादाव्यवहारिणाम् ।

संवादिष्वपि वाक्येषु नेप्यते धर्महेतुता ॥

स्मर्यन्ते च पुराणेषु धर्मविप्लुतिहेतवः ।

कलौ शाक्यादयस्तेषां को वाक्यं श्रोतुमर्हति ॥

यथा कृतककर्पूरसुवर्णादिषु दीयते ।

यदीजं तदपि व्यक्तमप्राह्यत्वात् प्रलीयते ॥

तेन कर्मानुरूप्यसामान्यतो दृष्टार्यापत्तिबलात् तदभिप्रायकल्पितधर्मा-  
भासमध्यपतितं सन्मूलमप्यहिंसादि श्रद्धतिनिक्षिप्तक्षीरबदनुपयोग्यविश्रम्भणीयं  
च तन्मात्रोपलब्धं भवतीत्यवश्यं यावत् परिगणितधर्मशास्त्रेभ्यो नोपलभ्यते  
तावदग्राह्यं भवति ।<sup>12</sup>

These two instances should suffice to give us an idea of the philosophical climate of the age in which Ācārya Sureśvara was ushered in. The exponents of the Vedic religion of the age had such obsessions about Buddhism that they refused to have any truck with it, let alone striking a compromise with it. It was at such a period that Ācārya Sureśvara appeared on the philosophical scene. It, therefore, redounds to his great credit that though he came in the wake of the two great philosophical giants Kumārila Bhaṭṭa and Ācārya Śaṅkara and though his thought was powerfully conditioned by their thinking, still he did not toe their line in this regard.

As against the avowed animosity of the philosophers of the age, Ācārya Sureśvara freely concedes that Buddha's real objective in declaring that all worldly objects were ephemeral (अनित्य) and void (शून्य) and were sources of misery (दुःख) was not to deny the existence of the Self but to prepare people for shedding their worldly desires and attachments. The ultimate idea of Buddha, says Ācārya Sureśvara, was not Nihilism (नैतत्त्व) but Renunciation (त्याग). And, after all, renunciation of desire was "the be-all and the end-all"<sup>13</sup> of all spiritual life. Renunciation was the means by which the renouncer realised his Self. Interpreted thus, even Buddha's *Sūnyavāda* could serve as a stepping stone for *Ātmajñāna*.

Writes Ācārya Sureśvara —

“अनित्यदुःखशून्यत्वं पदार्थानां भुवन् स्फुटम् ।  
 बुद्धोऽपि रागाशुच्छिन्तो यतते नात्मनिहन्तुः ॥

त्याग एव हि सर्वेषां मोक्षसाधनमुत्तमम् ।  
 त्यजतेव हि तज्ज्ञेयं त्यक्तुः प्रत्यक्परं पदम् ॥”<sup>14</sup>

These words of the Ācārya vibrating with warmth and unbounded sympathy for the doctrines of a confirmed opponent speak volumes of the universality of his philosophic vision. With his daring conception of such an Integral Philosophy, which could afford shelter to every manner of philosophical thinking, including even the Cārvāka and the Buddha systems, under the roof of Advaita, Ācārya Sureśvara has given a clear lead in the direction of syncretistic thinking. So long as the funda-

mental doctrine of Advaita remained intact and the moorings of the system were safe he had nothing to quarrel with individual philosophical schools or even individuals adopting their own theories and hypotheses (*prakriyā*) to grasp the ultimate Truth. That was purely to be determined by individual inclinations or predilections and, obviously, there was unlimited freedom for every individual to dictate or to follow new lines of thought. What really mattered was the individual's comprehension of the ultimate Truth and hence there was no need to impose any curbs on the number of such secondary theories leading to the Truth

“प्रक्रियानियमो नापि पुञ्युत्पत्तिपधानत ।”<sup>15</sup>

Ācārya Sureśvara elucidates his point with a pertinent comparison drawn from every day empirical experience. A man born deaf comprehends the real nature of an object with the sole aid of its visual form (*rūpa*). A person congenitally blind does so with the sole aid of its audible form, namely, its names or the other appellations describing it. There are, besides, the normally constituted persons, whose perception of the object is based on both:—

“जाणितो वधिरस्येह व्यक्ति स्वादूपमात्रना ।  
जात्यन्ध देश्च नास्तिव तथा चोग्रयाऽप्यसौ ॥”<sup>16</sup>

The methods adopted for the realisation of the Eternal Truth must likewise be adapted to individual conditions. Hence Ācārya Sureśvara affirms that there is no conflict between philosophical sects and

sub-sects. All of them were equally good, so much so, that they could be allowed to multiply *ad infinitum*.

“ यथा यथा भवेत् पुंसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि ।

सा सैव प्रक्रियेह स्यात् साध्वी सा चानवस्थिता ॥ ” ११

The word ‘अनवस्थिता’ here deserves special notice. It is intended to emphasize that there could be no conceivable limit to the number of such secondary schools postulating divergent hypotheses and that they may really be endless.

It is noteworthy that Madhusūdana Sarasvati, the great upholder of the syncretic spirit in a later age, singled out this particular verse from the huge *Bṛhadāraṇyakavārtika* for citation in his *Siddhāntabindu*.<sup>18</sup> Madhusūdana Sarasvati, it is well-known, was one of the most illustrious among latter day Ācāryas of Advaita who engaged themselves in vigorous polemics with contemporary philosophers with a view to rescue Advaita from rival attacks. His citation of the above verse is, therefore, particularly significant inasmuch as it indicates that he subscribed to the view expressed therein and recognised a kindred spirit in Ācārya Sureśvara.

In fact, Madhusūdana Sarasvati had a particular warmth for Ācārya Sureśvara and did hold him in special regard. Among the direct disciples of the Bhagavatpāda, he accorded the pride of place to Ācārya Sureśvara. In an interesting verse in the conclusion of *Siddhāntabindu*, he places Ācārya Sureśvara at par with Ācārya Śaṅkara himself. With a facile pun on the word *sūtra* (meaning both

'philosophical aphorism' and 'thread') he says in a light vein:—"I have no mind to extol Vyāsa for— Poor Soul!— he could not piece together all the philosophical tenets even though he was well equipped with *sūtras*. Hail, Śaṅkara! Hail, Sureśvara! These two could accomplish this feat of stringing together the entire gamut of philosophical thought in their works, although they had no *sūtras* with them"

न स्तौमि तं व्यासमशेषमर्थं सम्यङ् न सूत्रैरपि यो बबन्ध ।  
 विनापि तैः सप्रथिनाखिलायै त शङ्कर नौमि सुरेश्वरं च ॥ १९

It may be observed *en passant*, that this supreme syncretism which seeks to integrate all philosophical thought and comprehend them all as a single unity — nay, which positively encourages multiplication of philosophical sects — has been reiterated in recent days by Swami Vivekananda. In a little known lecture delivered at California, the Swami is reported to have said with his usual fire, "The stronger the current, the more the whirlpools and eddies. Sects are not signs of decay, they are a sign of life. Let sects multiply till the time comes when everyone of us is a sect, each individual" 20

It has already been pointed out that the syncretic spirit of Ācārya Sureśvara is almost revolutionary in its dimensions. In this, he towers above his great contemporaries and his even greater predecessors. It is an undeniable fact that even Ācārya Śaṅkara has not openly expressed himself anywhere in favour of such an unqualified compromise with the Buddhists or the Lokāyatikas. All the same, it would be far

from the truth to hastily conclude that Ācārya Sureśvara had promulgated a new creed which did not receive the sanction of his Master or that he had adopted an attitude that was at variance with that of his Master. To do so will be to place the Guru and the Śiṣya at cross purposes. Nothing could be more unjust to Ācārya Sureśvara than to say that he said or did something that did not rightly echo the master-mind of his Master. Whatever else he was or was not, he was, above all, a Gurubhakta *par excellence*. Gurubhakti was ingrained in the tradition of which he was a part. That is why in his adoration to his Guru, he glorified him as one who, in turn, adored his Guru (संचक्रुर्गुरवोऽनुवृत्तगुरवः).<sup>21</sup> Any attempt to glorify Sureśvara by crediting him with ideas or doctrines that were not Ācārya Saṅkara's or that he superseded his Guru in this or that respect may or may not please others. But I have no doubt at all in my mind that he himself would have looked upon it as blasphemous. It would, therefore, be reasonable to suppose that he must have imbibed this syncretic spirit and broad catholicity of outlook from Ācārya Saṅkara and the tradition that he represented.

Fortunately, we have evidence in the writings of Ācārya Saṅkara and Gāuḍapāda to conclude that this syncretic spirit was not totally alien to their way of thinking. In his *bhāṣya* on the *Praśnopaniṣad*, Ācārya Saṅkara has expressly said it, *totidem verbis*, that in his philosophical scheme he had no quarrels with his compeers with reference to the *vyaḥārika* planē. His sole concern was with the *pāramārthika*.



He would rather leave the disputes about the lower plane to others whose job it was to wrangle about them. The Sāṅkhyas, for instance, clashed with the Tārkikas on metaphysical issues and *vice versa*. Such philosophers, says Ācārya Sankara were comparable to carnivorous animals preying on each other. In their fastidious attachment to their pet theories about Matter they lost hold of what really mattered, namely the Ultimate Reality. For his part, if at all he indulged a little in philosophical polemics with the Tārkikas, it was just to wean away the genuine seekers of Truth from their false metaphysics. Unlike the Tārkika, he did not indulge in disputations for their own sake.

This is the gist of Ācārya Śankara's observations in the *Prāśnopaniṣadbhāṣya*, which clearly set forth his attitude towards those who differed from the Advaitic standpoint. It would be wrong to think that the Tārkikas, in the restricted sense of 'followers of Nyāya-Vaiśeṣika', alone are meant here. The word Tārkika should be taken in its widest sense of 'philosophers who built their systems on Pure Reason'. Moreover, though the Tārkika has been singled out for specific mention, the remarks apply equally to other philosophers as well. Whatever that be, the spirit of syncretism is writ so large in these observations that it is impossible to miss it. And, what is more, the traditional verse quoted approvingly by Ācārya Sankara at the end, which elevates the Vedāntin to a philosophic plane, where all differences and disputes vanish *in toto* can serve as a blazoning motto for the crown of Philosophical Syncretism.

Let us hear the ringing words of the Bhagavat-pāda himself—

साख्यास्त्वविद्याध्यारोपितमेव पुरुषे कर्तृत्वं क्रियाकारकं फलं चेति कल्पयित्वा आगमत्राद्यत्यात् पुनस्तत्सख्यन्तः परमार्थत एव भोक्तृत्वं पुरुषस्येच्छन्ति । तत्त्वान्तरं च प्रधानं पुरुषात् परमार्थवस्तुभूतमेव कल्पयन्तोऽन्योतार्किककृतबुद्धिविषयाः सन्तो विहन्यन्ते । तथेतरे तार्किकाः साङ्ख्यैः इत्येवं परस्परविरुद्धार्थकल्पनात् धामिपार्थिन इव प्राणिनोऽन्योन्य-विरुध्यमानार्थदर्शित्वात् परमार्थतत्त्वाद् दूरमेवापकृष्यन्ते । अतः तन्मतमनादृत्य वेदान्तार्थतत्त्वम् एकत्वदर्शनं प्रलादयन्तो मुमुक्षवः स्युरिति तार्किकमत-दोषप्रदर्शनं किञ्चिदुच्यतेऽस्माभिर्न तु तार्किकवत् तात्पर्येण ।

तथैतदत्रोक्तम् —

विद्वदस्येव निक्षिप्य विरोधोद्भवकारणम् ।

। सैः संरक्षितसद्बुद्धिः सुखं निर्वाति वेदवित् ॥<sup>32</sup>

It is interesting to note that this universal syncretistic outlook is not the creation or discovery of Ācārya Śaṅkara either. It appears to have been a part of the very tradition which Ācārya Śaṅkara inherited and vivified. Ācārya Gauḍapāda, the Grand preceptor of Ācārya Śaṅkara, has also spoken in the same strain in his *Kārikas* on the *Māṇḍūkya Upaniṣad*. Ācārya Gauḍapāda declares that it is only the Dvaita-yaḍins who clashed with each other about their divergent doctrines, since they were settled once for all and they had to uphold them at all cost. On the other hand, the Advaitin had the advantage of looking upon Dvaita both ways. Hence there was nothing for him to quarrel about and no one to quarrel with.

“सतिदान्तव्यवसायु द्वैतिनो निश्चिता दृढम् ।  
 परस्परं विरुध्यन्ते तैरयं न विरुध्यते ॥  
 अद्वैतं परमार्यो हि द्वैतं तद्भेद उच्यते ।  
 तेषामुभयया द्वैतं तेनार्यं न विरुध्यते ॥”<sup>23</sup>

It is interesting to note that this spirit of syncretism, which Ācārya Sureśvara inherited from his great predecessors and which has been nurtured and nourished by succeeding generations of eminent *ācāryas*, survives today in the Advaitic tradition as an unbroken continuum. It is on record that in our own generation, Svami Sri Chandrasekhara Bharati, who adorned the pontifical seat of Sringeri till recently, exhorted a European *jijñāsu*, who wanted to embrace Hinduism, to give up the idea and continue as a devout Christian and convinced him with telling arguments, which it is neither possible nor necessary to go into here.<sup>24</sup> And the Christian visitor “who came to scoff” at Christianity “remained to pray”<sup>25</sup> in the Christian church! (Incidentally, can we ever hope that such wisdom will ever dawn on those, who are bent on proselytisation of the Hindus in India?) This is a truly fitting index of the survival of the spirit of Universal Syncretism, ingrained in the Advaitic tradition and ennobled by Ācārya Sureśvara, developing still newer dimensions, quite in tune with the *Zeitgeist*.

I conclude with the following triplet, as my humble homage to Ācārya Sureśvara, presenting the

central theme of the present article in a nutshell—

प्रज्ञाष्ट्रीगौडपादान्निजगुरुचरणाच्छङ्कराचार्यतश्च

प्रातं यत् सामरस्यं श्रुतिमतशिखरं तत् स्वबुद्धया विविच्य ।

बौद्धं वात्स्यायनीयप्रभृति मन्मिदं सर्वमैकात्म्यबोधे

सोपानत्वं प्रयापादिति निगदितवान् यः सुरेश. स जीयात् ॥

शास्त्रं वात्स्यायनं यद् द्विषयसुखपरं पञ्चमप्राद्विबुद्धया

तद् भोगे दोषदृष्टया विदधदुपरति पर्यवस्येन्निवृत्तौ ।

इत्थं प्रामाण्यमस्याप्यलमुपगतवान् साम्यद्वक्त्रपुङ्गवो यः

आचार्य श्रीसुरेशं श्रुतिहृदयविदं तं त्रिसन्ध्यं नमामि ॥

शून्यं दुःखं ह्यनित्यं जगदिदमखिलं प्राइ बुद्धः पुरा यत्

तन्नापि त्यागमात्रं किल तदभिमतं नैव नैरात्म्यवादः ।

इत्थं मुख्ये विरोधिन्यपि शिवमतिघृत् प्राइ य सामरस्यम्

आचार्य श्रीसुरेशं श्रुतिहृदयविदं तं त्रिसन्ध्यं नमामि ॥

—

## FOOTNOTES

1. *Uttararāmacarita*, 2-7
2. *Kaṣṭhopeniṣad*, 1.3.14
3. In the *Sarvadarśanasāṅgraha*, Vidyāranya brings under the compass of a single work, all the sixteen major philosophical schools in an ascending order of evolution, commencing from Cārvāka and ending with Advaita Vedānta. This scheme of arrangement has since come to stay. Nīlakaṣṭha Dīkṣita, in his *Nīlakaṣṭhaviṣaya Campu speaks of*  
 “आवात्स्यायनतन्त्रम् आश्रुतिशिरःसिद्धान्तमुच्चावचा विद्या...” (1.8)
4. Vide the following introductory verse from *Siddhāntaleśa-sāṅgraha* —  
 प्राचीनैर्व्यवहारसिद्धविषयेष्वामैक्यसिद्धौ परं  
 सन्नह्यङ्गिरनादरात् सरणयो नानाविधा दर्शिताः ।
5. His monumental work *Advaitasiddhi* places all the divergent doctrines propounded by different teachers in their proper perspective and demonstrates how all the conflicting views could be brought under the banner of Advaita in absolute harmony with its basic tenets.
6. *Bhāṣya on Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad (Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, Anandasrama edition, 1939)*, 1.4.7 (p. 116)
7. There are statements in the *Kāmasāstra* itself in support of such an explanation. The following is from *Ānandagiri's Commentary on the Vārtika* verse already quoted (*Vārtika on Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, Part II, p. 514*)  
 धर्ममयं च कामं च प्रत्ययं लोकमेव च ।  
 पश्यन्नेतस्य तत्त्वज्ञो न च रागात् प्रवर्तते ॥  
 तदेतत् कुशलो विद्वान् धर्मार्थावनुगलयन् ।  
 नातिरागात्मकः कामी प्रयुञ्जानः प्रतिन्यति ॥
8. *Vārtika on Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, Part II, 1.408-409 (p. 512-514)*

9. *Saundarānanda*, 18.63-64
10. *Bhāṣya* on the *sūtra* सर्वथानुपपत्तेश्च (2.2.32)
11. *Bhāṣya* on the *sūtra* क्षणिकत्वाच्च (2.2.31) and  
*Bhāṣya* on *Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad*, 4.3.7 (p. 577)
12. *Tantravārtika* on *adhikaraṇa* 1.3.3 (p 203, Anandasrama  
edition, part I, 1929)
13. Shakespeare's *Macbeth*, Act. I Sc. 7
14. *Vārtika* on *Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad*, Part II, 1.410-411  
(p 514-515)
15. *Ibid*, 1.401
16. *Ibid*, 1.399
17. *Ibid*, 1.402
18. Vide the following from *Stādhāntabindu* (Commentary on  
śloka 1) —

ननु वस्तुनि विकल्पासंभवात् कथं परस्परविरुद्धमतप्रामाण्यम् ? तस्मात्  
किमत्र हेयं किमुपादेयमिति चेत्, न । क एवमाह वस्तुनि विकल्पो न  
संभवतीति ? स्थाणुर्वा पुरुषो वा राक्षसो वेलादिविकल्पस्य वस्तुन्यपि  
संभवात् । ... .. एवं वेदान्तेषु सर्वत्रैवंविधविरोधे अयमेव परिहारः ।  
तदाह्वर्तितिककारवादाः — यथा यथा भवेत् पुंसां .... ..

- (pp. 118-129 of Kumbakonam edition by Harihara Sastri, 1893)
19. *Ibid*, (commentary of śloka 10), p 211.
20. 'An unpublished lecture of Swami Vivekananda'  
*Vedānta Kesari*, Madras, January, 1945
21. *Vārtikā* on *Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad*, Part I, Introductory  
verse 2.
22. *Prasnopaniṣadbhāṣya*, pp. 65-66 (Anandasrama edition, 1932)
23. *Māṇḍūkya-kārikā*, *Advaitaprakaraṇa*, 17-18.
24. Interested readers may read *From my Master's lips*  
by R. Krishnaswami Iyer.
25. *Deserted Village*, Goldsmith's Selected Works —  
Published by Rupert Hart-Davis, London 1950, p. 612.



1. Avirodhadīṣṭi of Śrī Sureśvarācārya	...	1
<p style="text-align: center;">K. Krishna Jois,                  Panditapravara-Sringeri Asthana-                  Vidwan; Professor of Vedānta,                  Girvana prauḍha vidya-abhivardini                  (Sringeri Math Samskrit College),                  Bangalore-4.</p>		
2. Ubhaya Bhārati (Poem)	...	8
<p style="text-align: center;">Srimati K. B. Hymavati,                  Teacher of Music,                  Vanī Vīlas Institute, Bangalore.</p>		
3. Sureśvara and His Works	...	9
<p style="text-align: center;">Dr. K. Krishnamurthy,                  M. A., B. T., Ph D.,                  Head of the Department of                  Samskrit, Karnatak University,                  Dharwar.</p>		
4. Naiṣkarmyasiddhi	...	13
<p style="text-align: center;">S. S. Ragbavachar, M. A.,                  Head of the Department of                  Post-graduate Studies and Research                  in Philosophy, Manasa Gangotri,                  Mysore University, Mysore.</p>		
5. Śrī Vārtikacārya	...	21
<p style="text-align: center;">Śrī Sringeri Kavi Narasimha Sarma,                  Associate Editor,                  Śrī Saṅkara Kṛipā (Kannada)                  Advaita Asrama, Nanjangud.</p>		
Summaries in English	...	25

ಆವರ ನಾಸ್ತಿಕ ದರ್ಶನಗಳೆಂದು ಹೇಳುವ ಚಾರ್ವಾಕ, ಬ್ರಹ್ಮದ್ವೈತ, ಜೈನ ಮುಂತಾದವು ಹೇಗೆ ವೈದಿಕ ಪಥಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅದ್ವಿತೀಯ ಅತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧಕವಾಗುವವು? ದೇಹಕ್ಕೆ ದೇಹಿಯಾಗಿ - ಅತ್ಮವೆಂಬುದನ್ನು ಚಾರ್ವಾಕ ದರ್ಶನವು ಒಪ್ಪದು, ಬೌದ್ಧ ದರ್ಶನವು ಸ್ಥಿರವಾದ ಈಶ್ವರ, ಅಥವಾ ಅತ್ಮವೆಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪದು, ಜೈನದರ್ಶನವು ವೇದವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೇಹ ಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳ ಸ್ವಾವಯವವಾದ ಅತ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸುರೇಶ್ವರರು "ಎಲ್ಲವೂ ಅತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿಯೇ" ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಹೇಗೆ ಸಂಗತವೆ? ಎಂಬ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಈ ಬಗೆಯಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುವುದು.

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಮ ಶತ್ವ ಬಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಚಾರ್ವಾಕದರ್ಶನವೆಂಬ ಪುಸ್ತಕವು ಸೋಪಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಲನ್ನು ಇರಿಸಿಯೆ ಮುಂದು ಮುಂದಿನ ಸೋಪಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಲನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಡುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ "ಚಾರ್ವಾಕ ದರ್ಶನವನ್ನು" ಮೂಢವರು ಸರ್ವದರ್ಶನ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬರೆದು-ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂಕರದರ್ಶನವನ್ನು ಬರೆದು ಮುಗಿಸಿರುವರು. ಪೂರ್ವ ಪೂರ್ವ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ - ವಿವೇಕಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದೋಷದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾಹೋಗಿ, ಅಂತಿಮ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆಯನಿಸಿದ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಅತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಾಂಕರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗುವುದು ಬಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ.

ಆತ್ಮ - ಅನಾತ್ಮ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡುವವರು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದೇಹವೇ ಆತ್ಮವೆಂದೇ ಚಾರ್ವಾಕ ದರ್ಶನವನ್ನವಲಂಬಿಸದೆ ವಿಧಿಯಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ? ಒಬ್ಬ ಕುಟುಂಬಿಯು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಮಿತ್ರರು, ಮುಂತಾದವರಲ್ಲಿ ಸಮವಾಗಿ ಮಮತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವರ ಸಾವು ನೋವುಗಳು, ಸುವಿ ದುಃಖಗಳು ಇವುಗಳಿಂದ ಕುಟುಂಬಿಯಾದವನು ದಿನವೂ ತೊಳಲುತ್ತಾ ಇರುವುದು ಅಸುಭವವೆಂದು ವಾಗಿದೆ. ಇವರಿಂದ ತನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದ ಬಾಹ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಭಾವನೆ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವನು. ಇದನ್ನು ತಟ್ಟಿಸಲು ತೈತ್ತಿರಿಯ ಶ್ರುತಿಯು ಅನ್ಯಮಯಾದಿ ಪಂಚಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅನ್ಯಮಯ ದೇಹವೇ ಆತ್ಮವೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿರುವುದು. ಈ ಬಗೆಯಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಪೂರ್ವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅರಿಯುತ್ತಾ, ಪಂಚಕೋಶಗಳಿಗೂ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಸಜ್ಜಿದಾನಂದ ರೂಪವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಅತ್ಮವೆಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಶ್ರುತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆಯೇ ಮೂಢವರು ಚಾರ್ವಾಕ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾತ್ಮದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ದೇಹವೇ ಆತ್ಮವೆಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವರು.

ಆದರಿಂದ ಬಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಚಾರ್ವಾಕ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಿಂತು, ದೇಹಾತ್ಮವೆಂದೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಂಡು, "ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮೋಕಂ ಚಾರ್ವಾಕಂ" ಎಂಬುದೇ



ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣವೊಂದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸಿ, ಅನುಮಾನ, ಶಬ್ದ, ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ದೇವಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಆತ್ಮನಿರುವನೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕಾಗುವುದು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೊಂದೇ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು - ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಗಳೂ ಅಪ್ರಮಾಣ, ಸ್ವರ್ಗ ನರಕಗಳಾಗಲಿ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳಾಗಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಪ್ರಮಾಣಿಕ ಎಂದು ಹೇಳಿ-ಚಾರ್ವಾಕ ದರ್ಶನವು ಇಹಲೋಕ, ಇಲ್ಲಿಯುಭೋಗ ಇದೇ ಸತ್ಯ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲವೆಂತಾ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾ ನಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಅದರ ಸಾಧನವಾದ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಬಾರದಂತೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದಕಾರಣ ಈ ದರ್ಶನವೂ ನಿವೃತ್ತಿ ಪರ. ಕ್ರಮೇಣ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧಕ.

ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಚಾರ್ವಾಕ ದರ್ಶನದ ತಳಹದಿಯಿಂದಲೇ ಇಹಲೋಕದ ಭೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಭೋಗ ವಿಹಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಕಾಮ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಸಹ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಪರವಾಗುವುದೆಂದು ಸುರೇಶ್ವರರು ಇನ್ನೊಂದುಕಡೆ ಬೋಧಿಸಿರುವರು-

ಆಪಿ ವಾತ್ಸ್ಯಾಯನಾದೀನಾಂ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಾಮುಕ್ತವೇತುತಃ |  
ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಪುವಿರುದ್ದಂಸ್ಯಾ ದೈಕಾತ್ಯ ಚ್ಚಾನಜನ್ಮನೇ ||

ಇದರ ಅರ್ಥ - ಇತರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಂತೆಯೇ ವಾತ್ಸ್ಯಾಯನಾದಿ ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಿವೃತ್ತಿ ಪರವಾಗಿದ್ದು ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯು ಅವಿರೋಧವಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ?

ಪ್ರವರ್ತಮಾನಃ ಪುರುಷಃ ಶಾಸ್ತ್ರೋದ್ದೀವಿತ ವರ್ತಮಾನ್ ||  
ಪ್ರವೃತ್ತಿವಿಚಯಂ ದುಷ್ಪಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾತೋ ವಿನಿವರ್ತತೇ ||

ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಭೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರೂ ಭೋಗದ ವಿಷಯವನ್ನು ದೋಷಯುಕ್ತವೆಂದು ಕಂಡು ಅದರಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾನೆಂದು ಇದರ ಸಂಕ್ಷೇಪಾರ್ಥ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ "ಧರ್ಮಾವಿರಂದ್ಯೋಭೋತೇಷು ಕಾಮೋಽಸ್ಮಿ ಭರತರ್ಷಭ" ಎಂದು ಭಗವಂತನು ಉಪದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವದಾರನಿರತನಾಗಿದ್ದು ನಿಯಮದಿಂದ ಅನುಭವಿಸುವ ಕಾಮವು ಭಗವಂತನ ಆಶಯಂತೆ ಪೂಜ್ಯವೆನಿಸುವುದು. ಅನಂತರ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ಮ್ಯಾದಿ ದುಃಖ ದೋಷಾನುದರ್ಶನಂ ಎಂದು ಗೀತೋಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೋಗವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ದೋಷವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತಿಯೊಂದಿ ಅವುಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಬಹುದು. ಈ ಬಗೆಯಾಗಿ ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರವೂ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದೆ.

ಬೌದ್ಧ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ "ಸರ್ವಂ ದುಃಖಂ ದುಃಖಂ, ಸರ್ವಂ ಕ್ಷಣಿಕಂ, ಸರ್ವಂ ಶೂನ್ಯಂ ಶೂನ್ಯಂ" ಎಂಬೀಬಗೆಯಾಗಿ ಎಂದು ಬುದ್ಧನು ಉಪದೇಶಿಸಿರುವುದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇರುವ ರಾಗವು (ಆಸೆಯು) ದೋಷಿ ವೈರಾಗ್ಯವೇ ಹುಟ್ಟಲೆಂಬ

ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಸರ್ವವು ಕ್ಷಣಿಕವೆಂದಾಗಲಿ ಶೂನ್ಯವೆಂತಾಗಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಿರುವುದು ಆತ್ಮನೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲ. ಹೀಗೆಂದು ಸುರೇಶ್ವರರು —

ಅನಿತ್ಯದುಃಖಶೂನ್ಯತ್ವಂ ಪದಾರ್ಥಾನಾಂ ಬ್ರವನ್‌ಸ್ವತಿಂ

ಒದ್ದೋಕ್ತು ರಾಗಾದ್ಯುಚ್ಚಿತ್ತಾ ಯತತಃ ನಾತ್ಮವಿನ್ವುತೌ ||

ಪ್ರಪಂಚತ್ಯಾಗದೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಮೋಕ್ಷಸಾಧನ, "ಆತ್ಮಾರ್ಥ ಪ್ರಥಿವೀಂ ತ್ಯಜೇತ್" ಎಂದು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಥಿವಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸು ಅದರ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಿಡು ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಈ ತ್ಯಾಗಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ ಎಂಬುವ ಪರಮಾತ್ಮ ಪದವಿಯು ಲಭಿಸುವುದೆಂದು ವಾರ್ತಿಕಕಾರರು ಹೇಳಿರುವರು —

ತ್ಯಾಗ ಏವ ಹಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮೋಕ್ಷಸಾಧನ ಮುತ್ಸಮಮ್

- ತ್ಯಜತೈವಹಿ ರಜಃ ಜ್ಞೇಯಂ ತ್ಯಕ್ತುಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ ಪರಂಪದಮ್ ||

ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಬುದ್ಧನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯಹೊಂದಿ ಅದರಿಂದ ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ ನಿಪ್ರತಿಹೊಂದಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲೆಂದೇ, ಸರ್ವವೂ ಶೂನ್ಯ ಕ್ಷಣಿಕ ದುಃಖಮಯ ಎಂಬಿಬಗೆಯಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ಬೌದ್ಧದರ್ಶನವು ನಮಗೆ ಅವಿರೋಧವಾಗಿದೆ,

ಈ ಮೇಲಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಿ ಆನಂದಗಿರಿಗಳು ವಾತಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವರು. 'ಟೀಕಿಯಿಂದಲೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು,

ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅರಿತ ಗೌರಮ ಬುದ್ಧನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ವಸ್ವವವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ಸಂನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಏಕಾಂತ ನಿವಾಸ ಮಾಡಿದನು

"ಅಹಂ ಮಮೆ" ಎಂಬುದು ಹೊಂದ ವಿನಹ ಯಾರಿಗೂ ಮುಕ್ತಿಯಿಲ್ಲವೆಂಬ ದೆನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅರಿತ ಕ್ಷಣಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವಾದಿ (ಬೌದ್ಧನು) ಅಹಂ ಎಂಬುದನ್ನು ಕ್ಷಣಿಕ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದರ ಸ್ಮಿರತ್ವವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದನು. ವೇದಾಂತಿಗಳಿಗೆ ಅಹಮ್, ಎಂಬುವ ಜೀವಭಾವದ ಸತ್ಯತಾಬುದ್ಧಿಯುಹೋಗಿ ಪರಮಾರ್ಥವಾದ ಅಹಂಕಾರಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯೆನಿಸಿದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅರಿವಿಗೆ ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿಯೇ ಇರುವುದು ಈ ಒಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿ ಈ ದರ್ಶನವು ನಮಗೆ ಅವಿರೋಧ ವಾಗಿಯೇ ಇದೆ --

ಇದರಂತೆಯೆ ಜೈನಸಿದ್ಧಾಂತವು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸ್ಯಾದ್ವಾದದಿಂದ ಅಂದರೆ, ಸತ್ಯೋ ಅಸತ್ಯೋ ಇತ್ಯಾದಿ ರೂಪಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ವಿರುದ್ಧರೂಪವಾಗಿರುವುದೆಂದು ತೋರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮದಂತೆ ಸತ್ಯೇ ಅಲ್ಲಿ, ತತ್ವದಂತೆ ಮೊಲದ ಕೊಂದಿನಂತೆ ಅಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ— ಈಜುಗಳಾಗಿ ಏಕರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದವೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ವೇಚನೆಯ ವಾದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚ ಸತ್ಯವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಮಾಡಿತು ಲಿ

ರಿಂದ ಜೈನಸಿದ್ಧಾಂತ ಈ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆಸೆ ರಾಗ ಇವಲು ಅವಕಾಶಕೊಡದೆ ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ದೂರವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯಮಾಡಿದೆ.

ಇದರಂತೆಯೆ ನ್ಯಾಯ, ವೈಶೇಷಿಕ - ಎಂಬುವ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರಗಳೂ ಸಹ ನಿವೃತ್ತಿ ಪರವಾಗಿವೆ, ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿವೆ. ಯದೃಚ್ಛ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪ್ರಪಂಚ ಸತ್ಯ, ಆತ್ಮಸತ್ಯ, ಈಶ್ವರಸತ್ಯ, ಈ ಭೇದಗಳೂ ಸತ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿವೆ. ಆದರೂ ನಾವು ವೇದಾಂತಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ಈ ಭೇದವನ್ನು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ನಮಗೆ ಎರೋಧ ವಾಗಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯತೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎರೋಧ, ಅನಿವಾರ್ಯ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ವದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿಳಾಗಿಯೂ, ಪದಿನಾರಾಗಿಯೂ ಮತಭೇದದಿಂದ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಅನಾತ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆತ್ಮ, ಈಶ್ವರವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ, ವೇದಾಂತದ ತತ್ವವದಾರ್ಥ ವಿವೇಕವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಅನಾತ್ಮವಾದ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ದೂರವಾಗಿರಲು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸಹಕಾರಕೊಟ್ಟಿವೆ.

ಸಾಂಖ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರವಂತೂ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷರ ಅವಿವೇಕದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಸುಸಾರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಕೃತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ, ವೇದಾಂತಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತ ಅವ್ಯಕ್ತವೆಂಬ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ದೂರನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅರಿವಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವು ನೀಡಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತ ಅವ್ಯಕ್ತಗಳೆರಡೂ ನಿಂತಿರುವುದೇ ವೇದದ ಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರಗಳು. "ಕ್ಷರಃ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ. ಕೂಟಕೋಟಕ್ಷರ ಉಚ್ಯತೇ. ಉತ್ತಮಃ ಪುರುಷಸ್ತನ್ಯೇ ಪರಮಾತ್ಮತುಡಾಪ್ಯಮ್" ಎಂದಂತೆಯೆ ಕ್ಷರಾಕ್ಷರ ಪ್ರಮಾಣಾತಿತವನ್ನು, ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ: ಈ ಆತ್ಮವು ಸಾಂಖ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿತಸ್ಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾದುದು, ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಿನ್ನವಾಗಿರದೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶುದ್ಧ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂವಾಗಿ ಅದ್ವಿತೀಯವಾಗಿರುವುದು ಅಷ್ಟೆ. ಭೇದ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ. ಇಂತಹ ಆತ್ಮನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ವೇದವಂತ ಸಹಕರಿಸಿದೆ.

ಇದರಂತೆಯೆ ವಾಕನುಬ ದೋಗನಾಸ್ತ್ರವೂ ನಿವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿದ್ದು ಕ್ರಮವೇ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳನ್ನು ಇಳಿಸಿದೆ. ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರ ನಾದ ಅಂದರೆ ಸುಸಾರುಭವೇ ಇಲ್ಲದ ಪುರುಷನೇ ಈಶ್ವರ ಎಂದು "ಕ್ಷೀಣಕರ್ಮವಿವಾ ಣತಮೈರವರಾಪ್ನುನ್ವಾ ಪುರುಷಮೇವ ಈಶ್ವರ" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಮಾಡಿದೆ. ಇದೂ ಸಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ದೂರವಲು ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಬೇರೆಮೂಗಿ ದೆಟ್ಟಿದಾಗಲೂ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಾರಣವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಮಾಡುವ ಇದನ್ನೇನು ತೋರಿಸುವುದೆ ಇದೆ. ಈಶ್ವರನು ಉದಾಹಾರ ನಿವಿತ್ತ ಕಾರಣವೇನುಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿ ಉನ್ನತವಾದರೂ ಪ್ರವೃ

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಿಕಾರ್ಥವಲ್ಲವೆಂತ ತಿಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ತದ್ಭಿತ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಣಾಮಿಯಲ್ಲವೆಂಬುವ ಮಾತು ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಲ್ಲ.

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೋಧಿಸಿರುವುದು ತತ್ಪರಮಾರ್ಥ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಯಿತು. ಚಿತ್ರವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧವೇ ಕೈವಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧನವೆಂತ ಹೇಳಿ ಜ್ಞಾನವು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದ್ದರೂ ವೇದಾಂತಿಗಳ ತತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯವಿಷಯಗಳೇ ದೊರವಾಗಿ ಚಿತ್ರವು ಅಂತರ್ಮುಖವಾಗಿದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನವಾಗಿ ತನ್ನಾತ್ಮಾರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಯೋಗವು ಸಹಕಾರಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಚಿತ್ರವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧವೆಂಬುದನ್ನು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿತ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಳಿದ ಅನಾತ್ಮಚಿಂತೆಯನ ನಿರೋಧಿಸುವ ಯೋಗ ಎಂಬುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವೇದಾಂತವೂ ಒಪ್ಪುವುದೆಂದರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಅತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಸಹಕರಿಸಿದೆಯಾದಕಾರಣ ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ.

ಹೀಗೆಯೆ ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಧರ್ಮ (ಕರ್ಮ) ಕೈ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವನ ಕೊಟ್ಟು, ಅತ್ಮ — ಈಶ್ವರ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಕೊಡದೆ, ಧರ್ಮ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರಥಮ ಸೋಪಾನವಾದ ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಕ್ರಮವಾಗಿ ಚಿತ್ರಶುದ್ಧಿ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅದ್ವಿತೀಯಾ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರವು (ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಪ್ರವರ್ತನೆಯೆಂಬುವ) ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನು ಬೋಧಿಸಿದರೂ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಫಲಕಾಮನೆಯಿಲ್ಲದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ ಸಹ ನಿವೃತ್ತಿ ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದಾದಕಾರಣ ಒಂದು ಬಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನೆ ಬೋಧಿಸಿದಂತೆಯಿತು. ಪರಕಾಮನೆಯಿಲ್ಲದ ನಿತ್ಯವೈಮಿತ್ತಿಕವೆಂಬುವ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯೂ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಗೀತೆಯೂ ಬೋಧಿಸಿರುವುದು —

“ಅನಾಶ್ರಿತಃ ಕರ್ಮಫಲಂ ಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಕರೋತಿ ಯಃ

ಸ ಸನ್ಯಾಸೀ ಚ ಯೋಗೀಶ ನ ನಿರಗ್ನಿರ್ನಜಾಕ್ರಿಯಃ” ||

ಎಂದು. ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯು ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಅದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದು ಬೇಕೆಂದಾಗದು. ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಗೀತೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಕರ್ಮ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಜೈಮಿನಿಗೂ ಸಮತದಾಗಿ ತೋರುವುದು — ಗೀತೆ — “ಸ್ವಕರ್ಮಾಗಾ ತ ಮುಘೈರ್ಚ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಂ ವಿವಶತಿ ಮಾನವಃ | ಎಂಬುದೂ” ಸ್ವಸ್ತೇ ಕರ್ಮಾಗ್ಯಾಭರತಃ ಸಂವಿದ್ವಿಂತಿಭತೇ ನರಃ || ಈ ಗೀತೆಯೂ

ಈಶ್ವರ ಪ್ರೀತಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ತನ್ನ ತನ್ನ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಮೋಕ್ಷವನ್ನೂ ಹೊಂದುವೆನೆಂದು ಹೇಳಿ ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಅಥವಾ ಪಾಪವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಮಾಡಿದ ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರ ಇದರಂತೆ ಇತರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು. ಈ ಎಲ್ಲವೂ ನಿವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ.

ಇದರಂತೆಯೇ ಶೈವ, ವೈಷ್ಣವಾದಿ ಆಗಮಗಳೂ ಸಹ ಭಕ್ತಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿವಿಧವಾಗಿ ಬೋಧಿಸಿ, ಶಿವ, ವಿಷ್ಣು ಮುಂತಾದ ಉಪಾಸನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಧ್ಯಾನಮಾರ್ಗದ ದ್ವಿತೀಯ ಸೋಪಾನದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಗಳನ್ನು ಲಯಮಾಡುತ್ತಾ ಕ್ರಮೇಣ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಅತ್ಮಶತ್ಕಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಡುವುದರಿಂದ ಅನೋನ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಮತಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದೆ ಸಹಕಾರಕೊಟ್ಟಿದೆಯಾದಕಾರಣ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೂ ಸುರೇಶ್ವರರು ಪೇಳಿದಂತೆ ನಿವೃತ್ತಿ-ಅತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪರವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.

ಇದರಂತೆಯೇ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ನಾಟ್ಯ ಮುಂತಾದ ಇತರ ಕಲೆಗಳೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೂ ಸಹ, ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಭೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಮೆರೆಯುವಂತೆಮಾಡಿದ್ದರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಜಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವನಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಬೇಸರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಕಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಬೇಸರಿಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿ, ದೋಷ ದರ್ಶನದಿಂದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಉಂಟುಮಾಡಿ ಅತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಮಾಡುವವು.

ಈ ರೀತಿ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ ಅತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸಿ ಕರುಡಿಸಿರುವುದು ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳ ಪರಮಭಾಗ್ಯವೆಂದು. ಇದರಿಂದ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಾದಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ತೋರದೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಯವಾದ ಅತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರೇಯೋಭಾಗಿಗಳಾಗುವಂತೆ ಭಗವತ್ಪಾದರೂ, ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರೂ ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಪಂಡಿತವ್ರವರ ವಿದ್ವಾನ್ ಕೆ. ಕೃಷ್ಣಮೋಯಿಸ್  
ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ  
ಶರಣಮಠ, ಬೆಂಗಳೂರು.

# ಉಭಯಭಾರತೀ

ರಾಗ: ಸರಸ್ವತಿ

ತಾಳ: ಚೌ ಶ್ರುತಿ

ಮಂಡನ ಪಂಡಿತ ಸತಿಯೆ ಅತಿ  
ಶುಂಡನ, ಪಂಡಿತಗೈವ ವಾಗ್ಗೇವಿಯೆ      || ಪ ||

ತುಂಡ ತುಂಡದಿ ಬರುವ ಎಡರುಗಳ ಪ್ರ  
ಕುಂಡ ವಿನೋದನಿ ನೀನಿರುವ ನಡತೆಗಿ      || ಅ ಪ ||

ಯತಿಶಾಪದಿಂ ವಿಷ್ಣು ಮಿತ್ರನಿಗೆ ಸತಿಯಾದೆ  
ಚತುರತೆಯಿಂ ವಾದಗೈದೆ ಶಂಕರರಲ್ಲಿ  
ಮತಿವಾತೆ ವಾನಿಯೆ ಉಭಯಭಾರತಿಯೆ  
ಸುತಿಗೈವ ಭಾಗ್ಯವನನಗೆ ನೀಡಮ್ಮ      || ೧ ||

ಅದ್ವೈತವಾದಿಗಳ ಅಭಿಷ್ಠವ ಸಲಿಸಿದೆ  
ವಿದ್ವನ್ನನೋನಿಲಿಯೆ ಶೃಂಗೇರಿಪುರವಾಸೆ  
ಸುಧ್ವನಿ ಸುಗಾನ ಸುಮತಿ ವಿರಾಜಿಪೆ  
ತದ್ವದನ ನಿನ್ನಯ ತಾನ ಸರಸತಿಯೆ      || ೨ ||

ಶಾಮರಸದಳಸಂಪ್ರೆ ಕರುಣೆಯಕೆ ತೋದೊ  
ಹೈಮವಸನೆಯ ಸಸ್ಮತಿಯಿತ್ತು ಸಲಹೆ  
ಪಾಮರರ ಮೊರೆಯನ್ನು ನೀನಾಲಿಸೊ  
ಪ್ರೇಮದಿಂದಲಿ ಎಮ್ಮ ಪರಿವಾಲಿಸೊ      || ೩ ||

ರಚನಗಾರ್ತಿ, ಕೆ. ಬಿ ಹೈಮಾವತಿ  
ಸಂಗೀತ ಅಧ್ಯಾಪಕಿ  
ವಾಗೇವಲಾಸ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು

# ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೃತಿಗಳು

ಲೇಖಕರು ಡಾ|| ಕೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಎಂ.ಎ., ಬಿ.ಟಿ. ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ.  
(ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)

ಆದಿ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರಿಗೆ ಗ್ರಂಥಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ಸಂನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮದ ಶಿಷ್ಯರೂ ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದುದನ್ನು "ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯವಚನಂತ್ಯ" ವೆಂಬ ಗ್ರಂಥ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳೂ ಶಿಷ್ಯೋತ್ತಮರೂ ಆಗಿದ್ದು - ಮರಾಠ್ಯಯುಗಳ ಪ್ರವರ್ತಕರೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದವರು ನಾಲ್ವರೇ. ಅವರು ಯಾರೆಂದರೆ - (1) ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯ, (2) ವದ್ವಪಾದಾಚಾರ್ಯ, (3) ಹಸ್ತಮಲಕಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು (4) ತೋಟಕಾಚಾರ್ಯ. ಇವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಈವರೆಗೆ ಕೃತಿರತ್ನಗಳೂ ಪ್ರಕರಣಗ್ರಂಥಗಳೂ, ಉಪಲಬ್ಧವಿರುವುದರಿಂದ ಅಧ್ಯಯನದರ್ಶನದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಅಪರೂಪವಾಗಿವೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ - ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ - ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನೇಮಕಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ -

ಭಗವತ್ಪಾದರ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರೇ ಯೋಗ್ಯರೆಂದು ಗುರುಗಳು ಭಾವಿಸಿದರೂ ಮಿಕ್ಕ ಶಿಷ್ಯರೂ ಅಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಬೃಹದಾಚಾರ್ಯಕ - ಹಾಗೂ ತೃತ್ತೀಯೋಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯಗಳಿಗೆ "ವಾರ್ತಿಕ" ವನ್ನು ಒರೆಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಶಿಷ್ಯಾಗ್ರೇ ಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರೆಂದು ವದಂತಿಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ "ನೈಷ್ಯಮ್ಯಸಿದ್ಧಿ" ಯೆಂಬ ಪ್ರಕೃತ ಪ್ರಕರಣಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅದ್ವೈತ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೆ - ಆದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನೂ ಇತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಕ್ತ ಉಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯ ವಾರ್ತಿಕಗಳಲ್ಲದೆ "ಪಂಚಿಕರಣ" ಹಾಗೂ "ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಸ್ತೋತ್ರ" ಗಳೆಂಬ ಅಚಾರ್ಯರ ಲಘುಕೃತಿಗಳನ್ನೂ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ "ವಾರ್ತಿಕ" ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವುದರಿಂದ ಅದ್ವೈತ ಪಂಚಾಂತದ "ವಾರ್ತಿಕಕಾರ" ರೆಂಬ ಬಿರುದು ಅವರಿಗೆ ಮಿಸೆಲಾಗಿವೆ.

ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರು ಪಂಚಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ವಾನ್ಮಾನನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೆಕಲ ವಿದ್ಯಾವಾರಂಗಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದರು. "ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಸ್ಮೃತಿ" ಗೆ ಅವರಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿರುವ "ಹಾಲಕ್ರೀಡಾ" ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಮುದ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ಅದು ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ್ಯಕೃತವೆನ್ನಲಾಗಿದ್ದರೂ - ವಾಸ್ತವ ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರ ನಾಮಾಂಕಿತವೆ - ಎಂದು ವಿದ್ವಾನ್ಮಾನರು ಮನುಷ್ಯರ ವಿವೇಚನೆ "ವರಾಹಶ್ವತಿ" ಗೆ ಪ್ರಾಥಮಾಚಾರ್ಯ - (ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ) ರು ಬರೆದಿರುವ

“ಪರಾಶರ - ಮಾಧವೀಯ” ವೆಂಬ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಭಾಷ್ಯವಾರ್ತಿಕವನ್ನು ಉದಹರಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನು ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ್ಯರ ರಚನೆಯೆಂದೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ:

“ವಾರ್ತಿಕೇ ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ್ಯ ಉದಾಹರಾರ್ —  
ಆಮ್ರೇ ಫಲಾರ್ಥೇ ಇಶ್ಯಾದಿಹ್ಯಾಪಸ್ತಂಭಸ್ಯುತೇರ್ವಚಃ |  
ಫಲಭಾಕ್ತ್ಯಂ ಸಮಾಚಷ್ಟೇ ನಿತ್ಯಾನಾಮಪಿ ಕರ್ಮಣಾಮ್ ||”

ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರ ಅಗಾಧ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿತೋರಿಸುವ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳೆಂಬುದು :- (1) ಶ್ರಾದ್ಧಕರಿಕಾ, (2) ವಿಶ್ವರೂಪಪಮುಚ್ಚಯ. ಆದರೆ ಇವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಶಂಕರದಿಗ್ವಿಜಯಕಾರನಾದ ಮಾಧವ ಕವಿಯೂ ಕೂಡ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ವಿಶ್ವರೂಪನೆಂದೇ ಸಂಬೋಧಿಸಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. (ಸರ್ಗ 3 ; ಪದ್ಯ - 1 - 36 : 42)

ಸಾದಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಚಲಿತವಿರುವ ಐತಿಹ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದ ನಾಮಧೇಯ — “ಮಂಡನಮಿಶ್ರ” ಎಂದು, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೊಡನೆ ವಾದಮಾಡುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕುಮಾರಿಲಭಟ್ಟರ ಶಿಷ್ಯರೂ ಕರ್ಮ ಮೀಮಾಂಸೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಕರೂ ಎನಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ವಾದದಲ್ಲಿ ಪರಾಜಿತರಾಗಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಸಂನ್ಯಾಸದೀಕ್ಷೆ ವಹಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನಕಾಂಡದ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದರು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಎಂದರೆ ಇವರ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮವಾಸನೆಯ ಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಇವರು ವಾರ್ತಿಕವನ್ನು ರಚಿಸಲು ತಕ್ಕವರಲ್ಲವೆಂದು ಕೆಲವರು ಶಿಷ್ಯರು ಭಾವಿಸಿದರಂತೆ. ಎಲ್ಲ ಶಂಕರ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಗ್ರಂಥಗಳೂ ಈ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದರಿಂದ ಪಂಡಿತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಂಡನ - ಸುರೇಶ್ವರರ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಗ್ರಾಹ್ಯವೆನಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ-ವಿದ್ವಾಂಸರು ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸಂಶೋಧನೆಮಾಡಿ ಇವರು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಡನಮಿಶ್ರರು ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರಿಗಿಂತ ಹಿಂದಿನವರು. ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಒಪ್ಪಳಿ ಮತ್ತು ಭೇದಗಳಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ಅದ್ವೈತ ಗ್ರಂಥಗಳಾದ “ಸಂಕ್ಷೇಪಶಾರೀರಕ” ಮತ್ತು ಅದರ ಟೀಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಮಂಡನ ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ವರರನ್ನು ಭಿನ್ನರೆಂದು ಬಗೆದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡನರ ಅದ್ವೈತ ವಾದವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಸುರೇಶ್ವರರ ವಾದವನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಬ್ರಹ್ಮಸಿದ್ಧಿಕಾರ” ರೆಂದೇ ಮಂಡನರನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ “ನ್ಯಾಯಮಕರಂದ” ವನ್ನು ಬರೆದ ಆನಂದಬೋಧನು ಕೂಡ ಮಂಡನರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನೂ ಸುರೇಶ್ವರರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿಯೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾನೆ. “ನ್ಯಾಯರತ್ನದೀಪಾವಲಿ” ಯನ್ನು ಬರೆದ ಆನಂದಾನುಭವ ನೆಂಬುವನಂತೂ ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ “ವಿಶ್ವರೂಪ, ಪ್ರಭಾಕರ, ಮಂಡನ, ವಾಚಸ್ಪತಿ,



ಸುಚರಿತಮಿಶ್ರರನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ವಿಶ್ವರೂಪನ ಸಂನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ ನಾಮವೇ ಸುರೇಶ್ವರನೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ವಿಚಾರಮಾಡಿ ಮದ್ಯಾಸಿನ ದಿವಂಗತ ವಿಸ್. ಕಂಪುಸ್ವಾಮಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಗಳು ಮಂಡನ - ಸುರೇಶ್ವರರ ಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಬಹುದು.

“ಬ್ರಹ್ಮಸಿದ್ಧಿ” ಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಡನರ ಅದ್ವೈತಪ್ರಾಕ್ರಿಯೆಗೂ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅದ್ವೈತ ಪ್ರಾಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೂ ಸಾಮ್ಯದ ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ:—

‘ನೈಷ್ಯಮ್ಯಸಿದ್ಧಿ’ ಯಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರು ಮೂರು ಬಗೆಯ ಸಮುಚ್ಚಯವಾದಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಗಿಂತಲೂ ಪೂರ್ವದ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನದಂದು ‘ವಿದ್ಯಾಸುರಭಿ’ ಯೆಂಬ ಟೀಕೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ (I. 67) ಎರಡನೆಯದೇ ಮಂಡನಮಿಶ್ರನದು. ಇದನ್ನು ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕರ್ತೃಗಳಲ್ಲಿ (IV. iv. 789-810) ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ನೈಷ್ಯಮ್ಯಸಿದ್ಧಿ” ಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ (III 88-93). ಮೂರನೆಯದು ಭೇದಾಭೇದವಾದಿಯಾದ ಭರ್ತೃ ಪ್ರಪಂಚನದು ಎಲ್ಲರೂ ಅದ್ವೈತವಾದಿಗಳೇ ಆದರೂ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನದಂತೆ ಕರ್ಮದ ಸಮುಚ್ಚಯವೂ ಶಕ್ತಿಯೇ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದವಿದೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಂತೆ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಸಮುಚ್ಚಯವಾದವನ್ನು ಒಪ್ಪತಕ್ಕವರಲ್ಲ.

ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರೂ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಸರ್ವಜ್ಞಾತ್ಮ ಮುನಿಗಳೂ ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ತತ್ವದ್ವೈತ್ಯವನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರಲ್ಲಿ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದುದೆಂದರೆ ‘ಮಾಯೆಯು’ ಸ್ವರೂಪನಿರ್ವಹಣ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಪಾದರ ವಿವರಣೆಗೂ ವಾಚಸ್ಪತಿಮಿಶ್ರರ ವಿವರಣೆಗೂ ಸುರೇಶ್ವರರ ವಿವರಣೆಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೊಂಟು. ವಿಕೃತ ವರಪೂರ್ಣ ವಸ್ತುವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಅನೇಕವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಮಾಯೆ ಕೇವಲ “ದ್ವಾರ” ಎಂದು ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಮಾಯೆಯ ಆಶ್ರಯ ಹಾಗೂ ವಿಷಯಗಳೆರಡೂ ಬ್ರಹ್ಮವೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭ್ರಾಂತಿಗಳಿಗೂ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಸದ್ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಇರುವುದಾದರೂ ಮಾಯೆಯು ಅವಕ್ಕೆ ಫಲದೆಯಂತೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಸುರೇಶ್ವರರ ವಾದದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವೊಂದೇ ಸತ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದರಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಾರಣೆಯು ಶೂನ್ಯವು ಆವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಗಳ ವಿವೇಚನೆಯ ಮೆಲ್ಲ. ಇದನ್ನು “ಅಭಾಸವಾದ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕಾಲೀನ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರ ‘ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸಿದ್ಧಿ’ಯ ವಿವರಣೆಗೆ “ಮಾನಸೋ ಲ್ಲಾಸ” ಎಂದೂ ನಾಮಾಂತರವೊಂಟು. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೈವಶಕ್ತನಾದ 36 ತತ್ವಗಳು.

ತಾರ್ಕಿಕಾತ್ಮಕಗಳ ಮತ ನಿರಾಕರಣೆ - ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. - ಕೆಲವರು  
 ಇದನ್ನು ಸುರೇಶ್ವರರ ಮೂಲಕೃತಿಯೆಂದು ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. - ಇದರಲ್ಲಿ  
 ತೈತ್ತಿರೀಯ, ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ - ಈ ಭಾಷ್ಯವಾರ್ತಿಕಗಳ ಮತ್ತೆ ಪಂಚೇಶ್ವರ  
 ವಾರ್ತಿಕದ ಮೇಲೆ ಅನಂದಗಿರಿಯೆಂಬವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ - ದೂರೆಯುತ್ತದೆ. - ವಿದ್ಯಾ  
 ರಣ್ಯರು - ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ - ವಾರ್ತಿಕಸಾರ - ವೆಂಪ. ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.  
 "ಸೈಷ್ಯವರ್ತಿಸಿದ್ಧಿ" ಯ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕೈದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳ ಉಪಲಬ್ಧವಿವೆ.

# ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ

ಲೇಖಕರು: 'ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ಎಸ್. ರಾಘವಾಚಾರ್, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು.

ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಶಿಷ್ಯ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರು, ಇವರು ಆಚಾರ್ಯರ ಸಾಕ್ಷಿದನುಯಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥರಚನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಗಳಿಸಿದವರು. ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಇವರ ಕೃತಿಗಳೆಂದು ಪ್ರತೀತಿಯಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಸಂಶಯಕ್ಕೂ ಅಸ್ಪದವಿಲ್ಲದ ಗ್ರಂಥಗಳೆಂದರೆ 'ಬೃಹದ್ಗಾರಣ್ಯಕ ಭಾಷ್ಯವಾರ್ತಿಕ', 'ತೃತ್ತೀಯ ಭಾಷ್ಯವಾರ್ತಿಕ' ಮತ್ತು 'ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ' ಎರಡು ವಾರ್ತಿಕಗಳೂ ಭಾಷ್ಯದ ಸಾಮಾನ್ಯವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನೂ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿರುವುದೂ ಉಂಟು. ಈ ಎರಡು ಕೃತಿರತ್ನಗಳೂ ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತದ ಎರಡು ಮಂಗಳ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳೆನ್ನಬಹುದು. ಇವು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಮತ್ತು ಭಾಷ್ಯಗಳ ಬೆಂಕಿಟ್ಟಿನ ಒಳಗೇ ತಮ್ಮ ತತ್ವವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 'ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯು ಸ್ವತಂತ್ರ ಗ್ರಂಥ. ಇದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ವಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಮೂಲಗಳ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ, ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ವೇದಾಂತ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನೂ, ತಾವು ಯುಕ್ತವೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ರೀತಿಯನ್ನೂ ಹೊರಗೆಡುವುದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇದು ಅಷ್ಟು ಬೃಹದ್ಗ್ರಂಥವೂ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವಿಮರ್ಶಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸುರೇಶ್ವರರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಶ್ರೇಷ್ಠತಮ ವಾದುದು. ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ನಾಲ್ಕು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಪ್ರಕೃತ ಲೇಖಕರ ಉದ್ದೇಶ.

ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು: " ಅಶೇಷ ವೇದಾರ್ಥಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಪ್ರಕರಣಮಿಮಂ " ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ದರ್ಶನಗಳೆಲ್ಲದರಂತೆ ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಮನುಷ್ಯನ ಪರುಷಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಯು ಪರಮ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದ ವಿಷಯ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.

" ಅನರ್ಥ - ಅನರ್ಥ ಭೇದ - ಪರುಷಾರ್ಥ - ತದ್ವೇತು " ಇವು ಇದರ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ವಿಷಯ. ಇಲ್ಲಿ 'ಅನರ್ಥ' ವೆಂದರೆ ' ಸರ್ವಪ್ರಕಾರ ದುಃಖ ' ಇವರ ಭೇದ " ದಿವಾತ್ಮಾ ಪ್ರತಿವತ್ತಿ ". ಅತ್ಯ ಮನ್ಯು ಓದಿ: ತತ್ತ್ವ ಅನಾತ್ಮವೆಲ್ಲಾ ಬಯ ಕೋರಿಕೆ, ಅತ್ಯ ಓದಿ: ಅಶಕ ಅತ್ಯಗಳಲ್ಲ. ಅತ್ಯವು ಅನಂತ ಅನಂತ ಸ್ವರೂಪ. ) ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಸರ್ವ ಅರ್ಥಕ್ಕೂ ಕಾರಣ. ಇದೇ

“ ಅವಿದ್ಯಾ ” ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಪುರುಷಾರ್ಥವೆಂದರೆ, ಮೋಕ್ಷ. ಸರ್ವವ್ಯಾಪಾರ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ, ನೈವಸ್ವರೂಪಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಈ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ವೇನೆಂದರೆ “ ವೇದಾವಸಾನ-ವಾಕ್ಯೋತ್ತಮ-ಸಮ್ಯಕ್-ಜ್ಞಾನ ” ಅಂದರೆ ವೇದಾಂತ ಗತವಾದ “ ತತ್ತ್ವಮಸಿ ”, “ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ” ಮೊದಲಾದ ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳ ಶಾಶ್ವತ್ಯಾದ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಜ್ಞಾನ.

ನೈವಸ್ವಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ಮೊದಲನೆಯ - ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಮೇಯ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನ. ಇದು ಜ್ಞಾನವೇ ಅಥವಾ ವೇದೋಕ್ತವಾದ ಕರ್ಮವೇ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ವೇದೋಕ್ತ ಕರ್ಮಚರಣೆಯೇ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನವೆಂದು ಮೀಮಾಂಸಕರ ಮತ. ಜ್ಞಾನ - ಕರ್ಮಗಳ ಸಮುಚ್ಚಯ ಮೋಕ್ಷಸಾಧನವೆಂಬುದು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಚೀನ ವೇದಾಂತಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಚ್ಛೇಡನ್ನೂ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ನಿರಾಸಮಾಧಿ ಜ್ಞಾನವೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಹೇತುವೆಂದು ಸುರೇಶ್ವರರು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ, ಇದೊಂದು ಉಪಾಸನೆ ಅಥವಾ-ಧ್ಯಾನವೆಂದಲ್ಲ, ಇದು ವೇದಾಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಜನ್ಯವಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಅನುಭವ.

ಶಾಶ್ವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾಗಿವೆ

- 1) ಪುರುಷಾರ್ಥವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಪ್ರಾಪ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವುದು.
- 2) ಅನರ್ಥವು ವಸ್ತುತಃ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಉಪಾಯ ತೋರಿಸುವುದು.
- 3) ಪುರುಷಾರ್ಥವು ಅಪ್ರಾಪ್ಯವೆಂಬುದು ಭ್ರಾಂತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಭ್ರಾಂತಿ ನಿವಾರಣೆಮಾಡುವುದು.
- 4) ಅನರ್ಥವು ಇದೆ ಎಂಬುದು ಭ್ರಾಂತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾನವು ವಿಸ್ಮಯಕ ಮೋಗಲಾಡಿಸಿ, ಅನರ್ಥವು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಶಾಂತಿ ಏರ್ಪಡುವುದು.

ಸುರೇಶ್ವರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮನೇ ಬರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ, ಮತ್ತು ಅವನು ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧ. ಅನರ್ಥವೆಲ್ಲಾ ಅನಾತ್ಮರೂಪವಾದದ್ದು. ಅದು ಕೇವಲ ತೋರಿಕೆ, ಅದುದರಿಂದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನರ್ಥವಿನಾಶ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧ. ಇದು ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ.

“ ಪರಿಪೃಥಾವಾಪ್ರಯೋಗೋಧಾದ್ಧಾನ ಪ್ರಾಪ್ತೀ ನ ಕರ್ಮಣಾ !  
 ಮೋಹ ಮೋಕ್ಷಾಂತರಾಯತ್ವಾತ್ ಕ್ರಿಯೆಯಾ ತೇ ನ ಸಿದ್ಧತಃ ! ”

ಆದರೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲವೆಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ಬೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಚಿತ್ತರುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ದಾರಿಮಾಡಿ ಕೊಡುವುದು. ಅದು ಸಾಧನದ ಸಾಧನ, ಈ ರೀತಿಯ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಕೇವಲ ನಿತ್ಯ - ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳಿಗಲ್ಲದೆ, ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಹೇಳಿರುವುದು, ನೈಷ್ಯರ್ಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ.

ಜ್ಞಾನವು ಮೋಕ್ಷಸಾಧನವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು ಈ ಜ್ಞಾನವು ಏನನ್ನು ಕುರಿತು ಏನುಬುದನ್ನು ಎಸ್ತರಿಸಬೇಕು, ತತ್ವಮುಖಿ ಮಹಾವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪದಿಷ್ಟವಾದ ಆತ್ಮ-ಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯವೇ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯ, ಈ ತತ್ವವನ್ನು ವೇದಾಂತವು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಒಡನೆಯೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಶಯ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೋಚರ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಸುರೇಶ್ವರರು ಈ ರೀತಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ

“ಶ್ವಾವಿತೋ ವೇತ್ತಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಂ ನ ಚಿತ್ತೈಶ್ಚಮುಖಿತ್ಯತಃ |  
 ತ್ವಂ ಪದಾರ್ಥಸಭಿಜ್ಞತ್ವಾತ್, ಅತಃ ತತ್ತ್ವ ಕ್ರಿಯೋಚ್ಯತೇ ||” (2-1)

ತ್ವಂ ಪದಾರ್ಥವಾದ ಜೀವಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರಿವಾಗಿಲ್ಲದರಿಂದ “ತತ್ವಮುಖಿ” ವಾಕ್ಯದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ದೃಢವಾಗಿ ತಿಳಿಯದಿರುವುದು. ಅದುದರಿಂದ ಸ್ವಾತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನೈಷ್ಯರ್ಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮ ವೇದಕ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಮೇಯ ಆತ್ಮನು ದೃಕ್ಸ್ವರೂಪಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ, ಕಾವ್ಯ ದೇಹವನ್ನು ಆತ್ಮನನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ದೇಹವು ದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಸತತವಾಗಿ ವಿಹಾರ ಹೊಂದುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಭೌತಿಕವಾದ ಸ್ಥೂಲದೇಹ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಧಾಗೆಯೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಾಣ - ಬುದ್ಧಿ ಇವೂ ಆತ್ಮನಲ್ಲ, ಅಥವಾ ದ್ರವ್ಯ ವಗ-ಕೆ ಸೇರಿವೆ ಮತ್ತು ವಿಕಾರಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ.

“ಘಟಾದಿವಚ್ಚ ದೃಶ್ಯತ್ವಾತ್ಪ್ರೇರಿವ ಕರಣೈರ್ದೃಶ್ಯತಃ |  
 ಸ್ವಪ್ನೇ ಚಾನನ್ವಯಾತ್ಜ್ಞೇಯೋಽನಾತ್ಮೇತಿ ಸೂರಿಃ ||” (2-19)

“ಕರ್ಮತ್ವೇನೋಪಲಭ್ಯತ್ವಾತ್ ಅವಾಯಿತ್ವಾ ಚ್ಚ ವಸ್ತುವತ್” (2-22)

ಈ ಎರಡು ಸೂತ್ರವಾಯಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬುದಿರುವ ತರ್ಕದಿಂದ ಆತ್ಮನನ್ನು ಸ್ಥೂಲ - ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹಗಳಿಂದ ಬಿರ್ಪಡಿಸಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಮೀಮಾಂಸಕರು ಅದು “ಅಯಂ ನಾನು” ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃ ಮತ್ತು ಕರ್ಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ “ನಾನು” ಎಂಬ ಭಾವಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವೂ, ವಿಷಯವೂ ಆದ ಮನ್ಮಥೇ ಆತ್ಮನೆಂದು ಇವರ ಅಶಯ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸುರೇಶ್ವರರು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ

ಮಾಡಿ "ಆತ್ಮ" ಮತ್ತು "ಅಪಂಕಾರ" ಬೇರೆಯೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರ ವಾದ ಹೀಗಿದೆ. - "ಯತ್ಕರ್ಮಕೋ ಹಿ ಯೋ ಭಾವಃ ನಾಸೌ ತತ್ಕರ್ಮಕೋ ಯತಃ ?" (2-24). ಒಂದು ಭಾವಕ್ಕೆ, ಕರ್ತೃ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಒಂದೇ ಆಗಿರಲಾರದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ - ಕರ್ತೃ ವಿರೋಧವೆಂದು ಪರಿಭಾಷೆ. "ಅಪಂ" ಆತ್ಮವಲ್ಲವೆಂದು ಸುರೇಶ್ವರರು ದೀರ್ಘವಾಗಿಯೂ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿಯೂ ವಿಚಾರಮಾಡಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ಶಂಕರರಲ್ಲಿ ಈ ವಾದವಿದ್ದರೂ, ಇದಕ್ಕೆ ಸುರೇಶ್ವರರು ನೀಡುವ ಈ ಪ್ರಬಲ ಸಮರ್ಥನೆ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆನ್ನಬಹುದು. ಅಪಂ ಪ್ರತೀತಿಯ ವಿಷಯವಾದ ಪದಾರ್ಥವೂ ಸ್ಕೂಲದೇಹ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹದಂತೆ ಅನಾತ್ಮ ಷರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೆಂದು ತೀರ್ಮಾನವಾಯಿತು

ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಅನಾತ್ಮ ಪ್ರಪಂಚವು ಸತ್ಯವೇ ಅಥವಾ ಅಸತ್ಯವೇ ಎಂಬ ವಿಚಾರವು ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಸಾಂಖ್ಯದರ್ಶನದಂತೆ ಎರಡು ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ವರರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೀಗಿದೆ -

"ಏವಮೇತತ್ - ಹಿರುಗ್ ಜ್ಞೇಯಂ ಮಿಥ್ಯಾಸಿದ್ಧಮನಾತ್ಮಕಂ |

ಮೋಹಮೂಲಂ ಸುದುಃಖೋಧಂ ದ್ವೈತಂ ಯುಕ್ತಿಭಿರಾತ್ಮನಃ ||"

(2-44)

ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮ ವಿವೇಕವು ಸುದೃಢವಾದ ಮೇಲೆ ಅನಾತ್ಮದ ಸತ್ತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬರುವುದು ಸಹಜವೇ ಆಗಿದೆ. ಅನಾತ್ಮವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದು ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಆಧಾರದಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ನಿರಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧವೂ, ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಲ್ಲಾ ಆಶ್ರಯವೂ ಆದ ಆತ್ಮನು ಮಾತ್ರ, ಆತ್ಮನು ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿರಬೇಕು. ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಲ್ಲಾ "ಅಪಂ" ಎಂಬ ಜೀವ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗುತ್ತವೆ ಆದರೆ 'ಅಪಂ' ಪದಾರ್ಥವೇ ಆತ್ಮತತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನಾತ್ಮದ ಸಂಮಿಶ್ರಣವಾದ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಅಭಾಸ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಪ್ರಮಾಣಗಳು "ಮೋಹಮೂಲಃ"; ಆದುದರಿಂದ ಆ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಅನಾತ್ಮವೂ "ಮೋಹಮೂಲಃ". ಅನಾತ್ಮಮಾತ್ರವಲ್ಲ "ಮೋಹಮೂಲಃ"; ಆತ್ಮ ಅನೇಕ ಎಂಬುದೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ "ಮೋಹಮೂಲಃ" ಅಂತ್ಯ ನಿರ್ಣಯವೇನೆಂದರೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ 'ಸಜಾತಿಯ' ಮತ್ತು 'ವಿಜಾತಿಯ' ಭೇದ ಅಥವಾ ನಾನಾತ್ಮ ಕೇವಲ ತೋರಿಕೆ ಮಾತ್ರ, ಪರಮಾರ್ಥವಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಆತ್ಮನನ್ನು ಧರ್ಮ ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿ-ಆದರಲ್ಲಿ ಗುಣಕ್ರಿಯಾದಿಗಳನ್ನು ಧರ್ಮವಾಗಿ-ತೀತಿಯವುದೂ ಭ್ರಾಂತಿ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ 'ಸ್ವಗತ' ಭೇದವೂ ಇಲ್ಲ.

ಹೀಗೆ ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ "ಅದ್ವೈತ" ವಾಗಿರುವ ಅತ್ಯಂತವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯವು ಉಪಸಂಹೃತವಾಗುತ್ತದೆ. ತೃತೀಯಾಧ್ಯಾಯವು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದು. ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಬಹುದು.

ಅನಾತ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಅಸತ್ಯವೆಂದೂ, ಅದು ಅಜ್ಞಾನದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ತೋರು ವುದೆಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. ಈ ಅಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ ಈ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಚೇತನ ಯಾವುದು ? ಇದಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾದ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ? ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಉತ್ತರಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಸುರೇಶ್ವರರು ವಿಚಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

"ಏವಂ ತಾವತ್ ನ ಅನಾತ್ಮನಃ ಅಜ್ಞಾನಿತ್ವಂ ನಾಪಿ ತದ್ವಿಷಯಮು ಜ್ಞಾನಂ. . ಯುಕ್ತಮಾತ್ಮನ ಏವ ಅಜ್ಞತ್ವಂ...ಅಜ್ಞಾನಂ ಆತ್ಮ ವಿಷಯಮಿತಿ ಬ್ರೂಮಃ" (3-1) ಈ ಎರಡು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಯುಕ್ತ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಜ್ಞಾನ ವಿಲಯವಾಗುವುದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ. ವೇದಾಂತದಿಂದ. ಅಂದರೆ 'ತತ್ವಮಸಿ' ಮಹಾವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬರುವುದೇ ಸಮ್ಯಕ್-ಜ್ಞಾನ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಏಳುವುದು ವೇದಾಂತದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದು ? ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ವರರ ವಾದ ಬಹು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಬಲ ಕಾರಣವಿರಬೇಕು. ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಮೊಂಡುತನ.

"ಅನಾದ್ಯತ್ಯ ಶ್ರುತಿಂ ಮೋಹಾತ್ ಅತೋ ಬೌದ್ಧಾಃ ತಮ್ಹಿನಃ | ಆಪೇದಿರೇ ನಿರಾತ್ಮತ್ವಂ ಅನುಮಾನೈಕ ಚಕ್ಷುಷಃ ||" (3-341)

"ನ ಬಾನಾದರೇ ಕಾರಣಮಸ್ತಿ | ಯಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವತ್ರೈವ ಅನಾದರ ನಿಮಿತ್ತಂ ಪ್ರಮಾಣಸ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರ ಪ್ರತಿಪನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನಂ ವಾ ವಿಪರೀತ ಪ್ರತಿಪಾದನಂ ವಾ ಸಂಶಯಿತ ಪ್ರತಿಪಾದನಂ ವಾ ನ ವಾ ಪ್ರತಿಪಾದನಮಿತಿ ನಚ್ಚೈತೇಷಾಂ ಅನ್ಯತಮಮುಖ ಕಾರಣಮಸ್ತಿ" (3-35)

ಅಪೂರ್ವವೂ, ಅಬಾಧಿತವೂ, ಸಂಶಯರಹಿತವೂ ಆದ ವಿಷಯವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಾಗ, ಅದನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡುವುದು ಮೂಢತನ.

ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಕೇವಲ ತರ್ಕದಿಂದಲೇ ಅತ್ಯಂತೋಧನೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವಾಗ, ಅನಾತ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಅಸತ್ಯವೆಂದೂ ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಶಕ್ಯವಿರುವಾಗ, 'ತತ್ವಮಸಿ' ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇನು ? ಈ ವಾದವನ್ನು ವಿಮರಿಸಿ ಸುರೇಶ್ವರರು ಬ್ರಹ್ಮ

ತತ್ತ್ವವು ಶ್ರುತಿಯಿಂದಲೇ ತಿಳಿದುಬರುವುದೆಂದೂ, ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೈಕ್ಯವೂ ಮಹಾ  
ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯವೆಂದೂ, ಆತ್ಮನು ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ತಿಳಿದ ಹೊರತೂ ಜ್ಞಾನ  
ಪೂರ್ಣವಲ್ಲವೆಂದೂ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. 'ತ್ವಂ' ಪದಾರ್ಥ-ಅನುಭವ ತರ್ಕದಿಂದ ತಿಳಿದರೂ  
'ತತ್' ಪದಾರ್ಥ 'ವೃ ಪೇದಾಂತದಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ, 'ತ್ವಂ' ಮತ್ತು 'ತತ್'  
ಪದಾರ್ಥಗಳು ಒಂದೇ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಮಾಣ  
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅದ್ವೈತದ ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.  
ಸುರೇಶ್ವರರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ, ತರ್ಕದಿಂದ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವೂ  
ಅನಾತ್ಮದ ಅಸತ್ಯತೆಯೂ ಎಷ್ಟೇ ನಿರ್ಣೇತವಾದರೂ, ಆತ್ಮವು ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ತಿಳಿದ  
ಹೊರತೂ ಜ್ಞಾನ ಸಮಗ್ರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಆತ್ಮಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯವು ತತ್ತ್ವಮುಕ್ತಿಯಾದ  
ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ ಲಭ್ಯವೆನ್ನುವುದನ್ನು ಆಗ್ರಹ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ  
ನೈಷ್ಯಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ (ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ) ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ತತ್ತ್ವಮಸಿ' ಮಹಾವಾಕ್ಯವು ನೈಷ್ಯಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗುಂಪಿರ  
ವಾಗಿಯೂ, ಭವ್ಯವಾಗಿಯೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿತವಾಗಿದೆ. 'ತತ್' ಪದದ ಅರ್ಥ ಅದ್ವಿತೀಯ  
ಬ್ರಹ್ಮ. 'ತತ್' ಪದದ ಅರ್ಥ ಪರೋಕ್ಷವೆಂದೂ ರೂಢಿಯಿಂದ ಪ್ರತೀತವಾಗಿದೆ.  
'ತ್ವಂ' ಪದಕ್ಕೆ 'ಪ್ರತ್ಯಕ್ ತತ್ತ್ವ' (ಜಿವಾತ್ಮ) ಎಂದು ಅರ್ಥ. ನಮಗೆ ಅನುಭವ  
ಗೋಚರವಾದ 'ಪ್ರತ್ಯಕ್' ಪದಾರ್ಥವೆಲ್ಲಾ ದುಃಖಾಶ್ರಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದೂ  
'ತ್ವಂ' ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. 'ತತ್', 'ತ್ವಂ' ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಎಂದರೆ 'ಪ್ರತ್ಯ  
ಗಾತ್ಮನು ಅದ್ವಿತೀಯನು' ಎಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲದೆ. ಅದ್ವಿತೀಯತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ  
ವಾದ ದುಃಖಿತ್ವವೂ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೈಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪರೋಕ್ಷತ್ವವೂ ನಿರಾಕೃತ  
ವಾಗುತ್ತವೆ.

"ನಿರ್ದುಃಖಿತ್ವಂ ತ್ವಮರ್ಥಸ್ಯ ತದರ್ಥೇನ ವಿಶೇಷಣಾತ್ | .

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಚ ತದರ್ಥಸ್ಯ ತ್ವಂಪದೇನಾಸ್ಯ ಸಂನಿಧೇಃ || (3-10)

ಈ 'ತತ್ತ್ವಮಸಿ' ಜ್ಞಾನವೂ ಸರ್ವ ಶಬ್ದಜನ್ಯಜ್ಞಾನದಂತೆ ಪರೋಕ್ಷವಲ್ಲವೆ ?  
ಇದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧವಾದ ದ್ವೈತ ಭ್ರಮೆ, ಸಂಸಾರ ದುಃಖ ಹೇಗೆ ಹೋದೀತು ?  
ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಸುರೇಶ್ವರರು ಶಬ್ದಜನ್ಯವಾದರೂ 'ತತ್ತ್ವಮಸಿ' ಜ್ಞಾನವು  
ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವೆನ್ನುವುದನ್ನು 'ದಶಮಸ್ತಮಸಿ' ಎನ್ನುವ ವಾಕ್ಯದ ನಿರರ್ಥನದ  
ಸಹಾಯದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. 'ತ್ವ' ಮರ್ಥ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಸಿದ್ಧ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿ  
ಕೊಂಡಿರುವ ಸದ್ವಿತೀಯತ್ವ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದೇ 'ತದರ್ಥ'ದ  
ಪ್ರಯೋಜನ. ಅಪರೋಕ್ಷನಾದ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತವಾಗಿರುವ ಸದ್ವಿತೀಯತ್ವವು  
ನಿವೃತ್ತವಾದರೆ, ಮೊದಲೇ ಅಪರೋಕ್ಷವಾಗಿದ್ದ ಆತ್ಮಪ್ರಕಾಶವು ಆ ಆರೋಪರಹಿತ  
ವಾಗಿ ಬಿಳಿಗುತ್ತದೆ. 'ಶಾಬ್ದಾಪರೋಕ್ಷವಾದ' ಎನ್ನುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಇಲ್ಲಿ



ನಿರೂಪಿತವಾಗಿದೆ. ಹತ್ತು ಜನ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಒಂಭತ್ತೇ ಜನರಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಒಬ್ಬನು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಹೋಗಿರುವ ನೆಂದು ವ್ಯಸನವಾಗುವವರಿಗೆ ನೀನೇ ಹತ್ತನೆಯವನು ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವೇ ಅಪರೋಕ್ಷತಃ ಯಾರೂ ನಷ್ಟರಾಗಿಲ್ಲವೆಂಬ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವಂತೆ ಜೀವಾತ್ಮನು ಸಂಸಾರಿ, ಸದ್ವಿಶೇಷ, ಎಂದು ಭ್ರಾಂತನಾಗಿರುವನಿಗೆ, "ನೀನೇ ಬ್ರಹ್ಮನು" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವೇ ಅಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ "ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನು ಅದ್ವಿತೀಯ" ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ "ತತ್ವಮಸಿ" ವಾಕ್ಯದಿಂದ "ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ" ಎಂಬ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಯಾರಿಗೆ ಬರುವುದೋ ಅವನು ಕೃತಕೃತ್ಯ, ಮುಕ್ತ- ಬುಡವು ಕಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಮರದಲ್ಲಿ ಎಲೆ - ಹೂವು - ಫಲ ಇವು ಒಡನೆ ಒಣಗದೆ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ರಸ ಶೋಷಿತವಾಗುವವರೆಗೂ ಪೂರ್ವದಂತೆಯೇ ಇರುವಂತೆ, ಸಮ್ಯಕ್ - ಜ್ಞಾನವಾದ ಮೇಲೆಯೂ ಪ್ರಾರಬ್ಧಕರ್ಮ ನಷ್ಟವಾಗುವವರೆಗೂ ಮುಕ್ತನು ಯಥಾಪೂರ್ವ ಬದುಕಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ "ಜೀವನ್ - ಮುಕ್ತಿ" ಎಂದು ಸಂಕೀತ. ಪೂರ್ವಾಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಈ ಜ್ಞಾನ ಫಲವನ್ನು ಕುರಿತ ವಿಚಾರ ನೈಷ್ಯರ್ಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ನಾಲ್ಕನೆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಕರಣೋಕ್ತ ತತ್ತ್ವಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ಗೌಡವಾದರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶಂಕರರ ಅನುಮತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

"ಪೂರ್ವಾಧ್ಯಾಯೋಷು ಯದ್ವಸ್ತು ವಿಸ್ತರಣೋದಿತು ಸ್ಫುಟಂ |  
 ಸಂಕ್ಷೀಪತೋಽಧುನಾ ವಕ್ಷೀ ತದೇವ ಸುಖವಿತ್ತಯೇ || (4-1)  
 "ಶಿವಂ ಗೌಡ್ಯದ್ವಾರ್ವಿದ್ಯೇರ್ನಃ ಪೂಜ್ಯೈಃ ಆಯಮರ್ಥಃ ಪ್ರಭಾಷಿತಃ | (4-44)

"ಸಮ್ಯಕ್-ಜ್ಞಾನ ಶಿವಿ ಪ್ಲಜ್ಜಮೋಹತತ್ಕಾರ್ಯರೂಪಿಣಃ ||"  
 ಸಕೃನ್ನಿವೃತ್ತೇಃ ಬಾಧ್ಯಸ್ಯ ಕಿಂ ಕಾರ್ಯಮವಶಿಷ್ಯತೇ || (4-59)  
 "ತರೋರುತ್ಪಾತಮೂಲಸ್ಯ ಶೋಷೇಣೈವ ಯಥಾ ಕ್ಷಯಃ |  
 ತಥಾ ಬುದ್ಧಾತ್ಮತತ್ತ್ವಸ್ಯ ನಿವೃತ್ತೈಶ್ಚ ತನುಕ್ಷಯಃ || (4-61)

ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನ, "ಶ್ರುತಿಯ ಮೂರ್ಧವ" ಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. "ವಿಧಿಕಿಂಕರನಲ್ಲಿ ಅವನ ಆಚರಣೆ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿದರೂ ಯಾವ ದೋಷ ಲೋಪವೂ ಇಲ್ಲ ವೆನ್ನಬಹುದು? ಇದು "ಅಲೋಪಕಪಕ್ಷ". ಇವನ್ನು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಸುರೇಶ್ವರರು ಬಿಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಧರ್ಮಾಪಾರಣೆ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿಂದ; ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು ಅಜ್ಞಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣ. ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ದಗ್ಧಗೊಳಿಸಿದ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಅಧರ್ಮವ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ.

“ ಬುದ್ಧಾದ್ಯೈತಸತ್ತತ್ತ್ವಸ್ಯ ಯಥೇಷ್ಟಾಚರಣಂ ಯದಿ |

ರುನಾಂ ತತ್ತ್ವಾದ್ಯಶಾಂ ಚೈವ ಕೋ ಭೇದೋಽಶುಚಿ ಭಕ್ಷಣೆ ||” (4-62)

ಮುಂದುವರಿದವನೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಮುಕ್ತನು ಶಿಲಚ್ಯುತನಾಗುವುದು ಸಂಭವವೆ? ಹಸಿದಿರುವವನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ವಿಷಮಿಶ್ರ ಅನ್ನವನ್ನು, ಮಿಷ್ಣಾನ್ನ ತೃಪ್ತನಾದವನು ಆಶಿಸುವನೇ? “ ಕ್ಷುಧಯಾ ಓಡ್ಯಮಾನೋಽಪಿ ನ ವಿಚಂ ಹ್ಯತ್ತುಮಿಚ್ಛತಿ | ಮಿಷ್ಣಾನ್ನಧ್ಯಸ್ತೃತ್ಯದ್ ಜಾನನ್ ನ ಅಮೂಘಃ ತಚ್ಚಘೃತ್ಸತಿ ||” (4-69)

ಆದರೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನ ಧರ್ಮಾನುಸರಣೆ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಯ ಕಿಂಕರಕೆಯಿಂದಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸಾಧುವೃತ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಪ್ರಯತ್ನಾರ್ಥ ಸಾಧನೆ ಗೋಚರವೂ ಅವನು ಅವನು ಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

“ ಉತ್ಪನ್ನಾತ್ಮ ಪೃಷೋಧಸ್ಯ ತ್ವದ್ವೇಷ್ಟ್ಯಾತ್ವಾದಯೋ ಗುಣಾಃ |

ಅಯತ್ನತೋ ಭವಂತ್ಯಸ್ಯ ನ ತು ಸಾಧನ ರೂಪಿಣಃ || ” (4-69)

ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಗೆ ‘ಉತ್ಪಾತ ಮೂಲ’ ವೃಕ್ಷದ ಉಪಮಾನ ಮತ್ತು ‘ಅಲೇಪಕ’ ಮತದ ತೀವ್ರ ಖಂಡನೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೃತಜ್ಞತಾರ್ಪಣವಾಗಿದೆ.

ಹೃದಯಂಗಮವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಮಚ್ಚಂಕರ ಪಾದ ಪದ್ಮವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಈ ಗ್ರಂಥಗತವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಂಡಿ, ಸ್ವಾಂತಾಂಧ ಕಾರವು ಹೋಗಲೆಂದೂ, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಉಪಚಾರವಾಗಲೆಂದೂ, ಹ್ಯಾತಿ - ಲಾಭ - ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಸಂಧಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಆಚಾರ್ಯರ ಆದೇಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನೆಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ; ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದರ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕೇಯನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಆತ್ಮಗುಣ ಪೂಜ್ಯತಮವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಬಹಳ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಕರ್ಮಾತೀತ. ಅವನ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗಿದೆ. ಮೋಕ್ಷವೆಂದರೆ ಕರ್ಮ ಚಕ್ರದಿಂದ ಉತ್ತೀರ್ಣವಾಗುವಿಕೆ. ನಿಷ್ಕರ್ಮವೆಂದರೆ ಸನ್ಮಾಸಯುಕ್ತವಾದ ಜ್ಞಾನ. ಅದುದರಿಂದ ‘ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ’ ಶಬ್ದದಿಂದ, ಆತ್ಮ, ಮೋಕ್ಷ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಇವೆ ಮೂರು ವಿವಕ್ಷಿತ. ಇದರ ‘ಸಿದ್ಧಿ’ ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮಲಾಭರೂಪವಾದ ಮೋಕ್ಷಸಿದ್ಧಿ ಎಂದು ಗ್ರಂಥನಾಮದ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಇಂತಹ ದೇಹಾಂತ ‘ಗಂಗೆ’ಯನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ‘ನಮೋನಮಃ’

# ಶ್ರೀವಾರ್ತಿಕಾಚಾರ್ಯರು

ಲೇಖಕರು : ಶೃಂಗೇರಿ ಕವಿ ನರಸಿಂಹರಮಾ, ನಂಜನಗೌಡ.

ಶ್ರೀಮತ್ಪಂಚರಥವತ್ಸಾದರು ಮತ್ತು ಇವರ ಬೆಂಬಲಿಯ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರು ಇವರಿಬ್ಬರೇ ವೇದಾಂತಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಲ್ಲವರು ; ಇವರು ಬರೆದಿರುವ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಭಾಷ್ಯ ಮತ್ತು ಇದರ ಮೇಲಿನ ಸುರೇಶ್ವರರ ವಾರ್ತಿಕ-ಇವೆರಡೇ ವೇದಾಂತಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಾದ ಗ್ರಂಥಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವವರಲ್ಲ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು — ಎಂಬ ಸಂಕುಚಿತಬುದ್ಧಿಯವರೂ ಇದ್ದಾರೆ 'ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪ್ರಧೀನ ; ಜನೋಽಪಿ ವಿವಿಧಃ ; ಕಂ ಕಿಂ ನ ಸಂಭಾವ್ಯತೇ ?' ಅಗಲಿ, ಇದರೂ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಭಾಷ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ, ಅದರ ವಾರ್ತಿಕವನ್ನಾಗಲಿ ಅಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಹೇಳುವವರು ಇಲ್ಲವೆಷ್ಟೆ !

ಕೊಬ್ಬನ್ನಿತ್ಯವೂ ನಿರ್ವಿಶೇಷವೂ ಅದ್ವಿತೀಯವೂ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕತತ್ತ್ವವೆಂಬುದು ವೇದಾಂತಸಿದ್ಧಾಂತವೆಂಬಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ವಿವಾದವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ದ್ವೈತಪ್ರಪಂಚದ ಉತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಿತಿನಾಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಬ್ರಹ್ಮವಿವಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಾಗಿರುವ ಶ್ರುತಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಎಂದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮವು ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಉಪಾದಾನಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಿದಹಾಗಾಗುವುದು. ನಿರ್ವಿಕಾರವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ್ಯವಾದಾಕಾರಣವಾಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ, ರಜ್ಜುವು ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗಿ, ಬ್ರಹ್ಮವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಿಪತ್ಯೋಪಾದಾನಕಾರಣವೆಂದು ಅವಶ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಪವು ಜ್ಞುವಿನಲ್ಲಿ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾಗುವಂತೆ ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾದುದೆಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು 'ಪರಭಾಷಯಾ ಪ್ರರೋ ಬೋಧ್ಯಃ'—ಎಂಬ ನ್ಯಾಯದಂತೆ, ಲೋಕಸಾಮಾನ್ಯದ ಅನುಭವವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡೇ ಶ್ರುತಿಯೂ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದೆಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ರಜ್ಜುವಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಪದ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿರುವಾಗ, 'ಇದು ರಜ್ಜು'—ಎಂದು ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ರಜ್ಜುವೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಮಾತ್ರವಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಪದ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲವೆ, ಆ ಕಲ್ಪನೆಯು ಆಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯವು ಆಗುವುದೆಂದು ಯಾರೂ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಾರಣವನ್ನೂ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಜ್ಜುವಿನ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಪದ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು 'ಇಲ್ಲಿ ರಜ್ಜುವಿನ ಅಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ, 'ರಜ್ಜುವಿನ ದ್ವೈತವೇ ಅಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ' ಅಭಾವವೆಂದರೆ ಎನೂ ಇಲ್ಲವೆಂದೆಂದು ಅರ್ಥ. ಪುಸ್ತಕವು ಇವ್ವರ, ಅದು 'ಕಾರಣವೇನು, ಅಲ್ಲಿಯೇನು—

ಎಂದು ಹೇಳಲಾದೀತು. ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಕರವೇ ಸರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಧರ್ಮವೆಂದರೆ ಭ್ರಮೆಕೆ, ವಿರುದ್ಧವಾದುದೆಂದೂ, ಅಸುರರೆಂದರೆ ಸುರರಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳೆಂದೂ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ, 'ರಜ್ಜುವಿನ ಅಜ್ಞಾನ' ವೆಂದರೆ-ರಜ್ಜುವಿನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಅದರಿಂದ ನಾಶಹೊಂದುವ ವಸ್ತುವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು ರಜ್ಜುವಿನ ಜ್ಞಾನವು ಭಾವರೂಪವಾಗಿರುವಂತೆ, ಇದರಿಂದ ನಾಶವಾಗುವ ರಜ್ಜುಜ್ಞಾನವೂ ಭಾವರೂಪವೇ ಹೊರತು ಅಭಾವವೆಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸಮಂಜಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಂತೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವು ದ್ವೈತಜಗದ್ವಿವರ್ತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ವೇದಾಂತಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ರಜ್ಜುವು ತಿಳಿದುಬರದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳು ಇರಬಹುದು ಬ್ರಹ್ಮವಾದರೋ, ಅದ್ವಿತೀಯವೂ, ಸ್ವಪ್ರಕಾಶವೂ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕವೂ ಆದುದು. ಆದುದರಿಂದ, ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ, 'ಆಸ್ತಿ, ಪ್ರಕಾಶತೇ' - ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರ ಸ್ವರೂಪವು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಇಂಥ ಅನುಭವವು ಯಾರಿಗೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ವಿನನ್ನಾದರೂ ಅವರ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುವುದು. ಇದನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾದುದೆಂದು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದ ಅದ್ವಿತೀಯತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗುವುದು. ಅವಾಸ್ತವವಾದ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವ ಇದು ಅಭಾವವಾಗಲಾರದು ಭಾವರೂಪವಾದ ಇದನ್ನೇ ಅಜ್ಞಾನ, ಅವಿದ್ಯೆ, ಮೂಲಾಜ್ಞಾನ, ಮೂಲಾವಿದ್ಯೆ, ಮಾಯೆ, ಪ್ರಕೃತಿ, ತಮಸ್ಸು-ಮುಂತಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಸಕಲಸಂಸಾರಾನರ್ಥಕ್ಕೂ ಮೂಲವಾದುದು ಇದು ವಾಸ್ತವವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಅನುಭವರೂಪವಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಿಂದ ನೀರೇಷವಾಗಿ ನಾಶಹೊಂದಿ, ಪರಮವೈರುಷಾರ್ಥರೂಪವಾದ ಮುಕ್ತಿಯು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ವೇದಾಂತಸಿದ್ಧಾಂತದ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಈ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭಾವರೂಪವೆಂದು ಹೇಳಿದ ಮೊತ್ತದಿಂದ, ಇದು ಕೆಳೆಯಲಾಗದ ವಸ್ತುವೆಂದು ಭ್ರಮಿಸಬಾರದು. ಇದನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ತತ್ತ್ವಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವೇ ಉಂಟಾದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಇದು ನಾಶವಾಗುವುದು. ಇದು ಅಭಾವರೂಪವಲ್ಲ ವಿಯದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾವರೂಪವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ-ಅಷ್ಟೆ.

ಇಂಥ ಭಾವರೂಪವಾದ, ಜಗತ್ಕಾರಣವಾದ ಮೂಲಾಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾದ ವಾತ್ಸೀಕಕಾರರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪುವವ ರ್ಲಿಗೂ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳೆಂದು ಮೇಲಿನ ಪರಿಮಿತಪ್ರಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ,

ಆತೇಜ ಇತಿ ಶಬ್ದೇನ ಮೂಲಾಜ್ಞಾನಂ ವಿವಕ್ಷಿತಂ ।

ಅಪಮುಷ್ಣ ಇತಿ ಸ್ಪಷ್ಟದುಜ್ಞಾನಾಧ್ಯಾಸ ಈಕ್ಷತೇ ॥

—ಎಂದು ವಾರ್ತಿಕವಚನವಿದೆ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪಾಪದತ್ತಿನಲ್ಲಿ 'ತೇಜೋ ಮಯೋ ಅತೇಜೋಮಯಃ-ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅತೇಜ-ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮೂಲಾಜ್ಞಾನವೆಂದು ಅರ್ಥವೆಂದೂ, 'ಅಪಮಜ್ಞಃ' - 'ನಾನು ಅಜ್ಞನು' ಎಂದು ಸರ್ವರ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಧ್ಯಾಸವಾಗಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವುದೆಂದೂ ಈ ವಾರ್ತಿಕವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 'ಮೂಲಾಜ್ಞಾನ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರೇ ವಾರ್ತಿಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಅಸಂಗತವು. 'ಮೂಲಾಜ್ಞಾನ' ವೆಂದರೆ-ಮೂಲ ಎಂದರೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಜ್ಞಾನ - ಎಂದು ಅರ್ಥವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ. ಹೌದು, ಇದೇ ಅರ್ಥವೇ ಮೂಲಾಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ. ಇದು ಅಭಾವವೆಂದಾದರೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯಬಾರದು.

ಸುಷುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಾವಿದ್ಯೆಯು ಇರುವುದೆಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಇವರು ಹೇಳುವರು. ಈ ವಾರ್ತಿಕಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ—

“ ಸುವಾ\_ ಮುಕ್ತಾವಿವಾದ್ವೈತಸ್ವಪ್ನಭಾನಂದಲದಕ್ಷಣಃ | ”

“ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ, ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನು ಅದ್ವಿತೀಯ ಸ್ವಪ್ನಕಾಶಾನಂದಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದರೆ” —

“ ಅವಿದ್ಯಾ ತು ಸ್ಥಿತಾಪ್ಯತ್ರ ದ್ವೈತಮಃಖಾದ್ಯನುದ್ವವಾತ್ |

ಸ್ವಭಾವಂ ನ ತಿರೋಧತ್ಯೇ ಸ್ವಪ್ನಭಾನಂದಮದ್ವಯಂ || ”

“ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯೆಯು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯೆಯು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ; ಇಷ್ಟೇ, ಇವೆರಡರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಾವಿದ್ಯೆಯು ಇರುವುದಾದರೂ, 'ಸುಷುಪ್ತಿಕಾಲಃ ಸಕಲಃ ವಿಶೇನಃ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಂತೆ, ಅವಿದ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಯವಾದ ದ್ವೈತವೂ, ಅದರಿಂದಾಗುವ ಸುವಿದುಃಖಾದ್ಯನುಭವವೂ ಅವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗಿದೆ. ಅವಿದ್ಯೆಯು ಮಾತ್ರವೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಆತ್ಮನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಅದ್ವಿತೀಯಸ್ವಪ್ನಕಾಶಾನಂದಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮರಮಾಡದೆ ಇರುತ್ತದೆ.” ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಾವಿದ್ಯೆಯು ಇರುವುದೆಂಬುದು ಈ ವಾರ್ತಿಕವಚನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದು.

ಸಂಪ್ರದಾಯಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸಿದ್ಧಾಂತಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುವುದೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಅಧುನಿಕ ಮೇಧಾವಿಗಳ ಸ್ವಕಪೋಲಕಲ್ಪಿತಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಮೂರುಮೋಗದೆ, ಶ್ರೇಯಸ್ಕಾಮಿಗಳು ಸಂಪ್ರದಾಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಸ್ವಧರ್ಮಗಳನ್ನು, ಶಿವಾಯಜ್ಞೋಪವೀತಶಾಖಾಜಾಠಾದಿನಿಯಮಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಿಸಿ ಭಗವದನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ, ಶ್ರೇಯೋಭಾಗಿಗಳಾಗತಕ್ಕದ್ದು.

—

(Summary)

## AVIRODHADṚṢṬI OF ŚRĪ SUREŚVARĀCĀRYA

(K. Krishna Jois)

Śrī, Sureśvara, the first Guru of Sringeri Dakshināmnyā pīṭha, is an illustrious exponent of advaita. The *Bṛhadāraṇyaka Upanishad bhāṣya Vartika* integrates the several view points. It may appear that the *astika* or *naṣṭika* panthas in the different schools propound conflicting views. But on examination, it will be seen that the end preached is *nīrvṛtti mārga* — the attainment of the knowledge of the Self. The article explains that *nitya* and *naimittika karmas* result in the destruction of desire and hatred (*rāga* and *dveṣha*) and the *bhakti mārgas* of Saivas, Vaiṣṇavas etc., and the *āgamas*, which give prominence to *upāsana*, lead to the second step, *dhyāna mārga*, concentration, and *chitta suddhi* ultimately leading to *ātmatatva jñāna*. In this process all lead to *mokṣha* (*nīrvṛtti ātmajñāna*). Thus Śrī Sureśvara integrates the different schools.

(Summary)

## SUREŚVARĀCĀRYA AND HIS WORKS

(*Dr. K. Krishnamoorthy*)

Sureśvara is the most famous among the direct disciples of the great Sankarācārya. He was the first Pontiff of the Mutt at Sringeri.

Tradition regards Sureśvara as identical with Mandana Miśra who was a great Mimāṃsaka and held a debate with Sankara. He is said to have assumed asceticism under the latter after his defeat in debate according to the several Sankara digvijayas. This opinion is popularly held today by pandits. But actually, as the late Prof. S Kuppaswami Shastri has shown, the identity of the two is baseless. Arguments are cited to show how the two must be deemed different.

The well known works of Sureśvara are surveyed and the literature on them indicated. The contribution of Mandana to Vedāntic thought is assessed in passing.

summary)

## NAISHKARMYA SIDDHI

(S S Raghavachar)

The author characterises the *Bṛhadaranyaka bhashya* and *thirya bhashya Vartikas* as shining jewels and the two lamp posts of advaita Vedanta. He analyses the *Naishkarmya siddhi*, and concludes with a reference to the acharya's admission that the work was the result of serving the feet of Samkara Bhagavatpada which helped in the acquisition of *jnana*, and was written not to get fame but to benefit the world (*lokopakara*).



(Summary)

SRI VARṬIKĀCHARYA

( Kavi Narasimha Sarma )

The author deals mainly with *mūla ajñāna*, *Ajñāna*, the root cause of duality. Sri Sureśvara accepts as a positive factor, and terms it *mūla ajñāna*. The author quotes appropriate verses from the *Bṛhadāraṇyakabhāṣya Vārtika*, to illustrate his thesis.



1. Pañcikaraṇa Vārtikam	...	1
<p style="text-align: center;">K. V. Subbaratnan, B. A., B. L.,                  Advocate, Erode;                  General &amp; Organising Secretary,                  Akhila Bharata Saṅkara Seva Samiti.</p>		
2. Pūrṇa-ahambhāvam (Sarvātmabhāvam)	...	6
<p style="text-align: center;">J. Subramania Aiyar, B. A., B. L.,                  Advocate,                  Gobichettipalayam</p>		
3. Maṇḍana Miśra Samvādam	...	15
<p style="text-align: center;">Paramahansa                  Jñānānanda Bhārati Svāmi</p>		
4. Māyātattvam	...	25
<p style="text-align: center;">(Kottaram) T. H. Viswanatha Sastri                  Nyayasiromani, Vyakarana-siromani,                  Vedanta Vidvan;                  formerly on the staff of the                  Government Oriental Manuscripts                  Library, Madras.</p>		
5. Śri Sureśvarācārya's 'Bhālakṛiḍa'	...	35
<p style="text-align: center;">R. Guruswami Sastri,                  Vidyavinoda, Vyakarana-Vedanta                  Siromani;                  Retd Professor, Annamalai University.</p>		
6. Summaries in English	...	45

# பஞ்சீகரண வார்த்திகம்

—ஸ்ரீ K. V. சுப்பரத்னம் அய்யர்,  
அட்வகேட், ஈரோடு

ஸ்ரீ ஸுவரேசுவராசாரியார் எழுதிய கிரந்தங்களில், நைஷ்டிகர்மியஸித்தி, பிருஹதாரண்யக உபநிஷத் பாஷ்ய வார்த்திகம் தைத்திரீய உபநிஷத் பாஷ்ய வார்த்திகம், மானஸோல்லாஸம் இவை பிரசித்திபெற்றவை. யாக்ஞ வல்க்ய ஸ்மிருதிக்கு பாலகரீடா என்ற வியாக்யானம் இவர் எழுதியிருப்பதாக சிலர் சொல்லுகிறார்கள். இவை தவிர தான்கு சிறிய க்ரந்தங்கள் செய்திருப்பதாகத் தெரிகிறது. அவைகளாவன:—

1. பஞ்சீகரணவார்த்திகம்
2. வேதாந்தஸார வார்த்திகராஜ ஸங்கிரகம்
3. மோஷ நிர்ணயம்
4. மகாவாக்யார்த்த பஞ்சீகரணம்

இவைகளில் முதல் இரண்டு க்ரந்தங்கள் ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீ வாணீ விலாஸ் அச்சகத்தில் சுமார் 40 வருஷங்களுக்கு முன்பே அச்சாகி இருக்கின்றன. மற்ற இரண்டு க்ரந்தங்கள் அச்சிட்டு இருப்பதாய் தெரியவில்லை. இவற்றில் முதல் க்ரந்தத்தைப்பற்றி சற்று சித்திப்போம். இது அனுஷ்டிப்ப விருத்தத்தில் 84 சுலோகங்கள் கொண்டது. இதையே 'பிரணவவார்த்திகம்' என்றும் சொல்வார்கள். ஆத்மாவைத் தெரிந்துகொள்ளவேண்டும் என்று எண்ணுபவர்களுக்கு இது மிகவும் உபகாரமாகும்.

சுருதி சொல்லுகிறது 'सरति शोकमारमवित्' என்று. ஆத்மாவை அறிந்தவன் துக்கத்தை தாண்டிவிடுகிறான் என்பது இதன் பொருள். ஸ்ரீ பகவத் கீதையில்

अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते ॥

என்கிறார் பகவான். (நான் எல்லாவற்றிற்கும் காரணன். என்னிடமிருந்து எல்லாம் உண்டாகிறது.)

"வாகுதேவன் என்ற பரம்பிரம்மமாகிற நானே ஜகத்தின் உற்பத்திக்கு காரணம்" என்று பகவத்பாதாள இய்கு விளக்கி

இருக்கிறார்கள். இதை அறிந்தாலன்றி நமது மோதல் போகாது. பரமாத்மாவே ஒவ்வொரு அம்சத்திலும் பரவி இருக்கிறார் என்று அறியவேண்டும். இதைத் தெரிந்து உற்பத்தியானவைகளை நீக்கிவிட்டால் மீதமிருப்பது பிரம்மமே என விளங்கும். ஜலத்தில் குடியிடுபவம் தோன்றுகிறது. ஜலம் இதற்குக் காரணமாகிறது. ஜலம் வற்றினால் அதில் கண்ட குரியன் எங்கே? எந்த அசல் குரியனிடமிருந்து வந்ததோ அங்கு போய்சேர்த்துவிடுகிறது. ஆகவே இது ஒரு சிறு நாலானாலும் இதன் நோக்கம் மிகவும் பெரிதானது. எளிதமுறையில் ஆத்மதத்துவத்தை நமக்கு சிறுங்கேரி ஸ்ரீ சாரதாபீடத்தில் முதலாவதாக அமர்ந்த ஸ்ரீ ஸுரேச்வராச்சாரியர் விளக்கி இருக்கிறார்கள். இனி கீழ்க்கண்டவது:—

ஆதியில் உள்ளது பரமிரும்மம் ஒன்றே. இது சந்தமானது, சாகவதமானது, பேதமற்றது. மாயையின் சம்பந்தத்தால் உலகம் என்பது உண்டாயிற்று முதலில் ஆகாசம், ஏற்பட்டது அதிலிருந்து வாயு அதிலிருந்து அக்னி (தேஜஸ்) அதிலிருந்து ஜலம் அதிலிருந்து பூமி (பிருத்வி) இவைகள் இந்த நிலைமையில் இந்திரியங்களுக்குப் புலப்படாதவையாகையால் இவைகளை ஸூக்ஷ்மபூதங்கள் (நன் மாத்திரை) என்று சொல்வதுண்டு. இவற்றில் காரண குணங்கள் காரியத்திலும் வரும் என்ற நியாயப்படி,

சப்தம் என்ற குணம் மட்டும் கொண்டது ஆகாசம்  
சப்தமும் ஸ்பர்சமும் கொண்டது வாயு  
சப்தம், ஸ்பர்சம், ரூபம் சேர்ந்தது தேஜஸ்  
சப்தம் ஸ்பர்சம் ரூபம் ரஸம் சேர்ந்தது ஜலம்  
சப்தம், ஸ்பர்சம் ரூபம், ரஸம், வாசனை இவை

ஐந்தும் கலந்தது மண் (பிருத்வி)

இதை விளக்குகையில், பஞ்சபூதங்களில் ஆகாசம் என்பதில் சப்தம்தான் ஸூக்ஷ்மீக்கும் இதைத் தொடருடியாக, காணமுடியாதது, குளிக்கமுடியாதது முகரமுடியாதது. வாயுவில் சப்தம் சூக்ஷ்மீக்கும் இதை ஸ்பர்சத்தால் அறியலாம் ஆனால் மற்ற மூன்று குணங்களாகிய, காணப்படுவது, குளிக்கப்படுவது முகரப்படுவது இல்லை. அதுபோலவே அக்னியிலும், ஜலத்திலும் பின் சொன்ன குணங்கள் இல்லை என்று அறியவேண்டும். ஐந்து குணங்கள் சேர்ந்தது பிருத்வி (மண்)

இதுவரை சொல்லப்பட்டது கண்ணுக்குப் புலப்படாத  
 ஏற்படுகிறது. பஞ்சமி, ஜலம் தேஜஸ், வாயு, ஆகாசம்  
 ஆகிய ஐந்து பூதங்களில் ஒவ்வொன்றையும் இரண்டாகப்  
 பிரித்து ஒரு பகுதியை வைத்துக்கொண்டு மற்ற பகுதியை  
 நான்காகப் பிரித்து ஒவ்வொரு பாகத்தையும் மற்ற பூதங்  
 களின் பகுதியில் சேர்த்தல் பஞ்சீகரணம் என்று சொல்லப்  
 படுவது விளக்கிக் சொல்லுங்கால், ஸ்தூலமான பஞ்சபூதங்  
 களில் ஒவ்வொன்றிலும் அரைபாகம் அந்த பூதமும் மற்ற  
 நான்கு பூதங்களின் நான்கு பாகம் சேர்த்ததாகும்.

பிடுதினி என்ற பூதத்தில் - பிடுதினி ½, ஜலம் ¼, தேஜஸ் ¼,  
 வாயு ¼, ஆகாசம் ¼.

அப்பு (ஜலம்) என்ற பூதத்தில் ஜலம் ½, பிடுதினி ¼,  
 தேஜஸ் ¼, வாயு ¼, ஆகாசம் ¼.

இதுபோலவே மற்றவையும் காண்க. எந்த பூதத்தின் ½  
 பாகம் மேலிட்டு காண்கிறதோ அதன் பெயரை அது  
 கொண்டது. இந்த ஐவகை பூதங்களையும் அதன் காரியங்  
 களையும் விசாட் என்று சொல்வது சீரம் இடலாத பரமாத்  
 மாவுக்கு இது ஸ்தூல சீரமாவிறது.

பாஞ்சபௌதிக சீரங்களாவிற உபாதிசூடர் சேர்த்த  
 ஆத்மாவுக்கு முன்றுள்த நிலைகள் (அவஸ்தைகள்) தோன்று  
 கின்றன. (1) ஜாக்கிராவஸ்தை, (2) ஸ்வப்னாவஸ்தை,  
 (3) ஸுஷுப்தி.

ஆனால் இத்தத்தோற்றம் பொய்யானது இதில் உண்மை  
 யாக இருப்பது பரமாத்மாவின் ஒன்றே. அக்தூனத்தால்  
 வெவ்வேறுகத் தோன்றுகின்றன.

மேலே சொன்ன பஞ்சபூதங்களின் கூலங்களான சந்தம்  
 ஸ்பர்சம், ருபம், ரஸம், கத்தம் ஆகியவை ஏறையே பூதங்  
 குணேத்தியங்களான காது, நோடல், கண், நாக்கு, மூக்கு  
 நெய்க்கூடலும் பேசுவது முதலானவை பூதங் காமேதி  
 தியங்களான வாக்கு, மன, கால், பாயு, உபஸ்தம் நெய்  
 கூடலும் சம்பந்தப்பட்டு மனம், புத்தி, சித்தம், அசுக்கரணம்  
 (இவை 4ம் அத்தக்கரணம் எனப்படும்) நெய்க்கால் வேலை

செய்யும்போது அந்தந்த இத்திரியங்களுக்ககந்த விஷயத்தை அறிவித்தது. இந்த நிலை விழிப்பு என்பது. இதற்கு மனிதனின் சரீரம் காரணமாகிறது. இதன் அபிமானி தேவதைக்கு விசுவன் எனப்பெயர்.

இந்த விசுவன் பரமாத்மாவேதான். விராட் ரூபியாக இருப்பவன் என்று எண்ணங்கொண்டால் இதனால் ஏற்படும் அக்ஞானம் விலகும்.

பிரணான்கள் ஐந்து :—

ப்ராணன் (வெளி மூச்சு)

அபானன் (உள் மூச்சு)

ஸியானன் (சரீரம் முழுவதும் பரவியிருப்பது)

உதானன் (மேலேபோவது)

ஸமானன் (ஐர்ணிப்பது)

மேலேகண்ட 5 கர்மேத்திரியங்கள், 5 ஞானேத்திரியங்கள், 5 பிரணான்கள் மனஸ், சித்தம் ஆகிய 17ம் சேர்ந்ததை ஸஞ்ஜமசரீரம் என்பர் இந்தத் கோற்றத்துக்க தைஜஸன் அபிமானிதேவதை இந்த கோற்றமும் பொய்யே இதில் வஸ்தவமானது பரமாத்மாவே. இவன் ஹிரண்யகர்ப்ப ரூபமாக இருக்கிறான் என்று அறிவதால் (தியானித்தால்) அக்ஞானம் நீங்கும்.

இவைகளுக்கும் காரணமான மூல அக்ஞானம் பரமாத்மாவை ஒட்டியே உடனது இது ஸத்தமல்லை, அஸத்தமல்லை ஆனால் ஸத்திலும் அஸத்திலும் சேர்ந்ததுமல்லை, சேராததுமல்லை, இவைகள் இரண்டும் சேர்ந்ததுமில்லை இவைகளுள் ஒன்றாகவும் இல்லை. புத்தியின் காரணத்தால் இத்திரியங்கள் வேலை செய்து கொண்டிருந்தவை புத்தி உள் அடங்கும் போது, ஆலமரத்து விதைக்குள் ஆலமரம் ஒடுங்குவது போலாகும். (இது சுஷுப்தி எனப்படும் இதற்கு அபிமானி தேவதை ப்ராஜ்ஞன் என்பர். இதற்கெல்லாம் ஆகாரமானது பரமாத்மாவே என்று தியானித்தால் இந்த பேதம் நீங்கும்.

மேலே சொன்ன விசுவன், தைஜஸன், பிராக்ஞன் என்ற லக்ஷணங்கள் எல்லாம் ஒம் என்பதன் ரூபமேயாம். அகாரமானது விசுவன், உகாரம், தைஜஸன், மகாரம் பிராக்ஞன் என்று பாவனை செய்தலே இதை அறியும் வழி.

ஸமாதியில் உட்காருவதற்கு முன்பே இந்த விஷயங்களை நன்கு தெரிந்துகொள்ளவேண்டும். ஸ்தூலத்தை அடக்கி பின் ஸூக்ஷ்மத்தை அடக்கி பின் மனதையும் அடக்கி, ஆத்மாவில் ஓடுக்கவேண்டும். அ. உ. ம என்ற மேலே சொன்ன மூன்று நிலைகளில் அகாரத்தை உகாரத்திடலயித்து அதை மகாரத்தில் லயிக்கவேண்டும். அப்போது நானே பரமாத்மா, (நித்யன், சுத்தன், புத்தன், முக்தன்) இரண்டற்றது என்றும் நானே வாஸுதேவன் ஓம்காரரூபமானவன் என்ற ஞானம் விளங்கும். அப்போது சித்தம் சனிக்கக்கூடாது. சமுத்ரம் போல் நான் பூர்ண போதன் (அறிவுமயம்) என்று அசைவநீற்றுக்க வேண்டும். ஜீதேந்திரியனாகவும், கோபம் முதலியவைகளை அடக்கினவனாகவும் இருந்துகொண்டு ஆத்மாவை உணர வேண்டும்.

துக்கம் என்பது ஆரம்பத்திலும் நடுவிலும் முடிவிலும் உளதே. ஆகையால் அதை விட்டுவிட்டு தத்துவவிளக்கத்தில் புத்தியைச் செலுத்தவேண்டும். இவன் ஜீவன்முக்தனாகிஞ்சு. இவனுக்கு அடையவேண்டியது ஏதும் இல்லை.

இந்த நிலையில் பிராரப்த சீரம் இருக்கும் காரணத்தால் கூடிய நிலை கலைந்தாலும் அந்த ஞானத்திலும் பொய்யான தோற்றமே உலகம் என்று ஜீவன்முக்தனுக்குத் தோன்றும். பிராரப்த வசத்தால் ஏற்பட்ட சீரம் கீழே விழவும் இந்த கவலையும் கிடையாது பரமாத்ம நிலையை இவன் அடைவான்.

இப்படி உபதேசிக்கிறார் ஸத்தகு பரீ கரேசுவராச்சாரியர் சாஸ்திரங்களை சிரவனாம் செய்து மனனம் செய்து பழகிக் கொண்டவர்கள் நிதித்தியாஸன நிலையை அடையும்போது ஏற்படக்கூடிய சிக்கல்களை எடுத்துக்காட்டி அவைகளை விவக்ருவதற்கு வழியைக் காட்டியிருக்கிறது ஒன்றாக இருந்த பரமாத்மாவை பல ரூபமுள்ளதாக தோற்றவிப்பது அஞானத்தின் காரணத்தால் துகத்தின் உத்பத்தி எனச் சொல்லி, அதை மறுபடி பிரம்மத்தில் லயப்படுத்த ஒடுக்கத்தின் ஒவ்வொரு நிலைகளும் இங்கு தெளிவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. மோக்ஷமார்க்கத்தை தேடும் ஒவ்வொருவருக்கும் இது உபயோகமானது. மற்றவர்களும் இதை அறிந்தால் இந்த வழியை பின்பற்ற ஒரு லக்கம் வரும் என்பதே என் நாடிமையான அபிப்பிராயம்.

பூர்ண அஹம்பாவம்—  
(ஸர்வாத்மபாவம்)

— J ஸுப்ரமண்யய்யர், B. A. B L.,  
கோயி.

“ அரிது அரிது மானிடராகப் பிறத்தல் அரிது ” என்று முதுரை உரைக்கின்றது. இத்தகைய மானிடப்பிறவி புண்யத்தால் கிடைக்கிறதா? பாபத்தால் கிடைக்கிறதா? என்று விசாரிக்கமிடத்துப் புண்யபாப நிஸ்ரத்தால் ஆனதே இம் மானிடப்பிறவி என்கிறார் ஸ்ரீ ஸுரேச் வராசாரியார் நமது நைஸ்கர்ப்யசித்தி என்னும் அத்தைத நூலில்:—

शुभैः प्राप्नोति देवत्वं निपिद्वैर्नार्क्यीं गतिम् ।

उभाभ्यां पुण्यपापाभ्यां मानुष्यं लभतेऽवशः ॥ (நீ. 1-82)

இத்தகைய அருமையான பிறவி கிடைத்தும் அதை வீணாக்காமல் ஆத்மலாபம் அடைவதே நமது நோக்கமாக இருக்கவேண்டும் புண்யத்தின் பலன் வேண்டுமென்று ஆசைப்படுகிறோம். ஆனால் புண்யம் செய்வதில்லை. பாப பலன் வேண்டாமென்று எண்ணியும் பாபத்தையே துடர்ந்து செய்து வருகிறோம். என்னே நமது பேதமை!

पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः ।

न पापफलमिच्छन्ति पापं कुर्वन्ति यत्नतः ॥

ஆகவே ஆத்மலாபம்பெற யாவரும் முயற்சித்தல் அவசியமாகும். இதனையே நமது அதிபகவத்பாதாள் மிக அழகாகத் தான் எழுதிப்போந்த விவேகஞ்ஞடாமணி என்னும் அப்புற பிரகரண கிரந்தத்தில் முதல் சுலோகத்தில் சொல்லி யிருக்கிறார். சோகமோஹமாகிய கடலைத்தாண்டி. என்றும் இன்புறநிருக்க ஆத்மஞானத்தைக் காட்டிலும் வேறு என்ன இருக்கிறது? பெரிய துக்கத்தைத்தாண்டி இன்புற அது ஒன்று போதுமே!

यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ।

यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ (गी. 6-22)



ஆத்மலாபத்தை அடைந்து நிர்விசய ஆனந்தத்தை நுகரு  
பவண, ஆத்ம ஸ்வரூபமாக எங்கனும் யாண்டும் பாசிப்  
பவண ஜீவன் முக்தன் என்றும், ஸ்திதபிரக்ஞன் என்றும்,  
பகவத்பக்தனென்றும் குணாதீதன் என்றும், அதிவர்க்ரமி  
என்றும் பலவாகுதப் புகழ்கின்றன நமது சாஸ்திர நூல்கள்  
ஸர்வாத்ம பாவத்தை அடைந்தவனை கருதி, ஸமிருதி,  
புராணங்கள் வாழ்த்துகின்றன. அவனைப் பின்பற்றி அவனது  
லக்ஷணங்களைக் கடைப்பிடித்து வாழ்ந்து கடையேறுவதே  
நம் அனைத்தோரின் சீரிய குறிக்கோளாகும் சத்ரு மித்ர  
பாவமில்லாமல் யாவரிடத்தும் ஆத்மாவைக்காணுதலே சீரிய  
முறையாகும் ஆதிபகவத்பாதாள் நன் இணையற்ற  
பஜகோகிந்தத்தில் கூறுதலுக்கேட்போம் "உன்விடத்திலும்  
என்விடத்திலும் ஒரே விஷ்ணு ஊடுருவி இருக்கின்றார். இதை  
அறியாமல் ஏன் வினோ என்னைக் கோபித்துக்கொள்கின்றாய்?  
எங்கும் ஒரே ஆத்மாவைப்பார். பேதத்தை-வேறு என்னும்  
மனப்பான்மையை, உதறித்தள்ளு என்கிறார்.

त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णुः सर्वे कृप्यसि मय्यसहिष्णुः ।

सर्वस्मिन्नपि पर्याप्तानं सर्वत्रोसृज भेदज्ञानं ॥

(பஜகோகிந்தம் 24)

இக்கருத்தினையே மிக அழகாக ஆதிசங்கரரின் பிரதம  
சீடராகிய ஸுரேச்வராச்சாரியார், நமது சிறுக்கேரி குரு  
பரம்பரையில் முதல் ஸ்தானம் வகித்தவர் என்றும் அழியாப்  
புகழை எய்தியவர் நன் இணையற்ற பிரமாண கிரந்தமாகிய  
நைஷ்கர்மிய சித்தியில் எடுத்துரைக்கும் பான்மை யாகும்  
மறுக்கமுடியாதது.

रिपौ वन्द्यौ स्वदेहे च मर्मकात्म्यं प्रपश्यतः ।

विवेकिनः कुतः कोपः स्वदेहावयवेभिर ॥ (நி. 2-10)

பல் நாக்கை கடித்தால் கோபிக்கிறோமா? அதுபோன்ற  
நன் அவயவத்திற்குள் பேதம் காணாததுபோல் சத்ருவைவும்  
பக்திவைவும் நன் அவயவத்தைவும் ஒரே ஆத்ம ஸ்வரூபமாகக்  
காணும் பன்மநலுக்கு, குனிந்து எங்கிறுத்தல் கோபம் வரும்?  
என்று வினவும் வகையில் அமைத்திருக்கிறது அவரது  
கருமை.

எல்லாவற்றையும் ஸமமாக, ஆத்ம ஸ்வரூபமாகப் பார்க்கும்பொழுது மோஹம் ஏது? சோகம் ஏது? எல்லாம் பிரம்ம மயமல்லவா? இதனையே ஈசாவாஸ்ய உபநிஷத் கோஷிக்கிறது.

यस्मिन्सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानत ।

तत को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः ॥ (ईशा. ७)

இத்தகைய ஸர்வாத்ம பாவத்தை பூர்ண அஹம்பாவம் என்கிறார் நமது குரு ஸுரேச்வராசாரியார் ஸாதாரண அஹம்பாவம், அகத்தை பொல்லாதது. வெறுக்கத்தக்கது. ஆனால் எல்லோரையும் பிரம்மபுத்தல் ஸ்தம்பம்வரை ஸம பாவத்துடன், ஆத்ம பாவத்துடன் பார்க்க்பது என்பது மிகக் கடினமே. அதனைச் செய்வதே நம்மவரின் சீரிய செயலாகும். அங்கில்கெனாதபடி எங்கும் பிரகாசமாய் ஆனந்தபூர்த்தி ஆகி அருளொடு நிறைந்த வஸ்துவைப் பார்க்க்பதே பூர்ண அஹம்பாவமாகும். குறுகிய மனப்பான்மையை விட்டுப் பரந்து நிற்கும் பரம்பொருளைக் காணுதலே பூர்ண அஹம்பாவம், அது சிவாவதாரமாகிய ஸ்ரீசங்கரபகவத்பாதன் எழுதிப் போந்த ஸ்ரீ தக்ஷிணமூர்த்தி ஸ்தோத்திரத்தால் கிட்டு கிறது என்று அவரது முக்கிய சீடர் கருணை கூர்ந்து நான் எழுதியுள்ள "மானஸோல்லாஸம்" என்றும் வார்த்திகத்தில் கூறுகிறார்.

परिच्छिन्नमहम्भावं परित्यज्यानुपङ्गिकम् ।

पूर्णाहम्भावलामोऽस्य स्तोत्रस्य फलमुच्यते ॥ (मा. १०-१)

ஸர்வாத்ம பாவமாகிய பூர்ண அஹம்பாவம் என்றும் மோஷம் இந்த தக்ஷிணமூர்த்தி ஸ்தோத்திரத்தின் பலன் என்று பத்தாவது சுலோகத்தால் சொல்லப்படுகிறது. ஸ்ரீ தக்ஷிணமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் யாவராலும் பாராயணம் செய்வதற்குரியது பாஷ்யபடனம் செய்யும் யாவரும் சாந்தி மந்திர பாடத்திற்குப்பின் இதனைச் சொல்லி வணங்கியே பாடம் கற்கப் புகுகின்றனர். பத்தாவது சுலோகத்தின் கருத்தை கவனிப்போம்.

सर्विमा त्वमिति स्फुटीकृतमिदं यसादसुम्निस्तवे

तेनास्य श्रवणाचर्दयमननात् ध्यानाच्च संकीर्तनात् ।

सर्वात्मत्वमहानिभृतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः

सिद्ध्येत् तत्पुनरपि परिणतं चैश्वर्यमव्याहृतम् ॥

நீ ஸர்வாத்மா என்பது இதில் தெளிவாக நிருபணம் செய்யப்பட்டபடியால் இதைச் சொல்வதாலும் இதன் அர்த்தத்தை குகுமுகமாக சிரவணம் செய்வதாலும், யுக்திகளால் மனனம் செய்வதாலும், வேறு அறிவினால் தடைபடாமல் நியானம் செய்வதாலும் மோக்ஷமென்னும் மஹா விபூதியோடு கூடின ஐஸ்வர்யம் சித்திக்கும். அணிமா முதலிய எட்டுவிதமான ஐஸ்வர்யமும் தடையிலாமல் சித்திக்கும்.

இதே ஸர்வாத்மபாவத்தை ஸ்ரீசங்கரபகவத்பாதாசார்யாசீதமது மநீஷாபஞ்சகத்திலும் கூறுகிறார். "ஐகத்ஸாஸியாக விளங்கும் ஸம்ஸித்தே நான். இந்த திருச்சய வஸது நானல்ல என திடப்பிரக்கைஞ் கொண்டவனே என குகு என்று.

जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुटतरा या संविदुज्जृम्भते

या ब्रह्मादपिषीतिकान्ततनुषु प्रोता जगत्साक्षिणी ।

सैवाह न च दृश्यस्त्विति दृढप्रज्ञापि यस्यास्ति चेत्

चाण्डालोऽस्तु स तु द्विजोऽस्तु गुरुस्त्वेपा मनीषा मम ॥

எல்லாவற்றையும் ஆத்மஸவருபமாகப் பார்க்க குகுவின்கடாஷமும் உபதேசமும் மிகவும் அவசியமாகின்றது. எவ்வாறு இஷ்ட தெய்வத்திடம் பக்தி கொண்டு அவரது அருளைப்பெறுவின்மேலே அவ்வாறே குகுவினிடம் பக்திபூணவேண்டும். மிகவும் துடுறமான விஷயமும் குகுபக்தியால் மிகத்தெள்ளெனத் தெரிவின்றது. ஸாரேச்வராரோசரியாசீ பிரம்மானின் அம்சம். அவரது மனைவி உபயபாரதியே ஸரஸவதீ தேவியின் அம்சம். குமரக்கடவுளாகிய குமரில பட்டரிடம் பூர்வமீமாய்ஸை பயின்றவர். நன்னைத்தேடிவந்த (குகுவுகுக்கும் கிட்டாத பாக்கியம்) குகுநாதராகிய ஸ்ரீசங்கரரிடம் சீடகுதி அந்நைதக்கிரந்தம், வர்த்திதய்கள் எழுதியதுடன் பரம பக்தாரகத் திழ்ந்தார். அவர் தமது அனுபவத்தையே கூறுகிறார்.

यस्य देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा गुरौ ।

तस्यैतेक्युक्ता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ (१०-२३)

ஸ்ரீ நக்ஷிணமூர்த்தி ஸ்தோத்ரத்தால் ஸர்வாத்ம பரவ  
மாகிய மோக்ஷமே கிட்டும்கொழுது சிறு பலன்கள் கிடைப்  
பதில் என்ன ஆச்சரியம் என்கிருர் நக்ஷிணமூர்த்தி ஸ்தோத்ர  
விபாக்யானமான மானஸோல்லாஸத்தில் ஸ்ரீ ஸு-ரேச்வரா  
சாரியார்

पुत्रपौत्रगृहक्षेत्रधनधान्यसमृद्धयः ।

अर्वाचीनाथ सिद्ध्यन्ति स्वर्गपातालभूमिषु ॥ (१०-२)

पाके प्रवर्तमानस्य शीतादिपरिहारवत् ।

प्रासङ्गिकाथ सिद्ध्यन्ति स्वोत्रेणानेन सर्वदा ॥ (१०-३)

சமைக்கும்பொழுது அடுப்பின் பக்கத்தில் உட்கார்ந்தால்  
சமையலும் ஆகிறது, அத்துடன் குளிரும் போகிறது.

ஸ்ரீ நக்ஷிணமூர்த்தி ஸ்தோத்திர படனத்தால் ஈஸ்வரத்வம்  
சித்திக்கிறது. ஈஸ்வரத்துவம் என்பது ஐச்வர்யம். புருஷன்  
ஒடினாக அவனது நிழல் அவனை அனுசரித்து ஓடுகிறது.  
நிழல் என்பது புருஷனைவிட்டு தனியாக இருப்பதில்லை. அது  
போல ஐச்வர்யம் என்பது ஈஸ்வரனை விட்டுத் தனியாக  
இருப்பதில்லை

ऐश्वर्यमीश्वरत्वं हि तस्य नास्ति पृथक् स्थितिः ।

पुरुषे धावमाने हि छाया तमनुधावति ॥ (१०-४)

வாக்கினால் சொல்ல முடியாததான ஸஹஜமான  
சாமந்தியமே ஐஸ்வர்யம் என்று சொல்லப்படும். யோக  
சாஸ்திரத்தில் ஐசுவர்யம் என்று சொல்லப்படும் அணிமா  
முதலிய சித்திகள் ஞானியின் ஐச்வர்யத்தின் திலகங்களே.  
ஈஸ்வரனாக ஆகிவிட்டால் அணிமாதிகள் நானாக சித்திக்  
கின்றன.

अनन्तशक्तिरैश्वर्यं निष्यन्दाश्चाणिमादयः ।

स्वस्येश्वरत्वे संसिद्धे सिद्ध्यन्ति स्वयमेव हि ॥ (१०-५)

ஆத்மாவே ஸதாசிவம், ஸதாசிவமே ஆத்மராவகுடைய ஐஸ்வர்ய திவலைகளைக்கொண்டு முடிந்திருக்கின்ற ஐஸ்வர்யம் அடைகிறார்கள்.

यदीयैश्वर्यंविपुङ्मिः ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ।

ऐश्वर्यवन्तो भासन्ते स एवात्मा सदाशिवः ॥ (१०-६)

புஷ்பத்தைக் கொண்டுவரும் மனிதன் வரச்சீனையை முகரவேண்டுமென்ற ஆசையில்லாமலிருந்தாலும் வரச்சீனையை அனுபவிக்கிறான். அதுபோல பரிபூர்ணமான அறம்பாவமுள்ள யோகி - ஸர்வாத்மபாவமுள்ள யோகி, இச்சையில்லாமற்போனாலும் அளவுக்குள்பட்டதான ஐச்வர்யங்களையும் (விபூதிகளையும்) அனுபவிக்கிறான்.

पुष्पमानयता गन्धो विनेच्छामनुभूयते ।

पूर्णाहिभावयुक्तेन परिच्छिन्ना विभूतया ॥ (१०-७)

இங்கு பூர்ண அறம்பாவயுக்கடன் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

சித்திகள் (ஐச்வர்யங்கள்) 1. அணிமா 2. மஹிமா 3. லக்ஷிமா 4. கரிமா 5. பிரசப்தி 6. ப்ராகாம்பம் 7. சுசித்வம் 8. வசித்வம் என எட்டுவகைப்படும்.

अणिमा महिमा चैर लक्षिमा गरिमा तथा ।

प्राप्तिः प्राकाम्यमीशित्वं वशित्वं चाष्टसिद्धयः ॥ (१०-८)

எங்கும் விவாதித்த பரமாத்மா சித்தியதான பழகு முதலான பிராணிகளின் சீர்த்தில் ஆத்மாவாகப்பிரவேசிப்பது அணிமா என்று சொல்லப்படும்.

अत्यन्तमणुषु प्राणिप्रात्मत्वेन प्रवेगनम् ।

अणिमासंशुभैश्वर्यं प्याप्तस्य परमात्मनः ॥ (१०-९)

பிரம்மாண்டம் முதல் சிவன் (விராட் ஸ்வரூபத்தில் அபிவிருத்தி அடைந்த புருஷன்) வரையிலுள்ள தத்வங்களுக்கு வெளியிலும் வியாபித்திருப்பது மஹிமா ஆகும்.

ब्रह्माण्डादिशिवान्तायाः पट्टत्रिंशत्त्वसंहतेः ।

बहिष् व्याप्य वृत्तित्वमैश्वर्यं महिमाह्वयम् ॥ ( १०-१० )

கமமான யோகி பஞ்சபோல லேசாக ஆவது லகிமா எனப்படும்.

महामेरुसमाङ्गस्य समुद्रणकर्मणि ।

योगिनस्तूलुल्यत्वं लघिमानं विदुर्बुधाः ॥ ( १०-११ )

லேசான சரீரமுடைய யோகி பவதம் போல் கனமாக ஆவது கரிமா ஆகும்.

परमाणुसमाङ्गस्य समुद्रणकर्मणि ।

योगिनो मेरुतुल्यत्वं गरिमाणं विदुर्बुधाः ॥ ( १०-१२ )

பாதாள லோகத்திலுள்ள யோகி பிரம்மலோகத்தைப் பாட்பது என்பது பிராப்தி என்னும் பெரிய ஐஸ்வர்யம்

पातालवासिनः पुंयः ब्रह्मलोकावलोकनम् ।

प्राप्तिर्नाम महैश्वर्यं सुदुप्रापमयोगिनाम् ॥ ( १०-१३ )

இச்சாமாதிரத்தால் ஆகாசத்தில் னைஞ்சரிப்பது பிராகாச்யமெனப்படும்.

आकाशगमनादीनामन्यासां सिद्धिसंपदाम् ।

स्वेच्छामात्रेण संसिद्धिः प्राकाश्यमभिधीयते ॥ ( १०-१४ )

தன் பிரகாசத்தால் எல்லா வஸ்துக்களையும் பிரகாசப் படுத்துவது பிராகாச்யம் என்னும் ஐசுவர்யம்

स्वशरीरप्रकाशेन सर्वार्थानां प्रकाशनम् ।

प्राकाश्यमिदमैश्वर्यमिति केचित् प्रचक्षते ॥ ( १०-१५ )

விஸ்வாமித்திரரைப்போல் தன்னுடைய ஸங்கல்ப  
மாத்திரத்தால் வேறு ஸாதனங்களை எதிர்பாராமல் நகரம்  
முதலியவைகளை சிசுஷ்டிப்பது, காப்பது, அழிப்பது, குரியன்  
முதலியவைகளை தன் இஷ்டப்படி ஏவுதல் முதலியவை  
ஈசுத்வம் என்னும் ஐஸ்வர்யமாகும்.

स्वेच्छामात्रेण लोकानां सृष्टिस्थित्यन्तकर्तृता ।

सूर्यादीनां नियोक्त्वस्त्वमीशित्वमभिधीयते ॥ (१०-१६)

எல்லா லோகபாலர்களையும் தன் வசமாயிருக்கும்படி  
செய்தல் வசித்வம் என்னும் ஐஸ்வர்யம்.

सलोकपालास्सर्वेऽपि लोकाः स्वशक्तिः ।

तद्देश्यं वशित्वाख्यं सुलभं शिवयोगिनाम् ॥ (१०-१७)

தேவர்களே யோகியின் வசத்தில் இருந்தால் மற்ற அரசன்  
புலி, ஸரீர்ப்பம், ஸ்திரீ, புகுஷர் முதலானோர் அவர்  
வசமிருப்பார்கள் என்று சொல்வதே அவசியமில்லை.

ஸர்வாத்மபாவத்தை அடைந்து சதாசிவாத்ம ஸ்வரூப  
ஸமாதிமிகல் நல்ல பரிபாகத்தை அடைந்த யோகிகளுக்கு  
சித்திக்காத ஐஸ்வர்யமே கிடையாது. எல்லாம் சித்திக்  
கின்றன.

सर्वात्मभावसाम्राज्यनिरन्तरितचेतसाम् ।

परिपक्वसमाधीनां किं किं नाम न सिद्धयति ॥ (१०-१९)

அஷ்டவித சித்திகளாகிய அல்பபலன்களை விடுத்து யோகி  
ஆத்மா ஸர்வஸ்வரூபமென்று பாவனை செய்யவேண்டும்.

ஸ்வர்க்காதி ராஜ்யங்களை ஸாம்ராஜ்யம் என்று ஆத்ம  
ஞானியான பண்டிதன் நினைப்பதில்லை. ஆத்ம ஸ்வராஜ்யம்  
என்பதே), ஆத்மஞானிக்கு ஸாம்ராஜ்யமாகும். ஆகவே  
ஸர்வாத்மபாவத்தை, செய்யவேண்டும்.

स्वर्गादिराज्यं साम्राज्यं मनुते न हि पण्डितः ।

तदेव तस्य साम्राज्यं यत्तु स्वाराज्यमात्मनि ॥ (१०-२१)

तस्मादात्मनि साम्राज्यं कुर्यान्नियतमानसः ॥ (१०-२२)

இத்தகைய மானஸோல்லாஸம் என்னும் வாதீத்திகம் மிகவும் சிறப்புடன் விளங்குகிறது: குரு சாஸ்திரம் இல்லாமல் ஆத்மஸீத்யையை அறிதல் மிகவும் கடினமானதே

“गुरुशास्त्रे विना गम्भीरं आत्मज्ञानं वेत्ति कः”

நமது சிருஷ்கேசி பிரதம குருநாதரை வணங்கி மோகக் சாம்ராஜ்யம் அடைவோமாக! அவரது அதிஷ்டானத்திற்கு மும்பாபிஷேகம் செய்வது சாலப்பொருத்தமாகும். அவரே ஆதி பகவத்பாதாள் அன்றே !!





மண்டன மித்ர ஸம்வாதம்<sup>1</sup>

—பரமஹம்ஸ ஸ்ரீ ஞானந்த்  
பாரதீஸ்வரிகள்.

ஸ்ரீமத் சங்கரபகவத் பாதர் காசியினிருந்து புறப்பட்டுப் போகும்போது ஸ்ரீ குமாரிலபட்டரையும் ஜயித்து உபநிஷத் ஸித்தாந்தமான பிரஹ்மாத்மைக்யத்தை ஸ்தாபிக்க நினைத்த ஸமயம் ஸ்ரீ குமாரிலபட்டர் பிரயாகையில் துஷாக்னிப் பிரவேசம் செய்வதாக கேள்விப்பட்டு அவரைமீட அங்கே போய் அவரிடம் எவ்வளவோ சொல்லியும் கேட்காமல் அவர் தன் ஸங்கல்பப்படி பிராணத்யாகம் செய்வதே நியாயமென்று வற்புறுத்திவிட்டு ஸ்ரீ சங்கரரைப் பார்த்து “ தங்க ஞடைய மாரீகத்தைப் பிரகாசப்படுத்த நினைத்தால், ஸகல தீக்குக்ளிலும் கியாதி பெற்றவராய் மண்டன மித்ரரென்ற பண்டித சிரேஷ்டர் இருக்கிறார். அவரை ஜயித்தால் உலகமே ஜயிக்கப்பட்டதாக ஆகும். அவரை எப்படியாவது தங்கள் வசமாக்கிக் கொள்ளுங்கள். அவர் வசப்பட்டால் தங்கள் எண்ணம் நிறைவேறும். ஆகையால் தங்கள் அவரிடம் போங்கள். தாமஸம் வேண்டாம் ” என்று சொல்லியனுப்பு கிறார்.

கர்மானுஷ்டானத்தில் விசுவரூபருக்கிருந்த வேகத்தினால் ஸர்யாஸம் என்பதையே வெறுக்கக்கூடிய மனோபாவ மிருக்கிறவராக ஆனார் அவர் கிருஹத்தில், அதுவும் சிராத்த தினத்தில், ஸ்ரீ சங்கரர் திடீரென்று போய் நிற்கையில் அவருக்கு வந்த கோபத்தில் பலவாகுதல் பேசியும் அவை களுக்கெல்லாம் ஸ்ரீ சங்கரர் மிருதுவாகவே பதில் சொல்லிக் கொண்டுவந்தார். கடைசியில் ஸாமான்ய பிணைையை உத்தேசித்து தான் வரவில்லையென்றும் வாதபிணையே தேவையென்றும் ஸ்ரீ சங்கரர் தெளிவு படுத்தினதின்பேரில் அவ்விதமே மறுநாள் காலைமுதல் வாதம் செய்யலாமென்றும் இதற்கு விசுவரூபரின் பார்வையான உபய பாரதீயே மத்யஸ்தை பென்றும் தீர்மானம் செய்துகொண்டார்கள். அப்பொழுது நடந்த வாதத்தையே பிரகிருத விஷயமாக எடுத்துக்கொண்டிருப்பதால் மற்ற விஷயங்களைப் பற்றி இங்கு எடுத்துச் சொல்ல அவசியமில்லை.

1. மதுரை தர்ம சாஸ்திர ஸபையின் அனுமதியுடன்

உபயவாதிகளும் தன் தன் கஷியை ஸ்தாபிப்பதுடன் மற்றவர் கஷியைக் கண்டிப்பதும் அவசியமாகும். இப்பொழுது ஸ்ரீசங்கரர் தன் கஷியை எப்படி எடுத்துச்சொன்னார் என்பதையும் அதன்பேரில் விசுவரூபர் சொன்ன ஆஷோபனைகளுக்கு என்ன ஸமாநானம் சொன்னார் என்பதையும் மாத்திரம் இங்கு சுருக்கமாகக் காட்ட உத்தேசம். பூரவாதத்தையும் விஸ்தாரமாக வர்ணிப்பதானால் மாதவியத்திலுள்ள ஒவ்வொரு கலோகத்திற்கும் விவிவாக ஒவ்வொரு புஸ்தகமே எழுதக்கூடிய முறையில் அந்த கலோகங்கள் அமைத்திருக்கின்றன.

ஸ்ரீசங்கர பகவத் பாதர் தன் எந்திரத்தத்தை இவ்விதம் துவக்கினார்.

- (1) நித்யமாயும் ஞானஸ்வரூபமாயும் நிர்மலமாயும் ஏகமாய்மிருக்கும் பிரஹ்மம் தான் பரதத்வம்
- (2) அதுவே அக்ஞானத்தால் மறைபடும்போது பிரபஞ்சமாகத் தோன்றுகிறது. எப்படி கிளிஞ்சல் இருட்டினால் மறைபட்டு வெள்ளியாகத் தோன்றுகிறதோ அங்விதமாக.
- (3) அந்தபிரஹ்மவிஷயமான ஞானம் ஏற்பட்டு பிரபஞ்சம் மறைத்து தன் ஸ்வய நிலையினிருப்பதே முக்தி.
- (4) இதற்குப் பிரமாணம் உபநிஷத்துக்கள்

இதைக் கேட்டதும் மண்டன மித்ரர் தாக்கரவழி அபிசந்தை முதலில் தாக்குகினார்.

மண்டனரீ வேறு எத்தப் பிரமாணத்தினாலும் அநித்யமான ஞானமுடிவாத விஷயத்தை போதிப்பதினால் உலவா வேந்திற்குப் பிரமாணம்? ஏற்கனவே எந்திரத்தமாகிய பிரஹ்மம் என்ற பதார்த்தத்தை போதிப்பதினால் பிரமாணம் எப்படி ஏற்படும்?

தந்திரமும், இவ்விதம் செய், இவ்விதம் செய்யாதே, என்ற விதிநிஷேத ரூபமாக பிரவர்த்திக்கும் வாக்கியங்களுக்கும் அங்வித விதிநிஷேத வாக்கியங்களுக்கு பக்க பலமாயிருக்கக் கூடிய வாக்கியங்களுக்கும் தான் பிரமாணம் உண்டு. பிரஹ்மம் பூர்வவித்தமான பதார்த்தமானதினால் அதில் விதி

நிஷேதங்கள் பிரவர்த்திக்கமுடியாது. அப்படியிருக்க விதி நிஷேதங்களுக்கு விஷயமாகாத பிரஸ்மத்தை போதிக்ளும் உபநிஷத்துக்கு பிரமாண்யம் எப்படி வரும்?

உபநிஷத்துக்களும் வேதமடலவா, அவைகளை உதா ளீனம் செய்வது நியாயமா, என்றால் அவைகளை உதா ளீனம் செய்யச் சொல்லவில்லை. யாகாங்கமாக பாராயணம் செய்தால் புண்யம் உண்டு. மந்திரம் என்கிற முறையில் அவைகளின் உச்சரிப்புக்கு பலனுண்டேதன்ற அர்த்தத்தில் தாற்பர்யமில்லை.

ஸ்ரீ சங்கரர்: "ஊம்பட்" போலுள்ள அர்த்தமில்லாத சப்தங்களுக்கு வேண்டுமானால் நீங்கள் சொல்கிறபடி விநியோகம் சொல்லலாமே தவிர அர்த்தமுள்ள வாக்கியங்களுக்கு அவ்வித விநியோகம் நியாயமாகாது

வேறு பிரமாணத்தினால் அறிய முடியாத விஷயத்தை போதிப்பதினாலேயே வேதத்திற்கு பிரமாண்யம் என்று நீங்களும் ஒப்புக்கொள்வதினால், எந்தப் பிரமாணத்தினாலும் அறியமுடியாத ஈசுவரனை போதிக்ளும் உபநிஷத்துக்களுக்கு பிரமாண்ய முண்டென்பது எரித்தமாகிறது. ஈசுவரன் பூர்வ சித்தராயிருந்தாலும் நாம் அவரை அறியவில்லையென்பது கள் பிரமாணமேயாகும். வேறு எந்தப் பிரமாணத்தினாலாவது ஈசுவரன் இருக்கிறார் என்று நாம் அறிந்துகொண்டுவிட்டாலும் அவரும் ஜீவனும் ஒரே தத்வம் என்ற அம்சத்தை நாம் அறிய முடியாததினால் உத்தாலகர் சுவேதகேதுக்கு உபநேசித்த "தத் த்வம் அஹி" (நீ அதுவே) என்றவாறு உபநேசிக்கும் வாக்கியங்களுக்கு பிரமாண்யம் ஒப்புக் கொண்டே தீரவேண்டும்.

மண்டளர்: அந்த வாக்கியங்களுக்கு ஜீவ ப்ரஸ்ம ங்கியம் தாற்பர்யமென்று வைத்துக்கொண்டாலல்லவா தாங்கள் சொல்வது நியாயமாகும்? வாஸ்தவத்தில் அவ் வாக்கியங்கள் யாகம் செய்யும் ஜீவனைப் பார்த்து "நீ ஈசுவரனுக்கு ஸமானன்" என்று ஸதுநி மாதிரம் செய்கின்றன.

ஸ்ரீ சங்கரர்: அவ்வாக்கியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கும் பிரகரணங்களில் யாகத்தைப்பற்றியே பிரஸ்தாவமில்லாத தினால் தங்கள் அபிப்பிராயத்திற்கு அவகாசமேயில்லை.

மண்டனர் : அப்படியானால், ஸூர்யன், வாயு, அன்னம் முதலானவைகளை பிரஹ்மமாக தியானம் செய் என்ற வாக்கியங்களைப்போல இங்கேயும் ஜீவனை பிரஹ்மமாக பாவனை செய் என்று அர்த்தம் சொல்லலாம். அவ்விதம் அர்த்தம் சொல்லும் விஷயத்தில் பாவனை ரூபமான மானஸக் கிரியையை போதிப்பதினால் நான் சொன்னபடி பிராமான்யமும் ஏற்படும்.

ஸ்ரீ சங்கரர் : எவ்வித பிரகிருதமுமில்லாமல் "இவ்விதம் பாவனை செய்" என்ற விதியை நுழைக்க இடமில்லை. விதி நிஷேதங்களுையே பிரதானமாயுடைய கர்மகாண்டத்தில் வேண்டுமானால் அவைகளின் ஸம்பந்தம் இருந்தால் பிராமான்யமென்று சொல்லலாம். எவ்வித விதிநிஷேதத்தையும் விஷயீகரிக்காத உபநிஷத் வாக்கியங்களுக்கும் அவ்விதமே பிராமான்யம் தேடவேண்டுமென்பது அவசியமில்லை.

மண்டனர் : கர்ம காண்டத்திலும் ராத்திரி ஸத்திர யாகத்தைச் செய்கிறவர்கள் பிரதிஷ்டையடைகிறார்கள் என்ற வாக்கியத்தில் விதி தென்படாமலிருந்த போதிலும் "பிரதிஷ்டையை ஈரும்புகிறவர்கள் ராத்திரியாகத்தை செய்ய வேண்டும்" என்று விதியை இருப்பதாக வைத்துக் கொள்வதுபோல, பிரஹ்மத்தை அறிகிறவன் பரத்தை அடைகிறான் என்ற உபநிஷத் வாக்கியத்திலும் "பரத்தை யடைய ஈரும்புகிறவன் பிரஹ்மத்தை அறியவேண்டும்" என்று ஒரு விதியை கற்பித்துக் கொள்ளலாமல்லவா?

ஸ்ரீ சங்கரர் : அறிவு என்பது ஒருக்காலும் விதிக்கு விஷயமாகாது. விதிக்கு விஷயமானால் அதுவும் தியானம் போல ஒரு மானஸக் கிரியையாகவேயேற்படும். மானஸமோ வேற எவ்விதமோ கிரியையின் பலனாக மோஷமிருக்குமானால் அது சாசுவதமாயிருக்கமுடியாது. ஆகையால் இவ்விதம் பாஷிக்க வேண்டுமென்று அர்த்தம் செய்வது அனாவசியமென்பதுடன் மோஷத்தின் பெருமையையே கெடுத்துவிடும். நவிரவும் கிரியை என்பது செய்கிறவனுக்கு அதீனமானது. அவன் அதை செய்யவும் செய்யாமலிருக்கவும் மாற்றிச் செய்யவும் சுவாதீனமுள்ளவன். அறிவு விஷயத்தில் அந்த ஸ்வாநந்தநியம் கிடையாது. பதார்த்தம் எப்படியிருக்கிறதோ அப்படியேதான் அதை அறியமுடியும். செய்யவோ செய்யாம

விருக்கவோ ஸ்வாதீனமில்லாதவிடத்தில் விடுக்கு அர்த்தமே கிடையாது.

மண்டனர்: தாங்கள் சொல்கிறபடி, கர்ம ஸம்பந்த மில்லாமலே உபநிஷத்திற்கு பிரமாண்யம் உண்டென்று வைத்துக்கொண்டாலும், அவைகள் பிரம்மத்திற்கும் ஜீவனுக்கும் ஐக்கியத்தை போதிக்கிறதென்று எதற்காக வைத்துக்கொள்ளவேண்டும்? இரண்டுக்கும் ஸாதிருச்யம் (ஸமானமாயிருக்கும் தன்மை) இருப்பதாக வைத்துக் கொண்டால் போதாதா?

ஸ்ரீசங்கரர்: ஸமானம் என்பதைக் குறிக்கும் வார்த்தை யில்லாததினால் அவ்விதம் அர்த்தம் செய்ய இடமில்லை. தவிரவும், எவ்விஷயத்தில் ஸமானம்? இருவரும் சேதனர் என்ற அம்சமானால் இதை நாமே அறிந்திருப்பினால் இதை போதிக்க வேதம் வேண்டியதில்லை. சைதன்யம் உள்பட எல்லா அம்சங்களிலும் ஸமானமென்றால் ஐக்கியமே விதித்து விடுகிறது.

மண்டனர்: எல்லா அம்சங்களிலும் ஒற்றுமையிருந்தாலும் கூட அம்சியானவர்கள் ஒன்றாக இருக்க வேண்டாமே? ஈசுவரன் ஜீவனைவிடப் பெரியவராயிருக்கலாம்.

ஸ்ரீசங்கரர்: எல்லா அம்சங்களிலுமுள்ள ஒற்றுமையை நாம் இப்பொழுது ஏன் உணரவில்லை?

மண்டனர்: அறியாமை அல்லது அறித்யை என்றுதான் சொல்லவேண்டும்.

ஸ்ரீசங்கரர்: ஈசுவரன் கன்னைவிடப் பெரியவர் என்கிற விஷயத்தை மாத்திரம் அவ்வறியாமையை வெளிப்பட்டதாக நினைக்க என்ன நியாயம்? அவ்விஷயம் அறித்யைக்கு உள்பட்டுத் தோன்றவசூதான் என்று ஸங்கோசமன்றிவிட ஒப்புக்கொண்டுவிட்டால் ஐக்கியமே விதிக்கும்.

மண்டனர்: ஜீவனுக்கும் ஈசுவரனுக்கும் சைதன்யம் ஸமானமான அம்சமாக இருக்கலாம் ஆனால் ஸாங்கியர் கள் ஜகத்காரண வஸ்துவை பிரதானம் என்று ஜடபதார்த்தமாகச் சொல்வதால், அப்படியல்ல, அந்த மூலகாரணம் ஜீவனைப்போல சேதனன் தான் என்று போதிக்க இயலாக்கயம் உத்தேசிக்கலாம்.

ஸ்ரீசங்கரர்: முதலாவதாக 'போல' என்று அர்த்தம் செய்வதற்கு இந்த பிரகரணத்தில் எந்த வார்த்தையுமில்லை. இரண்டாவதாக ஏற்கனவே "அது ஆலோசித்தது" என்ற வாக்ஷியத்தினாலேயே அது சேதனம் என்று வியக்தமாய் போதிக்கப்பட்டு விட்டபடியால் பின்னால் ஜீவனைப்போல அது சேதனம் என்று மறுமுறை போதிப்பதற்கு அலகியமேயில்லாத தினால் வீண் வாக்ஷியமாகவேயாகும்.

மண்டனர்: எப்படியும் நாங்கள் சொல்லும் ஜீவபிரஹ்ம ஐக்யவாதம் பிரத்யக்ஷத்திற்கும் யுக்திக்கும் விரோதமாயிருப்பதுடன் வேறு சில உபநிஷத் வாக்யங்களுக்கே விரோதமாயிருக்கிறதே?

ஸ்ரீசங்கரர்: முதலில் பிரத்யக்ஷத்தை எடுத்துக் கொள்வோம். ஜீவனும் ஈசுவரனும் வேறு என்று பிரத்யக்ஷமாய் அறிகிறோம் என்கிறீர் வேற்றுமை என்பது நம்மால் பார்க்கக் கூடிய தனி பதார்த்தமில்லை. அது குணமே தவிர திரவியம் இல்லாததினால் திரவியத்தை விட்டு தனியாக அதை உணரமுடியாது. ஆத்மாவோ பிரத்தியக்ஷ விஷயமில்லை. அப்படியிருக்க அதிலுள்ள குணமாகச் சொல்லும் வேற்றுமை எப்படி பிரத்தியக்ஷ விஷயமாகும்?

மண்டனர்: வெளி இத்திரியங்களுக்கு விஷயமில்லை ஆத்மா. ஆனாலும் உள் இத்திரியமான மனஸுக்கு விஷயமாகலாமே?

ஸ்ரீசங்கரர்: நீங்கள் சொல்கிறபடியே பரம்போம் பிரத்யக்ஷம் என்றால் அறியும் இத்திரியத்திற்கும் அறியப்படும் பதார்த்தத்திற்கும் ஸம்பந்தம் ஏற்படவேண்டும். ஸம்பந்தமென்பது பரிச்சின்னமான பதார்த்தங்களுக்குள்ளதல்ல ஸாத் தியம். ஆத்மாவை வியாபகரென்று வைத்துக்கொண்டாலும் சரி, அணுவென்றாலும் சரி, மற்றொரு பதார்த்தத்துடன் ஸம்பந்தத்திற்கு வழியில்லை.

மண்டனர்: எனக்கு எப்படியென்று எடுத்துக் சொல்ல முடியாமலிருக்கலாம். எப்படியோ, ஜீவன்வேறு ஈசுவரன் வேறு என்பதை நான் உணர்வது வால்லவம்.

ஸ்ரீசங்கரர்: அது தியாயம் நீங்கள் உணரவும் வேற்றுமை அவித்யைக்குள்பட்ட ஜீவனுக்கும் மறைவுபட்ட ஈசுவர

லுக்கும். இந்த வேற்றுமைத்தோற்றம் நமக்கு இருப்பதினால் தான் நம்மால் அறியப்படாத ஐக்கிய ஞானத்தை புகட்ட கருதி உபயோகப்படுகிறது ஜீவனிடமுள்ள அனாதையையும் ஈசுவரனை மறைக்கும் மறைவையும் விலக்கிவிட்டால் ஐக்கியம் விளங்கும். ஸத்ப்பமாக தோன்றுவது வாஸ்தவத்தில் பழுதை தான் என்று ஒரு ஆப்தரால் உபதேசிக்கப்பட்ட பிறகு விலகுவதுபோலவே, வேதத்தின் ஸத்தியமான உபதேசத்தினால் நமக்கு அக்ஞானத்தினால் ஏற்பட்டிருக்கும் தோற்றம் விலகி உண்மையான தத்வம் விளங்கும்.

மண்டனம்: பிரத்யக்ஷம் பிசகாகலாம். யுக்தி கூடவா பிசகும்? அது தங்கள் எந்தநாந்தத்திற்கு ஒத்துவராது என்று ஸர்வக்ருமில்லையோ அது ஈசுவரனால், குடும்போல. ஜீவன் ஸர்வக்ரும இல்லாததினால் ஈசுவரன் அல்ல என்ற அனுமானத்தில் என்ன பிசகு?

ஸ்ரீ சங்கரர்: உங்கள் திருஷ்டாந்தமே சரியில்லை. குடும் ஈசுவரனில்லையென்று யாசி சொன்னார்கள்?

மண்டனம்: அதென்ன அப்படிச் சொல்வித்தீர்கள்? குடமும் ஈசுவரனும் வேறு என்பதில் என்ன ஸந்தேஹம்? ஆத்மஞானம் ஏற்பட்டாலும் இந்த வேற்றுமை விலகாதே?

ஸ்ரீ சங்கரர்: அப்படியல்ல சுகதுக்க அனுபவமுள்ள வகையே நீங்கள் ஆத்மாவென்று நினைத்தால் அவனும் குடமும் ஒரே திணைதான். ஆத்ம ஆத்மாவை அறிவதினால் வேற்றுமை விலகாது. சுகம் துக்கம் முதலானவைகளுக்கெல்லாம் ஆத்மாயிருக்கும் தத்வமே ஆத்மா என்ற உணர்ந்தால் அப்பொழுது எல்லாமே ஆத்மாவாக ஆகி விடுகிறபடியால் குடமும் மறைத்துவிடும் ஆகையால் குடம் சக்த்வதமாக வேற்றுமைப்பட்டதென்று நினைப்பது சரியில்லை.

மண்டனம்: தங்கள் சொல்லது சரியாகத் தோன்ற வில்லை. இரண்டு பதார்த்தங்களுக்கும் இருக்கும் வேற்றுமை அவைகளை யோட்படிக் குளக்களை ஆராயத்தக்கதாக, அதன்மையால் குளக்களை ஆத்ம வேற்றுமையும் அதன்மையால் விவகிளவுடன் ஆத்ம வேற்றுமையும் விலகலாம் அப்படிக்கொன்றில் வேறு எதையும் ஆராயக் காமல் சுவபாவத்திலேயே வேறுபட்டிருக்கும் பதார்த்தங்கள் எப்படி ஒன்றும்? குடமும் ஈசுவரனும் சுவபாவத்திலேயே வேறுபட்டவைவல்லவா?

ஸ்ரீ சங்கரர் : ஸ்வபாவத்திலேயே வேறுபட்டவை என்பதற்கு என்ன பிரமாணம்? ஒரு பதார்த்தத்தின் ஸ்வபாவத்தை அறியவேண்டுமானால் அதை மறைத்துக்கொண்டிருக்கும் நாம ரூபங்களை விலக்கிப் பார்க்கவேண்டும். அவ்விதம் விலக்கிப்பார்த்தால் சூடத்தின் உள் தத்துவத்திற்கும் ஈசுவரனின் உள் தத்துவத்திற்கும் வேற்றுமையுண்டென்று சொல்ல எவ்விதக் காரணமுமில்லை. இரண்டையும் வெவ்வேறாகக் காட்டுவது நம் அக்ஞானமேதான்! அதை விலக்கிவிட்டால் எல்லாம் ஒரே பிரஹ்மத்தவமாக பிரகாசிக்கும் ஆகையால் உங்கள் திருஷ்டாந்தமே நினைக்காததினால் உங்கள் அனுமானத்திற்கு இடமேயில்லை.

மண்டனர் : இது இப்படியிருக்கட்டும் உபநிஷத்திலேயே ஒரே மரத்தில் கர்மபலனை அனுபவித்துக்கொண்டு ஒரு பக்ஷியும் ஸாஷியாக மாத்திரம் இன்னொரு பக்ஷியும் இருப்பதாகச் சொல்லவில்லையா? இதனால் ஜீவன் வேறு ஈசுவரன் வேறு என்று தெரியவில்லையா?

ஸ்ரீ சங்கரர் : ஜீவன் வேறு ஈசுவரன் வேறு என்ற விஷயம் நாமெல்லாம் ஸாதாரணமாகவே அறிந்திருக்கிற விஷயமானதினால் அதையே இந்த வாக்கியம் போதிக்கிறதென்றால் அதற்கு பிரமாணமாய் கிடையாது. வாஸ்தவத்தில் இவ்வாக்கியத்தில் கண்டிருக்கும் பக்ஷிகள் ஜீவனும் ஈசுவரனும் அல்ல "நான்" என்று பரிச்சின்னப்படுத்தும் புத்தியையும் அபரிச்சின்னமான சுத்தமான ஆத்மாவையும்தான் இங்கு உபநிஷத் குறிக்கிறது. இந்த வாக்கியத்திற்கு விரிவான விவாக்யானம் பைங்கி ரஹஸ்ய பிரஹ்மணத்தில் இருக்கிறது "ஸ்வப்னத்தை எதினால் பார்க்கிறானோ அது இந்த புத்தி, எந்த இவன் சரீரத்தில் இருந்துகொண்டு ஸாஷியாக இருக்கிறானோ அவன் க்ஷேத்ரக்ருன். அந்த புத்தியும் க்ஷேத்திரக்ருனும் இவர்கள் இரண்டும்" என்று அக்கே சொல்லப்பட்டிருப்பதால் சரீரத்திலுள்ள என்ற விசேஷணம் ஈசுவரனுக்குப் பொருத்தமாகாது. தவிரவும் ஸ்வப்ன தர்சனத்தில் கருவியாயிருப்பது புத்திதான் என்பதிலும் ஸந்தேகத்திற்கு இடமில்லை.

மண்டனர் : அப்படியானால் ஐடமான புத்தி கர்மபலனை அனுபவிக்கிறதென்று சொல்லமுடியுமா?



ஸ்ரீசங்கரர்: இருப்புக்கம்பிக்கு கடும் தன்மை கிடையாத போனாலும் நெருப்பின் ஸம்பந்தம் ஏற்பட்டிருக்கும்போது இரும்புக்கம்பி கடுகிறது என்று நாம் சொல்வதில்லையா? அவ் விதமே சேதனான ஆத்மாவின் ஸம்பந்தம் புத்திக்கு ஏற்படும்போது புத்தி அனுபவிக்கிறதென்று சொல்லப்படுகிறது.

மண்டனர்: கடவல்வியில் ஈசுவரனையும் ஜீவனையும் வெளிச்சத்திற்கும் நிழலுக்கும் ஒப்பிட்டிருக்கிறபடியால் அந்த வாக்கியத்தை இவ்வளவு ஸுலபமாய் தள்ளிவிடமுடியாது.

ஸ்ரீசங்கரர்: லோகசித்தமான பேதத்தை அனுவதிக்கும் வாக்கியத்திற்குப் பிரமாண்யம் கிடையாதென்றும் வேறு பிரமாணங்களால் அறியப்படாத விஷயத்தைப் போதிப்பதே பிரமாண வாக்கியமாகுமென்றும் முன்னமேயே சொல்லி யிருக்கிறோம்.

மண்டனர்: தங்கள் வார்த்தை விசித்திரமாக இருக்கிறது. வேதத்திலுள்ள விஷயத்தை அனுஸரித்து உலக அனுபவமுயிருந்தால் அந்த வாக்கியத்திற்குப் பிரமாண்யமா? உலக விருத்தமாயிருக்கும் வாக்கியத்திற்குப் பிரமாண்யமா?

ஸ்ரீசங்கரர்: நாம் ஆரம்பத்திலேயே, எது வேறு பிரமாணத்தினால் அறியமுடியாதோ அதைப் போதிப்பதினாலேயே வேதத்திற்குப் பிரமாண்யம் என்று இருவரும் ஸம்மதித்தே வியவஹாரம் ஆரம்பித்தோம். அதை இப்பொழுது மறந்து பேசுகிறீர்கள். பிரத்யக்ஷமோ அனுமானமோ வேறு எந்த பிரமாணமோ வேதத்தில் சொல்லிய விஷயத்தை ரூப்செய்ய முன்வந்தால் அந்த வேத வாக்கியத்திற்கே பிரமாண்யம் கெட்டுவிடும்.

மண்டனர்: தங்கள் இவ்வளவு சொல்லியும், என்மனதிற்குள் ஒரு ஸத்தேகம் இருந்துகொண்டேயிருக்கிறது. ஐயமிதி மஹர்ஷி பூர்வ மீமாம்ஸா ஸூத்திரங்களில் தவறியிருப்பாரா என்று தேன்றுகிறது.

ஸ்ரீசங்கரர்: அம்மஹர்ஷி தவறவேயில்லை. ஆத்ம ஞானம் ஏற்படுவதற்கு அஸ்திவாரமான வைதிக கர்மா ஞாந்டானத்தில் சிந்தனை வேற்படுவதற்காக கர்மாவை வற்புறுத்தினாரே தவிர வேதாத்தத்திய காரணம் தந்தவங்களை அவர் மறக்கவே இல்லை.

மண்டனம் : அவ்விதம் ஆத்மாவிற்கு வேறுபடாத ஞான ஸ்வரூபியான ஈசுவரனை அவர் ஒப்புக்கொண்டவரானால், ஏனா கர்மாவே பலனைக் கொடுக்கிறதென்று சொல்லி ஈசுவரனே தேவையில்லைபோல் எழுதினார்.

ஸ்ரீசங்கரர் : கர்மபலனைக் கொடுப்பதென்று ஒரு ஈசுவரனை கல்பிக்க அவசியமில்லை யென்றும் ஈசுவரன் இருக்கிற ரென்பதை யுக்தியினால் மாத்திரம் ஸாதித்து விட முடியாது என்றும் காட்டினாரே தவிர ஈசுவரன் வேத பிரமாணத்தினாலே அறியத்தகுந்தவன் என்பதை மறுக்காமல் உறுதிப்படுத்தினார்.

இவ்விதமாக ஸ்ரீசங்கரபகவத்பாதர் எடுத்துச் சொன்ன துடன் விசுவரூபி மனளில் கொஞ்சமேனும் ஸந்தேகம் இருக்கக்கூடாதென்று நினைத்து ஜெயினி மஹர்ஷியை ஸம்மரித்தார். அம்மஹான் பிரத்யக்ஷமாகத் தோன்றி ஸ்ரீசங்கரருடைய வாதத்தை அனுமோதனம் செய்ததுடன் மண்டனரைப்பார்த்து "நான் வேதவியாஸநூடைய சிஷ்யராக இருக்கையில் அவருடைய எதிர்த்தாந்தத்திற்கு விரோதமாக நான் சொல்லியிருப்பேன் என்று எப்படி நினைத்தீர்? நான் அவ்விதம் சொல்லியிருக்கமுடியுமா?" என்று வற்புறுத்தி விட்டு அந்தந்தானமடைந்தார். மேலுள்ள சரித்திரம் இந்த வியாஸத்திற்கு பிரகிருதமில்லை. இந்த மண்டனமிச்சர்தான் ஸ்ரீசங்கரரிடம் ஸன்யாஸம் பெற்று ஸுரேசுவரர் என்ற பேரகப் பட்டத்துடன் சிருங்கேரி பீடத்தில் முதலாவது ஆசார்யராக விளங்கினவர்.

श्री गुरुभ्यो नमः

மாய தத்வம்

கொட்டாரம்

T. H. விசுவநாத சாஸ்திரிகள்

सुरेश्वरं यतिश्रेष्ठं सुराचार्यसमं गुरुम् ।

विश्वरूप इति रूपात् वार्तिकाचार्यमाश्रये ॥

புத்தறதாரணிய பாஷ்ய வார்த்திகம், கைத்திரீயோபநிஷத் பாஷ்யவார்த்திகம், பஞ்சீகரணவார்த்திகம், மானஸோக்லாஸ வார்த்திகம் முதலிய நூல்களை இயற்றியதன் மூலம் வார்த்திககாரர் என்று மற்றொரு பெயருடையவராயும், மற்றும் கைஷிகீய்ய எடுத்தி முதலிய சிறந்த நூல்களை இயற்றியவராயும், புத்தி கூர்மையில் பித்தறஸபதிக்கு ஸமமானவராயும், ப்ரம்மாவின் அவதாரம் என்று ஜனங்களால் கருதப்படுபவராயும், பகவத் பாதாளின் தலைசிறந்த நான்கு சீடர்களிலும் முக்ய சீடராயும், ஸ்ரீ சிருங்ககிரி தஷிணம்ஞய சாரதா பீடத்தை அலங்கரித்து வரும் குருபரம்பரையில் முதன் மையான வகுமான ஸ்ரீ ஸ-ரேச்-வராசர்யர்களை ஒவ்வொருவரும் எப்பொழுதும் நினைத்துப்போற்றக் கடமைப்பட்டவர்கள் என்பதில் சந்தேக கில்லை.

அம்மஹானின் விதேஹமுத்திக்குப்பின் அவர்கள் பூத உடலை நீத்த இடத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கும் ஸமாதிபை ஸ்ரீரணோத்தாரணம்செய்து மும்பாபிஷேக மஹோத்ஸவத்தைத் தகுந்த முறையில், அகிலபாரதத்திலுமுள்ள பக்த ஜனங்களின் கிருப்பத்தித்தினங்க, இப்பொழுது அதே ஜகத்குரூபீடத்தை அலங்கரித்துக்கொண்டிருக்கிறவர்களையும் அகில பாரத திக்ஷியம்மூலம் பகவத்பாதாளின் அபராவதாரம் என்று கருதப்படுபவர்களுமான சிருங்ககிரி மஹாஸத்திதாரணம் அவர்கள் தடத்த உத்தேசித்திருப்பதும் தெரிந்த விஷயமே.

அய்வமயம் "ப்ரம்ம ஸத்யம் ஜகத் பித்யா" என்பது போன்ற முக்ய அத்வத சித்தாத்தங்களை கருக்கமாய் விளக்குவதையும் சகல வேதஸார்கொளும் மற்றொரு பெய ருடன் ஒப்புயல்வற்றாய் விளங்குவதுமான பகவத்பாதாளின்

தஷ்டிணமூர்த்தியஷ்டகமென்ற நூலை உள்ளங்கை நெல்சிக் களிபோல விளக்கும் மானஸோல்லாஸ வார்த்திகமென்ற உரையில் ஜகத் பித்யை என்பதை விளக்குவதற்கின்றியமை யாததும், நிரீகுண வித்யையை விளக்கக்கூடிய 4 ஆவது 7 ஆவது தவிர ஒவ்வொரு சுலோகத்திலும் நினைவுபடுத்தப் படுவதுமான மாயாதத்வத்தை எப்படி விளக்குகிறார்கள் என்பதை அனுஸந்தானம் செய்வதன்மூலம் அந்த மகாணை (சுரேச்வராசார்யர்களை) நினைத்துப்போற்றுவோமாக.

பிரம்மம் என்று சொல்லப்படும் ஆத்மா ஒன்றே நிலையான பொருள். மற்று தம்முண் தோன்றும் உலகம் யாவும் பொய்யே. “நேஹ நாநாஸ்தி கிருசன” என்ற வேதம் இதையே தெரிவிக்கிறது. ஏனெனில் உண்மையறிவுவரு மளவில் பிரபஞ்சமில்லாமல் போகின்றது என்பதை கூறுகிறீர்

सर्वोऽपि व्यग्रहरोऽयं मायायाः परिजृम्भणम् ।

सुषुप्तिदृशी माया स्वप्नोद्येन बाध्यते ॥ ८-१२

(மானஸோல்லாஸ வார்த்திகம் 8-12)

குடம், கடவுள், குரு, கிஷ்யன் முதலிய எல்லா வியவகா ரும் மாயையின் பகட்டே தூக்கம் போலுள்ள மாயை வேதாந்தத்தினால் உண்டான உண்மை அறிவு உண்டாகும் பொழுது இல்லாமல் செய்யப்படுகிறது. மற்றும்

अनादिमायया सुप्तः यदा जीवः प्रबुध्यते ।

अजमनिद्रमस्वप्नमद्वैतं बुध्यते तदा ॥ १-१३

தொடக்கமென்பதில்லாத மாயை என்னும் மயக்கத்தால் ஜீவன் உறங்குகிறான். எப்பொழுது அவன் விழித்துக்கொள்ளு கிறானோ அல்லது மயக்கம் தெளிந்தவனாக ஆகிறானோ அப்பொழுது தனது உண்மை நிலையை, நிறப்பிறப்பில்லாததும் உறக்கமாதிற அக்ஞானமில்லாததும், ஸவப்பம் அல்லது ஒன்று மற்றொன்றாகத் தோன்றுவதான விபரீத ஞானமில்லாததுமான அத்வைதபாவத்தை அடைகிறான். என்பதை சுரேச்வரர் தெரிவிக்கிறார். உண்மையாத அத்வைத மாயினும் பிரபஞ்சமெல்லாம் தோன்றக் காரணம் மாயை தான் என்று கூறுகிறார்

द्वा सुपर्णा च संयुजावभवन्मायया शिवः ।

अजामेकां जुषन्नेकः नानेवासीदिति श्रुतिः ॥ ८-२७

“சிவன் அல்லது ஆத்மா மாயையால் சேர்த்து திற்கின்ற இரண்டு பகைகளாக ஆனான்” “ஒருவனாகவுள்ளவன் பிறப்பில்லாததான மாயையைச் சேர்த்து அனேகம்போலானான்”

यथा लीलावशात् कैश्चित् भ्राम्यमाणः कुमारकः ।

भ्रमात्तत् पश्यति जगत् शतचन्द्रं नभःस्खलम् ॥ ८-२३

तथैव मायया जीवो भ्रामितो वासनावशात् ।

नानाकारमिदं विश्वं भ्रममाणं च परयति ॥ ८-२४

விளையாட்டிற்காக சிலரால் சுற்றிவிடப்பட்ட சிறுவன் எப்படி உலகம் சுற்றுவதாகவும், ஆகாயம் அனேக சந்திரனை உடையதாகவும் காண்கிறானோ அப்படியே மாயையால் மயக்கப்பட்ட ஜீவன் உலகத்தை சுற்றுவதாகவும் பல வடிவ முள்ளதாகவும் காண்கிறான் என்று சொல்லுகிறார்.

மேலே சொல்லப்பட்ட மாயை என்பது யாது? அதன் லக்ஷணம் என்ன என்பதுபற்றிச் சொல்லுகிறார்.

मायाविद्ये प्रमोः शक्ती भानोः छायाप्रमोपमे ।

सर्वानाच्छादयेत् माया विद्या व्याप्तिप्य दर्शयेत् ॥ ७-१५

மாயையும் வித்யையும் குரியனின் திழ்வும் பிரகாசமும் போல் பிரபுவான கடவுளது இரண்டு சக்திகள், மாயை ஜீவர்களை மறைக்கும், வித்யை திறந்துகாட்டும்.

உண்மையாக நோக்குமிடத்து இதுவும் கல்பனாதான் ஏனெனில் அத்வைதமான ஆத்மாவிற்கு சக்தி முதலியன யாவும் கல்பிக்கப்பட்டவைவே. அப்பொழுது மாயையென்றால் என்னவெனில்,

युक्तिहीनप्रकाशस्य संशा मायेति कथ्यते ।

எத்தவிதமான யுக்திக்கும் பொருத்தமில்லாததான ஒரு தோற்றம் மாயை என்று அழைக்கப்படுகிறது யுக்திக்குப் பொருத்தாதவிதம் எப்படியெனில் சொல்லுகிறார்

नासती दृश्यमाना सा बाध्यमाना न वा सती ॥ ८-१३

न प्रकाशादियं भिन्ना छायेवाकस्य तामसी ।

न चाभिन्ना जडत्वेन विरोधान्निभयात्मिका ॥ ८-१४

பிரத்யக்ஷமாக உணரப்படுவதால் அதை இல்லாத பொருள் என்று சொல்லமுடியாது. இல்லாத பொருள்களான மனிதக்கொம்பு, நரிக்கொம்பு இவைகள் தோன்றுவதே இல்லை அதற்காக உண்மைப் பொருளாகக் கொள்ளலாமோ வென்றால் அதுவும் முடியாது. அப்படியாயின் உண்மை அறிவு வந்தவுடன் அத்தத்தோற்றத்திற்கு அழிவு வராது. மற்றும் இத்தோற்றம் தோன்றுவதற்கு ஆதாரமாக உள்ள பிரகாசமாகிற ஆத்மாவிற்குத் து இது வேறுபட்டதாகவுமாகாது வேறுபட்டதாகவுமாகாது, இரண்டுவிதமாகவும் ஆகாது. வெய்யிலில் போய்வந்தவனுக்கு வெளிச்சத்தில் தோன்றும் இருட்டு வெளிச்சமேதவிற வேறுகாது. ஜடமாகத் தோன்றுவதால் வேறுபட்டதாகவுமாகாது. இரண்டும் முரண்பட்டவையாதலால் இரண்டுவிதமாகவும் தோன்ற வழியில்லை ஆதலால் ஆராயுமளவில் இன்னதென்று சொல்ல முடியாததாய் தோன்றுகின்றது என்குகிறது. இதைச் சொல்லுகிறார்.

अविचास्तिसिद्धेयं मायावेरया विलासिनी ।

पुरुषं वञ्चयत्येव मिथ्याभूतैः स्वविभ्रमैः ॥ ८-१६

ஆராயப்படாதவளவில் அமைந்தவளான மாயையாகிய பகட்டு வேச்சைய, போலியானதனது தனக்குகளால் புகழுகளை ஏமாற்றியே விடுகிறார். அனேகவிதமான அதன் காரியங்களால் இல்லை யென்று சொல்லமுடியவில்லை. தோற்றமெல்லாம் அதன் காரியமென்று எப்படிச் சொல்வது அப்படி ஒரு தோற்றமுண்டாவென்றால் அவ்விதத்தோற்றம் ஒன்று இரண்டல்ல அனேகமிருக்கின்றன. ஒருபொருள் மற்றொன்று

பொருளாகத் தோன்றுவதெல்லாம் இவ்வினத்தைச்  
சேர்ந்தவைதான். அவைகளையே உலகத்தில் ப்ரமம்,  
ப்ரந்தி, மயக்கம் என்று பல பெயர்களால் அழைக்கிறார்கள்.  
எப்படித் தோன்றுகிறதென்றே. ஏன் தோன்றுகிறதென்றே  
சொல்லமுடியவில்லை என்று சொல்லுவதுபோல் அனேக  
உதாரணங்களைக் காட்டுகிறார்.

यथा स्वप्ने नृपो भूत्वा भुक्त्वा भोगान् यथेप्सितान् ।  
चतुरङ्गवलोपेतः शत्रुं जित्वा रणाङ्गणे ॥ १-१६  
पश्चात् पराजितो भूत्वा वनं प्राप्य तपश्चरन् ।  
मुहूर्तमात्रमात्मानं मृत्यते कल्पजीविनम् ॥ १-१७  
तथैव जाग्रत्कालेऽपि मनोराज्यं करोत्यसौ । १-१८

ஒருவன் கனவுகாணாமளவிலே அரசனாக, ரதகஜநாக  
பதாதிகளான சதுரங்கபலத்துடன் கூடினவனாய் போர்  
களத்தில் பகைவர்களை வென்று தனது இஷ்டம்போல் போக  
போகியங்களை அனுபவிக்கிறார் கொஞ்சவருடங்கள் பிறகு  
அவனே பகைவர்களால் தோற்கடிக்கப்பட்டவனாய் காட்டை  
அடைந்து அங்கு தவம் செய்துகொண்டு எவ்வளவோகாலம்  
தன்ருவதாகக் காண்டிருந்து உண்மையில் ஸ்வப்பனம் கண்ட  
நேரம் இரண்டொரு முகூர்த்தமேயாகிலும் அனேக வருடங்  
களிருந்ததாகக் காண்பது எப்படியோ அப்படியே தனதிலும்  
மனோராஜ்யத்தைச் செய்துகொண்டு இருக்கிறார். மற்றும்

जडानृतपरिच्छिन्नदेहधर्मः चिदात्मनि ।  
सत्यज्ञानसुखात्मत्वं मोहादेहेऽपि कल्पते ॥ ७-२१  
शुक्तौ रजतमित्येवं यथा व्यामृह्यतेऽन्यथा । ७-२२

இது வெள்ளி என்று வெள்ளித் தன்மையை இப்படியோடும்  
இப்படியோடும் "இலத்" தன்மையை வெள்ளியோடும்  
சேர்த்து இப்படியே வெள்ளியென மயங்குவதுபோல ஜட  
மையும் பொய்யையும் அளவிற்றெட்டபட்டதுமான சரி இயல்பு  
ஒளிமயமான ஆத்மாவிடத்தும், உண்மையையும் ஞானமையும்

சுக்ருபமுமான ஆத்மாவின் இயல்பு சரீரத்திலும் மயக்கத்தால்  
கொள்ளப்படுகிறது. மற்றும்

जलचन्द्रवदेकस्मिन् निर्भये रज्जुमर्षवत् ।

प्रतीयते यथा स्वर्णे कारणे कटकादिवत् ॥ ७-२८

उपात्ते रूप्यवत् शुक्तौ व्याप्ते यक्षपुरीषे खे ।

रश्म्यम्बुवत् स्फुरद्रूपे स्थानौ चोरेवदक्रिये ॥ ७-२९

असत्कल्पमिदं विश्वमात्मन्यारोप्यते भ्रमात् । ७-३०

சந்திரன் ஜலங்களில் பிரதிபலிக்கும்பொழுது ஒரு மதி  
அனேக மதிகளாகத் தோன்றுவதுபோலும் பயத்திற்குக்  
காரணமில்லாத கயிறு பாம்பாகத் தோன்றும்பொழுது பயத்  
திற்கு காரணமாகவாகின்றதுபோலும், காரணமானதக்கத்தில்  
வேறுபட்டது போலுள்ள வளை, சங்கிலி முதலிய காரியங்கள்  
தோன்றுவதுபோலும் கண்டெடுக்கப்பட்ட இப்பேயில்  
வெள்ளியை போலவும், எங்கும் நிறைந்திருக்கும் ஆகாசத்தில்  
கந்தர்வநகரம் அல்லது மனதால் கற்பிக்கப்பட்ட ஆகாச  
பட்டணம் போலும், தரபத்தால் பிரகாசிக்கக்கூடிய கானவில்  
நீர்போலவும், அசைவில்லாததான தூணிக் திருடன்போலவும்  
(பாதிக்கப்படுவதால்) இல்லாத பொருள் போலுள்ள இந்த  
பிரபஞ்சமானது மயக்கத்தால் ஆத்மாவில் ஆரோபிக்க  
அல்லது கல்பிக்கப்படுகிறது. மற்றும்

संसृज्य मनसा देवः संसरति लक्ष्यते ।

यथाकीं जलसंसर्गात् चलन्नेव लक्ष्यते ॥ ८-२५

எப்படி சூரியன் ஜலத்தோடு சேர அநேகனாகவும், அசை  
கிறவனாகவும் காணப்படுகிறானோ அல்லாதமே ஆத்மா  
மனதோடு சேர பிறப்பிறப்பில் உழலுவவன்போல் காணப்  
படுகிறான்.

மேலே சொல்லப்பட்ட ஸ்வப்னத்தில் சதகஜ்ஜதி தோற்றம்  
களும், ஆகாயத்தில் கந்தர்வநகரத் தோற்றமும், கானவில்  
நீர் தோற்றமும், தூணிக் திருடனென்ற தோற்றமும், கபீர்தில்



பாம்புத் தோற்றமும், சங்கு சர்க்கரை இவைகளில் பித்தத்தால் உண்டாகும் முறையே மஞ்சள், கசப்புத் தோற்றமும், வெய்யிலில் போய்வந்தவனுக்கு வெளிச்சத்தில் இருட்டுத் தோற்றமும், மறறும் ஒரு சந்திரனில் பல சந்திரர்களின் தோற்றமும், உள்ள பொருளில் சேர்த்ததா, அல்லது இல் பொருளில் சேர்த்ததா, எதில் தோன்றுகிறதோ அதிவிந்து வேறுபட்டதா, அல்லது வேறுபடாததா அவயவமுள்ளதா அல்லது அவயவமில்லாததா என்று ஒன்றும் பொருந்துமாறு சொல்லமுடியாததாகவே இருக்கிறது. மாயைக்குச் சொன்ன பொருத்தமின்மையெல்லாம் இவைகளிலும் இருப்பதைத் தெரிவிக்கிறார்

युक्तिहीनप्रकाशत्वात् भ्रान्तेर्न ह्यस्ति लक्षणम् ।

यदि साहस्युगं किञ्चिद्भ्रान्तिरेव न सिद्ध्यति ॥ ७-२७

எந்த யுக்திக்கும் பொருத்தாத தோற்றமாதலால் ப்ரமம் அல்லது மயக்கத்திற்கு லக்ஷணம் சொல்ல இயலாது. அப்படிச் சொல்லமுடியாதபின் ப்ரமமே அமையாது.

இப்படியே பொருத்தமில்லாதிருப்பதால்தான் இந்தத் தோற்றத்தை (ப்ரமத்தை) பற்றி சாலதிரகாரர்கள் ஒவ்வொருவர் ஒவ்வொருவிதமாக 'கயாதிவாதம்' என்ற தலைப் புடன சொல்லுகிறார்கள். அதாவது அக்யாதி என்றும், அஸத்க்யாதி என்றும், அன்யதாக்யாதி என்றும், ஆத்மக்யாதி யென்றும், ஸத்க்யாத்யென்றும், அதிர்வசனீயக்யாத்யென்றும் பலர் பல விதமாகச் சொல்லுகிறார்கள். அதில் நமது ஸுரேச்வராசாரியர் அதிர்வசனீய க்யாதியை நினைத்துக் கொண்டு உதாஹரணத்திற்கு இரண்டொரு க்யாதிகளைக் கண்டிக்கிறார்கள். அதிர்வசனீயக்யாத்யென்றால் இன்ன தென்று சொல்லமுடியாத ஒரு தோற்றம் என்று ஆகிறது.

कान्वाकरार्दी रजतं इति स्यात् सरगं भ्रमे ॥ ७-२३

இது வெள்ளி என்ற ஞானம், ஒரே ஞானமில்லை. இது என்பது தேலில் காணப்பட்டது. (அதாவது ப்ரத்யக்ஷம்) வெள்ளியென்பது மறமுரிடத்தில் பார்க்கப்பட்ட வஸதுவின் நினைவு, ஆக இதில் இரண்டு உணர்வுகள் உள்ளன.

புத்தநியாமையே ப்ரமம் அல்லது மயக்கம் என்று அக்யாதி  
வாதிகள் சொல்லுகிறார்கள். அது கண்டிக்கப்படுகிறது.  
ஏனெனில் முன்பு பார்த்த பொருள் நினைக்கப்படும்பொழுது  
அதை எங்கிருந்ததாகப் பார்த்தோமோ அங்கிருப்பதாகவே  
நினைவு வரும். இங்கோ நேரில் காணப்படும் இப்பிவிடில்  
இருப்பதாக நினைவு வருகிறது. ஆதலால் அக்யாதியாகாது.

மற்றொருவர் புத்தியிலுள்ள வெள்ளி வெளியில் தோன்று  
கிறது. ஆகவே ஆத்மக்யாதியென்கிறார். அதுவும் பொருந்தா  
தென்று தெரிவிக்கிறார்.

युद्धिसितं चेद्रजवं वाह्यत्वेन प्रतीयते ।

गुञ्जादौ ज्वलनारोपे देहदाहः प्रसज्यते ॥ ७-२६

மனதிலுள்ள வெள்ளி வெளியிலுள்ளதாக புலப்படு  
மாயின் குன்றிமணி முதலியவற்றில் நெருப்பு இருப்பதாக  
தோன்றும்பொழுது உடம்பு எரித்திட தேருமே என்று.

மாயைக்குச் சொல்லப்பட்ட கீழ்க்கண்ட திருஷ்டர்த்தங்  
களிலிருந்து ஒரு ஸந்தேஹம் எழுகிறது. அதாவது சுத்தி  
ரஜதம் முதலிய ப்ரமங்களில் இப்பியொன்று, வெள்ளியொன்று  
ஆக இரண்டு பொருள்கள் உள்ளன. ஆகவே ஒன்று  
மற்றொன்றாகப் பொருத்தத்துடனே பொருத்தமில்லாமலோ  
தோன்றலாம். அத்வைத நிலையில் பேதம் அல்லது வேற்றுமை  
என்பதேயில்லையே அப்பொழுது மாயை தோன்றுவதெப்படி  
என்றால் உண்மை யாகவே வேற்றுமையிருந்தால்தான்  
அப்படிவரவேண்டுமென்பதில்லை. கல்பணியால் வேற்றுமை  
இருந்தாலும் வருமென்று தெரிவிக்கிறார்.

कार्यकारणसंघाद्यनेकविधकल्पना ॥ ८-५

राहोः शिरः शुविः खस्य ममात्मा प्रतिमावपुः ।

इत्यादिकल्पनातुल्या न पृथग्वस्तुगोचरा ॥ ८-६

குறிக்கப்படும் பொருள் ஒன்றையினும் கல்பணியால்  
18 பொருளாகக்கொண்டு ராகுவின் தலை, ஆகாயத்தின்  
2வளி, என் ஆத்மா, னிக்ரஹத்தின் உடம்பு என வழக்கு

காணப்படுவதுபோல் காரியம், காரணம் ஸம்பந்தம் முதலிய  
அநேகவிதமான பிரபஞ்சமாக ஒரே ஆத்மா காட்சியளிக்  
கிருள் மற்றும்

पितरं प्रति पुत्रो यः पुत्रं प्रति पितैव सः ।

एक एव हि नानेव कल्पयते शब्दमात्रतः ॥ ८-८

ஒருவனே தகப்பனையொட்டி புத்திரனாகவும் புத்திரனாக்  
குறித்து தகப்பனாகவும் சொல்லால் மாத்திரம் எப்படி வேறாக  
ஆகியுனே அவ்வண்ணமே ஒரே ஆத்மா மயக்கத்தையும்  
தெளிவையும் பொறுத்து பிரபஞ்சமாகவும் பிரம்மமாகவும்  
காண்கிறது.

तस्मात् प्रकाश एवास्ति परमार्थनिरूपणे ।

भेदप्रतीतिर्मिथैव माययाऽऽत्मनि कल्पिता ॥ ८-९

ஆகவே உண்மையை ஆராயுமிடத்து பிரகாசமாகிற  
ஆத்மா மாத்திரமேயுள்ளது வேற்றுமையுண்டாக்கி செய்யமை  
யேதான். அது ஆத்மாவில் மாயையால் கற்பிக்கப்  
பட்டதேயாம்.

அப்படியானால் வேறு கத்தோன்றும் கு, சிஷ்யன்,  
வேதாந்தம், உபதேசம் எல்லாம் செய்யான தோற்றமே  
ஆகிறது. அவைகளால் உண்மை அறிவும் மோஷமும்  
எப்படி உண்டாகுபெனில் கடவுள் லலாத விகரத்தில்  
கற்பிக்கப்பட்ட கடவுளைத்தொழுவதால் கடவுளைத்தொழுத  
பயன் ஏற்படுவதுபோலும் சித்திரத்திலுள்ள புலி, யானை  
இவைகள் உண்மையான பயத்தைக் குழந்தைகளுக்கு  
உண்டுபண்ணுவதுபோலும், கண்ணாடியில் தெரியும் பொய்  
முகத்தினுதலியால் உண்மை முகத்திலுள்ள அழுக்கு அறியப்  
பட்டு துடைக்கப்படுவதுபோலவும், ஸ்வப்பனத்தில் காணப்  
பட்ட புலியைக்கண்ட பயத்தால் உண்டான உண்மை  
விழிப்பால் பயம், புலி, ஸ்வப்பன் எல்லாம் மறைவதுபோலும்  
மோஷம் ஏற்படும் என்று கொள்ளவேண்டும்.

मिथ्याभूतोऽपि वेदान्तः सत्यमर्थं प्रबोधयेत् ।

देवताप्रतिमावच चित्तवत् प्रतिविम्बवत् ॥ ८-११

வேதாந்தம் பொய்மையாயினும் தேவ விகீரகம்போலும், சித்திரம் போலும், பிரதிபிம்பம் போலும் உண்மைப்பொருளை அறியப்படுத்தும்.

இவ்விதமாகத்தோன்றும் மாயை அல்லது அறியாமையை நீக்கிவிட்டால் நாடகத்தில் வேடங்களுடன் காணப்பட்டவன் வேடம் கலைத்தபின் அறியப்படுவதுபோலும், பாசி நீக்கப்பட்டால் தெளிவான நீர் விளங்குமாப்போலும் ப்ரத்யயிஞ்ஞை அல்லது உண்மையறிவு தானாகவே விளங்கும். மனதை சரிப்படுத்தி ஆத்மாவை ஆராய்ந்தால் அறியாமை விலகும் அதைச்சொல்கிறார்.

योगभ्यासवशाद्येन मनो निर्विषयं कृतम् ।

निवृत्तः स पुमान् सद्यः जीवन्मुक्तो भविष्यति ॥ ८-२६

எவனும் தன் மனது யோகப்பயிற்சியால் விஷயம் அகன்றதாகச் செய்யப்பட்டதோ அப்பொழுது பிறப்பிறப்புச்சுழலி விருத்து விலகி உயிருடனிருக்கும்பொழுதே முக்தனாக-ஜீவன் முக்தனாகவாழ்கிறான். ஆராயும் திறமைவேலாதவர்களுக்கி ஈசுவர உபாசனையால் உண்மை அறிவு கிட்டும். யோகசித்தி உபாஸகனுக்கு எப்படி வரமெனில் சொல்கிறார்.

गुरुप्रसादाच्छमते योगमष्टाङ्गलक्षणम् ।

शिरप्रसादाच्छमते योगसिद्धिं च शाश्वतीम् ॥ ८-४६

உபாஸகன் அஷ்டாங்கமுள்ள யோகத்தை ஆசாரியரின் அருளால் அடைகிறான். சிவனுடைய அருளால் சாசுவதமான யோகசித்தியையும் அவன் அடைகிறான். ஆகவே ஈசுவரையும் ஆசாரியனையும் உபாசிக்கிறபொழுது எவ்வித பலனும் கைகூடும் என்று முடிக்கிறார்.

यस्य देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा गुरौ ।

तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ १०-२३

எவனுக்கு ஈசுவரனிடத்தும் அவ்விதமே ஆசாரியரிடமும் உயர்ந்த பக்தியிருக்கிறதோ அந்த உயர்ந்த மனத்தினனுக்கு உரைக்கப்பட்ட உண்மைப் பொருள் நன்றாக விளங்கும்.

ஸ்ரீ ஸுரேச்வராசார்யாரின்  
“பாலகீடை”

— கல்விடைக்குறிச்சி  
R. குருஸ்வாமி சாஸ்திரிகள்

### பாரத நாட்டின் பெருமை

செல்வச்சிறப்புடன் லோகாயதீதியில் முன்னணியில் பல நாடுகள் மேம்பட்டிருக்க, பாரதநாட்டின் பழம்பெருமை, தாழ்ந்த ஆசார அனுஷ்டானங்களும், அவற்றின் பயனாகத் தத்துவஞானமும்பெற்று ஒப்புயர்வற்ற நித்யநந்த நிலையுடன் முழு அமைதி பெறவிலப் பொறுத்ததாகும். இந்த உயரிய லட்சியத்திற்கு வழிவகுத்து யுகியுகமாக மக்களை வழிகாட்டி இட்டுச்சென்ற மகாஷிகளும் மகான்களும் பலர். வடதிசையினின்றுத் தென் திசையை நாடிவந்து தார்பிகத் துறையிலும் ஆன்மிகத் துறையிலும் இந்நாட்டவரை வளம்பெறச்செய்த பெருமை மாமுனிவர் அகத்தியருக்கு அடுத்ததாக, ஆதி சங்கரரால் சிருங்ககிரி “சாரதாபீடத்தில்” முதன் முதலாக அருளுடன் அமர்த்தப்பட்ட ஜகத்குரு ஸ்ரீ ஸுரேச்வராச்சார்யாரைச் சார்ந்ததேயாகும்.

இப்புண்ணிய பூமியில் அஸுர ஸம்பத்து தலையெய்காது தைவஸம்பத்தைப் பாதுகாக்கும் நோக்கம்கொண்டே அவ்வப்போது பற்பல அவதாரங்களை காப்புக் கடவுளான திருமால் மேற்கொள்கிறார். இங்கு அக்ஞான இருளை அகற்றி மெய்க்ஞானத்தை உணர்த்தவேண்டி கைலாஸபதியான பாமேசுவரன் ஆலமரத்தடியில் அமர்ந்து மௌனஞானியாய் சின்முத்திரைகொண்டு, ஸனகாதி எதித்தர்களுக்கு அறிவூட்டினார். காலப்போக்கில் அச்சிவபெருமானே மௌன உபதேசம் போதாதேன சங்கரராக அவதரித்து அதே நான்கு சீடர்களுடன் வாதிகளை வாதில் வென்று, உபநிடதங்கள் போற்றும் உத்தமமான அதிசீயமான மெய்ஞ்ஞானத்தை யும், அதற்காதாரமான ஷண்மதங்களையும் நிறுவியது வரலாற்றுச் சிறப்பை உடைத்தது. உலகத்தை முற்றடி களால் அளந்த தீனிக்ரமனது பாதல்பச்சத்தால் மேன்மை பெற்றதையிட, மதப்ரசார நோக்குடன் பூமியை வலம்பந்த, பகவத்பாதானுடைய பரம்பரவனமான பாத ல்பச்சங்களால்,

பகைமை நீங்கி, உள் ளொளி பெருகி, இப்புண்ய பூமி பண்பட்டது சாலச் சிறந்ததன்றே !

சரித்திரப்புகழுடன் வாழ்ந்த “மண்டனமிச்சர்” என்றும் பெரியார் ஸதாசாரசீலராக, உத்தமமான கிருஷ்ணத தர்மத்தை மேற்கொண்டு, அதன் பயனாக வந்த சித்த பரிசுத்திக்கேற்ப ஸத்தருவாம் பகவத்பாதர்களது அருளுக்குப் பாத்திரமாகி, துறவறம் மேற்கொண்டு பரமாசார்யானுடைய ஆணையை, ஜகத்குருஸ்தானத்தில் அமர்ந்து நிறைவேற்றி வைத்தார். இவர்களுடைய ஆச்சரமப் பெயராகிய “ஸுரேச்வர” என்ற சொல் கருத்துடையது இவர் பூர்வாச்ச மத்தில் பலநாள் யக்ஞயாகாதிகளால் இந்திராதி தேவர்களை அராதித்தவர் என்பதே. ஆசான் எவ்வழி மாணவன் அவ்வழி என்ற ஆன்ரோர் வாக்கியப்படி, தாஷ்ணாத்யர்கள் ஸத்கீம நிஷ்டர்களாய், ஸ்வதர்ம நிரதர்களாய் இக்கவியுக்கத்திலும் ஒருவாறு சிலராவது காணப்படுதல் ஸுரேச்வரரை ஆலியில் “ப்ரதம ஜகத்குரு” வாகப் பெற்ற பாக்கியத்தின் பயனாகும். அன்றியும் பகவத்பாத சிஷ்யர்களுள் சுரேச்வரர் வயதிலும் ஜ்யேஷ்டர் அல்லவர்.

“மண்டனமிச்சர் - பவபூதி - விச்வரூபர் - ஸுரேச்வரர்”

மண்டனமிச்சர் என்று பூர்வாச்சரமச் சிறப்புப் பெயருடன் கூடிய இவர் ஆச்சரமம் பெற்றபிறகு விச்வரூபர், ஸுரேச்வரர் என்ற பெயர்களுடன், பவபூதி என்ற பூர்வாச்சரம பிறதமும் சேர்ந்துளது. பிரசித்திபெற்ற மகாகவி பவபூதியினின்று இவர் வேறப்பட்டவர் அன்று எனக் கூறப் பல சான்றுகள் கிடைத்திருக்கின்றன. “உத்தாராமசரிதம்” போன்ற இவரது சிறந்த நாடகங்களில், தர்மசாஸ்திர ரதஸ்யக் குறிப்பு களுடன், உபநிடதக் கருத்துக்களின் விளக்கமாக அத்வைத வாதமும், அதன் அடிப்படையான விவரீத வாதமும் பல இடங்களில் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டிருப்பதை எடுத்துக்காட்டாகக் கொள்ளலாம். அன்றியும் தனக்கு “ஞானநிதி” என்ற பெரியாரே குரு என்று குறிப்பிடுவதும் உணரத்தக்கது. இதைப்பற்றி விமர்சம் செய்வது விசிவ்யமும்.

மேலும், வித்யாசண்ய யோகிகள் விச்வரூபர் ஸுரேச்வரர் என்ற தர்மசாக்கீகரைப் பர்யாயங்களாகத் தமது நூல்களில்

வழங்குகின்றார். “பாலகீடா” ஸ்யாக்யானமாத்  
வசனமாகியில்

यत्प्रमादात् अयं लोकः धर्ममार्गस्थितः सुखी ।  
भवभूतिसुरेशाख्यं विश्वरूपं प्रणम्य तम् ॥

என்ற சுலோகம் காணப்படுகிறது. இங்குள்ள பவநுதி என்ற சொல் அத்வையதியான சுரேச்வரருக்குச் சிவபக்திப் பெருமை யால் ஏற்பட்ட அடைமொழிச் சொல் என்று எளிதாக எண்ணக்கூடாது. பெரும்பாலும் பல இடங்களில் விஷ்ணு பாரம்பததை இவர் கூறியுள்ளார்.

விச்வரூபமும் பாலகீடையும்

துறவரம் ஏற்று விச்வரூபர் என்ற பெயர் பெற்ற இம் மகான் யாக்ருவல்க்ய ஸ்மிருதிக்கு முதன்மையான “वाल्कीडा” (பாலகீடா) என்ற விசிவான பெருமைவாய்ந்த உரை ஒன்றை வரைந்துள்ளார். இது தற்காலம் பிரசாரத்தி லுள்ள “मिताक्षरा” (மிதாக்ஷரா) என்ற விபாக்யானத்துக்கு முற்பட்டதாகும். மிதாக்ஷராவின் ஆசிரியரான விக்ஞானேச் வரர் விச்வரூபரைப் பற்றித் தொடக்கத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார். பாலகீடை என்ற உரை மிக்க விசிவானதென உணரப்பட்டு வந்தது என்பதை எடுத்துக்காட்டும் தோக்குடனேயே விக்ஞானேச்வரர் தமது நூலுக்கு “मिताक्षरा” (மிதாக்ஷரா) என்ற பெயரைச் சூட்டினார்போலும். விச்வரூபர் எழுதிய உரைநூலுக்கு “பாலகீடை” என்ற பெயரின் பொருத்தம் வருமானு ஊகிக்கத்தக்கதாகும்:— 1. உரைவாசிரியர் மூலகத்தாவான யாக்ருவல்க்ய முனிவரிடம் பெருமதிப் புடையவர் ஆதலின் அவரது நூலுக்குத் தனது உரை குழத்தை விடையாட்டுப்போன்ற-பயமறியாது, ஆழமறியாது, அகாதமான மடுவில் இறங்குவதற்கு ஒப்பானது. என்ற பொருளில் இப்பெயர் பொருத்தம். இவ்வாறு ஆசிரியர் “अद्वैतपरिहा” ததை வழிநடக்கையில் கையாளுவது இலக்கணப் பொருத்தமுடையது. அன்றியும் பாலகீடாக்ரு விடையாட்டுக்களில் அலுப்பும் சிசுமமும் தோக்குமல், மேன்மேலும் அவர்கள் அடனில் ஊக்கம் பெறவதற்கு ஒப்ப பாலகீடை என்ற உரைநூல் தல்லதவ் படைத்தவர்களுக்கு

பாக வற்புறுத்துவது விடுபெறுதலே என்று குறிப்பிடுகிறார். மேலும் 'सुहि धर्मान्शेषतः' என்ற தொடருக்கு உரையாற்றுகையில் தொடக்கத்தில் योगीश्वरं याज्ञवल्क्यं என்ற சிறப்பான அடைமொழியைப் பயனுள்ளதாகவேண்டி, धर्मान् என்ற பன்மையுடன் கூடிய धर्म என்ற சொல் நிமிசுத்தி தர்மமான மோக்ஷோபாயத்தையும் குறிக்கோளாகக் கொண்டது எனவும் குறிப்பிடுகிறார் பாலகீடை என்ற உரையாசிரியர், ஆனால் மிதாக்கூரா ஆசிரியர் அபிப்பிராயம் மாறுபட்டது ஸம்சூதிகள் எனப்படும் தர்மசாஸ்திரங்கள், வர்ணாசிரம தர்மங்களை மட்டும் தாற்பரியத்துடன் போதிப்பதில் பிரசித்திபெற்றவை என்பது.

ஸம்சூதி நூல்களை இயற்றியவருள் மனு மிகச் சிறப்பு வாய்ந்தவர் "यदे किञ्चन मनुएदत् तद्रूपजं" என்று வேதங்களே அவரைப் புகழ்கின்றன. நமது உரையாசிரியர் விச்வரூபரும் மனு ஷ்டத்தில் பெருமதிப்புக் காரணமாக யாக்ஞவல்க்ய ஸம்சூதியில் முடிவுரையான கடைசி சுவோகத்தில் காணும் स्वयंभू என்ற சொல்லால் "மனு" குறிப்பிடப்பட்டதாக எண்ணுகிறார். "नमस्कृत्वा स्वयंभुवे" விக்ரானேச்வரர் இச்சொல்லின் பொருளாக பிரம்மதேவன்ைக் கொண்டார்.

ஸர்வ ஸம்சூதிகளுக்கும் மூல பூதமானது மனுஸ்சூதி என்ற மானவ தர்மசாஸ்திரமாகும் ஆகவே முடிவுரையில் யாக்ஞவல்க்யர் மனுவைக் குறிப்பிடுவதற்குப் பொருத்தமான விளக்கம் தருகிறார். ஸம்சூதிகளில் பரஸ்பர விரோதமோ ஸம்சயமோ ஏற்படுங்கால் மனுவசனத்தைத் தழுவி பொருள் கொள்ளவேண்டும். மனுவசனமும் இதர ஸம்சூதிகளுக்கு இணைத்ததாகப் பொருள்படுத்தப்படவேண்டும். இவ்வாறாக "एकवाक्यता" ஆக ஸம்சூதி வசனங்கள் ஸமரசுத்தன்மை பெறும். மனு யாக்ஞவல்க்யர் இருவரும் தத்வநூலிகள் எனப் புகழப்பட்டவர்கள்.

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् ।

विवस्वान् मनवे प्राह मणुरिक्षाकवेऽत्रवीत् ॥



என்ற கீதையால் ஸூத்ரியபகவானிடம் தத்வோபதேசம் பெற்றவர் மனு. தத்துவஞானியாக நின்று லோகக்ஷேமத்துக்காக மனுஸ்மஞ்சி என்னும் நூலை முநன்மையாக அருளிஞர்.

वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणां ।

என்ற முறையில் கற்றவர் உலகில் போற்றப்பட்டவர். அத்தகைய அந்தப் பெரியாரை யொத்து ஸூத்ரிய பகவானிடம் மறைகளைப் பெற்று ஆத்மாநுபவத்தால் “யோகி யாக்கு வல்க்யர்” என்று புகழப்படுபவர். தமது நூலில் முகல் நூலாசிரியரான மனுவைப் புழுடன் குறிப்பிடுவது மிகப் பொருத்தமென நமது உரையாசிரியர் “சிவநுபர்” கருதுவது சாலச்சிறந்தது என்று யாரும் ஏற்கும் கருத்து.

தத்வஞானிகள் மட்டுமே சட்ட திட்டங்களை வகுக்க வல்லவர் என்பது இந்நாட்டு மரபு. சட்டங்களை இயற்றுவவர் ஞானிகளாக இருப்பதுடன் சட்டங்களை அமுல் நடத்தும் அதிகாரம் படைத்த அரசர்களும் ஓரளவேனும் வேதாந்த நூல்கள் கற்று தத்வ தர்சனத்தில் திகழவேண்டுமென்பதே நம் முன்னோர்களின் நினைவு ஆகவேதான் மனுஸ்மஞ்சியில்

“आन्वीक्षिकीं चारमविद्यां” என்று போர்க்கலைபுடன், வேதாந்தக் கலையும் அவர்களுக்கு இன்றியமையாதது என்று கூறப்பட்டது மேலும் உபநிடதங்களில் காணப்படும் உபாக்க யானங்களில் பல அரசர்கள் வேதாந்த ஆசிரியர்களாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதால் அரசர்கள் தன் கடமையை நிறைவேற்ற ஆத்மானுபவம் பெற்று, ஆத்மீக பலம் பெற்றிருத்தல் இன்றியமையாதது என்று அறியப்படுகிறது.

தசரதர் தன் தனயன் ராமனை இளவரசராகக் முயற்சிக்கு முன்பே குலகுருவான வசிஷ்டமுனிவர், ராமனுக்கு அரசுரிமைக்குத் தகுதி ஏற்படும்நேரக்குடன், யோக வரிஷ்ட மெனும் ஆத்ம ஷித்யையை ராமனுக்கு கற்பிக்காரெனவும், ஆகவேதான் பிற்காலத்தில் போரான ராமனின் அரசு நீண்ட காலம் ஆக்சுபந்தமான ராமராஜ்யமாக உலகில் புகழ்பெற முடிந்த நென்பதும் ஒங்கு குறிப்பிடத் தக்கது. ஆகவே பரம ஹம்ஸபரிவ்ராஜகர்களும் உலக மக்களுக்கு நல்வழிகளைக் காண்பிக்க வல்லவர்கள். அவர்கள் வயுத்தான காலங்களில் கருணாகொண்டு நயித வசனங்களால் மக்கட்கான சட்ட

(Summary)

## PURNA-AHAMBHAVA—SVARAJYA SARVATMATVAM

(J. Subramania Aiyar)

The first and foremost disciple of Sankara is Suresvaracharya, otherwise known as Visvarupa Acharya who adorned the transcendental Sringeri Pitha. The exhaustive and lucid commentary on the *Dakshinamurti Stotra*, written as a *varika* is very well-known as *Manasollasa*. In this is explained *Purna-ahambhavam* otherwise known as *Sarvatma bhavam*. It is incumbent on us to look upon all persons as our *atman*. No distinction (*bhedajnanam*) should be entertained. *Atmajnana* is the summumbonum, and when it is attained, all grief whatever its nature will vanish. The *Isavasya Upanishad* also bears this out — when everything is looked upon as *atman*, where is *moha*, and where *soka*? *Sarvatmabhava* is dealt with in the last stanza of the *Dakshinamurti Stotra*, and the first verse of *Manisha-panchakam* also refers to this. Suresvaracharya's lucid commentary explains this. The *animadi ashta siddhis* are explained with quotations on *atsvarya*, and *svarajya*. Our humble homage to this illustrious Guru!

(Summary)

MANDANA MISRA SAMVĀDA  
*(Paramahansa Sri Jnanananda Bharati Swami)*

In this discussion with Mandana Misra (Viśvarūpa) Sri Saṅkara established the following truths :

(1) Brahman alone, the Eternal, Absolute, Knowledge, the Pure and the One is the Supreme.

(2) Shrouded by Ignorance Brahman appears as the Universe, just as an oyster shell enveloped with darkness appears as silver.

(3) The awareness consequent on the true knowledge of Brahman, which dispels the notion of the universe, is Mukti or liberation.

(4) The Upanishads constitute the authority for these truths.

(Summary)

## MAYA TATTVA

(Kottaram T. H. Viswanathan)

All appearances, diverse in nature, are caused by *maya* which knowledge (*jnana*) dispels. *Māyā* has no beginning. It makes the pure Atman appear as many; it is inscrutable and cannot be explained by reasoning. It is neither non-existent nor existent. Instances are given in the paper to illustrate the nature of the illusions (*bhrama*) that *maya* creates. Inquiry into the nature of Atman and the resulting true knowledge alone will dispel *maya*. Knowledge is realised through yoga freeing the mind of all its *vrittis* by stilling it. He who succeeds in this becomes a *Jivan mukta*, and he who is incapable of this, must do *Upāsana* of Isvara and worship the Guru as he does Isvara.

(Summary)

## SRI SURESVARACHARYA

(R. Guruswami Sastrî)

This paper examines some points in Suresvaracharya's *Balakrida*, the commentary on *Yajnavalkya Smriti*. The writer makes out a strong case that 'Knowers of Truth' (*tatvajnanis*) alone are best fitted to lay down the code of conduct to rulers, and points to the instances of Yajnavalkya, Manu, and Suresvara. He dilates on the following special features of *Balakrida* 1. the book points out the relevant authorities in the *Smriti* for some of dharmic duties and 3. It expatiates on the greatness of *atma-vidya* and *atmajnana*.



- |  |     |    |
|--|-----|----|
| 1. Sri Sureśvarācārya and his Vārtikas   | ... | 1  |
| <p>Bulusu Appanna Sastri,<br/>         'Darsanalankara'; 'Satsastra-<br/>         Vetta'; Recipient of the<br/>         President's award as a<br/>         national scholar; Bhattanavilli-<br/>         Amalapuram Taluk,<br/>         East Godavari Dt.</p> |     |    |
| 2. Sri Sureśvarācārya Bṛhadāranyaka<br>Vārtika   | ... | 4  |
| <p>Lanka Narasimha Sastri,<br/>         Vyakarana Vidyapraṇiṇa;<br/>         Vedantastāpaka; Professor,<br/>         Sri Gautami Vidya Pitha,<br/>         Samskrit College, Rajahmundry.</p>  |     |    |
| 3. Sri Sureśvarācārya  | ... | 14 |
| <p>Pisupati Subramania Sastri,<br/>         Vyakarana Vidya Viśārada;<br/>         'Satavadhani'; Professor,<br/>         Sri Gautami Vidya Pitha,<br/>         Samskrit College, Rajahmundry.</p>   |     |    |
| Summaries in English   | ... | 21 |

# “శ్రీసురేశ్వరాచార్యులవారు - వార్తీకరచన”

‘దర్శనాలంకార’ బ్రహ్మశ్రీ బులుసు అప్పన్న శాస్త్రి గారు.



“జ్ఞానాం వరజ్ఞుడుర్లభం” శీవులప వరజ్ఞుడుర్లభ మని భగవల్సాగు లాడి  
A భరణ కొంచెము విచారించుము.

కనుకయ్యెదలకు కూడ నని భవించు కృణామః మమభ్యం భవీదు  
మానరామల కన్న మక్కృష్టమే. మాకరములు భవించు కుంగకుర్తులు మాకరములప  
రామనలో నమానమే. బురవగుంటయందు పొల్లాకులు వాటిని కన్నీట పన్నవము  
కేవలమే. మమభ్యం మృష్టాన్నభక్షణ మొనరించినప్రకృత నేమ నుభవతారు. దేవ  
దిలుల శావముకలగునో యటులను మాకరాని కాగవలప శావము కలుగిన.  
పచ్చిన కర్తవ్య శేషబట్టి కుంగకుర్తులవచ్చిన వానివారి లకునలు ముగియు. ఎదవైన  
వచ్చిన శేషబావి ఎదురువచ్చిన వాని కళిమఖమై అంబారావములకేవలమే.  
కమభ్యంకు కూడ భిక్షయను శేష్యుని దానవర్తులన్న కృణవృద్ధి కలవాటిని  
కారి యావకు. మంకురుభరణిని శేషబావి కచ్చుడన్న మమభ్యం కారి వారి  
కలమఖమంక మమకు ఎన్నికాశ్రమల నభ్యసించిన వైభవభావము కచ్చు. నా  
విషయముగ భగవల్సామం బాధ్యం భాష్యమునామి “దానాని భిక్షా నికేహాగ్”  
మ ముగ్రహాచార్యులు మదమూరిని మంకు గ్రంథముల కచ్చుడు” అనాంకి.

కాని కావు. ఆదేహములు దుకృతవిశేషములు సంపాదించుటకు వీలుకాదు. మరేమన  
మానవదేహములే యైయిందవలెను. అట్టి కర్మాధిక్యతమానవదేహము దెన్నియో  
ప్రాప్తించి వాటియం దాచరించబడిన కర్మ విశేషములచే నాత్మైకత్వవిచ్ఛాదము సాధించుట  
కేమానవజన్మ నిర్మించలడెను. ఇట్టి మానవజన్మప్రాప్తించియు దీనిని వ్యర్థముచేయవద్దని  
“వేదాధినిశ్యమధీయతాం” అను దానిచే వేదాధ్యయనము, వేదోక్తకర్మానుష్ఠానము  
లనాచరించి దాని భగవదర్పణమొనరించి విద్మూములై చిత్తసమాధానమొనరించుకొని  
పరమేశ్వరునియందు చిత్తమును విరిసి జీవబ్రహ్మైక్యానుసంధానమొనర్చి యవిద్యుత  
వశంబుడెనుకొని తజ్జన్మోపాధిభూతమగు సంకలకరణమును లయముపొందించి ఘటము  
వలె యి ఘటాకాశము మదకాకాశస్వరూపముగ నున్నటుల పరమాత్మవ్యరూపముగనుండి  
జువనమరూట్లకరూపంసారసాగరమును తరింపుడని సూచించుటకే “జన్మావాం నరజన్మ  
దుర్లభం” అని చెప్పియుండిరి.

బహుశ్లేకములకు నిలయమైన సంసారసాగరమును దాటుట కాత్మైకత్వవిచ్ఛాద  
మొక్కటియే సాధనము. అట్టి యాత్మైకత్వము నుపనిషత్తులు, భగవద్గీత, బ్రహ్మసూత్ర  
ములు బోధించుచున్నవి. కనుకనే యీ మూడింటికి ప్రస్థానత్రయమని పేరువచ్చినది.  
ప్రస్థానత్రయమనగా “ప్రకృష్టంచ తో స్థావరం ప్రస్థావం” అనగా యుక్తకృష్ట  
స్థావము. అట్టి స్థావము మన్వాసము. అట్టి సంన్యాసమునందే “మన్వస్య శ్రవణం  
శుశ్రావో” అను శ్రుతి శ్రవణమును సంకయనివర్తకముగ విధించుచున్నది. శ్రవ  
ణోత్తరకాలికమగు మననమును “మన్తవ్యం” అను శ్రుతి ఆసంభావనానివర్తకముగ  
విధించుచున్నది. మననోత్తరకాలికమగు నిధిధ్యాసనమును “నిధి ధ్యాసితవ్యం” అను  
శ్రుతి వివరీతభావనాని వర్తకముగ విధించుచున్నది.

ఇట్లు విహితమైన శ్రవణము నిమిత్తమగుటచే నుపనిషత్తులు శ్రవణస్థానాబ్ధి  
ములగుటచే నుపనిషత్తులు శ్రవణ మనువించుకొనును. తదర్థమును సృష్ట్యముగ వివరించు  
టచే నుపనిషద్భాష్యము శ్రవణ మనువించుకొనును. అట్లే యుక్తలచే ననుచింతనము  
మననము, అట్టి మననార్థమగుటచే సూత్రములు, తద్భాష్యము మనన మనువించుకొనును.

అట్లే ప్రథమవిద్మూముచే జీవస్వరూకమును శోధించి, రెండవ విద్మూముచే  
సిద్ధరూపమును శోధించి “క్షేత్రజ్ఞంచాపి మాం విధి” అను స్తోత్రముచే చూర  
ణోధితమగు క్షేత్రమును, క్షేత్రజ్ఞుని (జీవుని నాస్వరూపముగనె లెలుచుకొనుమని జీవ  
బ్రహ్మైక్యావ్యరూపమును నిధిధ్యాసితవ్యార్థమును శ్రీభగవద్గీతలోధించుటచే శ్రీభగవ  
ద్గీత, తద్భాష్యములు నిధిధ్యాసనరూపములు. ఇట్టి శ్రవ్యనామనవిధి ధ్యాసన  
సంన్యాసమునందు విహితములు కావ నామాదిను ప్రస్థానత్రయ మనువించుకొనును.



ఆట్టి క్రతణరూపములగు నుపనిషత్తులతో ప్రకృతమేది నధిష్ఠించినవి బృహ  
 తారణ్యకము, తైత్తిరీయకము, ఈ రెంటియందు న్యూనపూరణము, అధికపరివరణము,  
 సుక్తిపిరస్కరణము, పునరుక్తి వివారణరూపముగు వార్తికమును జగద్గురు శ్రీ సురేశ్వ  
 రాచార్యులవారు స్పష్టముగ వ్రాసియుండిరి.

అందునను బృహదారణ్యకభాష్యమునకు సుబ భగ్నంము పతికోలాపాల  
 నూపముగ వ్రాసియుండిరి. ఈ బృహదారణ్యక తైత్తిరీయకభాష్యవార్తికములను గురు  
 ముఖమున వినినగాని భాష్యగణపంచేనాములు నివర్తింపజాలవు. పరియగు జ్ఞానము  
 కలుగజేరదు. కాని యిట్టి వార్తికములను రచించిన శ్రీ జగద్గురు సురేశ్వరాచార్యుల  
 వారికి మానవులందరు ఋణగ్రస్తులని చెప్పక లభదు.



శ్రీగురుభ్యాం నమః

# శ్రీసురేశ్వరాచార్యులు.

## బృహదాచార్యకవార్తికము

వ్యాకరణ విద్యాప్రవీణ పేదా శ్తస్థాటక.

బ్రహ్మశ్రీ లంక నరసింహశాస్త్రిగారు.

న విద్యత బహుస్యాం ప్రజాయేయ తద్దేదంతర్వ్యా వ్యాకృతమాసీల్ రన్నామ  
 యాపాభ్యామీవ వ్యాక్రియత. తస్పృష్ట్యాక దేవామస్రావిశల్. ఇట్టి శ్రుతివాక్య  
 ములు వామరూపాక్షక నిఖలప్రపంచము ఈశ్వర విలాసమనియు విశ్వర్యమనియు  
 వినిపించు తున్నవి ప్రత్యక్షాది ప్రమాణములు జగదనుభవమునకు సాధకములు  
 ప్రమాణబలమున ప్రసిద్ధినిొందు ప్రపంచము వానావిధములయిన భావభేదములు  
 ఆకాంతిదుఃఖములను మాత్రమే కలిగించుచున్నది. ఈశ్వరభావమైన నిత్యానందమును  
 గాని కాంతి సౌఖ్యములగాని నందించుట లేదు. ప్రకృతియనంతము ఆపారము నగు  
 టచే అవైదికములగు పరీక్షలు తత్వము నందింపవు. తత్త్వనిర్ణయము గలుగక తద్దాన  
 కాంతింపదు. నవ్యమార్గములు గూడ చరిత్రగావస్థయందే యున్నవి. ప్రాచీనమహర్షులు  
 తోకకదృష్టికి గోచరముగామి తత్త్వనిర్ణయార్థమై దర్శనముల ప్రస్తారము చేసిరి వారిలో  
 నైయాయీకులు ఆరంభవాదము నూతగాగొని తత్త్వనిర్ణయమునకై ప్రవర్తించి  
 సాంఖ్యులు పరిణామవాద మంగీకరించి ప్రకృతి పురుషవివేకము నుద్ఘాటించిరి. వీరిలో  
 వీరికి విప్రతిపత్తులు గలవు. గాని జగము సత్యమనుటలో వివాదములేదు. ప్రపంచమునకు  
 నత్త్వత్వమంగీకరించుటలో దృశ్యమానకార్యకారణభావమును ప్రమాణీకరించి  
 ప్రమాణబలమున సిద్ధించు ప్రపంచమునకు కూన్యత్వము పొనగదు. కాన భద్రాక్షర  
 నిజానమునగాని ప్రకృతి పురుషవివేకమునగాని సమీహిత పురుషార్థలాభము కలుగునట్టి  
 తైర్వ్యుల యభినివేశము. పేదప్రామాణ్యమునకు వెలియయిన ధౌర్ధాదల వాదన  
 నిస్సారములయినను తత్త్వనిర్ణయమున ప్రతిపక్షభావము పఠించి కుతర్క్యముల కి  
 చున్నవి ఇట్టి కల్లాలము నుజ్జించి పేదప్రామాణ్యమును తదర్థనిర్ణయమును  
 ముయన పరమధర్తమును కరమకాంతిని మరల వెలయింపజేయుటకై కైలా  
 చమవళివుడు మానవాత్మనిొంది శ్రీకంకరసామగ్గేయమున లోకమున

భుజ్యురై గురువుల నారాధించి వేదవేదాంగాదుల నభ్యయనముచేసిరి. శ్రీ గోవింద  
 భగవానుల యగు గ్రహమునొంది ఉపనిషత్తులకు భాష్యాదిరూపమున కర్తవీగ్ణాయ  
 కముల సంస్కరణముచేసిరి. ఈస్థానము నిఖిలానర్థనివృత్తి పూర్వకభవముఖాస్వాద  
 రూపమని అనేకు కీతాచలము ఆస్తిమల మతోపించిరి. ఇది యాచంద్రతారము క్షిర  
 ప్రతిష్ఠనొంది వికృతమాతనమై జగముల కల్యాణమొనర్చుకాన యని చరన్తికలయందు  
 చతురాక్షుయ మరదీరముల జెల్గొల్పి వివీరులు కపస్సూరములు స్వాంలేపాపి  
 ముఖ్యులు నయన శ్రీ గురేశ్వరస్తుపాదాగి మహద్వల కర్మీవాధికరులుగ నియమిం  
 చిరి. ఆచార్యులు అతికా మేత్రము ద్వారా కైలాసయాత్ర చేసిరి. శ్రీకంఠ భగవ  
 త్పాదుల క్షిప్రాస్త నిరూపణము ప్రసన్నమభవము. కాని కాస్త్రీయదిభాషలలో భరమ  
 గంభీరము. అందుచే మంజుష్యమాధికాపిలకు దురదరోధము. భరవామలుచేయు అధి  
 కాకంఠకు భమ తరము విచ్చుటకై సుపించవలసి వచ్చెను. మఱియు శ్రీ భగవత్పాదుల  
 కృతులలో బ్రాధిమ, కాస్త్రాధిపాటవము, గంభీరవిషయ బాహుల్యము క్షుద్ధులముగ  
 మందాను. వారిలో బృహదారణ్యకభాష్యము శ్రేష్ఠమని జెక్కల యాకాయము. కాని  
 యందు వైదిక ప్రమేయమునందలి ప యుల్లముగ అనేకవిధాభావపూర్వకముగ నిర్ణయిం  
 చుటయుగాక, దుర్భావముల నెల్లెగొని ప్రమాణయుక్తపథవహారములని వారిని నిర  
 యుతుమిలో నీభాష్యముచు వార్తికయోగమున వ్యాకరించి లోకమునకు మహోదకార  
 మొనర్చిరి. మంజుష్యమాధికారి బహుళమున ఆస్తిక ప్రకంఠమున నీవార్తిక  
 వ్యాఖ్యాన గ్రంథము ఆస్థానాధికారమనయుంది క్షాత్రమాత్యోపయము  
 ననినది. ఈ వార్తికమునూడ గ్రంథ ప్రమేయములచే విల్పకమై ప్రహ్లాదాంధీరముగా  
 నని. ఈ మహాగ్రంథమును సంక్షిప్తభాషాంకము చేచ్చుట మకరముగాని. గాదియొ  
 డుదాహరియూరమున సంబంధవార్తిక భాషాంకమును విల్పాశ్రమి మునహుంది  
 కృత్యోగ్యక గాంధీరములని కాంక్షించిరి.

గాన అనుబంధచతుష్టయము సంభవించదనియు సంశయించుదు. అందుచే వార్షికకారుల  
 దృఢప్రయత్నమున సాకల్యముగ విఫలముగ వీచిని నిరూపించబడింది. తొలుత అధి  
 కారిని విమర్శించిరి. కర్తయగు వాడగుచో కర్తవ్యములేదు గాన కాస్త్రారంభము తదు  
 రేదు. ఫలము ననుసరించి యధికారి సిద్ధించును. ఈకాస్త్రమున ఫలముగ మోక్షమే  
 నిరూపించబడినది. అది నిత్యముని మోక్షవాదలందఱు సంగీకరింతురు అందుచే నది వికా  
 ర్యాదిరూపమయిన చతుర్విధ కర్తఫలముల సంఘాతముగాదు. దాని యధికారియు  
 కర్తగాదు. జిజ్ఞాసువేయగును. అప్రాప్తమయ్యును మోక్షరూప ఫలము ప్రాప్తవ్యము  
 సాధ్యముగాదు. అంభకారావరణమున నవ్యక్తములయిన ఘటపటాదులు దీక్షసంయోగ  
 మున తమము నశించ విశదము లగుచున్నవి. ఆచట దీక్షమును కారకమనియు పదార్థముల  
 సాద్యము అనియు భావించుటలేదు. అటులనే యథార్థమునను అజ్ఞానావరణమున  
 నాత్మకర్త్రాదిభావమున విక్షిప్తదాయకు. విదోషదయమున అజ్ఞానము నశించెను. ఆత్మ  
 ప్రత్యగార్థ రూపమున విశదమగును. నిత్యాప్తమగు ప్రత్యగార్థ లాభము సాధ్యముగాదు.  
 పూర్వము అజ్ఞానావరణమున ప్రాంతిచే నప్రాప్తమయినట్లుతోచెను. ఇప్పుడాయాత్మానుభవ  
 మును జ్ఞానఫలముగ భావించిరి. "ప్రజ్ఞాంబుర్వీత బ్రాహ్మణః ఆత్మే ర్యేవోపాసీక" ఇత్యా  
 పాశ్యములుజ్ఞానమును విధించుచున్నవి. గాన ముక్తిసాధ్యమనియు కర్తయే యధిక  
 యనియు అధికాశంక కలుగును. ఇది యుక్తముగాదు. అభ్యుదయఫలములు పురుషతంత్ర  
 ములు. ఆచట కర్తకు ప్రేరేపించుటయగును. స్వర్గకామోయజేత్యాదులన్నియు ప్రేరే  
 ములు. సాధ్యఫలము నుద్దేశించి ప్రవర్తించెను. కాన కర్త లధికారులు. స్వాధ్యక్ష  
 చిదార్థ పురుషాయత్తుడుగాదు అందుచే నచట తోచు విధిచాశ్యములు పదార్థవివేకపరక  
 లగును. అయితే అన్నాయమునందు కర్తము మాత్రమే శ్రుతమగుచున్నది. అందుచే  
 అన్నాయార్థోపదలు విధివిషేధబోధకముగాని వేదవాక్యము లేదనియు నర్వప  
 క్రియాార్థమేయగుననియు నూర్తించిరి. సిద్ధార్థబోధకములన్నియు అర్థవాచిములపోలి  
 విధిశేషములుగ ననునవ్వయించులెను. లేనిచో ప్రామాణ్యము ఘటించదు. ఆహారూ  
 పాదేయమునందు ప్రకృతి నికృతులు సంభవించువి యాశంకకలదు. ఇది నమంబున  
 గాదు. పూర్వతంత్రమున ధర్మము జిజ్ఞాస్యము. తత్ప్రకరణస్థితములకు ననునవ్వయన  
 చెప్పిరి. అంత మాత్రమున బ్రహ్మపరములయిన వేదాంతవాక్యములకు క్రియోన్వయన  
 ఘటించన. విరోధము గలగు. పుణ్యసాపములర్జించ కామ్యునిసిద్ధముల వాచరింబు  
 ప్రారబ్ధమెట్లును భోగమున ఊయించును. వికార్యబోధము కలుగదున్నను స్వాధ్యక్షిక్ర  
 రూపమయిన ముక్తి లభించును. రోగనివృత్తికే కలుగు స్వాధ్యక్షములతే ముక్తి కర్త  
 మయినది నిత్యముగా నుచ్యుననియు కొందఱు కంకింతురు. ఇట్లుచట ప్రమాణవిరుద్ధ

గీచుచు తిరగింపము. ఆమహానమూలమున నిద్దించునది స్వాభావికమెట్లగును ! ఈ స్వరూప  
 విక్రంతి స్వాభావికమగుచో హేతువుల నన్నేదించుటయేమి ! ఆగంతుకమయినచో  
 ధర్మాధర్మాదులవలె విది బ్యభావము కారాదు. గామ్యునిసిద్ధముల వర్ణించుటయు దుష్ట  
 కము. నిత్యకర్తానుష్ఠానమునను ఫలార్థప్రతియగునని ఆపస్తంబవచనము బోధించును. కాన  
 స్థానపును చోరుడని భావించుచేరున బాల్యాద్యవస్థాచిక్షేపములు పుణ్యాపాపములు  
 అజ్ఞానమూలముననే ఆత్మయం దధ్యసించుట గలిగెను. వాకాత్మ్యతోధమున అవిద్యా  
 తత్కార్యములు నివర్తించి స్వాత్మ విక్రంతిపాపగును. ఇట్టి యాత్మకు క్రియాశేషకర్తవ్యము  
 ఘటింపదు అహంతుభి సుఖి ఇత్యాదిరూపమున ఆత్మ దుఃఖాతిసంపృక్తమగ అనుభవము  
 గలదు. న హి ప్రకృత్యే ఆపవచన్నం నాను. ప్రజలప్రకృత్యే విరోధముండ కాత్మ  
 మెట్లు అసంగనిర్వికారాదిరూపమున ఆత్మతోధవేయనగునని యాక్షేపించురు. ఈ  
 సందర్భమున ఆచార్యులు చీవుని చిదాభాసునిగను యకదై ప్రకృత్యే విషయమనియు  
 వింబస్థానీయమగు చిదాత్మయే వేదాంత ప్రమేయమనియు కాన శ్రుతిప్రకృత్యే ములకు  
 విరోధము లేదనియు నిరూపించిరి. భోజనాదిజన్యమయిన కృత్తిప్రకృత్యే మగుటయ కల  
 పించరాదు. అటులనే విద్యదరుభవము గూడ ప్రమాణము. కాన జ్ఞానఫలము దృష్టము  
 తేజాసువే యధికారి. చిదాభాసుడు శోకమోహానిమగున్నదైవము తత్సాక్షియగు చిదాత్మ  
 ఆసంగనిర్వికారుడగుట వలనయందు శోకమోహాదులు సంభవింపవని శ్రుతి బోధిం  
 చును. "చిత్స్వభావ చిదాభాసా వాక్యాసాం ఋద్ధిగోచరా అదుఃఖదుఃఖి దా భూత్వా  
 అనుభూయేతే యథాయభవ" రూపవత్తయిన ద్రవ్యమునకు మాత్రమే ప్రతిబింబనము.  
 నీరూపుడగు యాత్మకు ప్రతిబింబమెట్లుల పాపగునని యాక్షేపముగలదు. అది యుక్తము  
 గాదు. నీరూపములగు సంఖ్యారూపాదులకు గూడ ప్రతిబింబనము గలదు. వైయాఠి  
 కుల సిద్ధాంతమున గుణములు గుణాశ్రయములుగావు. పృథివ్యాదినపకమునందు ఆను  
 గరమయిన ద్రవ్యస్వయమేదు. తార్కికకరిభాష ప్రమాణవిరగింపము. లోకమునందును  
 ద్రవ్యము ద్రవ్యము అని ప్రతీతీయమేదు. గుణాశ్రయమైన రూపనత్తునకు మాత్రమే  
 ప్రతిబింబనములు యుక్తికాముగాదు. సుఖ్యుకు ప్రతిబింబనము గలదు. అది  
 నీరూపము. గుణాశ్రయము గూడ. ఎట్లన బ్రహ్మణస్వీయం త్రితయమిత్యాదికల్పములు  
 గలవు. అవిశయప్రకృత్యయంతములు. అసంఖ్యాయా ఆవయవేతయవ్ అను మాత్రమున  
 ప్రించెను. అచట ద్వా ఏకత్వన భ్యాయాసా అవయవో ఆస్య అని విగ్రహము చెప్ప  
 వలయును. ఏకత్వము ప్రశ్ననసంఖ్యి ద్విత్వము ద్విత్వయసంఖ్యయవి వ్యవహారము  
 గలదు. "కవించిలాపాలభేక" అను మంత్రమున త్రిత్వము బహువచనార్థము. ప్రశ్న  
 మాలిక్రమణికారణాభావో. అని మీమాంసాసిద్ధాంతము. "రక్షసాని విహతావ్యాసకా



రమణుల సుద్ధాటించి సోదప ల్లికముగ వానిని నిరాకరించిరి. లోకమున నిట్టి కుకర్మ  
 ములు గలవు. వారి యాశయ మిట్లుండును. యాగాదికర్త ఫలము పర్వము. అది ఈ  
 దేహమునకు పాపగడు. దేవకీంకరమున భోగ్యము. కావ దేవత వారమును ఉపాయ  
 మున నిషేధించుటయు స్వర్గకామవాక్యములకు లాశ్చర్యము. అటులనే దేవలోపామన  
 డను దేవభావము నొందించి ఫలనుర్పకములు. వీనియందును ఉపాయమున పూర్వ  
 స్థితిని లంఘించుటయు అంశరూపతమైయుండును. ఈవిధమున వైరాళాంకఫలము నను  
 భవించి కర్మఫలములయందు విరక్తుడై ముక్తిగాంచును. ఇది యావాదముల సారాంశము.  
 ఇది పద్మసోలకల్పితము. ప్రమాణవిహీనము. విమున స్వర్గకామవాక్యములు యాగాదు  
 లకు పద్మసాధనకర్మమునే వినిపించును. అన్వార్యము కల్పించిన వాక్యభేదమేర్ప  
 డును. ఫలాంకరకల్పనయు యుక్తముగాదు. "కల్యాణదేవానాం ప్రకణ్ణుధ్యక"  
 ఇత్యాది శ్రుతులు. విసూక్రములు పక్ష్యాదు క్షి ప్రతిపాదించుచున్నవి. కామము  
 భవము రాగవర్ధకమే యగును. జోషదృష్టియే కామబయమునకు హేతువు. "అపి  
 బృందావనే కనానే కృగాలక్ష్మణం ఇచ్ఛతి. నను నిర్విషయంమోక్షం కవాలిపసి  
 గాకను" అని రాగీకలయందు గలదు. "న బారు కామకామానావ" అని స్మృతి  
 వచనముగలదు. మనోయక్షైశ్చ యక్షైశ్చ స్మృతివచనము సాధ్యసాధనసంబంధము  
 ప్పరించుచున్నది. వేదాంకవాక్యములకు ప్రామాణ్యముకుడునా యను సంకయము  
 మిగిలియున్నది. ఆమాన్యస్య క్రయాధ్యక్షాదిత్యాది జైమినీమూర్తిము అర్థవార  
 క్యములు ప్రమాణబాకములనియు విధిశేషకర్మమాపాదించుచున్నది. కాన ఉచిషివ్యా  
 దనియు లోభ్యాధ్యక్షము పునుషిధ్యమే యగుననియు విఫలముగ వ్యాకరించి. గణపవర్ష  
 మందను ప్రతివాదులు సైకము కలతాపుడు. ఇరట పూర్వవాదిల యాక్షిలసారా  
 కని. ఘోకృతి ప్పూర్వము ననుసరించి కర్మములన్నియు కార్యార్థిలాధ్యక్షత్యాదు  
 కములని విచూచింతు. సిద్ధబోధనమున ప్రవృత్తి బృహ్మణ్యం దుభువిచ్చ గా పును  
 షిధ్యము సంభవించునియు భావించిరి. ఇది యుక్తముగాదు. భూవిష్ణుమున సాక్షిమీ  
 నేపాలకప్రమేయము గాన ప్రమేయాంబంధము వేదాంకములకు లేదు. సాక్షి సంక  
 విచిరణమున బాకమున కాంక్షము ప్రాప్తించును. ప్యదవారప్రవృత్తి దిటుకలగును.  
 బృహ్మపూర్వము విదగ్ధాది లోభములన్నియు సాక్షి బృహ్మణ్యమై బుందుచున్నది.  
 రింకదేహము ప్రమాణ. కామాదంశవృత్తులు ఇచ్ఛాయు బుండనయమున  
 బుద్ధ్యాప్తమైయున్నది కామాదంశం. ఫలాదుల ఆకాంక్షాధ్యక్షములకు

కారణాపేక్షగలుగుటలేదు. బుద్ధివృత్తి భావాభావముల ప్రసీద్ధముచేయు సాక్షియు న్యుత్పేద్ధుడు. అందుచేతనే స్వప్రకాశుడు. కాన ప్రమేయాసంభవములేదు. వేదాంత వాక్యములకు అనువాదరూపమయిన అప్రామాణ్యము గూడ ఘటించదు. ఏమన చివేక రమమగ గుర్తులేదు, ఆళ్ళానోదయము కాస్త్రము కలిగించును. ఈళ్ళావాళ్ళానములు స్వానుభవసిద్ధములు గాన యుపలంపరాదు. సుఖస్థ్యాదుల ప్రసిద్ధిచే స్వప్రకాశత్వము ప్రసిద్ధ మగుచున్నది. అప్పుడు ప్రమాణముల ప్రసారము లేదుగదా. ఈయళ్ళాతార్థజ్ఞానకర్మ ములగుట వేదాంతవాక్యములకు ప్రామాణ్యము ఘటించును. కాండవ్యయమునకు పర స్పరవిరోధము శంకించినను సమముగనే ప్రామాణ్యము చెల్లును. శ్రేయస్సాధనబోధము కర్త కాండమునకు ప్రామాణ్యహేతువు. కార్యార్థముగాదు. మంత్రార్థవచము. విధి విశేషములయినను స్వార్థమును బోధించును. అనన్యకేషములయిన వేదాంతములు స్వార్థ బోధకములగుట చెప్పవలెదు. "పుత్రక్షేత్రాక" ఇత్యాది వాక్యములుగూడ పుత్రత్వము ములై పునుద్ధహేతువులగుచున్నవి. "ఆత్మే ల్యేహోపానక" ఇత్యాది వాక్యముల చూచి వాసనానిరోధమో మనోనిరోధమో వేదాంతములకు కావ్యార్థమగునవి కొండలు భ్రాంతిచెందుదురు. అనేక చ్చలయందు పాసనన వాసనలెట్లు నీరోధించ శక్యమగును. వాసనలడగినను ముక్తి యొడవదు. సుఖస్థియందు ముక్తిలేదు గదా? కాన బ్రహ్మైకత్యబోధము ముక్తిహేతువుగాని వాసనానిరోధము గాదు. మనో నిరోధముగాదు.

ఉపాసనా విధులు జ్ఞానహేతువులు. మహావాక్యజన్య వృత్త్యారూఢ చైతన్య మజ్ఞాన నివర్తకము. సాక్షిమాత్ర మజ్ఞానవిరోధి గాదు. ఆళ్ళానానుభవము సాక్షి మూలకము. ఆట్టి సాక్షి వేదాంత ప్రమేయము. తల్ జ్ఞానమున నిఖిలానర్థ నివృత్తి యగుగాన విధి పుమర్థమగును. ఈ విధమున వేదాంతములకు ప్రామాణ్యము విధ్వంసించిరి. ఈ సందర్భమున నాచార్యులు హృదయంగమము లయిన సువచనల ప్రకృతి వస్తుభమున ప్రదర్శించిరి. దిర్ఘటకారణియగు మాయ బ్రహ్మభర్త మయిన సత్యత్వ మును భేదిమారోపించి మా మామముములకు పదార్థముల సత్యమను భ్రాంతి కలిగించు చున్నది. "వేదానా నా స్తికిం ద నేర్వ్యా"ది క్రుకుకు భేదము మాయకమని బోధించును. భేదమాయకత్వ మపూర్వము. బ్రహ్మబోధంగమముగాన వధలముగూడ. అందుచే శ్రుతి బోధ్యమగును. "మామాంతు ప్రకృతి విద్యాల్." ఇత్యాది వాక్యములును భేదమాయి కర్మమున కుదాహరణములు. విధి నిషేధాత్మక పూర్వకాండమునకు ఈ కల్పితభేద మాశ్రయము. భేదము మనమేయము గాదు. ప్రత్యక్షాది రూపమయిన లాకప్రమాణములలో నొక్కటియు భేదగ్రహకము గాదు. ప్రత్యక్షము ఘటాది ప్రమేయముల



ప్రసాదమును. తక్షణమున భేదము వ్యుత్పన్నముగాదు. విరమ్యప్రవృత్తి ప్రమాణ  
 మును లేదు. క్షణాంతరమున మరల వ్యాపారములేదు. నిరపేక్షమునకు ముత్తవ్యము.  
 భేదము ధర్మసాపేక్షముగాన వస్తువుగాదు. పరస్పరాశ్రయ బోధగ్రహముగాన అను  
 మాన నివేదనము భేదము గాదు. విలయన విరుద్ధధర్మి భేదానుమానమున  
 ధర్మి భేదానుమితి. ధర్మి భేదానుమితి మూలమున ధర్మ భేదానుమానము గలుగవలెను.  
 సామ్యక్యము లేకుండుటచే ఉపమానప్రసంగములేదు. వివాహమునని సియో  
 భావ మనగతమగుననియు అదియే అనుబంధ యని యందురుకాని యిది కుదురని  
 మాట. అల్పాతార్థ భావకములు మానములగును. అభావమునకు మానమేయవ్య  
 ముని పోనగుట యెట్లు. అనుబంధియను ప్రమాణాంతరము లేదు. ఇది  
 క్లిష్టియంకచకములా చేరదు. ఇక ఉపలబ్ధిభావము. అనుబంధి యనవలె.  
 ఈయభావము దున్నిరూపము. అర్థ యొక్క నిర్వకారతయనుచో ఉపనిష  
 త్పీఠిపాద్యులన్నామే యగును. కాన నిది వికల్పాత్మకము. భేదము అన్వేష్యా  
 భావారత్యతమయినను కర్ణావక ప్రమాణము లేనందున మాయికమే యగును.  
 ధర్మలాభవియు నజీవేదమనియు శ్రుతులు నూపించుమగాన ఆఖండ సన్వృత్తిపి  
 పస్తువు. ధర్మ భేదమున్నను ధర్మి అభిన్నముగా వచ్చును. కాన గవాదిభేద మన్నను  
 గర్భ ఆఖండమే యగును. తత్వమస్మాదివాక్యములు వికాత్మ్యబోధయందు త్యక్తప  
 న్నములగును. శుద్ధలక్షణము వేదాంతప్రసేయము. ఉపనిషము సర్వమానసావేద్యము.  
 ఆచార్యులు ప్రమేయవిచారమును ప్రసంగము ముక్తమించి కృన్వీకేదాంతార్థ నిరూ  
 డణ చేసిరి. సర్వంభర్షిదంబ్రహ్మ. అధాక అల్పాదేశః ఇత్యాదికము సర్వప్రదంవము  
 బ్రహ్మామాత్రమని నిరూపించుచున్నది. ఈ యర్థము మేయవిమర్శయందు విశవముచేసి.  
 మాయాబోధ దూషితములయిన మానములకు ప్రసంచము పుయముగా లోకము.  
 గాచాదిబోధయొక్కమైన వేదమునకు రజతము ప్రమేయమగుచున్నది. ప్రకృయో  
 భావమున రజతము ప్రతీకమయినను ద్రికాలసంబంధములేని రజితము మాయికమే  
 యగును. అప్రతీకమయినను శుక్తికయే సత్యమని లోకవ్యవహారము గదా! ఆటలుగే  
 బ్రహ్మమే ప్రమేయము. ఘటపటాదులుగావు. అవివేకమున ప్రమేయము లయినట్లు  
 భౌతి. శుక్తికయే రజతరూపమున ప్రతీకమయినట్లు బ్రహ్మమే ప్రదంబాకారమున  
 ప్రసీద్ధమగుచున్నది. ప్రకృయే మేయమచో ప్రమాణప్రయోజనము క్లిష్టం.  
 అల్పాతార్థభావము మానఫలము. అల్పావము విషయము గావరింప నది ఆప్రసీద్ధమై  
 యుండెను. ప్రమాణమని ప్రసించి రహస్యావకమయిన అల్పావయన పరయింపదని  
 ప్రసీద్ధమలగును. ఇది మానముల ప్రయోజనము. అల్పార్యోరుషీత విషయము మట్టే

శించి ప్రమాణములు ప్రసాదించును. అట్టి విషయములు ప్రసిద్ధములు గావలయును. అజ్ఞాన నివర్తకములయిన మానములు అజ్ఞానమును ప్రసిద్ధముచేయవు. అగుచో మాన ప్రవృత్తి నిష్ఫలమగును. ఇది జ్ఞానాభావముగాదు. సుఖప్రయోగమునందు అనుభవములో నున్నది. భావాజ్ఞానమే యగును. ఇదియే ప్రపంచో పాదావకారణము. మృత్యుములయిన ఘటాదులయందు మృదావరణము కలుగవట్లు అజ్ఞానకార్యములయిన ఘటలటాదులయందు అజ్ఞానావరణము ఘటించదు. "చంద్రం మలివయేద్రాపఃః నీలమేఘం న గు క్వచిత్" కాన అజ్ఞాతరజ్జుకార్యముయిన నర్జునునకు జ్ఞాతకర్తవ్యము సంభవించదు గదా! అజ్ఞాతలక్షణకార్యముయిన ప్రపంచమునకు జ్ఞాతకర్తవ్యము పోవగదు. మఱియు న్యయముగనే జడాత్మకములగు ఘటాదులయందు అజ్ఞానకార్యముయిన తిరోధానమాన శక్యము గాదు అందుచేత చైతన్యాత్మకమనియందు అజ్ఞానము తిరోధాన మాపాదించెను తన్నివర్తకములై ప్రమాణములు ప్రసాదించుచున్నవి. అయినను సామగ్రి దోషముః అనుభవాత్మకపద్యపు నవగ్రహించుటలేదు. జడనయ్యుతునిగ బోధించును. కాన చైతన్యమే మానమేయమగును నేమానానాస్తికిం చ నేత్యాది శ్రుత్యవప్త్యంధమన బాధితార్థోధకము లగుటచే వేదాంతాతిర్జితజ్ఞాన సామగ్రియంతయు దుష్టమనియే గ్రహించవలెను. లోకమునందు రజతాది జ్ఞానములందు ప్రకారవిషయమున మిథ్యాత్వమును ధర్మ్యంశమున యధార్థకను గుర్తించురు. అట్టి అధిష్టాన లక్షణమున జ్ఞానము లన్నియు ప్రమాదావములగును కాన మానములన్నియు లక్షణమేయమును బోధించ బూనినవి. అవివేకమున రూపాదులకు మేయత్వమును నాపాదించిరి. రూపాది విషయమున ప్రమాదావములయిన జ్ఞానము బుద్ధి వృత్తియే యగును. అది పూర్వోక్తవిధమన దోషదూషితము "వరాంచీభావి వ్యకృణత్" ఇత్యాది శ్రుతి చక్షురాదులను ప్రామాణ్యమును రూపాదులకు మేయత్వమును నిరూపించుటలేదు. విషయ లోకజ్ఞానము ననువదించి యాజ్ఞానము అనర్థహేతువని నిందించుచున్నది. కాన తద్విరోధములేదు. కాన రూపాదుల ప్రమేయత్వము నేత్రాదుల ప్రామాణ్యము మూఢజనకల్పితము చిద్రూపునకు అజ్ఞాతకర్తవ్యమునూడ మూఢజనకల్పితమే యగుచుగాని లోకబలక్షుద్రుడగు లక్షణవిద్యాధికారి చైతన్యమునకు జ్ఞాతతా జ్ఞాతరాదులు కలవని మూఢములని భావించి చన్నివృత్తికై కాస్త్రాభ్యాసము చేయును. నేత్రాదిపాపగ్ని నత్యవమున కుత్సా ఖండమునే బోధించుచున్నను దోషవశమున రజత ప్రవీలియయినట్లు లక్షణమే త్రికాలాబాధ్యకుగుట మానమేయము. అయినను మూఢబుద్ధికి రూపాదులు మేయము లగుట సంభవించెను. వ్యక్తంగమునందు జ్ఞాతతాదిచర్యసంభవించవట్లు త్రికాలబాధిత మయిన ప్రపంచమునందును జ్ఞాతరాదివిషయము సంభవించదు. కాన ప్రత్యగ్యాభావ

ప్రతిపక్షి వేదాంతవిచారము చేయువలసియుండును. ఈవిధమున పరమగురువ్రలయి  
 ల్లవ్యకమయన సురేశ్వరులు అన్నావిచారపర్వస్వమును విరూపించిరి. ఈవంబంధ  
 చార్తిక మొక్కటియే శ్రీవారి సర్వజ్ఞతను వెలయుచుటకు చాలును. గంభీరములయిన  
 శాస్త్రరహస్యముల నెన్నియో సుబోధము గావించిన వామహావీయవి కృతజ్ఞతతో  
 ప్పరిచుటకన్న మిన్నయగు పుణ్య మింకొకటిలేదు. పరస్వలీరూపమునను ఆపదవరూప  
 మనకు ఆచార్యుల జరామరులై యుండిరి. ప్రప్రీతినిఘటించు పరంపరయాశక్తకర్మల  
 సంహతులు భర్తప్రతిష్ఠాపనాచార్యులు యథాగృహగర్భులు శ్రీకృంగేరి కారణ  
 టిగాభిష్ఠియు నయిన గురువర్యుల పాదారవింపములయందు నీవాప్తియపుష్పరహారము  
 కథక్తికముగ సమర్పితము.

యస్యదేవి పరాభక్తి యథావలే తథా గురౌ,  
 తస్యైతే కఠితావ్యర్థాః ప్రకాశంతే మహాత్మనః  
 చార్తకమో వినారకమగు వాత్సల్యకటాక్షప్రసాదమచ గ్రహీంతురుని ప్రార్థన.



మండనమిశ్రులు :—

చిద్రావుడగు పరమాత్మకు శక్తిగుణార్థ మండదు. కనుక తద్విషయమున వేదాంతములు ప్రమాణములు కావేరవు. పరసముదాయాత్మకమగు వాక్యమువలన చెలియబడెడి సకలసమృద్ధులయందును వేదమునందలి పూర్వభాగము ప్రమాణమై యున్నది. ప్రసిద్ధములగు శబ్దములకుఁ గార్యమాత్రమునందు శక్తి చెప్పుటజీయున్నది కర్తృమవలన ముక్తి కలుగును. ఆకర్తృమీ లోకమున దేహదారులగు కీపు లాయున్య పరిసమాప్తి కర్మంత ముప్పింపవలసి యున్నది. ఇదియే మా మతము.

మండనశరీరము లీ సిద్ధాంతములపై నాధారపడి యపారమైన కాస్త్రవాదము చేసిరి. దానిలో బీజేశ్వరులు బిన్ను లని మండనమిశ్రులును బీజేశ్వరులు అభిప్రాయ భగవత్పాదులును కాస్త్రయుక్తులు బోదించి కని విని యెఱుగవి యన్యద్భుత వాదము చేసిరి. చివరకు మండనము లిఱుగై భగవత్పాదులకు శిష్యుల డయ్యెను. ఈవాదము సూర్యవంశంకరవిజయములో 8 వ లో వివదముగా వున్నది.

శ్రీశంకరాచార్య భగవత్పాదులు:—

అసీతుహిమాచల కర్మంతము భారత భూభాగమునం దనేకానేక లీర్ణక్షేత్ర దేవాలయ కీర్ణోద్ధరణములు, ధార్మిక నగర నిర్మాణములు, శ్రీచక్రాదితీత ప్రతిష్ఠా చేసి నాలంగాన్నాయ మరముల ద్వారమున వైదిక సంస్కృతిని, అక్షయక విద్యా ప్రచారమును విస్తరింపజేసి తాలి, మత, కుల, వేద, భాషాచార సంప్రదాయముల నిర్వహణమును బోదించి భేదభావములను తాఱుకొలి భరతఖండ మఖండ మని చాలి చిన యవతారపురుషులు శ్రీమచ్ఛంకర దేశికీంద్ర యతీంద్ర సార్వభౌములు. వా కరువాత వారీయంకటి మహిమంగలవారు వారి సంపూర్ణ యోగ్యతాపత్రము నంద కొనినవారు జగత్కురువులు శ్రీ సురేశ్వరాచార్యులు.

గ్రంథరచన :—

ఈ యాచార్యుల రచనలలో నిచ్చుటకి లభ్యములైన గ్రంథముల నామముల గావుచున్నాను. వీ రాక్రమ స్వీకారానంతరము మొట్టమొదట "వైష్ణవార్థ్యసిద్ధి యుగ గ్రంథము" రచించి గుఱిపాదుల నన్నిధిలో నుమ్మించిరి. దానిలో సకల భా యుల మదేహములు నమసిపోయినవి. గురుచరణుల యనుగ్రహము ద్వినసంకృతమై యిది వేదాంతకాస్త్రములో లభావమైన ప్రకరణ గ్రంథము. ప్రకరణము ముఖ్యమైన సిద్ధాంతాంశములు లఘూబహ్యములలో వివిధయుక్తులలో సంక్రమాదుగా

ప్రతిపాదించుచుండును. ఇందు సిద్ధాంతాంశములు ముఖ్యములగుటచే కాస్త్రజ్ఞానములేని వారు, కాస్త్రజ్ఞానముగూడ నీ ప్రకరణ గ్రంథములనే యాచరించుచున్నారు. ప్రకృత గ్రంథముందు ప్రతిపాదించబడిన ప్రధానాంశములు నీ క్రింది భాగమునఁ జొందు కఱచుచున్నాను.

నిత్యకర్తములుగాని వైమిత్తిక కర్తములుగాని స్వకంఠముగా మోక్షమునకుఁ గారణములు కానేరవు. అవి జ్ఞానముతోఁ గలసినను మోక్షకారణములు గాఁబాలవు. ప్రపంచము మాయాకల్పితము, మిశ్ర. అవి సత్యమని తోచుచున్నను త్రాదవంతులగుటచే కలిగినట్లు ప్రహ్లాదుని ప్రపంచభ్రాంతి కలుగుచుండును. అందువలన గురువువలెనే ప్రపంచముగూడ భ్రాంతికల్పితమై మిశ్ర యగుచున్నది—వైవాక్యము నందు దృష్టాంతదాఠాంతములతోఁ జెప్పబడిన యజ్ఞానమే మాయ, అవిద్య. ఆవ్యాకృతము, అక్షరము, ఆకాశము, అవ్యక్తము మొదలగు పదములతో వ్యవహరింపఁబడుచున్నది. ఆ యజ్ఞానము "కత్తవమస్యా"ది మహావాక్యార్థ జ్ఞానముచేతనే నశించుచున్నది. ఉపాయాంకరములచే నశింపదు. జ్ఞాన ముపనివత్పిలిపాదికములైన మహావాక్యములవలననే కలుగుచున్నది. అష్టాక్షానమునకు పంచాంశవాక్యములే ప్రమాణములు. ప్రత్యక్షాదిప్రమాణములు ప్రమాణములు గావు. అవర్థముల కన్నింటిని మూలకారణమైన యజ్ఞానము నశించినపుడే "అహంబ్రహ్మి" యను స్వస్వరూపావస్థానంబగు మోక్షము సిద్ధించును. ఇది వైమిత్తికగ్రంథసారాంశము. ఈయంశములు ప్రశ్న ప్రతిపదనములతో యుక్తిపరంపరలతో నహంకరముల హృదయములకు మార్తకొనునట్లు అహంకరసారముగా వర్ణించఁబడినవి. ఇందు పూర్వమిహంకారాదుకాస్త్ర రహస్యములు, పంచాంశజ్ఞానరహస్యములు జ్ఞానమవు ముఖ్యముగాఁ జరిపింపట కనువుగా నున్నది. వీరు రచించిన యీకర గ్రంథములు—తైత్తిరీయ, బృహదారణ్యకభాష్యములకు వార్తికములు, దక్షిణామూర్తి స్తోత్రమునకు మానసాష్టానముకు వార్తికము, లంబికరణ వార్తికము, "బాలక్రీడ" యను యాజ్ఞవల్క్యబ్రహ్మసూత్ర వ్యాఖ్య, బ్రహ్మసూత్రాది విధి వికేతము, కాశ్మీర్షి మోక్షవిచారము, విశ్రమవిలాసము, భావరామిచేతము మొదలగు సారవత్తరములయిన గ్రంథము లనేకములు రచించి వేదభర్త ప్రచారమును వర్తక విద్యాప్రచారమును వత్కృతముగా సాగించిన మహాపుత్రుల నీ మహాపుత్రాచార్యులు. ఈ గ్రంథరచనలు చూచినచో వీరి మహాబుద్ధి, పాండిత్యము, శక్తి, శ్రద్ధ, కష్టము, కేవలవిచారము లాచారము లని తెలియుచున్నది. కనుకనే గ్రంథములు కాస్త్రప్రచారము ననుసరించు కృత్రికావధానముల జగన్ముఖులచేరబడి వారుచేయు ముఖ్య



**Sureśvarācārya and Taittiriya Bhāṣya  
Vārtikam**

...

V. V. Sarma,  
Mahopadhyaya, Vidyabhushana,  
Vidyalamkara; Certificate of  
Honour from the President of  
India.

# സുരേശ്വരൻ

## തൈത്തിരീയവർത്തികവും.

—ചണ്ഡിനാമം റി. റി. ശർമ്മ, വിജാനന്തപുരം.

സുരേശ്വരൻ എന്ന മണ്ണുവീണ് ഒരു വിഖ്യാതനായ തിരക്കഥാകൃത്താണ്. അദ്ദേഹം വാർത്തകൾക്കുവേണ്ടി എഴുതിയ പേരിലും മറ്റും അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധി നേടിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം തന്റെ കലാപരമായ സൃഷ്ടികളിൽ വാർത്തകൾക്കുവേണ്ടി എഴുതിയ പേരിലും മറ്റും അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധി നേടിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം വാർത്തകൾക്കുവേണ്ടി എഴുതിയ പേരിലും മറ്റും അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധി നേടിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം വാർത്തകൾക്കുവേണ്ടി എഴുതിയ പേരിലും മറ്റും അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധി നേടിയിട്ടുണ്ട്.

എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാൻ കഴിയുന്നവരാണ്. അദ്ദേഹം വാർത്തകൾക്കുവേണ്ടി എഴുതിയ പേരിലും മറ്റും അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധി നേടിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം വാർത്തകൾക്കുവേണ്ടി എഴുതിയ പേരിലും മറ്റും അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധി നേടിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം വാർത്തകൾക്കുവേണ്ടി എഴുതിയ പേരിലും മറ്റും അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധി നേടിയിട്ടുണ്ട്.

“ബ്രഹ്മസൂത്രപദേശയാപി ഹേതുരേഭിർ വിനിശ്ചിന്തൈഃ”

എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു ബാലോയണ പ്രണീതമായ ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണോ എന്നുള്ള കാര്യവും വിദഗ്ദ്ധവ്യക്തമായിത്തന്നെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുമാകുമെന്നു ചില ന്യായപ്രതിപാദകങ്ങളായ ഗുണമേന്മ സുരേശ്വരകൃതങ്ങളായുണ്ടെന്നുള്ളതു് ഭാഷ്യകാരനായ ഗേവാൻ ആദിശങ്കരനോടു കൂടിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംവാദത്തിൽനിന്നു ഊഹിക്കാവുന്നതാണു്

സുരേശ്വരൻ മണ്ഡനമിശ്രൻ വിശ്വപ്രപൻ ഉച്ഛേകാചാര്യൻ ശ്രീകണ്ഠൻ വേളതി എന്നീ ആഖ്യകളെല്ലാം രോഗമുക്തന്മാരെന്നും അല്ലെന്നും അഭിപ്രായഭേദങ്ങളെങ്കിലും ആദ്യം പൗരത മൂന്നു പേരുകളും രോഗമുക്തന്മാരെന്നു എന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈയെഴുത്തുകളിൽ അംഗീകാരമുണ്ടു് സുരേശ്വരൻ വേദാന്തശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രതിപത്തി രഹിതനായ ബൗദ്ധകർമ്മവാദിയായിട്ടാണു് ആദ്യം സിദ്ധിച്ചിരുന്നതു് പിന്നീടു തുടിയന്മാരായിട്ടു സ്വീകരിച്ചു് ഗേവാൻ ആദിശങ്കരന്റെ ശിഷ്യത്വം വരിച്ചു ബ്രഹ്മസൂത്രം പരിഭാഷിച്ചു

രണ്ടാമതും ആദിശങ്കരൻ ദൈവപാതനനിരോധനസാരം വിശദമായ വാദിപർ വാക്യരോഷ്ട്രവാദിനായി ഭക്തിനാപഥത്തിലേക്കു പുറപ്പെടാൻ നിശ്ചയിച്ചു അക്കാലത്തിൽ കർമ്മവാദികളായ മീമാംസകന്മാരിൽ മണ്ഡനം ഉപാദേശ എന്നു പ്രഥമം തന്ത്രവാദികളായി ഗുണമേന്മയും ആയ കുമാരിലഭ്യന്തരെന്നു ആദ്യമായി വാദത്തിൽ മേന്മയുണ്ടെന്നു കരുതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഗ്വാദമേഖലയായ പ്രയാഗ ക്ഷേത്രത്തെ പ്രാപിച്ചു് ത്രിവേണീതീരത്തിൽ വിശ്രമിച്ചിരുന്നു കർമ്മവാദിമാർ അദ്ദേഹത്തെ ഇത്രയും പ്രസംഗിച്ചു കാര്യമായും തീരാനായി ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതായി വേദകർമ്മപാത്തകളെ ഭക്തിയുടെ ആദിശങ്കരൻ ഉപാദേശം കൈമാറ്റത്തിൽനിന്നു മൗനം പാലിക്കാതെ കയ്യോരായി ഉപാദേശം ശിഷ്യശങ്കരന്മാരും വന്നിരിക്കുന്ന പാതയുടനീളം കണ്ടിട്ടു് പരിവർത്തിതനായി പൂജിച്ചു ന്യായമറിഞ്ഞു സ്വപ്രകാശമാകുന്നതും ആദിശങ്കരൻ ഉപാദേശം ഉപാദേശം ഉപാദേശം എന്നു വിശദമായി വന്നിരിക്കുന്നതായി പാതയെ പ്രാപിച്ചു ഉപാദേശം “മണ്ഡനമണ്ഡനം നിരോധനത്തിനായി എന്റെ ശരീരത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചു് ദൈവീകമായിട്ടു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു



നിശ്ചയത്തിന്മേലേ വരുത്തുന്നത് ഉചിതമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു  
 തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനീയമായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് വിശ്വസ്യത  
 എന്നു ലോകത്തിൽ വിശ്വാസനും എന്റെ ഗോപിനിയും ആയ  
 മണ്ഡനമിത്രനെ വാദത്തിൽ ജയിച്ചാലും അവൻ യാതൊരുപരി  
 യാപിതും ചെയ്യാതെ തന്നെ എന്തിനായി കമ്മറുമായി ജീവിക്കുന്നവൻ  
 ത്തിൽ താമസിച്ചു വന്നു അവനെ ജയിച്ചാൽ വേദം ജയിച്ചതായി  
 ജയിക്കും" എന്നു പറഞ്ഞിട്ടു ആദിശങ്കരന്റെ സ്വരൂപത്തെ ശരിച്ചു  
 കൊണ്ടു പ്രാണശ്വാസം ചെയ്തു പിന്നെ ആദിശങ്കരൻ ജീവിക്കുന്നതിൽ  
 ചെയ്തതും അവിടെ മണ്ഡനമിത്രന്റെ ഗുഹമനോഹരമായ പാട്ടും  
 വാചികം അടച്ചിരിക്കുന്നതായി കണ്ടിട്ട് ആകാശമാഗ്നിയുടെ ഗുഹ  
 ത്തിനകത്തു പ്രാവശിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ശ്രദ്ധകർമ്മത്തിൽ  
 സമഗ്രം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മിത്രൻ ഇങ്ങനെ അകത്തുവന്ന  
 യതിവാഗ്ദന് ആരായിരിക്കുമെന്നു ഊഹിച്ചുകൊണ്ടു ആശ്ചര്യഭരിതനായി  
 അദ്ദേഹം വിവാദഭിക്ഷകനായി അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതായുള്ള വിവരം  
 ചോദിച്ചറിഞ്ഞു വേദാന്താശ്ചര്യമാസ്പദാനുകൂലമായ മിത്രൻ വാദം  
 സുകനായി സമ്മതിച്ചതനുസരിച്ചു രണ്ടു പേരും വാദം തുടങ്ങി ദിവ  
 സങ്ങൾ നൂറുകൾക്കു മേൽ വാദത്തിൽ തോല്ക്കുന്നവൻ സന്യാസം  
 നിട്ടു ഗുഹസ്ഥനായും അതുപോലെ ഗാർഹസ്ഥ്യം വിട്ടു സന്യാസിയായും  
 ഭവിക്കണമെന്നായിരുന്നു തമ്മിൽ കരാർ ഒടുവിൽ മിത്രൻ വാദത്തിൽ  
 പരാജിതനായി ആയതു കൊണ്ടു ആദിശങ്കരൻ പരിവേശിച്ചു  
 ന്നായ മിത്രനെ പ്രതിജ്ഞാനുസാരം സന്യാസഭിക്ഷയെ തല്ലി

“സന്യാസഗുഹ്യവിധിനാ സകലാനി ഗുഹ്യം-  
 ബുദ്ധനായ ശങ്കരശ്ലർ വിദ്യോദ്യോഗം കർമ്മൻ  
 കണ്ണു ജഗാ കീർത്തി തത്പരസീതി വാക്യം  
 കണ്ണു ജപന്നിവിവസംസ്കൃതി ദേവഹാരന്ദ്രം”

എന്നുണ്ടല്ലോ മായവിയ ശങ്കരവിദ്യത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത്.  
 അതുതന്നെ മണ്ഡനമിത്രൻ സ്വാംശപരാധ്യനായി ചേർപ്പു ആദിശങ്ക  
 രന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചു ഇങ്ങനെ ശിഷ്യത്വത്തിൽ കഴി  
 യുന്ന സുരേശ്വരൻ ഈ പ്രാപനനായി തന്റെ മായുരീന്ദ്ര  
 വാത്തികം മഹിമാവാൻ പ്രാപിച്ചു കൂട്ടി നോക്കാനെന്നു പറഞ്ഞു  
 സുരേശ്വരൻ നിർഗതനായപ്പോൾ ചിന്തയുണ്ടാകാതെ ശിഷ്യന്മാർ  
 ന്നിച്ചുകൂടി ശേഖരപാദങ്ങളെ മുമ്പിൽവെച്ചു “വളരെക്കാലം കർമ്മ

നിഷ്കന്മാരും മറ്റാരുമില്ലാത്ത സുഖശാന്തതയോടെ നിലനിൽക്കാനുള്ള  
 ശേഷിപ്പില്ലാത്ത സന്തോഷത്തോടുകൂടി അത്യന്തമധ്യം കർമ്മപഥത്തിൽ  
 തീർത്തു. ആയുർകാലം സുഖശാന്തതയോടെ നിലനിൽക്കാനായിത്തീർന്നു  
 അകരണം" എന്നിങ്ങനെ കാർത്തിക വരിയെന്നു കർമ്മപഥത്തിൽ  
 അദ്ധ്യക്ഷന്മാരും സുഖശാന്തതയോടെ സന്തോഷത്തോടെ മിത്സ്യമാർ  
 കരം നാർത്തിക കർമ്മത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും സുഖശാന്തത  
 കർമ്മപഥം വിട്ടു യഥാർത്ഥ ത്രിമാസത്തിൽനിന്നു കഴിയുന്നതായി  
 നോക്കുകയും ചെയ്തു. ഗ്രന്ഥം കർമ്മപഥത്തിൽനിന്നു നിലനിൽക്കുന്ന  
 സമാധി വിഷയം നോക്കുന്നതിൽ അദ്ധ്യക്ഷന്മാർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും  
 ചെയ്തു.

"സത്യമേവ വാ തേതിർ യഥാമേവ ഗഥാ ഗൃഹാ"

എന്നീ വിഷയങ്ങൾ സർവ്വം വേദികാ കേരളത്തിൽനിന്നു ഉണ്ടാക്കിയും  
 വിദ്യാർത്ഥികൾ അന്തഃഗൗണമായിട്ടും സുഖശാന്തതയോടെ കർമ്മപഥം  
 ഗത-ഗൃഹത്തിൽ അനിവാര്യമായിട്ടും കേരള സമുദായത്തിൽ  
 ഉണ്ടായിരുന്ന അദ്ധ്യക്ഷന്മാർ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാകണം" മദ്ധ്യത്തിൽ  
 കരംകേരളത്തിൽ യഥാർത്ഥമായിട്ടും പ്രസ്തുതവിഷയങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊ  
 മകനും

"യസ്യേവ സകലമാശ്രേണു കിരണപ്രാണാർത്ഥം സഹോരത്രിഭിർ  
 വ്യാപ്തം ഭവതി കൃപാലക്ഷണമിതിഹിതം മിതം ദൃഷ്ടിനാഃ  
 യദപാണീ കലിശാപാതം" എന്നും യഥാർത്ഥം മേൽ വിശദീകരിക്കാ  
 കേൾക്കാവുന്നതും പ്രസ്തുത കർമ്മം യഥാർത്ഥമായിട്ടും യഥാ"

വിശദീകരിക്കുന്ന വിശദീകരണമാണു കേരളത്തിൽ വിശദീകരണ നിർവ്വഹി  
 തോടെ അദ്ധ്യക്ഷന്മാർ യഥാർത്ഥമായിട്ടും വിശദീകരണവും വ്യാഖ്യാനം  
 കേരളം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സന്തോഷത്തിൽ കൃപാലക്ഷണമായിട്ടും യഥാർത്ഥ  
 കർമ്മപഥത്തിൽ യഥാർത്ഥമായിട്ടും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും  
 കഴിഞ്ഞുപോയി എന്ന് സർവ്വംഗോപദേശം പ്രതിരോധകരമായ  
 യഥാർത്ഥമായിട്ടും യഥാർത്ഥമായിട്ടും യഥാർത്ഥമായിട്ടും സമാധി  
 കേരളം പരാജയപ്പെടുത്തിയ ശ്രേഷ്ഠൻ

കേരളത്തിൽനിന്നു യഥാർത്ഥമായിട്ടും ശിക്ഷാപ്രദമായിട്ടും 'വേദാന്തമു'  
 എന്നു ഉണ്ടാക്കുന്ന അന്തഃഗൗണമായിട്ടും പരാജയപ്പെടുത്തിയ പ്രതി  
 പാർത്ഥിവികളെന്നു ചില വിഷയങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രസ്തുതവിഷയങ്ങളും

മോക്ഷസാധനമായ ആത്മവിഷയത്തോന്നും ഉദിക്കുന്നതിന്നു മുമ്പ്  
സ്മൃതനേമിതീകങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ അവശ്യം കർമ്മവൃത്തങ്ങളാകുന്നു  
“നിന്നിദ്വീപന്തീ”യ്ക്കുണ്ടി ശ്രുതിയും “കഷാരപന്തീ”കൾ കർമ്മാനി”  
ഉദ്യാദി സ്മൃതിയും ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യത്തെ അനുബന്ധിക്കുന്നു. അതാന്നും  
ഉദ്യാദി സ്മൃതിയും പുനഃപുനഃ അനുബന്ധിക്കുന്നതിനാൽ അതാന്നിപ്പോൾ  
കർമ്മാനന്ധം അനുബന്ധിക്കുന്നു.

സംഹിതോപനിഷദാരംഭത്തിൽ സാധാരണശാന്തി ഉദാഹരിക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ അതിന്റെ അവസാനത്തിൽ സമൃദ്ധവിദ്യയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ അതിനുള്ള അസാധാരണശാന്തി പ്രസ്താവ്യമാകുന്നു. അതായത് അപരവിദ്യയെ അർത്ഥിക്കുന്ന ശിഷ്യനും അതിനെ ഉപദേശിക്കുന്ന ആചാര്യനും ഉള്ള പാരസ്പര്യം വല്ല കാരണവശാലും ദേഷ്യത്തിൽ പരിണമിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉപശാന്തിയ്ക്കായി “ശം നോ മിത്ര” ഇത്യാദി ശാന്തി ഇവിടെ പായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രസന്നനായിരുന്നാൽകണെ ഭാദ്ദേഹം ഉപദേശിച്ചത് രാഗദേഷ്ഠാദിരഹിതനായ ശിഷ്യൻ സഹജമാവും ആയതിനാൽ ആ ചര്യനെ പ്രസന്നനാക്കിത്തീർക്കുന്നതിൽ ശിഷ്യൻ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം.

ശിഷ്യാവല്ലി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത രണ്ടു വല്ലികളിൽ നിർമ്മണവിദ്യയെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രസ്താവനകളാണ് പ്രതിപാദ്യമായിരിക്കുന്നത്. അകിൽ ഭട്ടവല്ലിയെ ആശ്രയിച്ചു വാർത്തികകാരൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളുന്നു—

“അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി—പരബ്രഹ്മത്തോടു താൻ ഏകീഭൂതനാകുന്നു” എന്നുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായ ജ്ഞാനം ദോഹ റിവർത്തമാകുന്നു. സകാര്യം ജ്ഞാനനിവർത്തകമായ ബ്രഹ്മാജ്ഞൈകരൂപജ്ഞാനത്തിന് സാധനമായുള്ളതിനെ ഉപന്യസിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഭട്ടവല്ലി പ്രവൃത്തമായിരിക്കുന്നത്. ഈ വല്ലിയിലെ ആത്മപ്രതിപാദകങ്ങളായ വിഷയങ്ങൾ ശിഷ്യാചാര്യ സംവാദക്രമേണ ഉപനിഖഡങ്ങളായിരിക്കുന്നു. ദോഗങ്ങളിൽ വ്യാവൃത്തകരണനായി ശ്രദ്ധാഭക്തിപുരസ്സരനായി ശ്രദ്ധബുദ്ധിയായി ഭട്ട ബ്രഹ്മവിദ്യയെ ഉപദേശിക്കുവാൻ ഗുരുവായ വരണനോടു അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ ബ്രഹ്മസ്വരൂപ വിവക്ഷണിമിത്തമായിട്ടാണ് അന്നപ്രാണാദി സങ്കീർത്തനം. “യതോവാ” ഇത്യാദി ശ്രുതിവാക്യത്തിൽ ജഗദുക്പത്തിസ്ഥിതിയെ കാരണം ബ്രഹ്മം എന്ന ബ്രഹ്മത്തിന്റെ തത്ത്വരൂപകണമാണ് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പിതാവു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഭട്ട ബ്രഹ്മോപഖ്യാനത്തിനായി തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അപസ്സു ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിന് സാധകതമാകുന്നു. ഭട്ട ആദ്യം അന്നാദികളായ പലതിയേയും ബ്രഹ്മമായി പറയുകയും അച്ഛൻ അതിനെക്കൊണ്ടും നിരാകരിക്കുകയും വിഷയം വിഷയം തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചു മടുവാൻ “ആന്ദോ ബ്രഹ്മമേ വ്യസാനാത്” എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രഹ്മജ്ഞാന സമ്പന്നനായിത്തീരുകയും ചെയ്തു.

## SRI SAMKARA

I take refuge in Śamkarācārya;  
In Him, Who has reduced Māyā to servitude—  
that Māyā who makes my clear mind turbid  
with the slime of doubts.

## SRI SUREŚVARA

In Him Who, with awakened Knowledge,  
Sees the universe as but shaped with Māyā;  
In Him whose nature is all-pervasive;  
In Him, the Vārtikakāra, I take refuge.

[Note:—The Malayalam paper is continued on next page.]

നാലു വേദസംഹിതകളും ആചാര്യന്റെ അനുബന്ധങ്ങളായി ആവിർഭവിച്ച ബ്രാഹ്മണഗ്രന്ഥങ്ങളും ആരണ്യക ഗ്രന്ഥങ്ങളും പിന്നീടുണ്ടായ ഉപനിഷത്തുക്കളും ചേർന്നാണ് "വൈദികസംഹിതയും എന്നു പറയപ്പെടുന്നത്" ആചാര്യൻ ഉപനിഷത്തുകൾ ഒഴികെയുള്ള സംഹിതാദീ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വെറും കർമ്മപരങ്ങളാകുന്നു സംഹിതാഗതങ്ങളായ മന്ത്രങ്ങൾ കർമ്മങ്ങളിൽ വിനിയോഗത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്നവയാകുന്നു ബ്രാഹ്മണങ്ങളും ആരണ്യകങ്ങളും അവ ചടങ്ങുകളെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളായും പ്രതിപാദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നീടു ആവിർഭവിച്ച കല്പസൂത്രകാരന്മാരായ ആശചാര്യനാദികൾ കർമ്മങ്ങളെ ഹൃദ്യമെന്നും ശ്രാതമെന്നും രണ്ടായി വിഭജിച്ച അവയുടെ ചടങ്ങുകളേയും അവയ്ക്കു വിനിയോഗമുള്ള മന്ത്രങ്ങളേയും പ്രതിപാദിച്ചു തുടങ്ങി അതിൽപിന്നെ വൈമിനി ശബരസ്വാമി കുമാരിലഭട്ടൻ പ്രഭാകരഗുരു തുടങ്ങിയുള്ള മീമാംസകന്മാർ ഇപ്പറഞ്ഞ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദ്യായമെല്ലാം കർമ്മപരമാണെന്നും കർമ്മകൊണ്ടാണ് അദ്ധ്യയ നിശ്ശ്രേയസാദികൾ സിദ്ധിക്കുന്നതെന്നും സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടു കർമ്മവാദികളെ വലിച്ചീട്ടു പ്രബലന്മാരാക്കുകയും അങ്ങനെ കിരക്കാലം കഴിയുകയുമുണ്ടായി അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മവാദം കേരളത്തിൽ നമ്പൂരിമാരുടെയിടയിൽ വളരെ പ്രചരിക്കുകയും താട്ടം പ്രഭാകരം എന്നു പേരുള്ള പണക്കിടികൾ അക്കാലത്തിൽതന്നെ കർമ്മവാദികളിൽ ശ്രേഷ്ഠന്മാർക്കു നല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നതും ചരിത്രപ്രസിദ്ധമാണ് ഇന്നും അതിന്റെ കിഞ്ചിത്തുപരമായി നമ്പൂരിമാർ വേദാന്തമാർഗ്ഗത്തിൽ പ്രതിപത്തിയില്ലാതെ വെറും കർമ്മികളായിത്തന്നെ ജീവിച്ചുവരുന്നത് നമ്മുടെ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു

കർമ്മവാദികളിലും ഏകദേശികളായ ചില അർവാചീനന്മാർ സേശചരമീമാംസകന്മാരും, ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ മറ്റുള്ളവർ കർമ്മത്തിന്നു പ്രാധാന്യം വർദ്ധിച്ചുതോടുകൂടി കർമ്മത്തിൽ ഉപായോഗമുള്ള ശബ്ദാത്മകമായ മന്ത്രത്തിനും മഹത്ത്വം കല്പിച്ചു ദേവത ശബ്ദമായി ആണെന്നും അതിന്റെ ഉച്ചാരണം അദ്ധ്യയ നിശ്ശ്രേയസാദി സാധകമാണെന്നും പ്രതിപാദിച്ചുവന്നതിനാൽ നിരീശ്വരമീമാംസകർ എന്നു പ്രസിദ്ധി സമ്പാദിച്ചവരും ആകുന്നു ഇതിലും കവിഞ്ഞു ശബ്ദാത്മകമായ വേദമെന്ന ബ്രഹ്മമെന്നും സ്വാധ്യായാനുഭവത്തിൽ നിയമേന ഉച്ചരിക്കപ്പെടേണ്ട ഭാഗ്യംതന്നെ ബ്രഹ്മമെന്നും പ്രസ്താവിക്കുന്ന കർമ്മികളും വേദാന്തികളും ആവിർഭവിച്ചതുടങ്ങി കുമാരിലഭട്ടനോടു സാമ്യം വാദിക്കത്തക്ക സുപ്രസിദ്ധനായ ഒരു തീവ്രകർമ്മവാദിയായി പരിവർത്തിതപ്പെട്ടു ആദ്യായിരുന്നു സുരേശ്വരൻ

ആത്മീയങ്ങളായ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളോ കന്നു ഉപനിഷത്തുകൾ, വിദേശയിലും ഇശാദിദേശോപനിഷത്തുകൾ. മദ്ധ്യയുടെ ആവിർഭാവത്തിനു മുമ്പ് ഭാരതീയകളും ആത്മീയകാര്യങ്ങളിൽ പ്രവേശം ഉണ്ടായിരുന്നുവോ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ടാവാം. പ്രശ്നം മതിൽ ദീർഘകമ്മസ്സു തുടങ്ങിയ പ്രതികളാൽ ംഷ്ടങ്ങളായ സാഹ്യം ചില പ്രകൃതികളിൽ അതായത് "ചോസ്യപണ്ണാ സത്യമാസഖായാ" ഇത്യാ മിമന്ത്രങ്ങളിൽ ജീവാനന്തപരമാത്മാക്കളെപ്പറ്റിയുള്ള കാര്യം പ്രസ്തുതമായിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തുല്യവർഗ്ഗങ്ങളിൽ (വാമസനേയി സംഹിതയിൽ) കർമ്മകാണ്ഡമായ ആദ്യത്തെ രൂപത്തോടനുബന്ധിച്ചു അദ്ധ്യായങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാറു മന്ത്രങ്ങളടങ്ങിയ മറ്റുചിലതെ അദ്ധ്യായങ്ങൾ ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തു് അതുപോലെ ഐതരേയോരണു കരണിൻറെ ഒരു ഭാഗമാകുന്നു ഐതരേയോപനിഷത്തു് ഇങ്ങനെ സംഹിതാദി പൂജഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളുടെ ബീജാവാചകങ്ങളെപ്പറ്റുന്നവയിലും അവി പച്ചയായതു് ദേശോപനിഷത്തുകൾ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയതിൽ പിന്നീടാണെന്നുള്ളതു് വ്യക്തമാണ്. എന്നാൽ ആദിശങ്കരൻ്റെ ശാക്തോപജ്ഞാനാമം ഉണ്ടാകുന്നതിനു മുമ്പ് കർമ്മവാദികൾക്കു തുടങ്ങിയ "ശബ്ദമയീദേവതാ" എന്ന തത്വത്തിൻറെ അധിഷ്ഠാനത്തിൽ ശബ്ദം നാദം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോടം ബ്രഹ്മമാണെന്നു വാദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മതക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ധ്യാനാത്മകമായ വണ്ണാത്മകമായോ ഉള്ള ശബ്ദം ഉച്ചാരണത്തിനു വിഷയമായിത്തീർന്നാൽ അതു വിവിചിതംഗന്യായെന്നു അല്ലെങ്കിൽ കരംബുരകളിന്യാതെന്നു സർവ്വതു വ്യാപിച്ചു ഗ്രാഹകസാമഗ്രിയുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു. ശബ്ദതത്വം എന്ന ബ്രഹ്മം എന്ന ശബ്ദാദൈവതം സാധിക്കാൻ കഴിയാതെ എന്താവും പ്രാചീനൻ പ്രശ്നപ്രോതിശാസ്ത്രകൃതമായ "ഔമാദ്യ ശബ്ദനകനം വ്യാകരണോപനിഷത്" ഭക്തായ വാക്യപരിയതിൻറെ കർമ്മായായ മർത്യാഹരിയു. ആകുന്നു.

“പരമാദര ബ്രഹ്മണി യം സർവ്വമർത്വം  
 വേദാന്താനം വേദനിധിം ഭൂമിപ്രാ  
 തം പരമേശ്വരം പരം പാദിദേവം  
 പ്രണവമുച്യതേ മഹാമഹാ ശബ്ദനകം”

ഭൂമിതന്നെ ശാക്തനം,

“അന്തർഗ്ഗതം ബ്രഹ്മ ശബ്ദതത്വം തദേതം  
 വിഷയം/മഹാമഹാ പ്രതിയാ മഹാമഹാ”

എന്നിദ്യായായി ഭർത്തൃഗരിയും പ്രസ്തുചിച്ചിരിക്കുന്നതു നോക്കുക  
 കവികളുടേയായ കാളിദാസൻ ശബ്ദം നാദം സ്വോദം എന്നുള്ള  
 ഉപാധികളിൽനിന്നും കടന്നു നിരപാധികമായ ശുദ്ധാദൈവതമാർഗ്ഗ  
 ഞെ സ്വഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വിക്രമാർവശിയ നാദക  
 ഞിയെ നാനദീപ്രദാകം ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിലെ ദാശാ അദ്ധ്യായത്തിലും  
 പ്രതിപാദ്യമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന സമനാധം അവിരോധം സാധനം  
 ഫലം എന്നീ കാര്യങ്ങളെ നാലുപാദങ്ങളിലായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു  
 ശാകുന്തളത്തിലെ ഭക്തവ്യാകൃതമായ,

“മോചി വ ഷപയതു നീലലോഹിതഃ  
 പുനർവേം പരിഗതശക്തിരാത്മഭൂഃ”

എന്ന ഭാഗത്തിൽ പുനരാവൃത്തിരഹിത ശാശ്വത ബ്രഹ്മലോകവാ  
 ഷ്ഠിയെ കാളിദാസൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി പ്രസ്തുചിച്ചിരിക്കുന്നു അതു  
 പോലെ കർമ്മസംഭവത്തിലെ

“പ്രത്യകം വിനിയുക്താത്മാ കഥം ന ജ്ഞാതുർമഹസി”

എന്ന ഭാഗം “മരണവ്യാധിരോ ജീവനാദക” ഇദ്യായായ അദ്വൈത  
 മർദ്ദപ്രമയത്തെ ആശ്രയിച്ചു വിരഹിതമാകുന്നു അതുപോലെ മാളവി  
 കാഗ്നിമിത്രം നാദകത്തിലെ നാനദീപദ്യവും തൃസിംഹതാപിനൃപനിയ  
 ത്തിൽ ഏഷണാത്രയവർജനം സന്മാർഗ്ഗലോകത്തിനും വഴി തെളിയിക്കു  
 മെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനെ വ്യക്തമാക്കുന്നു കാളിദാസൻ പിന്നീടു  
 ന്നായ ഗൗഡപാദാദികളായ ആചാര്യന്മാരും അദ്വൈതവാദികളായി  
 തന്നെ ആദിശങ്കരൻ അവതരിപ്പിച്ചതാകട്ടെ നിർവചിതമായിട്ടുള്ളതും  
 അശേഷവിശേഷ പ്രത്യയീകം — നിത്യശുദ്ധമുഖമുക്ത സ്വഭാവം —  
 സച്ചിദാനന്ദബന്ധം എന്നല്ലാം പരാപുന പരബ്രഹ്മം ഞെതന്നെ  
 ഏകമവ്യക്തമിതം ബ്രഹ്മ എന്ന സിംഹാസനത്തെ സ്ഥാപിക്കുന്ന  
 ശുദ്ധാദൈവ പ്രസ്ഥാനം ഭൂമുഖമഹാവിത്തിൻ അങ്ങിനെ ആക്ക  
 ത്തിരിക്കുന്നതിന് അദ്വൈതത്തിന്റേ നാലു പ്രധാന ശിഷ്യന്മാരും വിശദ  
 ചിച്ചു അവിൽ കമ്മയാദി ഉപേക്ഷിച്ചു ബ്രഹ്മവാദിയായിത്തീർന്നു  
 സദേശ്വരനും കാരണകാരനാകുന്നു

ശ്രദ്ധണ — 7 നന് — നിദിപ്യാസനങ്ങൾ വിധേയമായി ആത്മീ  
 യമായ ഉണർവിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാനെന്ന ആദിശങ്കരൻ  
 പ്രധാന ലക്ഷ്യത്തെ വിട്ടു അർദ്ധവർണ്ണമായ അദ്വൈത ഗ്രന്ഥകാര



യാർ പയരം യുക്തിവാദനിരതരായും വാക്യാർത്ഥവസ്തുതതപരരായും  
മാശിപിടിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു ഈ ശോഭനമായ അദ്വൈത പ്രസ്ഥാനത്തെ  
മൃത്തികോശിതീന്തിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യവും ഇവിടെ പ്രസ്താവനയെ  
കർഹിക്കുന്നു.

സുരേശ്വരന്റെ വാർത്തകൾ ശരീരത്തിൽ അവിടവിടെയുണ്ടാകുന്ന  
പുണ്ണിന് 'ഭട്ടപ്പാസ്ത്രീ' ഇടുന്നതുപോലെ ഇപ്രതിപദ്യോഷ്ട ശരീരത്തിൽ  
അവിടവിടെയുണ്ടായ വീചികീടങ്ങളുള്ള മിക്കിസയാകുന്നു മാതൃമല്ല  
ശ്രീതിവചനങ്ങളെ അപ്പാടെ വിശ്വസിച്ചു വെറും യഥാസ്ഥിതിക  
അരാതിരിക്കുന്നവർക്ക് സുരേശ്വരന്റെ ഈ കൃതി-അസംഗതങ്ങളും  
അനാവശ്യങ്ങളും ആയ പ്രതിപാദനങ്ങളടങ്ങിയ ഈ കൃതി വിശ്വാസ്യ  
ങ്ങളായിരിക്കുമെന്നല്ലാതെ, ഈ പരിപ്കൃത ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന  
യുക്തിവാദികളും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും വ്യവസായികളും ആയ സാധാ  
രണ ജനങ്ങൾക്കും അചിന്തകമല്ല വാണിജ്യത്തിൽ ഒരു വിഷയവും  
അനുസ്മൃതതയോടുകൂടി പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ശ്രീതിവാക്യങ്ങളെ  
ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതിനെത്തന്നെ പൂർവാപര വിരുദ്ധമായും  
മാറിയും മറിച്ചും വായനക്കാർക്ക് ഒന്നും നിർണ്ണയിക്കാൻ വയ്ക്കാതെ  
പറയുക എന്ന ഉഷ്ണ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആപാദമൂലം കാണാവുന്നതാണ്.  
അവിടവിടെ മൂലത്തെ ഉല്പാദനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള താഴെപ്പറയുന്ന പ്രക  
ടനങ്ങളും വിരളങ്ങളല്ല തീർത്തുകൊടുത്ത വാർത്തകളിൽ പ്രവേശം  
കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ, അധികാരി ലൗകിക പരിഭവാനഹീനനായി സന്താ  
നന ധർമ്മ സമ്പ്രദായത്തിൽ സദാ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനായിരിക്കണം.  
അവർക്കുള്ള അധികാരിമാർ ആപാദമൂലം ഗുണവിഹീന പ്രയാഗ  
ക്കാൽ ഈ മാതിരിയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പരിചയം സിദ്ധമാകും.  
വാണിജ്യവസാനത്തിൽ,

"ശ്യാമനകതാന നിബിഡാഹിത ചേതസോ/മം  
പ്രപാസ്മകൃത്വം നിരജോസമസ്തദോഷം  
പ്രപാകതയാ ത്രേധിയോ തതയോ/ഭ്യോപേകൃ  
യം ദേവദക്ഷമേലം പ്രചിശ്യാനി സോ/വ്യാതം"

എന്നിങ്ങനെ സുരേശ്വരൻ, ഭട്ടപ്പാസ്ത്രീയർ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠന്മാർ യാതൊരു  
ദോഷാനന്ദം കൈവന്നാതെ പ്രാപിക്കണമെന്നും ഈ വാക്യം തന്നെയും രക്ഷി  
ക്കട്ടെ എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുപോലെ നാം ഉള്ളതിനും പ്രാർത്ഥിച്ചു  
കൊണ്ടു വിരമിക്കുന്നു

(Summary)

SUREŚVARĀCĀRYA AND TAITTIRIYA BHĀṢYA  
VĀRTIKAM

(V. V. Sarma)

Sureśvara, called the Vārtikakāra is the author of one of the *Siddhis*—the *Naiṣkarmya Siddhi*; the others being *Brahma Siddhi*, *Iṣṭasiddhi* and *Advaita Siddhi*—all the four are pillars of advaita philosophy. After a brief sketch of Sureśvara's life the author examines the central points in the *Bhāṣya* and *Vārtikam*, and explains the importance of the *moharōpiya* or *śūnyarōpiya* claiming *Jiva-Brahma aikya* and of *Jnana marga* or *bhakti marga*.

# श्रीसुरेश्वराचार्य और नैष्कर्म्यसिद्धि

-डा० मण्डनमिश्र, नयी दिल्ली.

शङ्कराचार्योत्तर अद्वैत वेदान्त सम्प्रदाय में चार सिद्धियों का प्रमुख स्थान माना जाता है, वे हैं मण्डनमिश्र की ब्रह्मसिद्धि, सुरेश्वराचार्य की नैष्कर्म्यसिद्धि, विमुक्तात्मा की इष्टसिद्धि, और मधुसूदन सरस्वती की अद्वैतसिद्धि ।

ब्रह्मसिद्धिकार मण्डनमिश्र ने ज्ञानकर्म समुच्चय पर जोर दिया है जब कि नैष्कर्म्यसिद्धिकार ने ज्ञानकर्म समुच्चय का तीव्र विरोध किया है । विमुक्तात्मा ने इष्टसिद्धि में शङ्कर के ही सिद्धान्त का विशदीकरण किया है । मधुसूदन सरस्वती ने नैष्यायिक शैली से ही न्याय मत पर तीव्र प्रहार करके उसे छिन्न-भिन्न करने का प्रयास किया है ।

सुरेश्वराचार्य की सिद्धान्त विवेचना के पूर्व मण्डनसुरेश्वरेक्य सम्बन्ध में चली आ रही किवदन्ति पर विचार करना आवश्यक प्रतीत हो रहा है । आचार्य मण्डनमिश्र विश्वरूप सुरेश्वर को एक ही व्यक्ति माना जाता है । परन्तु आचार्य मण्डनमिश्र और सुरेश्वर एक ही व्यक्ति थे या भिन्न भिन्न यह बात अभी विवादमस्त ही है । कुछ विद्वानों ने ब्रह्मसिद्धि और नैष्कर्म्यसिद्धि की तुलना करते हुए, उन के सिद्धान्तों में मत भेद प्रदर्शित करते हुए मण्डन-सुरेश्वर के ऐक्य का तीव्र खण्डन किया है । उन विद्वानों के अनुसार आचार्यमण्डन और आचार्य सुरेश्वर के सिद्धान्तों में निम्नांकित भेद है ।

मण्डनमिश्र दृष्टिसृष्टिवाद के पोषक है। मण्डनमिश्र के अनुसार अविद्या का आश्रय जीव है ब्रह्म अविद्या का विषय है। सुरेश्वराचार्य ब्रह्म को ही अविद्या का आश्रय और विषय दोनों मानते हैं। जगत् प्रपञ्च केवल व्यक्तिगत कल्पना मात्र नहीं है, इसका समष्टिगत वैषयिक आवार है। आगे चलकर इस भेद के कारण अद्वैत सम्प्रदाय में दो मुख्य विचारधारायें प्रचलित हो गयीं, याचस्पति मिश्र की भामती विचारधारा और प्रकाशात्मा की विवरण विचारधारा। पहली विचारधारा मण्डन के मत का समर्थन करती है, जब कि दूसरी सुरेश्वराचार्य के मत का समर्थन करती है।

मण्डनमिश्र और सुरेश्वर के मत में दूसरा अन्तर यह है कि आचार्य मण्डन प्रसंख्यानवाद के समर्थक हैं जब कि सुरेश्वर प्रसंख्यान या उपासना को गौण मानते हैं। उनके अनुसार महावाक्य-जन्य ज्ञान स्वयं निर्विकल्पक और अपरोक्ष होता है, और इसलिए वही परम पुरुषार्थ मोक्ष का साक्षात् कारण है। सुरेश्वराचार्य के अनुसार जित प्रकार 'दशमस्त्वमसि' इस वाक्य द्वारा उत्पन्न ज्ञान अपरोक्ष है उसी प्रकार 'तत्त्वमसि' आदि महावाक्य जन्य ज्ञान स्वतः अपरोक्ष है और बिना किसी उपासना की अपेक्षा रखते हुए अविद्या का नाश करके परमानन्द रूप मोक्ष का साक्षात् कारण होता है। इसके अतिरिक्त निम्न बातें भी दोनों में भेद सिद्ध करती हैं।

मण्डनमिश्र विदेह मुक्ति मानते हैं सुरेश्वराचार्य के लिए जीवन्मुक्ति भी वास्तविक मुक्ति है।

मण्डनमिश्र विपरीत ध्याति और सुरेश्वराचार्य अनियंचनीय ध्याति को मानते हैं।

इस प्रकार सिद्धान्तों के भेद के आधार पर विद्वान् लोग आचार्य

मण्डनमिश्र और सुरेश्वराचार्य को भिन्न व्यक्ति मानते हैं परन्तु प्रचलित मान्यता के अनुसार सुरेश्वराचार्य ही पूर्वाश्रम में मण्डनमिश्र थे और जो आचार्य शङ्कर से शास्त्रार्थ में पराजित होकर उनके शिष्य हो गये थे। हो सकता है, ब्रह्मसिद्धि उनके संन्यास ग्रहण करने से पूर्व का ग्रन्थ हो, और बृहदारण्यकवार्तिक तथा नैष्कर्म्यसिद्धि संन्यास लेने के बाद के। संन्यासग्रहण करने के पश्चात् वे अपने गुरु से प्रभावित होकर उनके अनुयायी हो गये हो। यदि कोई व्यक्ति किसी महापुरुष से प्रभावित हो जाय तो महापुरुष के विचारों की छाया उस पर अवश्य ही पड़ती है। और सुरेश्वराचार्य तो आचार्य शङ्कर के साक्षात् शिष्य थे, यदि उनका मत परिवर्तन हो गया हो तो आश्चर्य क्या ?

कुछ भी हो, नैष्कर्म्यसिद्धि और ब्रह्मसिद्धि में भेद है ही। नैष्कर्म्यसिद्धि निष्क्रियात्मक रूप अवस्थान लक्षण नैष्कर्म्य की निष्पत्ति है। वह 'सर्वकर्मसंन्यासपूर्वकेण सम्यग्दर्शनेन लभ्या सवो मुक्तिः' इस प्रकार गीता भाष्य में प्रतिपादित निर्वचन को लेकर ही हो, ग्रन्थकार का प्रतिपाद्य वही होने से उसने अपने ग्रन्थ का वही नामकरण किया है।

वेदान्तशाखा का प्रकरण होने से वेदान्तशाखा में निरूपणीय सभी विषयों का परिशीलन प्रस्तुत ग्रन्थ में है। और विशेष रूप से 'तस्त्वमसि' 'अहं ब्रह्मास्मि' इत्यादि महावाक्यों से ही अपरोक्षानुभूति होती है; इस सिद्धान्त का स्पष्ट और तीव्र रूपसे प्रतिपादन किया गया है।

इस ग्रन्थ के प्रणेता आचार्य शङ्कर के शिष्य थे इसमें कोई सन्देह नहीं है। 'श्रीमच्छङ्करपादपद्मयुगलं संसेव्य' (४-७४) तस्मादेव 'प्रवरगुणनिधेर्वेदान्तदीप्तां विद्यां प्राप्य कारुण्यात् तामवोचं जनिमृतिनिवह-ध्वस्तये द्रु खितेभ्यः' (४-७६) 'ज्ञानं व्याकृतमन्यन्यैर्धस्ये गुर्वनुशिक्षया'

(१-३) इस प्रकार ग्रन्थकार ने स्वयं ही आचार्य शङ्कर के शिष्यत्व की पुष्टि की है और गुरु की शिक्षा से ग्रन्थ का प्रणयन करने में प्रवृत्त हुए हैं। तैत्तिरीयभाष्यवार्तिक से इनका नाम सुरेश्वराचार्य था इसकी पुष्टि हो जाती है।

बृहदारण्यकभाष्यवार्तिक में तथा तैत्तिरीयवार्तिक में नैष्कर्म्यसिद्धि के बहुत से श्लोक, अन्तर्गर्भित दिखलाई पड़ते हैं। उसमें भी नैष्कर्म्यसिद्धि की ही तरह महावाक्य जन्मज्ञान के बाद मोक्ष के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है। इसी मत का समर्थन किया है। वार्तिककार शङ्करभगवत्पाद के शिष्य सुरेश्वर हैं इसका उल्लेख दोनों वार्तिकों में है। इस से यह बात सिद्ध हो जाती है कि नैष्कर्म्यसिद्धि के प्रणेता ही दोनों वार्तिकों का प्रणेता भी है।

### शैली और विषय

यद्यपि कुछ लोगों का कहना है कि श्लोकों की रचना करने के बाद ही ग्रन्थकार ने स्वयं ही सम्बन्धोक्ति को ग्रन्थ के साथ मिलाया है। उनके लिए

‘सम्बन्धोक्तिरियं साध्वी प्रनिश्लोकमुदाहृता।

नैष्कर्म्यसिद्धेश्चात्वेमां व्याख्यातासौ भवेद्भ्रुवम् ॥ (४-७८)

यह वचन प्रमाण रूप में है। तथापि वेदान्त ग्रन्थकारों के लिए एक साथ ही गद्य-पद्य का निर्माण कोई नई चीज नहीं था। नैष्कर्म्यसिद्धि के पूर्व प्रलसिद्धि भी इसी शैली में निर्मित थी।

ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय अत्यन्त संक्षेप में सम्बन्धोक्ति में उपस्थित किया गया है। उसका विस्तार ग्रन्थ में है—यहाँ संक्षेप में कुछ विषयों का विवेचन करेंगे।

## अविद्या-माया

सुरेश्वराचार्य अविद्योपादानभेदवादी मण्डनमिश्र तथा वाचस्पति मिश्र से इस विषय में सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार ब्रह्म ही अविद्या का आश्रय और विषय दोनों है। अविद्या का आश्रय जीव नहीं हो सकता। क्योंकि जीव स्वयं अविद्या जन्य है। जीव और जगत् का उपादान कारण होने से अविद्या को मानसिक भ्रम भी नहीं कहा जा सकता है। ब्रह्म ही अविद्या के कारण जीव व जगत् प्रपञ्च के रूप से प्रतीत होता है। अविद्या चिरन्तनी भ्रान्ति है। यह निरालम्बा और सर्वन्याय विरोधिनी है। जिस प्रकार अन्वकार सूर्य को सहन नहीं कर सकता उसी प्रकार अविद्या भी विचार को सहन नहीं कर सकती।

‘सेयं भ्रान्तिर्निरालम्बा सर्वन्यायविरोधिनी ।  
सहते न विचारं सा तमो यद्वद्विवाकरम्’ ॥

(नेष्कर्मसिद्धि ३-६६)

सुरेश्वराचार्य के अनुसार अविद्या के कारण कोई वातु न्याय विरुद्ध और घृष्ट नहीं हो सकती। क्यों कि एक ओर तो अविद्या न्याय के सम्पूर्ण प्रमाणों की एवं दर्शन के वस्तुत्व की अत्यन्त अनादर पूर्ण उपेक्षा करती है। और दूसरी ओर ब्रह्मगम्य बनी रहती है। वस्तुत्व की उपेक्षा करने हुए भी वस्तुत्वबन्ध बना रहना घृष्टता की चरम सीमा नहीं तो और क्या है ?

अद्वो धार्ष्ट्यमविद्याया न कश्चिद्विचरते ।

प्रमाणं वस्त्वनादृत्य परमात्मेन तिष्ठति ॥

(नेष्कर्मसिद्धि ३-१११)

आचार्य पद्मनाभ, प्रकृतज्ञान, और मरुगुप्ता भी सुरेश्वराचार्य की भ्रान्ति मत्र को ही अविद्या का आश्रय और विषय दोनों मानते हैं।

## आत्मा और ब्रह्म

आत्मा या ब्रह्म ही एक मात्र वेदान्त प्रतिपादित तत्त्व है। यही अविद्या या माया का अधिष्ठान है। यही उसका आश्रय और विषय है। समस्त जगत्-प्रपञ्च इसी पर आश्रित है। सम्पूर्णभेद समस्तद्वैत सर्वप्रपञ्च इसी विशुद्ध अभिन्न अद्वैत और प्रपञ्चातीत तत्त्व पर प्रतिष्ठित है। सुरेश्वराचार्य ब्रह्म को अद्वय मानते हैं। जिस प्रकार विभिन्न भाण्डों के जल एक ही सूर्य के अनेक प्रतिबिम्ब दिखाई देते हैं उसी प्रकार एक ही ब्रह्म उपाधि भेद से नाना प्रतीत होता है। विशुद्ध आत्मा पर जीव-जगत् भेद की कल्पना निर्मल आकाश पर धुँआ, कुहरा, नीलिमा आदि की कल्पना के समान है। निर्विकार तथा अद्वय ब्रह्म ही मानवीय बुद्धि द्वारा अनेक विरूपों और प्रकारों द्वारा व्यक्त किया जाता है। किन्तु ये सब विरूप और प्रकार अपूर्ण होते हैं। मानवी बुद्धि उनका ग्रहण नहीं कर सकती। ब्रह्म के विषय में की गयी कोटिशः कल्पनाएँ अपूर्ण ही रहेंगी। जिस प्रकार 'सान जन्मान्ध और हाथी' की कहानी में हर एक अन्धा हाथी के किसी अवयव को छूकर हाथी समझ लेता था जैसे एक अन्धे ने हाथी के पैर को छूकर कहा कि हाथी पेड के समान है, दूसरे ने हाथी के कान को छूकर कहा कि हाथी सूप के समान है, ती प्रकार किसी ने अजगर के समान तो किसी ने दिवार के समान कहा।

‘तदेतद्द्वयं ब्रह्म निर्विकारं कुबुद्धिभिः ।

जात्यन्धगजदृष्टयेव कोटिशः परिकल्प्यते’ ॥

(नैष्कर्म्यसिद्धि २-९३)

तात्पर्य यह है कि मानव बुद्धि व्यवहार तक ही सीमित है। इसलिए मार्ग तत्त्व बुद्धिगम्य नहीं हो सकता। किन्तु आत्मा सर्व सिद्ध मिल । यह आत्मा तटस्थ द्रष्टा है न्यायाधीश है। इसको मध्यम मानकर



दार्शनिक लोग, वकीलों की भाँति तर्कज्वर से व्याकुल होकर एक दूसरे को सरदर्द पैदा करने वाले प्रमाणों से मोहित करके अपने अपने वाग्जाल में बाँधने का प्रयत्न किया करते हैं।

इमं प्राश्निकमुद्दिश्य तर्कज्वरभृशातुराः ।  
त्वाच्छिरस्कवचो जालैर्मोहयन्तीतरेतरम् ॥

### ज्ञान और मोक्ष

अविद्या ही संसार है और अद्वय एवं प्रशान्त विद्या द्वारा अविद्या का नाश हो जाना ही मोक्ष है। इस में समस्त वेदान्तियों का मतैक्य है। यह ज्ञान अपरोक्ष और असंस्पृष्ट और निर्विकल्पक है। इसी को अपरोक्षानुभूति या खानुभूति कहते हैं। सुरेश्वराचार्य के अनुसार यह ज्ञान स्वयं असंस्पृष्ट निर्विकल्प और अपरोक्ष है और मोक्ष का साक्षात् कारण है। जिस प्रकार 'दशमस्त्वमसि' इस वाक्य से सहसा अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है, उसी प्रकार 'तत्त्वमसि' आदि महावाक्यों से भी सहसा अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है। आचार्य मण्डनमिश्र के ज्ञानकर्म समुच्चय के सुरेश्वराचार्य कट्टर विरोधी हैं। उनके अनुसार कर्म की जननी अविद्या है और ज्ञान का अर्थ है अविद्या का नाश। अविद्या और उसकी निवृत्ति एक साथ नहीं रह सकती, अतः ज्ञानकर्मसमुच्चय असम्भव है। कर्म और ज्ञान बाध्य-बाधक होने के कारण, मेघ और सिंघ के समान एक साथ कभी नहीं रह सकते; और परस्पर विरोधी होने के कारण निशा और सूर्य के समान अन्धकार और प्रकाश के समान उनका समुच्चय असम्भव है।

इस प्रकार के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री सुरेश्वराचार्य और उनकी नैष्कर्म्यसिद्धि का शङ्कराचार्योंतर अद्वैत सम्प्रदाय में महत्वपूर्ण

स्थान है। श्री सुरेश्वराचार्य के पूरे आचार्य गण्डनमिश्र की ब्रह्मसिद्धि अद्वैत वेदान्त का महत्वपूर्ण और मान्य ग्रन्थ था परन्तु आचार्य गण्डनमिश्र शङ्कराचार्य के उनसे निकट नहीं मालूम पड़ते जितने कि सुरेश्वराचार्य हैं श्री सुरेश्वराचार्य शङ्कराचार्य के साक्षात् शिष्य होने के कारण उन सिद्धान्त शङ्कराचार्य के अद्वैत सिद्धान्त से पूर्ण प्रभावित और समर्थ होने चाहिए। सुरेश्वराचार्य ने शङ्कर मत का समर्थन करते हुए तत्काली प्रचलित अद्वैत वेदान्त विषयक विचार धाराओं का अत्यन्त कुशल पूर्वक खण्डन करके स्वमत की स्थापना की है। इन्हीं की विचारधारा का विकास प्रकाशात्मा से लेकर श्रीहर्ष तक में परिलक्षित होता है।

# मंडन की जन्मभूमि- परंपरा और प्रमाण

-डा० सच्चिदानन्द चौधरी

[ यह मेरा सौभाग्य है कि मैंने भी उसी पावन भूमि में जन्म ग्रहण किया जहाँ स्व० मंडन मिश्र के आविर्भाव की बात कही जाती है। अतएव वस्तुसत्य को निकट से देखने का अधिकारी मैं अपने को मानता हूँ। ]

-लेखक

जन श्रुति एवं ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि मीमांसक मंडनमिश्र का निवास-स्थान माहिष्मती नामक गाँव था। इस माहिष्मती को नर्मदा नामक नदी के तट पर अवस्थित बताया जाता है। अनेक विद्वानों का कहना है कि यह माहिष्मती इन्दौर से चालीस मील दक्षिण की ओर नर्मदा नदी के तट पर बसी हुई थी, और इसी स्थान पर मीमांसक गुरुन्य मंडनमिश्र ने जन्म ग्रहण किया एवं शंकराचार्य से पराजित हुए। कुछ विद्वानों ने राजगीर को मंडन की जन्मभूमि बताया है तथा माहिष्मती में शंकर द्वारा उनके परास्त होने का उल्लेख किया है। उनके कथनानुसार यह राजगीर बिहार प्रान्त का नहीं, प्रत्युत नर्मदा के तट पर स्थित कोई राजगीर नामक स्थान मध्य प्रदेश में है। अनर्घराघव नामक संस्कृत नाटक के प्रणेता मुरारिमिश्र ने माहिष्मती को चेदियों की राजधानी बताया है। जो हो, मंडन की जन्मभूमि माहिष्मती को लेकर ऐतिहासिकों एवं विद्वानों में मतभेद नहीं है।

सत्य तो यह है कि अतीत के गर्त में पड़े ऐतिहासिक स्थानों और व्यक्तियों के संबन्ध में परवर्ती काळ में भ्रम फैलते ही हैं। हमने भली भाँति ज्ञात है कि महाकवि विद्यापति को लेकर हाल तक अनेक भ्रम फैले हुए थे। अनेक चोटी के विद्वानों ने उन्हें बंगदेशीय स्वीकार कर लिया, यहाँ तक कि उनकी पदावली की भाषा को भी बंग-भाषा मान लिया गया था। बंगाल में उनके वैष्णव भक्तों का प्रचार-प्रसार एवं चैतन्य महाप्रभु और उनके गौडीय संप्रदाय पर विद्यापति के गीतों का अत्यधिक प्रभाव देखकर इस तर्क को पर्याप्त बल भी मिल गया था। पर आज जब मैथिल पंजीकारों के घर से निःसृत विद्यापति की वंशावली, महाराज शिवसिंह द्वारा प्रदत्त ताम्रपत्र तथा मैथिली लिपि में लिखा उनके हाथ का श्रीमद्भागवत, उनकी चित्ता पर अवस्थित शिव-मंदिर आदि अकाट्य प्रमाणों के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं, तो लोगों की आँखों पर लगी भ्रम की पट्टी कुछ ढीली पड़ी है। और अब सभी एक स्वर से विद्यापति को मैथिल कोकिल मानने के लिये विवश हुए हैं। यह घटना केवल मंडनमिथ और विद्यापति ठाकुर तक ही सीमित नहीं है। अनेक प्राचीन विद्वानों और कवियों के संबन्ध (जो स्वयं अपने विवरण के संबन्ध में मौन हैं) में यह भ्रम फैला हुआ है। पर वस्तु-स्थिति को बहुत दिनों तक छिपाया नहीं जा सकता। गवेदनाओं के आधार पर सच्चाई की कलह खुलकर ही रहती है।

जहाँ तक मंडनमिथ की जन्म-भूमि का संबन्ध है, मेरी धारणा है कि आप मिथिला-निवासी थे। मिथिला अंचल के वर्तमान सहर्सा जिले के अंतर्गत जो महिषी (मादिष्मती का परिवर्तित रूप) नामक गाँव है, वही आपने जन्म ग्रहण किया था, और वही आपका शंकराचार्य के साथ बड़े इन्धिरास प्रसिद्ध शास्त्रार्थ भी हुआ था। इस निष्कर्ष की सत्यता के लिये अनेक प्रमाण और तर्क भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

सबसे पहली बात तो यह है कि मिथिला अनेक दर्शनों का उद्भव स्थान रही है। न्याय, वैशेषिक, मीमांसा आदि कई आस्तिक दर्शनों का केवल प्रचार-प्रसार ही नहीं, बल्कि उनकी उत्पत्ति ही मिथिला की पावन-भूमि में हुई थी। अध्यात्मविद्या, तन्त्रशास्त्र आदि में भी मैथिलवृन्द प्रवीण थे। यह परंपरा वैदिक युग से लेकर आज तक मिथिला में अक्षुण्ण है। जनक, याज्ञवल्क्य, गार्गी, मैत्रेयी, लखिमा, वाचस्पति, पक्षधर गणेश जैसे विद्वानों और विदुषियों ने इस भूमि की शोभा बढ़ाई है। चाहे शासन का क्षेत्र हो या अध्यात्म का अथवा सामाजिक विज्ञान का, मिथिला सदा अग्रणी रही है। किसी पश्चिमी विद्वान ने मिथिला की प्रशस्ति में ठीक ही कहा है— "Mithila is a place where Janaka ruled. Gautam meditated and Yajnavalkya legislated." अर्थात् मिथिला वह भूमि है, जहाँ जनक-सरीखे राजा ने राज्य किया, गौतम सरीखे तत्त्वज्ञानी ने ध्यान किया और याज्ञवल्क्य-सदृश विद्वान ने समाज-विधान (स्मृति) रचा। यह कौन नहीं जानता कि मध्यकाल में भारत के सुदूर खण्डों से ज्ञान विपासु छाल दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिये यहाँ आते थे। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ तक अटार, जयपुर, जोधपुर जम्मू काश्मीर आदि देशी रियासतों के राजाओं के दरबार की शोभा बढ़ानेवाले मैथिल पंडित ही थे। ये ही इनके दीक्षा गुरु भी होते थे। पारसी, जो अभी भी विद्या केन्द्र मानी जाती है, यहाँ होनेवाले पंडितों के शास्त्रार्थ में मद्रामहोपाध्याय जयदेवमिश्र, मुग्लीपरठापुर, बालकृष्णमिश्र, बालकृष्णमिश्र मेनालाळ चौधरी, बलदेवमिश्र, सीताराम झा, भूपनारायण झा, प्रभृति विद्वानों की निजय वैजयन्ती लहराने विसर्जने नहीं देगी ?। ऐसी स्थिति में थोड़ी देर के लिये मंडन मिश्र जैसे गूर्ध्व गीर्वाणक की उद्भव-भूमि मिथिला को आंग मूंदकर भी हस्तार पर लिया जाये, तो सिनी यो प्रतिपत्ति नहीं होनी चाहिए। विशेषतः, जब कि मीमांसा दर्शन का

उद्भव ही इसी मिथिला में हुआ है। जनश्रुति है कि एक बार मिथिला में पंडितों की एक सभा हुई, जिसमें सोलह हजार मीमांसक उपस्थित थे। ऐसी स्थिति में मुझे यह अत्यन्त युक्ति संगत प्रतीत होता है कि मंडनमिश्र जैसे मीमांसक शिरोमणि के जन्म का श्रेय मिथिलांचल को दिया जाय।

प्रश्न यह उठाया जा सकता है कि यदि थोड़ी देर के लिये मंडन मिश्र को मिथिला निवासी मान भी लिया जाय, तो सहर्षा जिले के वर्तमान महिषी गाँव में उनकी उत्पत्ति में कैसे विश्वास किया जाय। कारण यह है कि मिथिला की सीमा के अतिविस्तृत होने पर भी मैथिल संस्कृति का केन्द्र दरभंगा जिला है, और उसके भी कुछ चुने-चुनाए प्रसिद्ध गाँव। अतएव सहर्षा जिले के महिषी गाँव में मंडन के उद्भव की कथा आन के विद्वानों को कैसे जंच सकती है? ऐसे लोगों से विनम्र निवेदन है कि वे मिथिला के प्राचीन इतिहास का अध्ययन करें। एक जमाना था, जब मिथिला का केन्द्र वर्तमान सहर्षा-अंचल (उस समय यह नाम नहीं था) माना जाता था। महाराज हरसिंह देव के समय में मैथिलों की सर्वप्रथम पंजी-व्यवस्था बनी थी। उस युग में जो विद्वान् घराने थे, उन्हें सर्वतः अधिक कुलीनता प्रदान की गई। वैदुष्य, साधना और कर्मपरायणता के आधार पर ही मैथिल ब्राह्मणों की अनेक श्रेणियाँ बनाई गईं। श्रोत्रिय, योग्य, पंजी बद्ध और जयवार आदि। प्रत्येक परिवार का एक-एक मूलग्राम निर्धारित किया गया था। यदि मैथिल ब्राह्मणों के अधिकांश मूलों का अध्ययन किया जाय, तो यह स्पष्टतया भासित होता है कि अधिकांश आमिनाल मैथिल ब्राह्मण उसी अंचल में बसे हुए थे। इसलिये मिथिला में बुचबारे महिषी, पल्लवार महिषी, नरौने पसतवार, नरौने कवड़ आदि कतिपय ऐसे उच्च मैथिलों के मूल हैं, जिनके

धन में जुटे हुए ग्राम इसी अंचल में विद्यमान है। कोशी की  
 घाट में पड़कर अनेक परिवार और कुल उजड़कर, और पश्चिम दिशा की  
 ओर दरभंगा अंचल में जा बसे। कड़ने का तात्पर्य यह कि अनेक श्रौतिक  
 और योग्य परिवारों की आवास भूमि होने के कारण सबसा ही मिथिला  
 की केन्द्र-भूमि या और परिवर्ती काल में यही केन्द्र परिवर्तित होकर  
 दरभंगा में आसीन हुआ। महिषी और उसके आसपास के गाँवों की  
 प्राचीनता और ऐतिहासिकता में भी किसी प्रकार का संदेह नहीं किया  
 जा सकता है। इसी शताब्दी के प्रारंभ में महिषी से एक मील पूरु  
 की ओर गौडहौडीह पर शलाकार के घने कुछ प्राचीन सिक्के खुदाई में  
 उपलब्ध हुए हैं। १९५० ई० में वनगाँव के समीप पाल-पुग का एक  
 ताम्रपत्र पाया गया। महिषी से एक मील उत्तर की ओर कन्दाहा नामक  
 गाँव में सूर्य का प्राचीन मंदिर विद्यमान है, और उसमें अकित शिला-  
 लेख को अभी तक किसीने ठीक से पढ़ा भी नहीं है। प्रायः इसका लेख  
 प्राचीन ब्राह्मी लिपि में अकित है। महिषी के समीप ही बाणेचर नामक  
 शिवलिंग प्रतिष्ठित है जिसके समर्थ में कहा जाता है कि इसे बाण नामक  
 देवराज ने प्रतिष्ठित किया था। स्वयं महिषी नामक गाँव में भी जगज्जननी  
 उग्रवारा का स्थान है। कहा जाता है कि भगवती उग्रवारा की स्थापना  
 महर्षि वसिष्ठ ने की थी। महिषी में कई तालाबों की खुदाई के अवसर  
 पर अनेक बौद्ध कालीन और प्रागैद्वलीन मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं।  
 ये सारी मूर्तियाँ उपर्युक्त उग्रवारा स्थान में विभिन्न कई छोटे छोटे घरों में  
 अब भी सुरक्षित हैं। मैंने बहुत ध्यान से देखा है कि उहाँ में कई मूर्तियों  
 पर और कई पाषण के दुरुद्धों पर कुछ न कुछ अकित है, जो लिपि की  
 अनिप्राप्ति के कारण पढ़ा भी नहीं जाया है। उन गाँव में विद्वानों की  
 सुदीर्घ परंपरा भी रही है। अब भी इन गाँव में शताधिक साधु के  
 विद्वान् हैं। इन शताब्दी के प्रथम चरण और द्वितीय चरण में तो कई

ऐसे संस्कृत के विद्वान थे, जो समस्त मिथिला में विख्यात थे। स्वर्गीय पं० केशव चौधरी, फ़दरन चौधरी, बालगोविन्द चौधरी, कंतलाल चौधरी गिरिजादत्त झा, मृत्सुंजय चौधरी, गौनर ठाकुर प्रभृति ऐसे विद्वान हो गये हैं, जिनकी विद्या की ख्याति भारत के सुदूर अंचलों में भी थी। हमें प्रतीत होता है कि उस गाँव की मिट्टी में कोई ऐसी प्रतिभा या शक्ति अभी भी छिपी है, जिसके सर्पक में आकर संस्कृत विद्या के प्रति अनुराग अनायास ही जगता है और अल्प श्रम के बल पर भी गहन गंभीर संस्कृत धाज्य को हम पंगम का लिया जाता है। वहाँ के अनपढ़ भी पंडित जैसे प्रतीत होते हैं। फलतः प्राचीनता, ऐतिहासिकता और विद्वत् परंपरा के कारण इस भूमि को मंडन जैसी विभूति की प्रसविनी मानने में किसी को कोई हिचक न होनी चाहिए।

आज के बौद्धिक एवं वैज्ञानिक युग में थोड़ी दलील के आधार पर कोई भी विषय विश्वसनीय नहीं हो सकता है। उधर मने जो कुछ निवेदन किया है, वह किसी गाँव के लिये मने ही गौरव की बात हो पर इससे किसी चोटी के विद्वान् विशेष के उसी गाँव में उद्भूत होने की बात प्रमाणित नहीं होती है। अतएव अपने प्रतिपाद्य विषय की प्रामाणिकता के लिये प्रसंग वश कुछ शास्त्रीय उद्धरण भी प्रस्तुत कर देने में नितान्त आवश्यक समझता हूँ। महाचीनकर्म नामक तंत्रशास्त्रीय ग्रन्थ के अन्तर्गत ताराचार नामक जो चाईमवाँ पटल है, उसमें माहिष्मती का माहात्म्य वर्णित किया गया है। उस माहात्म्य में प्रतिपादित तथ्यों का समन्वय यदि वर्तमान महिषी (सहर्सा जिले का एक प्रसिद्ध गाँव) के साथ किया जाय, तो उपर्युक्त निष्कर्ष की शत प्रतिशत सत्यता प्रमाणित हो जाती है। पाठकों की सुविधा के लिये उन मूल उद्धरणों को यहाँ प्रस्तुत करते हैं —



यस्याः पुरा राजति धर्ममूला

या क्षालयन्ती चरणौ सदाऽस्याः ।

माहिष्मती मण्डनमण्डिता सा

यत्रास्ति तारा भुवनस्य तारा ॥ १ ॥

माहिष्मत्याश्च माहात्म्यं शृणु साध्वि वरानने ।

वसिष्ठेन समानीता तारिणी चीनदेशतः ॥ २ ॥

तारिण्येकजटाशक्तिस्तथा नीलसरस्वती ।

अक्षोभ्यगुरुणा युक्ता स्थापिता यत्र सुन्दरी ॥ ३ ॥

वसिष्ठकुण्डं पापत्रं कुण्डं च गौतमाभिधम् ।

अक्षोभ्यकुण्डं फलदं चैतद् याम्यदिशि स्थितम् ॥ ४ ॥

तत्समीपे महेशानि सरो मानससंज्ञकम् ।

शरकुण्डेषु देवेशि यः स्नानन्तु समाचरेत् ॥ ५ ॥

अथवा मार्जनं देवि सर्वपापप्रणाशनम् ।

देव्या नैर्ऋत्यक्रोणे तु तारकेश्वर ईरितः ॥ ६ ॥

वायुक्रोणे महेशानि तारानाथः प्रतिष्ठितः ।

मैरवेश्वरनामा तु पूर्वस्थां दिशि संस्थितः ॥ ७ ॥

देव्याश्चोत्तरे भागे ताराकुण्डं प्रकीर्तितम् ।

तज्जलस्पर्शनादेव सर्वपापं प्रणश्यति ॥ ८ ॥

एवं ज्ञात्वा महेशानि तारिणीं यश्च पूजयेत् ।

प्राप्नोति सकलान् कामान् किमन्यत् श्रोतुमिष्यते ॥ ९ ॥

— (महाचीन क्रमोन्तर्गतताराचारे द्वाविंशः पटलः)

- अर्थात्— जिसके जाये धर्ममूला नाम की नदी प्रवाहित होकर चरणों को सदा धोती है, जो मंडन से अशुद्धता है, और जहां सारे

संसार को तारनेवाली तारादेवी विराजमान है, वही माहिष्मती है। हे सुन्दरसुखवाली सुभगे, माहिष्मती का माहात्म्य सुनो। वसिष्ठ तारा को चीन देश से लाए। सुन्दरी तारा की स्थापना एकजटा, नील सरस्वती और अक्षोभ्य गुरु के साथ की गई। माहिष्मती में पापनाशक वसिष्ठकुण्ड, गौतमकुण्ड और अक्षोभ्यकुण्ड दक्षिण दिशा में स्थित है। माहिष्मती के समीप में ही मानस-नामक सरोवर है। शरकुण्ड में जो व्यक्ति स्नान अथवा मार्जन करता है, उसका सारा पाप कट जाता है। माहिष्मती में तारादेवी के नैऋत्य कोने में तारकेश्वर नामक शिवलिंग है, वायु कोने में तारानाथ-नामक शिवलिंग है और पूरव दिशा की ओर भैरवेश्वर नामक शिवलिंग है। देवी-स्थान के उत्तर भाग में ताराकुण्ड है, जिसके जल-स्पर्श-मात्र से सभी दुरितों का नाश हो जाता है। अतएव माहिष्मती-नामक नगरी धन्य तथा सभी अभीष्ट फलों को देनेवाली है। ऐसा समझकर जो कोई व्यक्ति जगज्जननी तारा की पूजा करता है, उसे सारे वाञ्छित फल उलम्ब होते हैं, इससे अधिक तुम क्या सुनना चाहती हो।

उपर्युक्त उद्धरण से इतनी बातें निष्कर्ष के रूप में गृहीत की जा सकती है :-

१. माहिष्मती नगरी के सामने घर्मपूजा नदी बहती है।
२. वहाँ तारादेवी का स्थान है, जिसे वसिष्ठ ने चीन देश से लाकर स्थापित किया, और उस पापाण-विग्रह में एकजटा, नीलसरस्वती एवं अक्षोभ्यगुरु की मूर्तियाँ भी संलग्न हैं।
३. इस स्थान की दक्षिण दिशा में वसिष्ठ, गौतम और अक्षोभ्य-नामक कुण्ड हैं। इसके समीप में मानस-नामक सर तथा शरकुण्ड है।

४. माहिष्मती नगरी मंडन से (एतनामक विद्वान् से अथवा अनेक शोभन पदार्थों से) मंडिता है।

सर्वविदित है कि भगवती तारा मंडनमिश्र की इष्टदेवी थी। अत एव यदि इन तथ्यों का समन्वयन सहर्षा जिले में स्थित वर्तमान माहिष्पी नामक गाँव के साथ किया जाय, तो यह नितांत स्पष्ट हो जाता है कि यही मंडनमिश्र की जन्म भूमि थी। शंकरदिग्विजय आदि ग्रन्थों में मंडन की जन्म भूमि नर्मदा नदी के तट पर वर्णित है। नर्मदा का ही अपर पर्याय-वाची नाम धर्ममूला है ऐसा कोप एवं मिथिला माहात्म्य आदि के आधार पर सिद्ध है। धर्ममूला का ही विकृत रूप परवर्ती काल में वेमुंडा हो गया। अब भी माहिष्पी के पूर्व भाग में (लगभग १ मील पूर्व) और बनगाँव के पश्चिम भाग में धर्ममूला या वेमुंडा नदी प्रवाहित है। माहिष्पी में तारादेवी का सुप्रसिद्ध स्थान भी है। इस पाषाण विग्रह की बाईं की ओर एक जटा, दाईं ओर नीलसरस्वती और माथे पर अक्षोम्यगुरु की मूर्तियाँ विद्यमान हैं। परंपरा से यह भी ज्ञात है कि वशिष्ठ ने इसकी स्थापना और आराधना की—'वशिष्ठाराधिता तारा।' जिन वशिष्ठ, गौतम, अक्षोम्य आदि कुण्डों और सरोवरों का वर्णन आया है, वे भी यथावत् उन्हीं दिशाओं में विद्यमान हैं—ऐसा यहाँ के सामान्य जनो को भी ज्ञात है। पर अब उन कुण्डों और सरोवरों का मत्प्रवेश ही उपज्ज्य होता है, क्योंकि इधर कई वर्षों से यह गाँव कोशी नदी की विभीषिका से प्रसूत या और इसकी भीषण बाढ़ ने इस भूमि का नक्शा ही बदल दिया है। जिन दिग्दर्शियों की चर्चा की गई है, वे भी यथावत् उन्हीं दिशाओं में अब भी प्रतिष्ठित हैं। साथ ही जनश्रुति एवं परंपरा से यह भी ज्ञात है कि मंडन मिश्र इसी गाँव के थे। अतएव इसे 'मंडन मंडिता' स्वीकार करने में भी कोई विप्रतिपत्ति नहीं होनी चाहिए।

संतार को तारनेवाली तारादेवी विराजमान है, वही माहिष्मती है। हे सुन्दरसुखवाली सुभगे, माहिष्मती का माहात्म्य सुनो। वसिष्ठ तारा को चीन देश से लाए। सुन्दरी तारा की स्थापना एकजटा, नीलसरस्वती और अक्षोभ्य गुरु के साथ की गई। माहिष्मती में पापनाशक वसिष्ठकुण्ड, गौतमकुण्ड और अक्षोभ्यकुण्ड दक्षिण दिशा में स्थित है। माहिष्मती के समीप में ही मानस-नामक मरीचर है। शरकुण्ड में जो व्यक्ति स्नान अथवा मार्जन करता है, उसका सारा पाप कट जाता है। माहिष्मती में तारादेवी के नैऋत्य कोने में तारकेशर नामक शिवलिंग है, वायु कोने में तारानाथ नामक शिवलिंग है और पूरव दिशा की ओर भैरवेश्वर नामक शिवलिंग है। देवी-स्थान के उत्तर भाग में ताराकुण्ड है, जिसके जल-स्पर्श-मात्र से सभी दुरितों का नाश हो जाता है। अतएव माहिष्मती-नामक नगरी धन्य तथा सभी अभीष्ट फलों को देनेवाली है। ऐसा समझकर जो कोई व्यक्ति जगज्जननी तारा की पूजा करता है, उसे सारे वाञ्छित फल उपलब्ध होते हैं, इससे अधिक तुम क्या सुनना चाहती हो।

उपर्युक्त उद्धरण से इतनी बातें निष्कर्ष के रूप में गृहीत की जा सकती है :-

१. माहिष्मती नगरी के सामने घर्ममूला नदी बहती है।
२. वहाँ तारादेवी का स्थान है, जिसे वसिष्ठ ने चीन देश से लाकर स्थापित किया, और उस पापाण विमड में एकजटा, नीलसरस्वती एवं अक्षोभ्यगुरु की मूर्तियाँ भी संलग्न हैं।
३. इस स्थान की दक्षिण दिशा में वसिष्ठ, गौतम और अक्षोभ्य-नामक कुण्ड हैं। इन्हींके समीप में मानस नामक सर तथा शरकुण्ड है।

४. माहिष्मती नगरी मंडन से (एतन्नामक विद्वान् से अथवा अनेक शोभन पदार्थों से) मंडिता है।

सर्वविदित है कि भगवती तारा मंडनमिश्र की इष्टदेवी थी। अत एव यदि इन तथ्यों का सम्बन्धन सहर्सा जिले में स्थित वर्तमान महिषी नामक गाँव के साथ किया जाय, तो यह नितांत स्पष्ट हो जाता है कि यही मंडनमिश्र की जन्म भूमि थी। शंकरदिग्विजय आदि ग्रन्थों में मंडन की जन्म भूमि नर्मदा नदी के तट पर वर्णित है। नर्मदा का ही अपर पर्याय-वाची नाम धर्ममूला है ऐसा कोप एवं मिथिला माहात्म्य आदि के आधार पर सिद्ध है। धर्ममूला का ही विकृत रूप परवती काल में घेमुंडा हो गया। अब भी महिषी के पूर्व भाग में (लगभग १ मील पूर्व) और वनगाँव के पश्चिम भाग में धर्ममूला या घेमुंडा नदी प्रवाहित है। महिषी में तारादेवी का सुप्रसिद्ध स्थान भी है। इस पापाण विप्रद की बाई की ओर एक जटा, दाई ओर नीलसरस्वती और माथे पर अक्षोभ्यगुरु की मूर्तिवाँ विद्यमान हैं। परंपरा से यह भी ज्ञात है कि वशिष्ठ ने इसकी स्थापना और आराधना की—'वशिष्ठाराधिता तारा।' जिन वशिष्ठ, गौतम, अक्षोभ्य आदि कुण्डों और सरोवरों का वर्णन आया है, वे भी यथावत् उन्हीं दिशाओं में विद्यमान हैं—ऐसा वहाँ के सामान्य जनों को भी ज्ञात है। पर अब उन कुण्डों और सरोवरों का मत्प्रवेश ही उपलब्ध होना है, क्योंकि इधर कई वर्षों से यह गाँव कोशी नदी की विभीषिका से प्रसृत या और इसकी भीषण बाढ़ ने इस भूमि का नक्शा ही बदल दिया है। दिन शिवलिंगों की चर्चा की गई है, वे भी यथावत् उन्हीं दिशाओं में अब भी प्रविष्ट हैं। साथ ही जनमुनि एवं परंपरा से यह भी ज्ञात है कि मंडन मिश्र इसी गाँव के थे। अतएव इसे 'मंडन मंडिता' स्वीकार करने में भी कोई विप्रतिपत्ति नहीं होनी चाहिए।

# मंडन मिश्र तथा अद्वैतवाद

— डा० नित्यानन्द

अद्वैतवाद वह दार्शनिक सिद्धान्त है जिसके अनुसार एक मात्र ब्रह्म की सत्ता ही स्वीकार की जाती है। विश्व में नानात्व तथा आत्मा-शरीर, जड़-चेतन आदि का द्वैत अवश्य देखा जाना है किन्तु शंकराचार्य ने इन्हें विश्व को असत् तथा माया जनित मानकर अस्वीकार कर दिया। एक विख्यात उक्ति है कि समस्त अद्वैतवादी विचारधारा को एक अर्ध श्लोक में व्यक्त किया जा सकता है—

ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः ।

शंकराचार्य के पूर्व गौडपादाचार्य ने स्वप्न के आधार पर विश्व को भ्रम प्रमाणित किया था। जिस तरह से जाग्रतावस्था में स्वप्न जगत् असत् प्रमाणित हो जाता है उसी प्रकार अपनी आत्मा के यथार्थ स्वरूप तथा स्वभाव को जान लेने पर जगत की अयथार्थता तथा असत् अनुभूत होता है। शंकराचार्य ने गौडपाद की निम्नलिखित पंक्तियाँ उद्धृत की हैं—

अनादिमायया सृष्टः यदा जीवः प्रबुध्यते ।

अजमनिद्रमस्वप्नमद्वैतं बुद्ध्यते तदा ॥

शङ्कराचार्य ने जगत को माया तथा जीव के व्यक्तिगत अज्ञान को अविद्या कहा। विविधतापूर्ण तथा सदा परिवर्तनशील यह विश्व असत् है, ब्रह्म की एक मात्र सत्ता है। ब्रह्म तथा आत्मा तत्त्वनः एक हैं। भगवद्गीता में कहा गया है—

नास्तौ विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।

उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ॥

असत् वस्तु का अस्तित्व नहीं है, और सत का अभाव नहीं है। किन्तु, ज्ञानी व्यक्ति इन दोनों के भेद को देखते हैं।

जीव और ब्रह्म की एकात्म्य प्राप्ति के बाद किसी प्रकार का इन्द्रिय जन्म या मानसिक कार्य नहीं होता है। 'अहं ब्रह्मास्मि' की अनुभूति को ही वेदान्तदर्शन में निर्वाण कहा गया है जिसका अर्थ होता है जीव का ब्रह्म में विलय। निर्वाण की प्राप्ति तत्त्वज्ञान से ही संभव है। जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति'। पूर्व मीमांसा में जड़-चेतन, आत्मा-शरीर का द्वैत स्वीकार किया गया है। एक सचेत मीमांसक की भाँति मण्डन मिश्र ने भी इस द्वैत को स्वीकार किया। इस द्वैतवाद का शंकर ने निम्नलिखित शब्दों में खण्डन किया है—

नानात्वं निन्द्यते यद्य तदेव हि समस्तसम् ।

पूर्व मीमांसा में वैदिक कर्म काण्ड आदि को अपनाया गया है। इसके विपरीत अद्वैतवाद उपनिषदों में निहित बौद्धिक युक्तियों की विवेचना करता है। वस्तुतः ये ही युक्तियाँ इसका आधार बनी हैं। समस्त नानात्व तथा विविधता को असत् मानकर सिर्फ ब्रह्म को ही सत्य मानना तत्त्वज्ञान है। वस्तुतः सुख दुःख आदि की उत्पत्ति अविद्या जनित जीव तथा ब्रह्म के भेद के कारण होती है। अविद्या के कारण जीव ब्रह्म के साथ अपने तादात्म्य को नहीं समझ पाता है; फलतः उसे दुःख तथा पीडा की चेतना होती है। किन्तु, योंही यह अपने यथार्थ रूप को पहचानता है; 'तत् त्वम् असि' का अर्थ समझना है; उसके समस्त भेद-भाव समाप्त हो जाते और वह चिर आनन्द की उपलब्धि करता है। अतः भेद की भावना ही समस्त दुःखों की जड़ है।

‘मीमांसा’ जैसा कि नाम से ही विदित होता है भारतीय चिन्तन तथा विचार की समीक्षा है। मीमांसा के दो भाग हैं— (क) पूर्व मीमांसा (ख) उत्तर मीमांसा। प्रथम के जनक जैमिनी तथा दूसरे के वादरायण हैं। मण्डनमिश्र या विश्वरूप जो बाद में सन्यास ग्रहण करने पर सुरेश्वराचार्य के नाम से विख्यात हुए, ‘माहिष्मती’ के निवासी थे।

सुरेश्वराचार्य प्रारंभ में कर्म काण्ड के प्रबल समर्थक थे; किन्तु शंकराचार्य से शास्त्रार्थ में पराजित होने के उपरान्त उन्होंने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया तथा अद्वैत दर्शन पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे जिसमें — बृहदारण्यक भाष्य वार्तिक प्रमुख है। उन्होंने आत्मसंवाद की शिक्षा दी। कर्म काण्ड तथा वेदों के प्रबल समर्थक होने के कारण उन्हें ब्रह्मा का अवतार माना गया है। यह भी कहा जाता है कि वे पूर्व काल में कुमारिलभट्ट के शिष्य थे। अद्वैतवाद को ग्रहण करने के पश्चात् उन्होंने ‘पञ्चीकरण’ के सिद्धान्त पर बहुत कुछ लिखा। सुरेश्वराचार्य ने ‘नैष्कर्म्यसिद्धि’ तथा ‘मोक्षनिर्णय’ में शंकराचार्य के विचारों का सही प्रतिनिधित्व प्रदान किया है। वेदान्त के अनुसार अज्ञान का अन्त ही ब्रह्म है।

सुरेश्वराचार्य के अनुसार ब्रह्म ही ‘एकमात्र सत्ता’ है। अतः संसृति चीजों के विषय में ‘नेति’ कहा जा सकता है किन्तु ब्रह्म के विषय में नहीं। द्वैत के अन्त का अर्थ है ब्रह्म के अतिरिक्त संसृति वस्तुओं का अन्त।

सुरेश्वराचार्य की ‘नैष्कर्म्यसिद्धि’ चार पादों में विभक्त है। पहले पाद का सर्वग्रन्थ वैदिक क्रियाओं तथा वैदिक ज्ञान की उपलब्धि से है। तत्त्वज्ञान की प्राप्ति का अर्थ है ‘मोक्ष’ की उपलब्धि। ‘एकत्व’ की ज्ञान होते ही ‘ब्रह्मस्वरूप’ ज्ञान होने लगता है। दूसरा पाद आत्मज्ञान की विवेचना करता है। द्वैत की उत्पत्ति अन्तःकरण से होती है; अतः



तत्त्वज्ञान के उदय से अन्तःकरण का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अन्तःकरण की ऊमरी सतह पर शुद्ध चैतन्य पाया जाता है। जगत की प्रतीति तत्त्वज्ञान की उपलब्धि होते ही समाप्त हो जाती है। तृतीय पाद में 'अज्ञान' का विवरण है। जिस तरह से गहरी निद्रा में अज्ञान सर्वोपरि होता है उसी तरह से समाधि की अवस्था में ज्ञान या शुद्ध चैतन्य सर्वोपरि होता है। तृतीय पाद में सुरेश्वराचार्य ने बताया है कि किस प्रकार से ब्रह्म-ज्ञान से सारी मिथ्या प्रतीतियाँ समाप्त हो जाती हैं। ब्रह्म-ज्ञान के लिए एकल्व विषयक वेदान्त के ग्रन्थों का ज्ञान आवश्यक है। सुरेश्वराचार्य के अनुसार ब्रह्म ज्ञान के एक मात्र आधार उपनिषदों में बताये गये एकल्व का ज्ञान, श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन से ही संभव है। वस्तुतः इनके द्वारा समस्त जगत ब्रह्मबद् हो जाता है ॥

---

## शङ्कर मण्डन शास्त्रार्थ की तात्त्विक विवेचना

—ब्रह्मदेव झा

सर्वत्र यह प्रचलित है कि भगवत्पाद आदिशङ्कराचार्य के साथ शास्त्रार्थ में पराजित होने पर शास्त्रार्थ की शर्तों के अनुसार मण्डनमिश्र सन्यासी बनकर शङ्कराचार्य के प्रधान शिष्य सुरेश्वराचार्य के रूप में विद्व्यात हुए। परन्तु, यदि हम इस शास्त्रार्थ के तरव पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें तो ज्ञात हो जायगा कि यह न तो शङ्कर की विजय थी और न मण्डन की पराजय। 'शङ्कर दिग्भिन्नय' से ज्ञात होता है कि जब स्वामी शङ्कराचार्य ने कुमारिलभट्ट की वैदिक कर्मकाण्ड संबन्धी अखण्ड विद्वत्ता और उनकी अलौकिक प्रतिभा की बात सुनी तो वे उनसे मिलने के लिये आतुर हो उठे। जैसा कि तमिल विद्वान् रा. गणपति ने लिखा है — इस मिलन के दो उद्देश्य थे—ऐसी प्रतिभा से साक्षात्कार करना जिसने बौद्ध धर्म के बड़े बड़े आचार्यों को पराजित किया था। दूसरा केषल 'कर्म' को ही स्वीकार करनेवाली यह प्रतिभा यदि अद्वैत प्रतिपादित ज्ञान मार्ग को स्वीकार कर ले तो अनायास ही उत्तर भारत में अद्वैत का प्रचार हो जायगा। तुषानल में प्रवेश करने के कारण जब कुमारिलभट्ट ने शङ्कराचार्य से यह कहा कि आप मण्डनमिश्र से मिलें तो शङ्कराचार्य मण्डन मिश्र से मिलने चल पड़े। मण्डन मिश्र का परिचय देते हुए कुमारिलभट्टने कहा था—'मद्भगिनीभर्ता मण्डनमिश्र सर्वज्ञ इव सकलविद्यासु पितामह इव विद्यते।' अर्थात् मेरे भगिनीपति मण्डनमिश्र सभी विद्याओं में निष्णात हैं और पितामह के समान ही हैं। ये माहिष्मती नगरी में रहते हैं यदि वे आपके सिद्धान्त को स्वीकार कर लें तो प्रचार में प्रबल सहायक होंगे।

इससे प्रमाणित है कि मण्डनमिश्र कुमारिल के शिष्य ही नहीं अपि तु ब्रह्मर्षि थे। इस प्रकार मण्डन-पत्नी उभय भारती कुमारिल की बहिन थी। दोनों के पिता श्री विष्णुमिश्र थे जो पाटलिपुत्र (आधुनिक पटना) के निकट सोन के किनारे रहते थे। विष्णुमिश्र मीमांसा के प्रकाण्ड विद्वान् थे और दोनों भार्गव-ब्रह्मण कुमारिल तथा भारती ने पिता से ही मीमांसा दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। (मैथिल पंजी) कुमारिल का उद्देश्य था बौद्धमत का उन्मूलन और वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा। मिथिला ही उस समय ऐसा प्रान्त था जहाँ बौद्धधर्म ने आन्तरिक जीवन में प्रवेश नहीं किया था अतः कुमारिल ने मिथिला को ही अपना कार्य क्षेत्र बनाया और 'करियन' (दरमङ्गा के निकट) में अपने 'टोलपीठ' (विद्यालय) की स्थापना की। विश्वरूप (मण्डनमिश्र) और प्रभाकर जैसे मेधावी छात्र इसी विद्यालय (टोलपीठ) के छात्र थे। विश्वरूप ने भाट्टमत की स्थापना की और प्रभाकर का आचार्य के साथ विरोध हुआ और उन्होंने 'शुरुमत' की स्थापना की। पीछे चलकर विश्वरूप ने प्रभाकर मत का खण्डन कर भाट्ट मत का (कुमारिल मत) को मण्डित किया इसलिये इनका नाम 'मण्डनमिश्र' पडा।

मण्डनमिश्र माहिष्मती (आधुनिक मडिपी-सहरसा जिला) के निवासी थे यह सिद्ध हो चुका है। वहाँ अतिप्राचीन उग्रनारा मंदिर हैं। ऐसा प्रचलित है कि मण्डन इसी उग्रनारा के उपासक थे। 'नीलनन्द' में भी जो ताराचर्चन का एक प्रसिद्ध मंत्र है मण्डनमिश्र की चर्चा है परन्तु यह पुस्तक सुद्धम नहीं है। मण्डनमिश्र की वासभूमि आज बंजर पडी है। कुछ मडिपी निवासी आज भी अपने को मण्डनमिश्र का वंशज कहते हैं। वासस्थान के निकट ही एक पुराने पीपल का वृक्ष है जो अद्भुत है। बहुत जीर्ण हो जाने पर यह स्वयं गिर जाना है और उनी वृक्ष से एक नया वृक्ष उत्पन्न हो जाता है। यहाँ ही मडिपी में मण्डनमिश्र की

पाठशाला रही होगी यह लोगो का विधान है और वहीं पर शङ्कर मण्डन में परस्पर शालार्थ हुआ होगा ।

जैसा कि सिद्ध हो चुका है उभय भारती (मण्डन की पत्नी) इस में मध्यस्थ थी । शङ्कर जानते थे कि उभयभारती केवल सामान्य स्त्री नहीं है । वह असामान्य बुद्धि की है और शास्त्रज्ञा है और सत्य में उसकी निष्ठा है अतः पति के पक्षपात करने की कोई आशङ्का नहीं है मण्डनमिश्र के पराजित होने पर उभयभारती ने कामशास्त्र पर उनसे प्रश्न पूछा । शङ्कर के निरुत्तर हो जाने पर भारती ने यह सङ्का प्रकट की कि आप ब्रह्मविद् हैं तो यह शास्त्र आपके ज्ञान की परिधि से बाहर कैसे है ? तर्क समुचित है, कारण ब्रह्म सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है सृष्टि और संहार करने में समर्थ है तो यह ज्ञान भी उसमें समाहित है । ब्रह्मज्ञ को सभी शास्त्रों में निष्णात होना चाहिये । शङ्कर को कामशास्त्र का अज्ञान अज्ञानता का द्योतक है ।

आनन्दस्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति और मोक्ष के लिये शङ्कर ने ज्ञान को ही साधन सागं बतलाया था । उनके अनुसार ज्ञान-कर्म का गहरा विरोध है । दोनों के मार्ग परस्पर विरोधी हैं । 'न हि पूर्वसमुद्रे जिगमिषो प्रातिलोभ्येन प्रत्यक्समुद्रे जिगमिषुणा समानमार्गः संभवति ।' (गीता भाष्य १८-५५) । 'त्रिवेकचूडामणिः तया 'उपदेशसाहस्री' के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिये 'साधन चतुष्टय'—नित्यानित्यवस्तुविवेक, उपरति, तितिक्षा, मुमुक्षुत्व—आवश्यक है । साधक के लिये ब्रह्म ही सत्य है । तदितर संस्र संसार अनित्य असत्य है । उसे सासारिक और वैदिक संस्र फलों के भोग से वैराग्य उत्पन्न होना चाहिये । इस आचार मीमासा के अनुकूल चार आश्रमों की उगदेवता कुछ है ही नहीं । 'गार्हस्थ्य और वानप्रस्य आश्रम की कोई सार्थकता नहीं है । सभी को सन्यासी बन जाना चाहिये ।

फिर इस सृष्टि का क्या होगा इस पर कोई विचार नहीं है। स्वभावन-  
संसार विनष्ट हो जायगा। केवल ब्रह्म ही रह जायगा। फिर ब्रह्म के  
संसार प्रकट करने की इच्छा 'एकोऽहं बहु स्याम्' का क्या होगा? प्रत्येक  
ब्रह्म के ब्रह्म की यह शाश्वत इच्छा है। और संसार का विलोप करने से  
ब्रह्म की इच्छा बाधित होती है। इस प्रकार केवल ज्ञान मार्ग ही यथेष्ट  
नहीं है। शङ्कर ने जो कर्मयोग का तिरस्कार किया और ज्ञान मार्ग का  
प्रतिपादन, इससे ब्रह्म के कार्य में ही व्याघात उत्पन्न हुआ। शङ्कर के  
अनुसार ब्रह्म ही 'ज्ञान' है, सत् है, चित है, फिर ब्रह्मज्ञानी को  
संज्ञ होना चाहिये परन्तु शङ्कर के कामशास्त्र का अज्ञान उनकी  
संज्ञना को खण्डित करती है। ऐसा क्यों? इसलिये कि 'अनिर्वचनीय'  
माया ब्रह्म से पृथक् नहीं है। कारण जहाँ प्रकाश है वहाँ अन्धकार भी  
है। अन्धकार के बिना प्रकाश की सत्ता ही नहीं है। 'तदस्य' ब्रह्म में  
भी सभी गुण रज, सत, तम विद्यमान हैं। परन्तु सभी सम रूप में हैं।  
वृत्तीयावस्था में भी यही है। गुणों का विलोप नहीं होता। रहते सभी हैं  
पर वैश्य नहीं है। वैश्य, या शोभन होने से ही सृष्टि का प्रारम्भ होता  
है। अतः ब्रह्म जिस प्रकार माया को स्वयं में समाहित कर भी सत्,  
चित्, आनन्द रूप बना रहता है माया उसमें वैश्य नहीं जा सकती  
उसी प्रकार सुषुप्तु भी माया से पलायन न करे बल्कि ब्रह्म की तरह स्वयं  
में समाहित कर ले। इसी की ओर उमयभारती ने शङ्कर को शालास्य का  
धायाहन कर इक्षित किया था। उमयभारती ने कहा—'आप ब्रह्मविद् हैं।  
कामशास्त्र के बारे में आलोचना करने में आपको संका क्यों हो रही है?  
और भी एक बात है। हमारे म्यानी पूर्व शत के अनुसार आज से  
सन्वत्समप्रदण करने जा रहे हैं। उसके पहले में परीक्षा करना चाहती हैं  
कि आपके ज्ञान की परिधि क्या है और आपके योग सामर्थ्य कितनी है?'  
और शङ्कर को परशय प्रवेश कर इस शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना पडा।

इससे यह सिद्ध होता है कि शङ्कर ने पूर्णरूप से जो संसार का तिरस्कार किया था वह समुचित नहीं था। उनका दर्शन एकाङ्गी था। उमी प्रकार मण्डनमिश्र का मीमांसा दर्शन भी एकाङ्गी था।

मीमांसकों ने श्रुति विहित कर्मों को प्रधान माना है। वेद में ज्ञान और कर्म दोनों का उल्लेख है। परन्तु मीमांसकों ने ज्ञान को गौण माना है। मीमांसा में किसी प्रयोजन के उद्देश्य से वेद (श्रुति) के द्वारा विहित यागादि कर्म धर्म कहलाता है। इन अर्थों के विधिवत् अनुष्ठान करने से पुरुषों को निःश्रेयस की दुःखों की निवृत्ति करनेवाले स्वर्ग की उपलब्धि होती है। 'भाष्यना विवेक' में यह भी उल्लेख मिलता है कि कर्म से आत्मतुष्टि धर्म में चतुर्थ तथा अन्तिम प्रमाण है।

‘यथा रुमाया लवणाकरेषु मेरी यथा वोज्ज्वलरत्नभूमौ ।  
यज्यायते तन्मयमेव तत् स्यात् तथा भवेद्देदविदात्मतुष्टि ॥  
(तन्त्रवार्तिक)

अतः यह सिद्ध हुआ कि वेदविहित कर्म धर्म है। परन्तु कर्म क्यों किये जाते हैं। दुःखों की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति प्राणिमात्र का लक्ष्य है। कर्मविशेष का अनुष्ठान अभिलषित वस्तु की प्राप्ति के लिये किया जाता है। अतः मीमांसकों की दृष्टि में धार्मिक कृत्यों का अनुष्ठान इष्ट साधनता ज्ञान के कारण है। अर्थात् दुःखों की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति के लिये धार्मिक अनुष्ठान किये जाते हैं, साथ ही धार्मिक कार्यों से आत्मतुष्टि मिलती है। अतः चरमसुख-निःश्रेयस या मोक्ष की कामना करनेवाला वेद विहित कर्म करें। इस प्रकार की आचार मीमांसा में संन्यास या ज्ञान को कोई स्थान ही नहीं है। केवल कर्मकाण्ड ही प्रधान है। वेद प्रतिपाद्य कर्मों का म्य, प्रतिपिद्ध, नित्यनैमित्तिक में मोक्ष के लिये यजन या यज्ञ ही काम्य कर्म है यथा 'स्वर्गकामो यजेत'। ईश्वर यज्ञपति हैं फलदाता हैं, देवता

मन्त्रात्मक हैं। अतः मन्त्रद्वारा केवल यह करने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। क्योंकि कर्म अपना फल स्वयं उत्पन्न करता है। यथा -

यागादेव फलं तद्धि शक्तिद्वारेण सिध्यति ।  
सूक्ष्मशक्त्यात्मकं वा तत् फलमेवोपजायते ॥ (तन्त्रवार्तिक)

अतः ईश्वरबुद्ध्या जो कर्म यागादि किये जाते हैं उससे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यथा 'ईश्वरार्पणबुद्ध्या क्रियमाणस्तु निःश्रेयसहेतुः' (मीमांसा-न्याय प्रकाश)। मोक्ष क्या है? इसका उत्तर देते हुए 'शाखदीपिका' कहती है 'प्रपञ्चसंख्यविलयो मोक्षः'। अपरञ्च—

दुःस्वल्पान्तसमुच्छेदे सति प्रागात्मवर्तिनः ।

सुखस्य मनसा भुक्तिर्भुक्तिरुक्ता कुमारिलैः ॥

इस मोक्ष की प्राप्ति के लिये नित्यरूपों में, यागादि में प्रवृत्त होना चाहिये। मोक्ष के लिये कर्म प्रधान कारण है आत्मज्ञान सहकारि कारण। अतः ज्ञान कर्म समुदाय सबसे श्रेष्ठ मार्ग है।

इत्याह नास्तिापनिराकारिष्णुरात्मास्तिनां भाष्यशुद्धस्य युवत्या ।

दृढत्वमेतद्विषयस्य बोधः प्रयाति वेदान्तनिषेधेन ॥ (श्लोकवार्तिक)

मीमांसा का ईश्वर भाष्यवृत्त है; वेदान्त का ब्रह्मभाष्य से परे। मीमांसा में आत्मा कर्ता और भोक्ता दोनों है। वेदान्त में आत्मा सच्चिदानन्दरूप है। मीमांसा का प्रपञ्च (संसार) नित्य है, काश्चादिक है परन्तु वेदान्त का संसार क्षणिक। मीमांसा मोक्ष में 'प्रपञ्चसंख्य विलय' को मानता है। परन्तु वेदान्त 'प्रपञ्चविलय' को ही मोक्ष मानता है। क्योंकि—'अविद्या निर्मिती हि प्रपञ्चः क्षणिकश्चरन्, प्रयोगेणैव ब्रह्मविद्या सविद्याया विद्यानायां साधनेन विधीयते'—(शा० टी०)

मीमांसा दर्शन जगत, इसका कर्ता ईश्वर और उसकी माया तक ही सीमित रहा अतः इसमें प्रत्येक फल की प्राप्ति के लिये भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा, अर्चना और यज्ञ की विस्तार से विधि दी गयी। तप और ज्ञान का महत्त्व ही न रहा। त्याग और चैराग्य का लोप हो गया। प्रधानतः भट्ट कर्मवादी या भोगवादी दर्शन बन गया। संसार से परे 'ब्रह्म' की सत्ता को इसमें कोई स्थान नहीं मिला।

वेदान्त ने संसार अर्थात् प्रपञ्च को स्वप्नवत् मानकर एकमात्र ब्रह्म की ही सत्ता स्वीकार की। इसमें त्याग और चैराग्य को ही प्रधानता मिली। अतः दोनों ही दर्शन एकाङ्गी बन गये।

इन दोनों का समन्वय उभयंभारती द्वारा किये गये प्रश्न के समाधान में हुआ। प्रथम उभयंभारती ने शङ्कर को विजय दिलाकर मण्डन को ब्रह्म की सत्ता से साक्षात्कार कराया। केवल कर्मयोग को ही मानने-वाले मण्डन से ज्ञानमार्ग को स्वीकार कराया। दूसरी ओर कामशास्त्र की याद दिलाकर शङ्कर को कर्म की महत्ता और ज्ञान मार्ग की अपूर्णता प्रदर्शित की और उन्हें पूर्णत्व प्राप्त करने के पूर्व संसार भोग की ओर उन्मुख किया। इस तरह ज्ञान और कर्म के समुच्चय को इस शास्त्रार्थ ने प्रतिपादित किया। आत्मा सच्चिदानन्द रूप होते हुए भी माया के आवरण शरीर में बँधकर सांसारिक कर्तव्य कर्म तो अवश्य करे परन्तु अपना शुद्ध बुद्ध 'सोऽहम्' रूप भूले नहीं। यह तमी संभव है जब करनेवाले कर्म में आसक्ति न रहे। कर्तव्य बुद्धया ही सभी कर्म किये जाय। निष्कामभाव से कर्म किये जाय। निष्काम कर्म बाँधते नहीं, प्रपञ्च से अलग रखते हैं। सभी कर्म ब्रह्म को अर्पण किये जाय और यह भावना सदैव रहे—

“केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि।”



उदाहरण स्वरूप हम शङ्कर को ही लें। उनकी आत्मा ने राजा अमरुक के शरीर में प्रवेश किया गृहस्थाश्रम का भोग किया परन्तु उस भोग में आत्मा की आसक्ति नहीं रही, उस शरीर (आवरण या माया) में भी आसक्ति नहीं रही। अतः शङ्कर का संन्यास या वैराग्य खण्डित न हो सका और अन्त में उभयभारती को उसकी महत्ता स्वीकार करनी पड़ी। इसी की ओर गीता में निर्देश किया गया है—

बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यन्सुखम् ।  
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ॥

(गीता ५-२१)

यत्करोषि यदश्नासि यञ्जुहोषि ददासि यत् ।  
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥

( " ९-२७)

शुभाशुभफलैरेवं मोक्षयसे कर्मबन्धनैः ।  
संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥

( " ९-२८)

## सुरेश्वराचार्य का साधनपक्ष .

—बलदेव उपाध्याय

सुरेश्वराचार्य शङ्कराचार्य की प्रधान शिष्य चतुष्टयी में अन्यतम शिष्य थे । उन्होंने वेदान्त के मौलिक ग्रन्थों का निर्माण कर अद्वैत वेदान्त के सिद्धान्त तथा व्यवहार उभय पक्षों का बड़ाही प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत किया है । इनके ग्रन्थों के मुख्य रचनायें हैं — १. नैष्कर्म्यसिद्धि, २. तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्य-वार्तिक, ३. बृहदारण्यकभाष्य-वार्तिक, ४. मान-सोच्छ्रास, ५. पञ्चीकरणवार्तिक । इन ग्रन्थों में नैष्कर्म्यसिद्धि अद्वैत वेदान्त के साधन पक्ष का प्रतिपादक ग्रन्थ है । द्वितीय ग्रन्थ में शंकराचार्य रचित तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्य पर वार्तिक है । बृहदारण्यकभाष्य-वार्तिक इनका सबसे अधिक प्रख्यात विशाल काय प्रमेय बहुल ग्रन्थ रत्न है जिसमें अद्वैत के सिद्धान्तों का प्रतिपादन बड़े विस्तार तथा वैशद्य के साथ किया गया है और विरोधी आचार्यों के मतों का खण्डन भी बड़ी मार्मिकता के साथ किया गया है । यही इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है । और इसीके कारण अद्वैत के इतिहास में 'वार्तिककार' की उपाधि से वे मण्डित किये जाते हैं । इसमें अद्वैत के प्रतिपाद्य समस्त विषयों का बड़ा ही विस्तृत तथा विशद सूक्ष्म तथा मार्मिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है । इस निबन्ध में आचार्य सुरेश्वर के द्वारा प्रतिपादित साधनपक्ष का संक्षिप्त विवरण दिया गया है ।

### कर्म सिद्धान्त तथा उसका खण्डन

मानव जीवन का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है । अविद्या के कारण जीव अपने लक्ष्य से च्युत होकर नाना योनियों में भ्रमण करता हुआ नाना क्लेशों को सहता हुआ संसार में जीवन बिता रहा है इन क्लेशों से जीव का उद्धार किस प्रकार हो सकता है ? इस समस्या के समाधान के लिये

शास्त्रों की अग्रतारणा है—दर्शनो का आविर्भाव है। मीमांसा दर्शन में इस उद्देश्य के साधनपक्ष का विस्तार से विवेचन है। मीमांसा दर्शन के दो विभिन्न समुदाय हैं—कर्ममीमांसा तथा ज्ञानमीमांसा। 'कर्ममीमांसा' के प्रतिपादक आचार्य जैमिनि की सम्मति में मोक्ष की प्राप्ति कर्म से ही प्राप्त हो सकती है। यह दर्शन यह विज्ञान अथवा कर्मानुष्ठान पर ही विशेष आग्रह रखता है। फलतः जैमिनि के मत में कर्म ही जीव को मोक्षोपलब्धि का एक माल प्रधान उपाय है। इस विषय में जैमिनी का प्रख्यात सूत्र है—

'आन्नायस्य क्रियार्थत्वात् आनर्थक्यमतदर्शानाम्', वेद का तात्पर्य क्रिया या विधि के प्रतिपादन में है। उस अर्थ के प्रतिपादन न करनेवाले वेदवाक्यों की सार्थकता कथनवि सिद्ध नहीं होती। निषिद्ध कर्म का वर्जन जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक निव्यकर्म (सन्ध्या, दान आदि) तथा नैमित्तिककर्म (श्राद्ध आदि किसी निमित्त को लेकर जायमान कर्म) का अनुष्ठान है। इन दोनों प्रकार के कर्मों के अनुष्ठान से जीव मुक्ति प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। मीमांसकों के कर्म विषयक सिद्धान्त का यही सारांश है।

मीमांसकों के इस दृष्टिकोण का उत्तर सुरेश्वराचार्य ने बड़े विस्तार-के साथ 'नैऋत्यसिद्धि' के प्रथम अध्याय में दिया है। उन्होंने अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन इस महत्वपूर्ण कारिका में इस प्रकार किया है—

उत्पाद्यमाप्यं संस्कार्यं विकार्यं च क्रियाफलम् ।

नैव मुक्तिर्यत्तस्मात् कर्म तस्या न साधकम् ॥

(नैऋत्यसिद्धि १-५३)

क्रिया के द्वारा किया गया फल चार प्रकार का होता है— १. उपाय (कोई वस्तु उत्पन्न की जाती है) २. आप्य (कोई वस्तु जो प्राप्त नहीं उस की प्राप्त की जाती है), ३. संस्कार्य (कोई वस्तु संस्करण की जाती है)

## सुरेश्वराचार्य का साधनपक्ष

—बलदेव उपाध्याय

सुरेश्वराचार्य शङ्कराचार्य की प्रधान शिष्य चतुष्टयी में अन्यतम शिष्य थे। उन्होंने वेदान्त के मौलिक ग्रन्थों का निर्माण कर अद्वैत वेदान्त के सिद्धान्त तथा व्यवहार उभय पक्षों का बड़ाही प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत किया है। इनके ग्रन्थों के मुख्य रचनाये हैं — १. नैष्कर्म्यसिद्धि, २. तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्य-वार्तिक, ३. बृहदारण्यकभाष्य-वार्तिक, ४. मान-सोच्छ्रास, ५. पञ्चीकरणवार्तिक। इन ग्रन्थों में नैष्कर्म्यसिद्धि अद्वैत वेदान्त के साधन पक्ष का प्रतिपादक ग्रन्थ है। द्वितीय ग्रन्थ में शंकराचार्य रचित तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्य पर वार्तिक है। बृहदारण्यकभाष्य-वार्तिक इनका सबसे अधिक प्रख्यात विशाल काय प्रमेय बहुल ग्रन्थ रत्न है जिसमें अद्वैत के सिद्धान्तों का प्रतिपादन बड़े विस्तार तथा वैशद्य के साथ किया गया है और विरोधी आचार्यों के मतों का खण्डन भी बड़ी मार्मिकता के साथ किया गया है। यही इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। और इसीके कारण अद्वैत के इतिहास में 'वार्तिककार' की उपाधि से वे मण्डित किये जाते हैं। इसमें अद्वैत के प्रतिपाद्य समस्त विषयों का बड़ा ही विस्तृत तथा विशद सूक्ष्म तथा मार्मिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। इस निबन्ध में आचार्य सुरेश्वर के द्वारा प्रतिपादित साधनपक्ष का सक्षिप्त विवरण दिया गया है।

### कर्म सिद्धान्त तथा उसका खण्डन

मानव जीवन का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। अविद्या के कारण जीव अपने लक्ष्य से द्युत होकर नाना योनियों में भ्रमण करता हुआ नाना क्लेशों को सहता हुआ संसार में जीवन बिता रहा है इन क्लेशों से जीव का उद्धार किस प्रकार हो सकता है? इस समस्या के समाधान के लिये

शास्त्रों की अश्रुतारणा है—दर्शनों का आविर्भाव है। मीमांसा दर्शन में इस उद्देश्य के साधनपक्ष का विस्तार से विवेचन है। मीमांसा दर्शन के दो विभिन्न समुदाय हैं—कर्ममीमांसा तथा ज्ञानमीमांसा। 'कर्ममीमांसा' के प्रतिपादक आचार्य जैमिनि की सम्मति में मोक्ष की प्राप्ति कर्म से ही प्राप्त हो सकती है। यह दर्शन यह विज्ञान अथवा कर्मानुष्ठान पर ही विशेष धारण रखता है। फलतः, जैमिनि के मत में कर्म ही जीव को मोक्षोपलब्धि का एक मात्र प्रधान उपाय है। इस विषय में जैमिनि का प्रख्यात सूत्र है—

'आन्नापस्य क्रियार्थत्वात् आनर्थक्यमतदर्पानाम्,' वेद का तात्पर्य क्रिया या विधि के प्रतिपादन में है। उस अर्थ के प्रतिपादन न करनेवाले वेदवाक्यों की सार्थकता कथमवि सिद्ध नहीं होती। निश्चिद कर्म का वर्जन जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक नित्यकर्म (सन्ध्यावन्दन आदि) तथा नैमित्तिककर्म (श्राद्ध आदि किसी निमित्त को लेकर जायमान कर्म) का अनुष्ठान है। इन दोनों प्रकार के कर्मों के अनुष्ठान से जीव मुक्ति प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। मीमांसकों के कर्म विषयक सिद्धान्त का यही सारांश है।

मीमांसकों के इस दृष्टिकोण का उत्तर सुरेश्वराचार्य ने बड़े विस्तार के साथ 'नैऋत्यसिद्धि' के प्रथम अध्याय में दिया है। उन्होंने अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन इस महत्वपूर्ण कारिका में इस प्रकार किया है—

उत्पाद्यमाप्यं संस्कार्यं विकार्यं च क्रियाफलम् ।

नैव मुक्तिर्भवत्तस्मात् कर्म तस्या न माधकम् ॥

(नैऋत्यसिद्धि १-५३)

क्रिया के द्वारा किया गया फल चार प्रकार का होता है— १. उत्पाद्य (कोई वस्तु उत्पन्न की जाती है) २. आप्य (कोई वस्तु जो प्राप्त नहीं उसकी प्राप्त की जाती है); ३. संस्कार्य (कोई वस्तु संस्करण की जाती है)

## सुरेश्वराचार्य का साधनपक्ष :

—बलदेव उपाध्याय

सुरेश्वराचार्य शङ्कराचार्य की प्रधान शिष्य चतुष्टयी में अन्यतम शिष्य थे । उन्होंने वेदान्त के मौलिक ग्रन्थों का निर्माण कर अद्वैत वेदान्त के सिद्धान्त तथा व्यवहार उभय पक्षों का बड़ाही प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत किया है । इनके ग्रन्थों के मुख्य रचनार्थ हैं — १. नैष्कर्म्यसिद्धि, २. तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्य-वार्तिक, ३. बृहदारण्यकभाष्य-वार्तिक, ४. मान-सोल्लास, ५. पञ्चीकरणवार्तिक । इन ग्रन्थों में नैष्कर्म्यसिद्धि अद्वैत वेदान्त के साधन पक्ष का प्रतिपादक ग्रन्थ है । द्वितीय ग्रन्थ में शंकराचार्य रचित तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्य पर वार्तिक है । बृहदारण्यकभाष्य-वार्तिक इनका सबसे अधिक प्रख्यात विशाल काय प्रमेय बहुल ग्रन्थ रत्न है जिसमें अद्वैत के सिद्धान्तों का प्रतिपादन बड़े विस्तार तथा वैशद्य के साथ किया गया है और विरोधी आचार्यों के मतों का सण्डन भी बड़ी मार्मिकता के साथ किया गया है । यही इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है । और इसीके कारण अद्वैत के इतिहास में 'वार्तिककार' की उपाधि से वे मण्डित किये जाते हैं । इसमें अद्वैत के प्रतिपाद्य समस्त विषयों का बड़ा ही विस्तृत तथा विशद सूक्ष्म तथा मार्मिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है । इस निबन्ध में आचार्य सुरेश्वर के द्वारा प्रतिपादित साधनपक्ष का संक्षिप्त विवरण दिया गया है ।

### कर्म सिद्धान्त तथा उसका सण्डन

मानव जीवन का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है । अविद्या के कारण जीव अपने लक्ष्य से द्युत होकर नाना योनियों में भ्रमण करता हुआ नाना क्लेशों को सदृता हुआ संसार में जीवन बिता रहा है इन क्लेशों से जीव का उद्धार किस प्रकार हो सकता है ? इस समस्या के समाधान के लिये

शास्त्रों की अन्तरेण है—दर्शनों का आधिर्भाव है। मीमांसा दर्शन मे इम लक्ष्य के साधनपक्ष का विस्तार से विवेचन है। मीमांसा दर्शन के दो विभिन्न समुदाय है—कर्ममीमांसा तथा ज्ञानमीमांसा। 'कर्ममीमांसा' के प्रतिपादक आचार्य जैमिनि की सम्मति में मोक्ष की प्राप्ति कर्म से ही प्राप्त हो सकती है। यह दर्शन यह विज्ञान अथवा कर्मानुष्ठान पर ही विशेष आग्रह रखता है। फलतः जैमिनि के मन में कर्म ही जीव को मोक्षोपलब्धि का एक मात्र प्रधान उपाय है। इस विषय में जैमिनी का प्रख्यात सूत्र है—

'आन्नायस्य क्रियार्थत्वात् आनर्थक्यमतदर्पानाम् ।' वेद का तात्पर्य क्रिया या 'विवि' के प्रतिपादन में है। उस अर्थ के प्रतिपादन न करनेवाले वेदवाक्यों की सार्थकता कथमवि सिद्ध नहीं होती। निषिद्ध कर्म का वर्जन जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक नित्यकर्म (मन्वाखन्दन आदि) तथा नैमित्तिककर्म (श्राद्ध आदि वित्ती निमित्त को लेकर जायमान कर्म) का अनुष्ठान है। इन दोनों प्रकार के कर्मों के अनुष्ठान से जीव मुक्ति प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। मीमांसकों के कर्म विषयक सिद्धान्त का यही सारांश है।

मीमांसकों के इस रूपक्ष का उत्तर सुरेश्वरार्य ने बड़े विस्तार के साथ 'नैऋत्यसिद्धि' के प्रथम अध्याय में दिया है। उन्होंने अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन इस महत्वपूर्ण कारिका में इस प्रकार किया है—

उत्पाद्यमाप्यं संस्कार्यं विकार्यं च क्रियाफलम् ।

नैव मुक्तिर्पतस्तस्मात् कर्म सत्या न माघकम् ॥

(नैऋत्यसिद्धि १-५१)

क्रिया के द्वारा क्रिया मग्य फल चार प्रकार का होता है— १. उपाय (कोई वस्तु उत्पन्न की जाती है) २. अप्य (कोई वस्तु जो प्राप्त नहीं उस की प्राप्त की जाती है); ३. संस्कार्य (कोई वस्तु संशुद्ध की जाती है)

## सुरेश्वराचार्य का साधनपक्ष :

-वलदेव उपाध्याय

सुरेश्वराचार्य शङ्कराचार्य की प्रधान शिष्य चतुष्टयी में अन्यतम शिष्य थे । उन्होंने वेदान्त के मौलिक ग्रन्थों का निर्माण कर अद्वैत वेदान्त के सिद्धान्त तथा व्यवहार उभय पक्षों का बड़ा ही प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत किया है । इनके ग्रन्थों के मुख्य रचनायें हैं - १. नैष्कर्म्यसिद्धि, २. तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्य-वार्तिक, ३. बृहदारण्यकभाष्य-वार्तिक, ४. मान-सोल्लास, ५. पञ्चीकरणवार्तिक । इन ग्रन्थों में नैष्कर्म्यसिद्धि अद्वैत वेदान्त के साधन पक्ष का प्रतिपादक ग्रन्थ है । द्वितीय ग्रन्थ में शंकराचार्य रचित तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्य पर वार्तिक है । बृहदारण्यकभाष्य-वार्तिक इनका सबसे अधिक प्रख्यात विशाल काय प्रमेय बहुल-ग्रन्थ रत्न है जिसमें अद्वैत के सिद्धान्तों का प्रतिपादन बड़े विस्तार तथा वैशद्य के साथ किया गया है और विरोधी आचार्यों के मतों का खण्डन भी बड़ी मार्मिकता के साथ किया गया है । यही इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है । और इसीके कारण अद्वैत के इतिहास में 'वार्तिककार' की उपाधि से वे मण्डित किये जाते हैं । इसमें अद्वैत के प्रतिपाद्य समस्त विषयों का बड़ा ही विस्तृत तथा विशद सूक्ष्म तथा मार्मिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है । इस निबन्ध में आचार्य सुरेश्वर के द्वारा प्रतिपादित साधनपक्ष का संक्षिप्त विवरण दिया गया है ।

### कर्म सिद्धान्त तथा उसका खण्डन

मानव जीवन का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है । अविद्या के कारण जीव अपने लक्ष्य से च्युत होकर नाना योनियों में भ्रमण करता हुआ नाना क्लेशों को सदता हुआ संसार में जीवन बिता रहा है इन क्लेशों से जीव का उद्धार किस प्रकार हो सकता है ? इस समस्या के समाधान के लिये



महावाक्यों के ठीक ठीक अर्थ का ज्ञान प्राप्त करता है। तब होता है (१३.) अविद्या का उच्छेद (नाश)। अनन्तर यह (१४.) अपने स्वरूप में अवस्थिति धारण करता है अर्थात् ब्रह्म के साथ अभिन्नता प्राप्त कर लेता है।

सुरेश्वराचार्य के अनुसार यह है साधन की सोपान परंपरा। फलतः कर्म चित्त शुद्धि उत्पन्न कर अविद्या के निवारण में समर्थ होता है, परन्तु यह कार्य परंपरया सिद्ध होता है साक्षात् रूपेण नहीं। ऐसी दशा में नीमांसकों का पूर्वमत नितान्त अप्रामाणिक है। सुरेश्वर का यह <sup>1</sup> प्रतिपादन मनोविज्ञान की दृढ़ भित्ति पर अवस्थित है। अत एव नितरां श्लाघनीय है।

### आत्मसिद्धि की त्रिविध साधना

आत्मसिद्धि की त्रिविध साधना का उपदेश याज्ञकव्य ऋषि ने अपनी विदुषी पत्नी मैत्रेयी को दिया था।

‘आत्मा वाऽरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयि ।’  
आत्म दर्शन के त्रिविध साधन हैं—श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन। श्रवण से तात्पर्य श्रुतिवाक्यों को सुनने तथा उनके अर्थ के अवबोधन से है। मनन का तात्पर्य उपपत्तियों या युक्तियों के द्वारा श्रुत सिद्धान्त पर विचार करना है। ‘निदिध्यासन’ का अर्थ मनन द्वारा निश्चित सिद्धान्त का बारंबार ध्यान करना है<sup>2</sup>। आत्म दर्शन के लिये इस त्रिविध उपाय की उपादेयता के विषय में अद्वैत के आचार्यों में मत भेद है—

(क) वाचस्पति मिश्र के मत में ये तीनों इसी क्रम से आत्मदर्शन के हेतु हैं। श्रवण उत्पन्न करता है मनन को, क्योंकि जब तक विषय का

1 द्रष्टव्य नैष्कर्म्यसिद्धि पृ० ३२-३३ तथा चन्द्रिका व्याख्या।

2 श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येष्वंशो मन्तव्योऽप्युपपत्तिभिः ।  
सत्त्वा च घटतै र्व्येयः एते दर्शनहेतवः ॥

तथा ४. विकार्य (कोई वस्तु विकार से सम्पन्न की जाती है)। मुक्ति का स्वरूप इसमें सर्वथा भिन्न है। आत्मा तो स्वयं मुक्त रूप है। फलतः मुक्ति न उत्पाद्य है, न आप्य है, न संस्कार्य है और न वितार्य है, ऐसी दशा में कर्म मुक्ति का कथमपि साधक नहीं हो सकता। फलतः मुक्ति के लिये कर्म की साक्षात् उपकारिता नहीं है। तब क्या कर्म नितान्त व्यर्थ है मुक्ति की सिद्धि में? इस प्रश्न के उत्तर में सुरेश्वराचार्य कर्म को परंपरया उपयोग मानते हैं, साक्षात् रूप से नहीं। वह परंपरा इस प्रकार प्रदर्शित की गई है।

नित्यकर्मों से तात्पर्य उस कर्मों से है जिनका संपादन सर्वथा विहित है और जिनका सद्यः फल तुरन्त भले ही कुछ न हो, परन्तु जिनके न करने से प्रलयवाय होता है। जैसे 'अद्वयः सन्ध्यामुपासीत'—इस श्रुतिवाक्य के द्वारा प्रतिदिन सन्ध्या की उपासना का आदेश है। यह हुआ 'नित्यकर्म'। (१.) नित्यकर्मों के अनुष्ठान से (२.) धर्म की उत्पत्ति होती है। तदनन्तर (३.) पाप की हानि होती है। उससे (४.) चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि का अर्थ है चित्त की विवेक करने की क्षमता। उससे उत्पन्न होता है (५.) संसार के यथार्थरूप का अवबोध। उससे (६.) वैराग्य उत्पन्न है। उससे (७.) मुमुक्षुत्व उत्पन्न होता है अर्थात् संसार के मायिक रूप को जान लेने के बाद उससे वैराग्य उदित होता है और तब साधक के चित्त में बन्धन रूप संसार से मुक्त होने की, छुटकारा पाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। उससे वह (८.) मुक्ति के उपायों की खोज करने लगता है और तब वह (९.) सब कर्मों से और उनके साधनों से सन्ध्यास ले लेता है। अनन्तर वह (१०.) योगाभ्यास में आसक्त होता है। 'योगाभ्यास' से तात्पर्य यहाँ श्रवण, मनन, तथा निदिध्यासन के अनुष्ठान से है। अनन्तर (११.) चित्त प्रत्यगात्मा में बिना प्रयास स्वतः अवस्थान धारण करता है। तब वह साधक (१२.) 'तत्त्वमसि' आदि

महाशक्तियों के ठीक ठीक अर्थ का ज्ञान प्राप्त करता है। तब होता है (१३.) अविद्या का उच्छेद (नाश)। अनन्तर वह (१४.) अपने स्वरूप में अवस्थिति धारण करता है अर्थात् ब्रह्म के साथ अभिन्नता प्राप्त कर लेता है।

सुरेश्वराचार्य के अनुसार यह है साधन की सोपान परंपरा। फलतः कर्म चित्त शुद्धि उत्पन्न कर अविद्या के निवारण में समर्थ होता है, परन्तु यह कार्य परंपरया सिद्ध होता है साक्षात् रूपेण नहीं। ऐसी दशा में मीमांसकों का पूर्वमत नितान्त अप्रामाणिक है। सुरेश्वर का यह प्रतिपादन मनोविज्ञान की दृढ़ भित्ति पर अवस्थित है, अत एव नितरां स्थापनीय है।

### आत्मसिद्धि की त्रिविध साधना

आत्मसिद्धि की त्रिविध साधना का उपदेश याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपनी विदुषी पत्नी मैत्रेयी को दिया था।

'आत्मा वाऽदे दृष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयि।' आत्म दर्शन के त्रिविध साधन हैं—श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन। श्रवण से तात्पर्य श्रुतिवाक्यों को सुनने तथा उनके अर्थ के अवबोधन से है। मनन का तात्पर्य उपपत्तियों या युक्तियों के द्वारा श्रुत सिद्धान्त पर विचार करना है। 'निदिध्यासन' का अर्थ मनन द्वारा निश्चित सिद्धान्त का बारंबार ध्यान करना है<sup>१</sup>। आत्म दर्शन के लिये इस त्रिविध उपाय की उपादेयता के विषय में अद्वैत के आचार्यों में मत भेद है—

(क) वाचस्पति मिश्र के मत में ये तीनों इसी क्रम से आत्मदर्शन के हेतु हैं। श्रवण उत्पन्न करता है मनन को, क्योंकि जब तक विलय का

१ दृष्टव्यो मन्तव्यो निदिदि पु- १२-११ तथा चरित्रा उपायना।

२ श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येष्वं मन्तव्योत्पत्तिनिः।  
मत्वा च श्रुतं ध्येया एते दर्शनहेतवः ॥

तथा ४. विकार्य (कोई वस्तु विकार से सम्पन्न की जाती है)। मुक्ति का स्वरूप इसमें सर्वथा भिन्न है। आत्मा तो स्वयं मुक्त रूप है। फलतः मुक्ति न उत्पाव है, न आप्य है, न संस्कार्य है और न विकार्य है, ऐसं. दशा में कर्म मुक्ति का कथमपि साधक नहीं हो सकता। फलतः मुक्ति के लिये कर्म की साक्षात् उपकारिता नहीं है। तब क्या कर्म नितान्त व्यर्थ है मुक्ति की सिद्धि में? इस प्रश्न के उत्तर में सुरेश्वराचार्य कर्म को परंपरया उपयोग मानते हैं, साक्षात् रूप से नहीं। वह परंपरा इस प्रकार प्रदर्शित की गई है।

नित्यकर्मों से तात्पर्य उस कर्मों से है जिनका संपादन सर्वथा विहित है और जिनका सद्यः फल तुरन्त भले ही कुछ न हो, परन्तु जिनके न करने से प्रत्यवाय होता है। जैसे 'अद्वरहः सन्ध्यामुपासीत'—इस श्रुतिवाक्य के द्वारा प्रतिदिन सन्ध्या की उपासना का आदेश है। यह हुआ 'नित्यकर्म'। (१.) नित्यकर्मों के अनुष्ठान से (२.) धर्म की उत्पत्ति होती है। तदनन्तर (३.) पाप की हानि होती है। उससे (४.) चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि का अर्थ है चित्त की विवेक करने की क्षमता। उससे उत्पन्न होता है (५.) संसार के यपार्यरूप का अवबोध। उससे (६.) वैराग्य उत्पन्न है। उससे (७.) मुमुक्षुत्व उत्पन्न होता है अर्थात् संसार के मायिक रूप को जान लेने के बाद उससे वैराग्य उदित होता है और तब साधक के चित्त में बन्धन रूप संसार से मुक्त होने की, छुटकारा पाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। उससे वह (८.) मुक्ति के उपायों की खोज करने लगता है और तब वह (९.) सब कर्मों से और उनके साधनों से सत्यास ले लेता है। अनन्तर वह (१०.) योगाभ्यास में आसक्त होता है। 'योगाभ्यास' से तात्पर्य यहाँ श्रवण, मनन, तथा निदिध्यासन के अनुष्ठान से है। अनन्तर (११.) चित्त प्रत्यगात्मा में विना प्रयास स्वतः अवस्थान धारण करता है। तब वह साधक (१२.) 'तत्त्वमसि' आदि

## ज्ञान कर्म समुच्चय का खण्डन

मुक्ति की सिद्धि के विषय में उगनिपत् का प्रसिद्ध वाक्य है—  
 श्रुते ज्ञानाच्च मुक्तिः (ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती) आचार्य शंकर  
 इस औपनिषत् सिद्धान्त के एक निष्ठ श्रद्धालु थे और उनके शिष्य होने के  
 नाते सुरेश्वराचार्य भी इसी मत के मुख्य प्रतिष्ठापक थे। उनका लिखित  
 मत था कि ज्ञान और केवल विशुद्ध ज्ञान ही मुक्ति के साधन का प्रधान  
 तथा एकमात्र उपाय है। कर्म की कारणता का निर्देश पिछले पृष्ठों में  
 किया गया है। कर्म चित्तशुद्धि का जनक है जिससे विवेक ज्ञान द्वारा  
 वैराग्य तथा विविदिषा संन्यास का उदय होता है और अन्ततो गत्वा  
 परंपरया बहु ज्ञान के उत्पादन में सहायता करता है। सुरेश्वर के मत के  
 विरुद्ध वेदान्त के आचार्यों के भिन्न भिन्न मत थे। मुख्य मतों का यहाँ  
 निर्देश किया जाता है—

(क) कर्म समुचित ज्ञान (जिस में ब्रह्मसाक्षात्कार में ज्ञान की  
 मूल्यता है) ज्ञान केवल स्वतः ब्रह्मसाक्षात्कार में कारण न होकर कर्म के  
 द्वारा उसे संरक्षित होना भी नितान्त आवश्यक है। ब्रह्मदत्त तथा मण्डन  
 मिश्र के नाम से 'अभ्यास' तथा 'प्रमंथ्यान' के सिद्धान्त क्रमशः संबद्ध  
 बनलाये जाते हैं। ब्रह्मदत्त आचार्य शंकर से पूर्ववर्ती अद्वैती आचार्य थे।  
 इनके मत का उल्लेख शंकराचार्य ने बृहदारण्यकभाष्य में, सुरेश्वर ने इसी  
 भाष्य के वार्तिक में तथा वेदान्तदेशिक ने 'तत्त्वमुक्ताकलाप' की सर्वापि  
 सिद्धि टीका में किया है। 'प्रमंथ्यान' का वर्णन मण्डनमिश्र ने 'ब्रह्म-  
 सिद्धि' में विस्तार से किया है जिसे बावस्पति मिश्र ने अपनी 'भामनी'  
 में विक्रमित किया है। अमरानन्द ने बावस्पति की मण्डन मत का  
 परिवर्तक बनलाया है।

व्यर्थ ज्ञान नहीं होता, तब तक उसका मनन ही किस प्रकार किया जा सकता है? मनन निदिध्यासन का कारण होता है क्योंकि जब तक कोई साधक शांति के सिद्धान्तों के ऊपर विचार नहीं कर लेता, तब तक वह उनका ध्यान ही नहीं कर सकता। फलतः श्रवण मनन का कारण है तथा मनन निदिध्यासन का और तीनों इसी क्रम से संमिलित होकर ब्रह्म साक्षात्कार के मिलकर कारण बनते हैं।

(ख) श्रवण संप्रदाय के अनुसार 'श्रवण' ही ब्रह्मसाक्षात्कार में साक्षात् कारण है तथा मनन-निदिध्यासन श्रवण के सहायक होने के हेतु उसके परंपरया कारण होते हैं। घट की उत्पत्ति में मुख्य हेतु मृत्तिका है तथा चक्र, डोरा आदि उसके निमित्त कारण होते हैं। उसी प्रकार ब्रह्म साक्षात्कार में 'श्रवण' की मुख्य हेतुता है क्योंकि किसी वस्तु के ज्ञान के लिए शब्द तथा शब्दार्थ दोनों का ज्ञान वस्तुतः कारण होता है। मनन तथा निदिध्यासन उस शब्दार्थ के ज्ञान को दृढ़ तथा सुव्यवस्थित बनाते हैं। फलतः श्रवण के प्रति हेतु के मध्यम से ही वे ब्रह्मसाक्षात्कार के प्रति कारण बनते हैं। अतः इनकी उसके प्रति गौणता है, मुख्यता नहीं।

(ग) सुरेश्वराचार्य का मत इन विषय में वैशिष्ट्य रखता है। वे श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन के क्रम को नैसर्गिक मानते हैं। और तीनों को ब्रह्म साक्षात्कार के प्रति संमिलित रूपेण कारण मानते हैं। वे श्रवण तथा मनन को प्रथमतः संमिलित करने के पक्षपाती हैं। शास्त्र का श्रवण और युक्तियों के द्वारा शास्त्र के अर्थ का मनन बारंबार आवृत्ति रूपेण तब तक करनी चाहिए जब तक ये दोनों परस्पर संसक्त होकर निदिध्यासन को नहीं उत्पन्न करते जो वस्तुतः ब्रह्म साक्षात्कार का आरंभिक भाग ही सिद्ध होता है। वाचस्पति मिश्र इसी मत के ऊपर आप्रमद रखते हैं।

## ज्ञान कर्म समुच्चय का खण्डन

मुक्ति की मिद्धि के विषय में उपनिषत् का प्रसिद्ध वाक्य है—  
 ऋते ज्ञानाच्च मुक्तिः (ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती) आचार्य शंकर  
 इस औपनिषत् सिद्धान्त के एक निष्ठ श्रद्धालु थे और उनके शिष्य होने के  
 नाते सुरेश्वराचार्य भी इसी मत के मुख्य प्रतिष्ठापक थे। उनका निश्चिन  
 मन था कि ज्ञान और केवल विशुद्ध ज्ञान ही मुक्ति के साधन का प्रधान  
 तथा एकमात्र उपाय है। कर्म की कारणता का निर्देश पिछले पृष्ठों में  
 किया गया है। कर्म चित्तशुद्धि का जनक है जिससे विवेक ज्ञान द्वारा  
 वैराग्य तथा विविचिया संन्यास का उदय होना है और अन्ततो गत्वा  
 परंपरया वह ज्ञान के उत्पादन में सहायता करता है। सुरेश्वर के मत के  
 विरुद्ध वेदान्त के आचार्यों के भिन्न भिन्न मत थे। मुख्य मतों का यहाँ  
 निर्देश किया जाता है—

(क) कर्म समुचित ज्ञान (जिस में ब्रह्मसाक्षात्कार में ज्ञान की  
 मुख्यता है) ज्ञान केवल स्वतः ब्रह्मसाक्षात्कार में कारण न होकर कर्म के  
 द्वारा उसे सकलित होना भी नितात आवश्यक है। ब्रह्मदत्त तथा मण्डन  
 मिथ्र के नाम से 'अभ्यास' तथा 'प्रसत्यान' के सिद्धान्त क्रमशः संबद्ध  
 बनलाये जाते हैं। ब्रह्मदत्त आचार्य शंकर से पूर्ववर्ती अद्वैती आचार्य थे।  
 इनके मन का उल्लेख शंकराचार्य ने बृहदारण्यकभाष्य में, सुरेश्वर ने इसी  
 भाष्य के वार्तिक में तथा वेदातदेशिक ने 'तत्त्वमुक्ताश्रयण' की सर्वाधि  
 सिद्धि टीका में किया है। 'प्रसत्यान' का वर्णन मण्डनमिथ्र ने 'ब्रह्म-  
 सिद्धि' में विस्तार से किया है जिसे वाचस्पति मिथ्र ने अपनी 'मागनी'  
 में विकसित किया है। अमरानन्द ने वाचस्पति की मण्डन मत का  
 परिपोरक मतलाया है।

पथार्थ ज्ञान नहीं होता, तब तक उसका मनन ही किस प्रकार किया जा सकता है? मनन निदिध्यासन का कारण होता है क्योंकि जब तक कोई साधक शास्त्रों के सिद्धान्तों के ऊपर विचार नहीं कर लेता, तब तक वह उनका ध्यान ही नहीं कर सकता। फलतः श्रवण मनन का कारण है तथा मनन निदिध्यासन का और तीनों इसी क्रम से सम्मिलित होकर ब्रह्म साक्षात्कार के मिलकर कारण बनते हैं।

(ग) श्रवण संप्रदाय के अनुसार 'श्रवण' ही ब्रह्मसाक्षात्कार में साक्षात् कारण है तथा मनन-निदिध्यासन श्रवण के सहायक होने के हेतु उसके परंपरया कारण होने हैं। घट की उत्पत्ति में मुख्य हेतु मृत्तिका है तथा चक्र, डोरा आदि उसके निमित्त कारण होते हैं। उसी प्रकार ब्रह्म साक्षात्कार में 'श्रवण' की मुख्य हेतुता है क्योंकि किसी वस्तु के ज्ञान के लिए शब्द तथा शब्दार्थ दोनों का ज्ञान वस्तुतः कारण होता है। मनन तथा निदिध्यासन उस शब्दार्थ के ज्ञान को दृढ़ तथा सुव्यवस्थित बनाते हैं। फलतः श्रवण के प्रति हेतु के माध्यम से ही वे ब्रह्मसाक्षात्कार के प्रति कारण बनते हैं। अतः इनकी उसके प्रति गौणता है, मुख्यता नहीं।

(ग) सुरेश्वराचार्य का मत इन विषय में वैशिष्ट्य रखता है। वे श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन के क्रम को नैसर्गिक मानते हैं। और तीनों को ब्रह्म साक्षात्कार के प्रति सम्मिलित रूपेण कारण मानते हैं। वे श्रवण तथा मनन को प्रथमतः सम्मिलित करने के पक्षपाती हैं। शास्त्र का श्रवण और युक्तियों के द्वारा शास्त्र के अर्थ का मनन बারंबार आवृत्ति रूपेण तब तक करनी चाहिए जब तक ये दोनों परस्पर संसक्त होकर निदिध्यासन को नहीं उत्पन्न करते जो वस्तुतः ब्रह्म साक्षात्कार का आरंभिक भाग ही सिद्ध होता है। वाचस्पति मिश्र इसी मत के ऊपर आप्रह्न रखते हैं।



## ज्ञान कर्म समुच्चय का खण्डन

मुक्ति की मिथि के विषय में उनिपत् का प्रसिद्ध वाक्य है—  
 ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः (ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती) आचार्य शंकर  
 इस औपनिषत् सिद्धान्त के एक निष्ठ श्रद्धालु थे और उनके शिष्य होने के  
 नाते सुरेश्वराचार्य भी इसी मत के मुख्य प्रतिष्ठापक थे। उनका निश्चिन  
 मन था कि ज्ञान और केशल विशुद्ध ज्ञान ही मुक्ति के साधन का प्रधान  
 तथा एकमात्र उपाय है। कर्म की कारणता का निर्देश पिछले पृष्ठों में  
 किया गया है। कर्म चित्तशुद्धि का जनक है जिनसे विवेक ज्ञान द्वारा  
 वैराग्य तथा विविदिषा संन्यास का उदय होता है और अन्ततो गत्वा  
 परंपरया वत् ज्ञान के उत्पादन में सहायता करता है। सुरेश्वर के मत के  
 विरुद्ध वेदान्त के आचार्यों के भिन्न भिन्न मन थे। मुख्य मतों का यहाँ  
 निर्देश दिया जाता है—

(क) कर्म समुचित ज्ञान (जिम में ब्रह्मसाक्षात्कार में ज्ञान की  
 मुख्यता है) ज्ञान केवल स्वतः ब्रह्मसाक्षात्कार में कारण न होकर कर्म के  
 द्वारा उसे सकलित होना भी नितान्त आवश्यक है। ब्रह्मदत्त तथा मण्डन  
 मिश्र के नाम से 'अभ्यास' तथा 'प्रगत्यान' के सिद्धान्त क्रमशः संबद्ध  
 बनलाये जाते हैं। ब्रह्मदत्त आचार्य शंकर से पूर्ववर्ती अद्वैती आचार्य थे।  
 इनके मन का उद्देश्य शंकराचार्य ने वृत्तदारण्यरुभाष्य में, सुरेश्वर ने इसी  
 भाष्य के वार्तिक में तथा वेदान्तदेशिक ने 'तत्त्वमुक्तावगम' की सार्थि  
 सिद्धि टीका में किया है। 'प्रसत्यान' का वर्णन मण्डनमिश्र ने 'ब्रह्म-  
 सिद्धि' में निस्तार से किया है जिसे वास्तविक मिश्र ने अपनी 'भामती'  
 में निरमिन किया है। अभ्यासद ने वास्तविक को मण्डन मन का  
 परिपोरक बताया है।

ब्रह्मदत्त ने 'समाहितो भूत्वा पश्येत्' आदि उपनिषत् वाक्यों के ऊपर अपना मत खड़ा किया है। इन वाक्यों के द्वारा 'प्रसंख्यान' की ओर संकेत किया गया है। ज्ञान केवल रूप से ब्रह्म साक्षात्कार में करण नहीं बनता, परन्तु शम, दम आदि साधनों के द्वारा परिपुष्ट किये जाने पर ही अपने कार्य में समर्थ होता है। मण्डन मिश्र के अनुसार 'विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मण' (बृहदारण्यक ४-४-२१) उपनिषत् के सिद्धान्तों का पीठस्थानीय वाक्य है। शास्त्रों के श्रवण द्वारा ब्रह्म के साथ आत्मा की अमेद प्रतिपत्ति का केवल ज्ञान होता है, परन्तु इतना ही ज्ञान ब्रह्म साक्षात्कार को साक्षात् उत्पन्न नहीं कर सकता, प्रत्युत उसके लिए मनन तथा निदिध्यासन की बारंबार आवृत्ति करने की आवश्यकता होती है। फलतः ब्रह्मात्मैक्यज्ञान ब्रह्मसाक्षात्कार के लिये परोक्ष साधन है, प्रत्यक्ष साधन निदिध्यासन से संबन्धित ज्ञान ही है। यह निदिध्यासन अपनी पूर्णता के लिये आवृत्ति चाहता है और इसी आवृत्ति का नाम 'प्रसंख्यान' है। ब्रह्मदत्त तथा मण्डन मिश्र के इस समान प्रतीत होनेवाले मत में भी कुछ सूक्ष्मभेद है। इस मत का खण्डन सुरेश्वर ने अपने वार्तिक में विस्तार तथा प्रौढता से किया है<sup>१</sup>।

### (ख) कर्मज्ञान - सम समुच्चय

इस मत के अनुसार ब्रह्मसाक्षात्कार में कर्म और ज्ञान दोनों ही समान भाव से कारण होते हैं। पूर्वमत में ज्ञान की ही प्रधानता की परन्तु कर्म द्वारा संबलित होने के कारण कर्म की गौणता की। यहाँ दोनों का सम्प्राधान्य है। यह मत भेदाभेदवादी आचार्य भर्तृहरिप्रपञ्च का माना जाता है। इनके मत में जीव तथा ब्रह्म में भेद और अमेद दोनों प्रकार का

१. ब्रह्मदत्त के मत का खण्डन सुरेश्वर ने नैष्कर्म्यसिद्धि (१-६९) में तथा मण्डन मिश्र के मत का खण्डन बृहदारण्यकभाष्य वार्तिक (४-४-५८६-८१०) में किया है।

संग्रह है। भर्तृहरिश्च की युक्ति है कि केवल कर्म की आस्था भेद को ही सिद्ध करती है, परन्तु उस भेद को नहीं जो उसके अन्तस्तल में विद्यमान रहता है। फलतः उस भेद की उपलब्धि के लिए ज्ञान भी निरान्त आवश्यक है इनका जीवन लक्ष्य है कि स्वार्थ की सिद्धि के लिये कर्मों का संपादन न तो करना चाहिए और न केवल ज्ञान से ही सन्तुष्ट होना चाहिए कि वह स्वतः साक्षात्कार कर देगा। प्रत्युत दोनों को समान रूप से प्रधान मानकर ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी विहित कर्मों का अनुष्ठान अन्तिम लक्ष्य की प्राप्तिरूप करते ही रहना चाहिए।

सुरेश्वर ने इस मन का खण्डन बड़े आक्षेप के साथ किया है। उन्होंने भर्तृहरिश्च के भेदाभेद मन पर तीव्र आक्षेप किया है क्योंकि उन्होंने इस मन की उपपत्ति के लिये ही कर्म ज्ञान के सम समुच्चयवाद को अप्रसर किया है। अन्य युक्तियाँ भी उन्होंने बृहदारण्यकभाष्य धार्तिक में विस्तार के साथ दी है।

### ‘तत्त्वमसि’ महावाक्य का विमर्श

श्री सुरेश्वरचार्य ने महावाक्यों के अर्ग विवेचन के लिये नूतन प्रकार की अवधारणा की है। चारों वेदों के प्रधान उपनिषदों से मन विषयक वाक्य संगृहीत किये गये हैं जो ‘महावाक्य’ के नाम से अभिहित किये जाते हैं। इन में भी ‘तत्त्वमसि’ (छान्दोग्य ६-८-७) महावाक्य महावाक्य ज्ञान का साक्षात् उपदेशक होने के कारण विद्वानों को निरान्त विषय है। इस वाक्य का अर्गविवेचन सुरेश्वरचार्य ने बड़े विस्तार से तथा तथा मोटि के साथ नवीन ढंग से किया है। उनकी एतद्विषयक प्रसिद्ध कारिका है —

सामानाधिकरण्यं च विशेषणविशेष्यता ।

ब्रह्मदत्त ने 'समाहितो भूत्वा पश्येत्' आदि उपनिषत् वाक्यों के ऊपर अपना मत खड़ा किया है। इन वाक्यों के द्वारा 'प्रसंख्यान' की ओर संकेत किया गया है। ज्ञान केवल रूप से ब्रह्म साक्षात्कार में करण नहीं बनता, परन्तु शम, दम आदि साधनों के द्वारा परिपुष्ट किये जाने पर ही अपने कार्य में समर्थ होता है। मण्डन मिश्र के अनुसार 'विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मण' (बृहदारण्यक ४-४-२१) उपनिषत् के सिद्धान्तों का पीठस्थानीय वाक्य है। शास्त्रों के श्रवण द्वारा ब्रह्म के साथ आत्मा की अमेद प्रतिपत्ति का केवल ज्ञान होता है, परन्तु इतना ही ज्ञान ब्रह्म साक्षात्कार को साक्षात् उत्पन्न नहीं कर सकता, प्रत्युत उसके लिए मनन तथा निदिध्यासन की बारांवार आवृत्ति करने की आवश्यकता होती है। फलतः ब्रह्मात्मैक्यज्ञान ब्रह्मसाक्षात्कार के लिये परोक्ष साधन है, प्रत्यक्ष साधन निदिध्यासन से संबन्धित ज्ञान ही है। यह निदिध्यासन अपनी पूर्णता के लिये आवृत्ति चाहता है और इसी आवृत्ति का नाम 'प्रसंख्यान' है। ब्रह्मदत्त तथा मण्डन मिश्र के इस समान प्रतीत होनेवाले मत में भी कुछ सूक्ष्मभेद है। इस मत का खण्डन सुरेश्वर ने अपने वार्तिक में विस्तार तथा प्रौढता से किया है<sup>१</sup>।

### (ख) कर्मज्ञान - सम ममुच्य

इस मत के अनुसार ब्रह्मसाक्षात्कार में कर्म और ज्ञान दोनों ही समान भाव से कारण होते हैं। पूर्वमत में ज्ञान की ही प्रधानता की परन्तु कर्म द्वारा संबन्धित होने के कारण कर्म की गौणता की। यहाँ दोनों का समप्राधान्य है। यह मत भेदाभेदवादी आचार्य भर्तृहरिप्रपञ्च का माना जाता है। इनके मत में जीव तथा ब्रह्म में भेद और अमेद दोनों प्रकार का

१. ब्रह्मदत्त के मत का खण्डन सुरेश्वर ने नैष्ठिकार्णवसिद्धि (१-६९) में तथा मण्डन मिश्र के मत का खण्डन बृहदारण्यकभाष्य वार्तिक (४-४-७८९-८१०) में किया है।

लक्ष्यलक्षणसंबन्धः पदार्थप्रत्यगात्मनाम् ॥

(नैऋत्यसिद्धि ३-३)

साधारण लौकिक वाक्यों के अर्थविश्लेषण में भेद तथा संसर्ग संबन्ध की ही उपादेयता सिद्ध होती है, परन्तु महावाक्यों का तात्पर्य अखण्डार्थ के बोधन में है। अखण्ड का अर्थ है निर्गुण ब्रह्म स्वरूप। पूर्वोक्त वाक्य इसी निर्गुण ब्रह्मरूप का बोधक है और इस बोधकता के निमित्त सुरेश्वर ने तीन संबन्ध निर्दिष्ट किये हैं - (१) 'तत्' और 'त्वम्' पदों का सामानाधिकरण्य, (२) दोनों पदों के वाच्यार्थ में विशेषण विशेष्यभाव, (३) इनके वाच्यार्थों और तत्प्रतिपादित प्रत्यगात्मा में लक्ष्य लक्षण संबन्ध।

ध्यान देने की बात है कि 'तत्' पद का अर्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य है तथा 'त्वम्' पद का अर्थ अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य है। ऐसी दशा में तत् तथा त्वम् पदों का मरपर संबन्ध हो नहीं सकता वाच्यार्थ शक्ति या अभिधाशक्ति के द्वारा। विरोध के कारण 'अन्वय असम्भव है। फलतः यहाँ 'लक्षणा' शक्ति के द्वारा ही कार्य सिद्धि अभीष्ट है। वह लक्षणा भी न 'जहत् लक्षणा' है, न 'अजहत् लक्षणा', प्रयुक्त 'जहद् जहद्' लक्षणा है, इसका तात्पर्य है कि विरुद्ध अशों का परित्याग कर अवशिष्ट अश का बोध करानेवाली यह वृत्ति है और इसी कारण एक अश का परित्याग करने के कारण भागत्याग लक्षणा तथा भागमाल के ग्रहण करने से भागलक्षणा भी कहते हैं। सुरेश्वराचार्य के मत में 'परोक्षत्वादि-विशिष्ट' और 'अपरोक्षत्वादि-विशिष्ट' का यहाँ परित्याग कर केवल 'चैतन्य' अश का ही ग्रहण किया जाना है। फलतः यह महावाक्य 'भागलक्षणा' के द्वारा ही अखण्डार्थ रूप निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन करता है। चैतन्य रूप समान विरुद्ध अश के द्वारा यह महावाक्य निर्गुण ब्रह्म को द्योतित करता है।

संयुक्त है। भर्तृहरिश्च की युक्ति है कि केवल कर्म की आस्था भेद को ही सिद्ध करती है, परन्तु उस अभेद को नहीं जो उसके अन्तःस्थल में विद्यमान रहता है। फलतः उस अभेद की उपलब्धि के लिए ज्ञान भी निरन्तर आवश्यक है इनका जीवन लक्ष्य है कि स्वार्थ की सिद्धि के लिये कर्मों का संपादन न तो करना चाहिए और न केवल ज्ञान से ही सन्तुष्ट होना चाहिए कि वह स्वतः साक्षात्कार कर देगा। प्रत्युत दोनों को समान रूप से प्रधान मानकर ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी विहित कर्मों का अनुष्ठान अन्तिम लक्ष्य की प्राप्तिरूप करते ही रहना चाहिए।

सुरेश्वर ने इस मत का खण्डन बड़े आक्षेप के साथ किया है। उन्होंने भर्तृहरिश्च के भेदभेद मत पर तीव्र आक्षेप किया है क्योंकि इन्होंने इस मत की उपपत्ति के लिये ही कर्म ज्ञान के सम समुच्चयवाद को अपसृत किया है। अन्य युक्तियाँ भी उन्होंने बृहदारण्यकभाष्य वार्तिक में विस्तार के साथ दी हैं।

### ‘तत्त्वमसि’ महावाक्य का विमर्श

श्री सुरेश्वरचार्य ने महावाक्यों के अर्थ विवेचन के लिये नूतन प्रकार की अवधारणा की है। चारों वेदों के प्रधान उपनिषदों से ब्रह्म विषयक वाक्य संगृहीत किये गये हैं जो ‘महावाक्य’ के नाम से अभिहित किये जाते हैं। इन में भी ‘तत्त्वमसि’ (छान्दोग्य ६-८-७) महावाक्य ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान का साक्षात् उपदेशरूप होने के कारण विद्वानों को निरान्त प्रिय है। इस वाक्य का अर्थविवेचन सुरेश्वरचार्य ने बड़े विस्तार से तथा तथा प्रौढि के साथ नवीन ढंग से किया है। उनकी एतद्विषयक प्रसिद्ध कारिका है —

सामानाधिकरणं च विशेषणविशेष्यता ।

लक्ष्यलक्षणसंबन्धः पदार्थप्रत्यगात्मनाम् ॥

(नैऋत्यसिद्धि ३-३)

साधारण लौकिक वाक्यों के अर्थविवेचन में भेद तथा संसर्ग संबन्ध की ही उपादेयता सिद्ध होती है, परन्तु महावाक्यों का तात्पर्य अखण्डार्थ के बोधन में है। अखण्ड का 'अर्थ है निर्गुण ब्रह्म स्वरूप'। पूर्वोक्त वाक्य इसी निर्गुण ब्रह्मरूप का बोधक है और इस बोधकता के निमित्त सुरेश्वर ने तीन संबन्ध निर्दिष्ट किये हैं - (१) 'तत्' और 'त्वम्' पदों का सामानाधिकरण्य, (२) दोनों पदों के वाच्यार्थ में विशेषण विशेष्यभाव, (३) इनके वाच्यार्थों और तत्प्रतिपादित प्रत्यगात्मा में लक्ष्य लक्षण संबन्ध।

ध्यान देने की बात है कि 'तत्' पद का अर्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य है तथा 'त्वम्' पद का अर्थ अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य है। ऐसी दशा में तत् तथा त्वम् पदों का परस्पर संबन्ध हो नहीं सकता वाच्यार्थ शक्ति या अभिधाशक्ति के द्वारा। विरोध के कारण 'अन्वय असम्भव है। फलतः यहाँ 'लक्षणा' शक्ति के द्वारा ही कार्य सिद्धि-अभीष्ट है। वह लक्षणा भी न 'जहत् लक्षणा' है, न 'अजहत् लक्षणा', प्रत्युत 'जहद् जहद्' लक्षणा है, इसका तात्पर्य है कि विरुद्ध अंशों का परित्याग कर अवशिष्ट अंश का बोध करानेवाली यह वृत्ति है और इसी कारण एक अंश का परित्याग करने के कारण भागत्याग लक्षणा तथा भागमात्र के ग्रहण करने से भागलक्षणा भी कहते हैं। सुरेश्वरचार्य के मत में 'परोक्षत्वादि-विशिष्ट' और 'अपरोक्षत्वादि-विशिष्ट' का यहाँ परित्याग कर केवल 'चैतन्य' अंश का ही ग्रहण किया जाता है। फलतः यह महावाक्य 'भागलक्षणा' के द्वारा ही अखण्डार्थ रूप निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन करता है। चैतन्य रूप समान अविरुद्ध अंश के द्वारा यह महावाक्य निर्गुण ब्रह्म को द्योतित करता है।

लक्ष्यलक्षणसंबन्धः पदार्थप्रत्यगात्मनाम् ॥

(नैष्कर्म्यसिद्धि ३-३)

साधारण लौकिक वाक्यो के अर्थत्रिवेचन में भेद तथा संसर्ग संबन्ध की ही उपादेयता सिद्ध होती है, परन्तु महावाक्यो का तात्पर्य अखण्डार्थ के बोधन में है। अखण्ड का अर्थ है निर्गुण ब्रह्म स्वरूप। पूर्वोक्त वाक्य इसी निर्गुण ब्रह्मरूप का बोधक है और इस बोधकता के निमित्त सुरेश्वर ने तीन सन्ध निर्दिष्ट किये हैं - (१) 'तत्' और 'त्वम्' पदों का सामानाधिकरण्य, (२) 'दोनो पदो के वाच्यार्थ में' विशेषण विशेष्यभाव, (३) इनके वाच्यार्थों और तत्प्रतिपादित प्रत्यगात्मा में लक्ष्य लक्षण संबन्ध।

ध्यान देने की बात है कि 'तत्' पद का अर्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य है तथा 'त्वम्' पद का अर्थ अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य है। ऐसी दशा में तत् तथा त्वम् पदों का परस्पर सन्ध हो नहीं सकता वाच्यार्थ शक्ति या अभिधाशक्ति के द्वारा। विरोध के कारण 'अन्वय असम्भव है। फलतः यहाँ 'लक्षणा' शक्ति के द्वारा ही कार्य सिद्धि अभीष्ट है। वह लक्षणा भी न 'जहद् लक्षणा' है, न 'अजहद् लक्षणा', प्रत्युत 'जहद् जहद्' लक्षणा है, इसका तात्पर्य है कि विरुद्ध अशों का परित्याग कर अवशिष्ट अश का बोध करानेवाली यह वृत्ति है और इसी कारण एक अश का परित्याग करने के कारण भागत्याग लक्षणा तथा भागमात्र के ग्रहण करने से भागलक्षणा भी कहते हैं। सुरेश्वरचार्य के मत में 'परोक्षत्वादि-विशिष्ट' और 'अपरोक्षत्वादि-विशिष्ट' का यहाँ परित्याग कर केवल 'चैतन्य' अश का ही ग्रहण किया जाना है। फलतः यह महावाक्य 'भागलक्षणा' के द्वारा ही अखण्डार्थ रूप निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन करता है। चैतन्य रूप समान अविरुद्ध अश के द्वारा यह महावाक्य निर्गुण ब्रह्म को चोतित करता है।



Summary)

## SURESVARACHARYA AND NAISHKARMYASIDDHI

(Dr. Mandan Misra)

Naishkarmyasiddhi is the accomplishment of the condition of 'actionlessness' of the Self. Mukti is obtainable through the renunciation of all actions and gaining the knowledge of the Truth. This work deals with the nature of Mukti. The author Sri Sureśvara proclaims himself a disciple of Sri Sankara Bhagavatpada and says that the work was composed under the command of his Guru. This work covers all the arguments and conclusions that go to establish the truth of Vedanta. All Vedantic works affirm that the knowledge of Brahman alone will ensure *moksha*. The full comprehension of the Vedantagamic texts *Tatvamasi*, *Aham Brahmasi* etc. is proved to be essential. This knowledge dispels all *avidya* and does not need the help of actions, physical, mental or verbal. Sureśvaracharya opposes in vehement language Acharya Mandana Misra's stand, viz., the integration of *jnana* and *karma* (*Karma samuccaya vada*).

(Summary)

## SRI MANDAN MISRA AND ADVAITA

*(Dr. Nityanand)*

After being defeated by Adi Sankaracharya, Mandana Misra became the disciple of the Jagadguru and accepted the Advaita school of philosophy. Sankara had been inspired by Gaudapadacharya, whose ideas he oft quoted. For Sankara the world is Maya or unreal and individual ignorance of Jiva is Avidya. The only reality is Brahman which is identified with Atman. The aim of Jiva in this world is Nirvana which means communion with Brahman. The way to attain this state of perfection is by true knowledge of the Self and the realisation of its relation with Brahman.

(Summary)

## BIRTHPLACE OF MANDAN MISRA : TRADITION AND SOURCES

(Dr. Sachchidananda Choudhury)

Pandit Mandan Misra was born in the 8th century A. D. in the village named Mahishmati. Its identity is controversial amongst the scholars. But on the basis of tradition and authentic sources it is proved that the said Mahishmati village is situated in the region of Mithila which has been ever reputed for scholarly pursuits especially in certain branches of Indian Philosophy named Nyaya, Vaishshika and Purva Mimamsa. Pt. Misra was a great Mimamsak.

The nomenclature of Mahishmati has been changed as Mahishi which lies in the district of Saharsa in the northern part of the state of Bihar. The village is pretty old and has always been famous for being the abode of great Sanskrit Scholars. There is a good number of historical relics like temples, pillars, statues, stones with inscriptions in and around that village. Besides, people of that area have believed for generation after generation that Mandan Misra belonged to this village. It is said that he used to worship goddess Tara called the second Mahavidya in the Tantra sastra. There is an old statue enshrined in a temple, of the said Mahavidya Tara in that village.

Apart from the tradition and hearsay, the twentieth chapter of Mahachun Karma gives a detailed description of Mahishmati which totally tallies with the village Mahishi of Mithila. It has been elaborated in this article.

All these facts conclusively prove that Mandan Misra was born in the village of Mahishi in Mithila.

## SUREŚVARĀCHARYA'S VIEWS ON MEANS OF THE BRAHMA-REALISATION

(Baldev Upadhyaya)

1. Mokṣa is the summum bonum of man. In his worldly life man is entangled in the meshes of triple adversity and as such he always pines for final Release from it. The Advaita Vedānta, as expounded by Sureśvarācharya, one of the disciples of Ādi Sankarācharya, firmly believes in the efficacy of knowledge to be the only means of Brāhmā-realisation, putting his firm faith in the Upaniṣadic doctrine that without knowledge, no release is possible अज्ञे ज्ञानात् न मुक्तिः. Sureśvara in his voluminous writings lays stress upon this doctrine and refutes with cogent arguments and stern logic various views of Indian Philosophers held about the solution of this important problem.

2. Jaimini, the founder of the Purva Mimāmsa Darśana, adduces arguments in support of karma (action) being the most important means for realisation of the Upaniṣadic Brahman. Sureśvara denounces this view as defective in many ways. He says that if the individual soul is doer and enjoyer by nature, it must continue to be so for ever and Mokṣa, which is the contrary of कर्तृत्व and भोक्तृत्व, would become out of question and ever unattainable. Further, the result of action is उत्पाद्य (fit to be produced), आप्त्य (fit to be gained), संस्कार्य (fit to be reformed) or विकार्य (fit to be changed). Mokṣa is an object which cannot be given any of these attributes and as such it is never an effect of Vedic Acts. Still he maintains that action is indirectly helpful towards the attainment of the final release. To demonstrate his point he presents consecutive stages of the path of perfection involving the instrumentality of action up to the initial stage only. The Ladder of Brāhma-realisation according to Sureśvara is as follows:—

- (1) Performance of compulsory of obligatory actions.
- (2) Purification of mind.

## A CRITIQUE OF THE MANDANA-SANKARA DISCOURSE

(Prof Brahmdeo Jha)

Viswarupa (Mandana) and Kumarila Bhatta his Guru were related through Bharati, the wife of Viswarupa. Bharati was the sister of Kumarila Bhatta, and Vishnu Misra of Pataliputra (Modern Patna), a great scholar of Mimamsa was their father. Kumarila Bhatta came to the village of Kariyan (near Darbhanga) and established his Pathasala, where he got renowned scholar-disciples like Viswarupa and Prabhakara Misra. Prabhakara differed with his preceptor Kumarila and started his own school of philosophy in Mimamsa which is known as Misra school. Kumarila's school of thought was known as Bhatta school. Viswarupa, exposed the fallacies of the Misra school and re-established the tenets of Bhatta school and was hence named Mandana Misra.

Mandana Misra belonged to Mahishmati (modern Mahishi, Saharasa District, Bihar) and was a devotee of goddess Tara, one of the ten Mahavidyas. This Tara temple still exists in Mahishi. Mandana has been mentioned in Nilatantra, the authoritative book on Tara Tantra.

In the first discourse between Sankara and Mandana, Mandana was defeated which thoroughly exposed the deficiencies contained in the expositions of Mimamsa. Mimamsa had completely ignored Brahman and was concerned mainly with mundane existence. Jnana Marga and efficacy of Sanjas were beyond its ken.

Sankara's Advaita Jnana Marga ignored the world completely. That is why he had to take time from Bharati to answer her questions on Kama sastra. Maya is part of Brahman and knowledge and ignorance are but two facets of the same truth. By her question Bharati reminded him of it and he entered the world through the body of King Amartka and performed karma. A man must do karma unattached to it and only as his duty and not be engrossed in it. That is the truth which *Bhagwadgita* propounds in its conclusion. Just as Brahman incorporates Maya in Himself so does Jiva.

## SUREŚVARĀCHARYA'S VIEWS ON MEANS OF THE BRAHMA-REALISATION

(Baldev Upadhyaya)

1. Mokṣa is the summum bonum of man. In his worldly life man is entangled in the meshes of triple adversity and as such he always pines for final Release from it. The Advaita Vedānta, as expounded by Sureśvarācharya, one of the disciples of Ādi Śaṅkarācharya, firmly believes in the efficacy of knowledge to be the only means of Brahma-realisation, putting his firm faith in the Upaniṣadic doctrine that without knowledge, no release is possible ऋते ज्ञानात् न मुक्तिः. Sureśvara in his voluminous writings lays stress upon this doctrine and refutes with cogent arguments and stern logic various views of Indian Philosophers held about the solution of this important problem.

2. Jaimini, the founder of the Purva Mimāṃsā Darśana, adduces arguments in support of karma (action) being the most important means for realisation of the Upaniṣadic Brahma. Sureśvara denounces this view as defective in many ways. He says that if the individual soul is doer and enjoyer by nature, it must continue to be so for ever and Mokṣa, which is the contrary of कर्तृत्व and भोक्तृत्व, would become out of question and ever unattainable. Further, the result of action is उत्पाद्य (fit to be produced), आप्य (fit to be gained), संस्कार्य (fit to be reformed) or विकार्य (fit to be changed). Mokṣa is an object which cannot be given any of these attributes and as such it is never an effect of Vedic Acts. Still he maintains that action is indirectly helpful towards the attainment of the final release. To demonstrate his point he presents consecutive stages of the path of perfection involving the instrumentality of action up to the initial stage only. The Ladder of Brahma-realisation according to Sureśvara is as follows:—

- (1) Performance of compulsory of obligatory actions.
- (2) Purification of mind.

## A CRITIQUE OF THE MANDANA-SANKARA DISCOURSE

(Prof Brahmdeo Jha)

Viswarupa (Mandana) and Kumarila Bhatta his Guru were related through Bharati, the wife of Viswarupa. Bharati was the sister of Kumarila Bhatta, and Vishnu Misra of Pataliputra (Modern Patna), a great scholar of Mimamsa was their father. Kumarila Bhatta came to the village of Kariyan (near Darbhanga) and established his Pathasala, where he got renowned scholar-disciples like Viswarupa and Prabhakara Misra. Prabhakara differed with his preceptor Kumarila and started his own school of philosophy in Mimamsa which is known as Misra school. Kumarila's school of thought was known as Bhatta school. Viswarupa, exposed the fallacies of the Misra school and re-established the tenets of Bhatta school and was hence named Mandana Misra.

Mandana Misra belonged to Mahishmati (modern Mahishi, Saharasa District, Bihar) and was a devotee of goddess Tara, one of the ten Mahavidyas. This Tara temple still exists in Mahishi. Mandana has been mentioned in Nilatantra, the authoritative book on Tara Tantra.

In the first discourse between Sankara and Mandana, Mandana was defeated which thoroughly exposed the deficiencies contained in the expositions of Mimamsa. Mimamsa had completely ignored Brahman and was concerned mainly with mundane existence. Jnana Marga and efficacy of Sanjyas were beyond its ken.

Sankara's Advaita Jnana Marga ignored the world completely. That is why he had to take time from Bharati to answer her questions on Kama sastra. Maya is part of Brahman and knowledge and ignorance are but two facets of the same truth. By her question Bharati reminded him of it and he entered the world through the body of King Amaruka and performed karma. A man must do karma unattached to it and only as his duty and not be engrossed in it. That is the truth which *Bhagwadgita* propounds in its conclusion. Just as Brahman incorporates Maya in Himself so does Jiva.

established and nothing else can establish this self-subsistent Reality. Likewise Sureśvara is dead against the views of Bhartṛprapanca who believes in the equal predominance of Jnana and karma in the realisation of Brahman, since he propounds the doctrine of Bhedabheda. Our author says that a mere adherence to karma means the recognition of only diversity and not the unity underlying it. So from the true advaitic point of views, Jnana is the *only* means of direct Brahman realisation as has been maintained by the Upaniṣads.

4. The celebrated passage from the Bṛhadaranyaka enjoins a scheme of triple sādhanā in the shape of *śravaṇa* (hearing of the sacred texts from a competent teacher), *manana* (reasoning the efficiency of the śruti texts with logical arguments) and *Nididhyāsana* (meditation on the established doctrines, called yoga according to the advaitic writers). Opinions vary about the utility of the items mentioned above. Vācaspati establishes the causal nature of the sequence proposed above, hearing causes reasoning into existence and reasoning in its turn produces meditation and all the three combine in the end to reveal Brahman to the mental eye of the Sādhanaka. The followers of the Vivaraṇa school establish the direct efficacy of hearing only when supported and supplemented by reasoning and meditation. Sureśvara deviates a bit from the above views. He thinks that meditation when supported by the other two items is the immediate cause of the realisation of Brahman and thus he proves his attachment to yoga more than the other two writers have done.

5. As regards the purport and significance of the mahāvākyas Sureśvara relies on the Lakṣaṇā to be the only function of word to reveal clearly and cogently their full and complete meaning — *Akhandārtha* which is none other than the Highest Brahman itself. The celebrated Mahāvākya 'Tat tvam asi' (that thou art) does prove the fundamental identity of Jiva and Brahman but in so doing it has recourse to Lakṣaṇā in completely revealing the said identity. This Lakṣaṇā has a speciality of its own and is designated *Bhāgavattā* (partial verbal



(3) Knowledge of the utter unreality of the world and the empirical objects.

(4) Desire for renunciation of the unreal world.

(5) Abandonment of all the three aspirations (एषणा) of human life.

(6) Desire for self realisation.

(7) Actual renunciation of the world as a result of the aforesaid desire.

(8) Resorting to the three fold positive means, leading to the Brahman realisation as detailed in the Upanishads, e. g. hearing of the Vedic text from a competent teacher, argumentation and meditation.

(9) Brahman realisation and complete renunciation of the empirical life.

(10) Mokṣa-restoration of the Jiva to its essential nature that is, Brahman.

3. He adversely criticises those teachers who maintain the combination (समुच्चय) of knowledge with action in any form as a direct means of realisation of Mokṣa. This combination is possible under the following three kinds: (a) ज्ञानसमुच्चितकर्म (wherein karma is predominant) (b) कर्मसमुच्चितज्ञान (wherein Jnana is predominant) (c) ज्ञानकर्मसमसमुच्चय (wherein Jnana and Karma are equally predominant). The first two views were advocated by Brahmadatta and Madanamīṣtra respectively. The views purport to express that the knowledge of absolute identity between the individual soul and Brahman is an indirect one and can be effective only when it is accompanied with constant and repeated meditation called here Prasankhyāna. This view is refuted by Sureśvara in his Sambandha Vartika when he questions the possibility of its being achieved through Prasankhyāna. It can not be the establishment of the Absolute Reality, because it is in the light of Reality that all things are cognised, proved and

established and nothing else can establish this self-subsistent Reality. Likewise Sureśvara is dead against the views of Bhartṛprapanca who believes in the equal predominance of Jnana and karma in the realisation of Brahman, since he propounds the doctrine of Bhedabheda. Our author says that a mere adherence to karma means the recognition of only diversity and not the unity underlining it. So from the true advaitic point of views, Jnana is the *only* means of direct Brahman realisation as has been maintained by the Upaniṣads.

4 The celebrated passage from the Bṛhadaranyaka enjoins a scheme of triple sadhana in the shape of *śravaṇa* (hearing of the sacred texts from a competent teacher), *manana* (reasoning the efficiency of the śruti texts with logical arguments) and *Nididhyasana* (meditation on the established doctrines, called yoga according to the advaitic writers). Opinions vary about the utility of the items mentioned above. Vacaspati establishes the causal nature of the sequence proposed above, hearing causes reasoning into existence and reasoning in its turn produces meditation and all the three combine in the end to reveal Brahman to the mental eye of the Sadhaka. The followers of the Vivaraṇa school establish the direct efficacy of hearing only when supported and supplemented by reasoning and meditation. Sureśvara deviates a bit from the above views. He thinks that meditation when supported by the other two items is the immediate cause of the realisation of Brahman and thus he proves his attachment to yoga more than the other two writers have done.

5 As regards the purport and significance of the mahāvākyas Sureśvara relies on the Lakṣaṇā to be the only function of word to reveal clearly and cogently their full and complete meaning — *Akhandārīha* which is none other than the Highest Brahman itself. The celebrated Mahāvākya 'Tat tvam asi' (that thou art) does prove the fundamental identity of Jiva and Brahman but in so doing it has recourse to Lakṣaṇā in completely revealing the said identity. This Lakṣaṇā has a speciality of its own and is designated *Bhāgavṛtti* (partial verbal

process). Accordingly the terms 'tat' and 'tyam' become bereft of their adjuncts and through the common denotation of 'consciousness' they reveal the unity of Jiva and Brahman. The subject has been treated at great length by our writer in his various books.

6 Thus the great ācārya Sureśvara reveals his deep insight into tackling the problems associated with the Sadhanā of the Highest Reality and proves his unstinted devotion towards the fundamental teachings of the Upaniṣads as interpreted by the great Śaṅkarācārya in his Bhaṣya.



Ācārya Sureśvara O tmāhār Bauddhādīmat Samikṣā. ( Śrī Sureśvarācārya Kṛta Bauddhādī Mata Samikṣā )	...	1
Madhusudan Bhattacharya Nyāyācārya Tarkālāṅkaropādika- Professor, Research Department, Sanskrit College-Calcutta.	...	13
Summary in Sanskrit	...	14
Summary in English	...	

process). Accordingly the terms 'tat' and 'tyam' become bereft of their adjuncts and through the common denotation of 'consciousness' they reveal the unity of Jiva and Brahman. The subject has been treated at great length by our writer in his various books

6 Thus the great ācārya Sureśvara reveals his deep insight into tackling the problems associated with the Sadhanā of the Highest Reality and proves his unstinted devotion towards the fundamental teachings of the Upaniṣads as interpreted by the great Śaṅkarācārya in his Bhaṣyas.



Ācārya Sureśvara O tmāhar Bauddhādīmat Samikṣā. ( Śrī Sureśvarācārya Kṛta Bauddhādī Mata Samikṣā )	...	1
Madhusudan Bhattacharya Nyāyācārya Tarkālāṅkaropādika- Professor, Research Department, Sanskrit College-Calcutta.	...	13
Summary in Sanskrit	...	14
Summary in English	...	

process) Accordingly the terms 'tat' and 'tyam' become bereft of their adjuncts and through the common denotation of 'consciousness' they reveal the unity of Jiva and Brahman. The subject has been treated at great length by our writer in his various books.

6 Thus the great Ācārya Sureśvara reveals his deep insight into tackling the problems associated with the Sadhana of the Highest Reality and proves his unstinted devotion towards the fundamental teachings of the Upaniṣads as interpreted by the great Śaṅkarācārya in his Bhaṣyas.



Ācārya Sureśvara O tmāhār

Bauddhādimat Samikṣā.

( Śrī Sureśvarācārya Kṛta Bauddhādi  
Mata Samikṣā )

... 1

Madhusudan Bhattacharya

Nyāyācārya Tarkālakaropādhibika-

Professor,

Research Department,

Sanskrit College-Calcutta.

Summary in Sanskrit

... 13

Summary in English

... 14



process). Accordingly the terms 'tat' and 'tvam' become bereft of their adjuncts and through the common denotation of 'consciousness' they reveal the unity of Jiva and Brahman. The subject has been treated at great length by our writer in his various books.

6 Thus the great ācārya Sureśvara reveals his deep insight into tackling the problems associated with the Sādhanā of the Highest Reality and proves his unstinted devotion towards the fundamental teachings of the Upaniṣads as interpreted by the great Śamkaracarya in his Bhaṣyas.



Ācārya Sureśvara O tmāhar Bauddhadimat Samikṣā. ( Śrī Sureśvarācārya Kṛta Bauddhadi Mata Samikṣā )	...	1
Madhusudan Bhattacharya Nyāyācārya Tarkalāṅkaropādika- Professor, Research Department, Sanskrit College-Calcutta.	...	13
Summary in Sanskrit	...	14
Summary in English	...	

# আচার্য্য সুরেশ্বর ও তাঁহার বৌদ্ধাদিষত সমীক্ষা

[নিবন্ধক—শ্রীযাচার্য্যতর্কালঙ্কারোপাধিক শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্য্য]  
অধ্যাপক—গবেষণা বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা ।

প্রায় বারশ সত্তর বৎসর পূর্বে যখন বৌদ্ধধর্মের প্লাবনে সনাতন  
বৈদিকধর্ম বিক্ষয় ও বিপর্য্যস্ত হয়, তখন ভারতের অদ্বিতীয় কৰ্ম-  
মৌমাংসক আচার্য্য কুমাবিল ভট্ট নিজ বৌদ্ধগুরু ধর্মপালকে বিচারে  
পরাজিত করিয়া গুরুবধের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য তুযানলে আত্মাহুতি  
প্রদান করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন. ঐ সময় বহুশিষ্য সমভিব্যাহারে  
সাক্ষাত শিবাবতার আচার্য্য শঙ্কর নিজগুরু গোবিন্দ ভগবৎপাদ কর্তৃক  
আদিষ্ট হইয়া অদ্বৈতসিদ্ধান্ত বিরোধী মতবাদ নিরস্ত করিয়া অদ্বৈত-  
সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আচার্য্য কুমাবিল ভট্টের ত্বন্দ্র-  
প্রবেশের মুহূর্ত্তে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হন এবং বিচারপ্রদর্শনে

তত্বতরে নারীগণ নির্দিষ্ট পথের সন্ধান দিয়া বলেন যে ভবনের  
 চতুর্পার্শ্বে নীড়স্থিত শুক-সারী পক্ষীগণ বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য বা  
 পরতঃ প্রমাণ্য, জগৎ নিত্য অথবা অনিত্য, ঈশ্বর কর্মফল দাতা  
 অথবা কর্মই কর্মফলদাতা এই সকল শব্দ উচ্চারণ কবিতা কলরব  
 করিতেছে সেই ভবনই বিশ্বরূপের ভবন বলিয়া জানিবেন।  
 নারীগণের প্রদর্শিত পথে গমন করিয়া আচার্য্য শঙ্কর ঠিক মধ্যাহ্ন  
 সময়ে অতীব সম্পন্ন মণ্ডনমিশ্রের বহির্বাটীতে উপস্থিত হইলেন।  
 ঐদিন মণ্ডনমিশ্র নিজ ধর্মপত্নী উভয়ভারতীর সহায়তায় সন্ধ্যাবন্ধন  
 প্রভৃতি অগ্নিহোত্র পর্য্যন্ত বিধিবিহিত নিত্যকর্মানুষ্ঠান সমাপনাস্তে  
 পিতৃশ্রাদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ঐ সময়ে বহির্দেশ হইতে কোনও  
 পরিজন কিশোর সন্ন্যাসীর আগমন বার্তা নিবেদন করিলে বিশ্বরূপ  
 জেহুভাবে বলিলেন অন্তর্বাটিকার সকল প্রবেশ পথ বন্ধ করিয়া  
 দাও, মুণ্ডিত মস্তক ভিক্ষু যেন কোনও ক্রমেই প্রবেশের সুযোগ  
 না পায়। মিশ্রের আদেশে সকল প্রবেশ পথ বন্ধ হইল। বিশ্বরূপও  
 তদ্ব্যভাবে পিতৃশ্রাদ্ধে ব্যপৃত হইলেন, তখন শঙ্কর যোগবলে  
 সকল তথা অবগত হইয়া শিষ্ণুগণকে বহির্বাটীতে অপেক্ষা করিতে  
 বলিলেন। নিজে যৌগিক শক্তিপ্রভাবে পিতৃশ্রাদ্ধে ব্যপৃত মণ্ডনমিশ্রের  
 সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। বিশ্বরূপ দেখিলেন তপ্তকাকনবর্ণ, প্রশস্ত  
 লগাট, আভাগুলস্থিত বাহু, ছোয়াতির্ময় এক দিব্য কিশোর সন্ন্যাসী  
 সম্মুখে উপস্থিত। যদিও মণ্ডনমিশ্র বিশ্বয়ে অভিজ্ঞত তথাপি নিজের  
 তাব অব্যক্ত রাধিয়া জেহুভাবে বলিলেন মুণ্ডিত মস্তক ভিক্ষু! আমার  
 পিতৃশ্রাদ্ধকালে বেন আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছ? যদি আমার  
 গৃহে দ্বারত্যা স্বীকার তোমার অভিসম্বিত হয় তবে বহির্বাটীতে  
 গমন করিয়া অপেক্ষা কর, আমার পরিজনগণ তোমাদের চিকার  
 সন্মুখ ব্যর্থতা করিয়া দিবে। আচার্য্য শঙ্কর স্থিতমুখে দ্বার বিনীত-  
 ভাবে বলেন আমি দ্বন্দ্বলিকা করিতে আপনাদের নিকটে উপস্থিত হই  
 নাই, কিন্তু প্রচ্যাত্তানে প্রবেশী সন্মুখে আপনাদের গৃহ ভৌমিক  
 সূনারিল গুরুবধের প্রায়শ্চিত্ত পরিবার মন্ত্র হৃৎমলে প্রাচ্যাত্ত  
 প্রশান কাঁধের সময়ে আমাকে বলিয়াছেন আপনাদের সঙ্গে 'ব্যভাবে

প্রবৃত্ত হইয়া যেই পক্ষ বিজিত হইবেন সেই পক্ষ বিজয়ীৰ শিষ্টত্ব  
 গ্রহণপূৰ্বক বৈদিক ধৰ্মসিদ্ধান্ত ভারতবৰ্ষেৰ প্ৰচাৰেৰ সহায়তা কৰিবেন  
 আমাৰ ইহাই একমাত্ৰ ভিক্ষা। শব্দেৰ বক্তব্য শ্ৰবণ কৰিয়া পিতৃ-  
 শ্ৰাদ্ধ সমাপ্তিৰ পৰে আচাৰ্য্য শব্দেৰ সহিত কথোপকথন প্ৰসঙ্গে  
 বিচাৰে সম্মত হইলেন। মিশ্ৰ প্ৰশ্ন কৰিলেন তুমি অদ্বয় ব্ৰহ্মবাদী  
 আমি কৰ্মকাণ্ডবাদী মীমাংসক, আমাদেৰ উভয়েৰ মধ্যে বিচাৰ সময়ে  
 কে মধ্যস্থতা কৰিবে কেই বা জয় পৰাজয় ঘোষণা কৰিবে।  
 উত্তৰে আচাৰ্য্য শব্দেৰ বলেন বৰ্তমান ভারতবৰ্ষে আমাৰ সহিত মণ্ডন-  
 মিশ্ৰেৰ বিচাৰে একমাত্ৰ আপনাৰ ধৰ্মপত্নী উভয়ভাৰতীই মধ্যস্থতা  
 কৰিবাৰ যোগ্য পাত্ৰী। ইনি যাহাকে বিজয়ী বলিয়া ঘোষণা কৰিবেন  
 তিনিই বিচাৰে বিজয়ী হইয়া বিজিতকে শিষ্টত্ব গ্ৰহণে বাধ্য কৰিবেন।

বিশ্বৰূপ আচাৰ্য্য শব্দেৰ প্ৰস্তাবে সম্মত হইলেন। উভয়  
 ভাৰতীয মধ্যস্থতায পূৰ্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা অবলম্বনে তুন্স  
 শাস্ত্ৰীয় বিচাৰ আৰম্ভ হইল। এইভাবে দীৰ্ঘদিন বিচাৰেৰ পর  
 আচাৰ্য্য শব্দেৰ নিকট বিশ্বৰূপ প্ৰস্তুত হইলেন। এবং পূৰ্ব প্ৰতি-  
 শ্ৰুতিমত শব্দেৰ শিষ্টত্ব গ্ৰহণ কৰিয়া সম্ভাষাশ্ৰমে দীক্ষিত হইলেন।  
 পতিপ্ৰাণা সাক্ষী উভয়ভাৰতীও নিজ পতিৰ সম্মুখে যোগ অবলম্বন-  
 পূৰ্বক দেহত্যাগ কৰিলেন। মণ্ডনমিশ্ৰ এবং শব্দেৰ যুগলীৰ শাস্ত্ৰীয়  
 বিচাৰে উভয়ভাৰতীৰ মধ্যস্থতা দৃষ্ট মনে হয় ওদানীশ্বনকালেও  
 ভারতবৰ্ষে নারীগণ বিবিধ বিজ্ঞান চৰ্চা কৰিয়া পাবনশিনী হইতেন।

তত্ক্ষণে নারীগণ নির্দিষ্ট পথের সন্ধান দিয়া বলেন যে ভবনের  
 চতুর্পার্শ্বে নীড়স্থিত গুরু-সারী পক্ষীগণ বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য বা  
 পরতঃ প্রমাণ্য, জগৎ নিত্য অথবা অনিত্য, ঈশ্বর কর্মকল দাতা  
 অথবা কর্মই কর্মকলদাতা এই সকল শব্দ উচ্চারণ করিয়া কলরব  
 করিতেছে সেই ভবনই বিশ্বরূপের ভবন বলিয়া জানিবেন।  
 নারীগণের প্রদর্শিত পথে গমন করিয়া আচার্য্য শঙ্কর ঠিক মধ্যাহ্ন  
 সময়ে অতীব সম্পন্ন মণ্ডনমিশ্রের বহির্বাটীতে উপস্থিত হইলেন।  
 ঐদিন মণ্ডনমিশ্র নিজ ধর্মপত্নী উভয়ভারতীর সহায়তায় সক্ষ্যাবন্ধন  
 প্রকৃতি অগ্নিহোত্র পর্য্যন্ত বিধিবিহিত নিত্যকর্মালুষ্ঠান সমাপনান্তে  
 পিতৃশ্রাদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ঐ সময়ে বহির্দেশ হইতে কোনও  
 পরিজন কিশোর সন্ন্যাসীর আগমন বার্তা নিবেদন করিলে বিশ্বরূপ  
 ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন অস্ত্রবাটিকার সকল প্রবেশ পথ বন্ধ করিয়া  
 দাও, মুণ্ডিত মস্তক তিনু যেন কোনও ক্রমেই প্রবেশের সুযোগ  
 না পায়। মিশ্রের আদেশে সকল প্রবেশ পথ বন্ধ হইল। বিশ্বরূপও  
 তত্ক্ষণে পিতৃশ্রাদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন, তখন শঙ্কর যোগবলে  
 সকল তথা অবগত হইয়া শিষ্ণুগণকে বহির্বাটীতে অপেক্ষা করিতে  
 বলিলেন। নিজে যৌগিক শক্তিপ্রভাবে পিতৃশ্রাদ্ধে ব্যাপৃত মণ্ডনমিশ্রের  
 সন্মুখে উপস্থিত হইলেন। বিশ্বরূপ দেখিলেন তপ্তকাকনবর্ণ, প্রশস্ত  
 লগাট, আঙ্গানুগথিত বাহু, জ্যোতির্ময় এক দিব্য কিশোর সন্ন্যাসী  
 সন্মুখে উপস্থিত। যদিও মণ্ডনমিশ্র বিশ্বয়ে অভিহৃত তথাপি নিজের  
 তাব অবাঞ্ছিত রাশিয়া ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন মুণ্ডিত মস্তক তিনু। আমার  
 পিতৃশ্রাদ্ধকালে বেন আমার সন্মুখে উপস্থিত হইয়াছ? যদি আমার  
 গৃহে আতিথ্য স্বীকার তোমার অভিলষিত হয় তবে বহির্বাটীতে  
 গমন করিয়া অপেক্ষা কর, আমার পরিজনগণ তোমাদের চিন্তার  
 সন্নিবিষ্ট ব্যবস্থা করিয়া দিবে। আচার্য্য শঙ্কর শিষ্ণুগণে অতি বিনীত-  
 ভাবে বলেন আমি অপ্রতিকা করিতে আপনাদের নিকট উপস্থিত হই  
 নাই, কিন্তু প্রত্যয়বানে ত্রিবেদী সময়ে আপনাদের গুরু চৌপাণ  
 কুমারিদে গুরুবধের প্রায়শ্চিত্ত করিবার অস্ত্র হৃদয়নে আপনাদের  
 প্রধান পরিবার সময়ে আমাকে বলিয়াছেন আপনাদের সঙ্গে বিচারে

প্রবৃত্ত হইয়া যেই পক্ষ বিজিত হইবেন সেই পক্ষ বিজয়ী শিষ্য  
 গ্রহণপূর্বক বৈদিক ধর্ম সিদ্ধান্ত ভারতবর্ষের প্রচারের সহায়তা করিবেন  
 আমার ইহাই একমাত্র ভিক্ষা। শঙ্করের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া পিতৃ-  
 শ্রদ্ধ সমাপ্তির পরে আচার্য্য শঙ্করের সহিত বখোপকথন প্রসঙ্গে  
 বিচারে সম্মত হইলেন। মিশ্র প্রশ্ন করিলেন তুমি অদ্বয় ব্রহ্মবাদী  
 আমি কর্মকাণ্ডবাদী মীমাংসক, আমাদের উভয়ের মধ্যে বিচার সময়ে  
 কে মধ্যস্থতা করিবে কেই বা জয় পরাজয় ঘোষণা করিবে।  
 উত্তরে আচার্য্য শঙ্কর বলেন বর্তমান ভারতবর্ষে আমার সহিত মণ্ডন-  
 মিশ্রের বিচারে একমাত্র আপনার ধর্মপত্নী উভয়ভারতীই মধ্যস্থতা  
 করিবার যোগ্য পাত্রী। ইনি যাহাকে বিজয়ী বলিয়া ঘোষণা করিবেন  
 তিনিই বিচারে বিজয়ী হইয়া বিজিতকে শিষ্য গ্রহণে বাধ্য করিবেন।

বিথকপ আচার্য্য শঙ্করের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। উভয়  
 ভারতীয় মধ্যস্থতায় পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা অবলম্বনে তুমুল  
 শাস্ত্রীয় বিচার আরম্ভ হইল। এইভাবে দীর্ঘদিন বিচারের পর  
 আচার্য্য শঙ্করের নিকট বিথকপ পরাস্ত হইলেন। এবং পূর্ব প্রতি-  
 ষ্টিমত শঙ্করের শিষ্য গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমে দীক্ষিত হইলেন।  
 পতিপ্রাণা সাধ্বী উভয়ভারতীও নিম্ন পতির সম্মুখে যোগ অবলম্বন-  
 পূর্বক দেহত্যাগ করিলেন। মণ্ডনমিশ্র এবং শঙ্করের সুগভীর শাস্ত্রীয়  
 বিচারে উভয়ভারতীর মধ্যস্থতা দৃষ্টে মনে হয় তদানীন্তনকালেও  
 ভারতবর্ষে নারীগণ বিবিধ বিজ্ঞান চর্চা করিয়া পারদর্শিনী হইতেন।

উভয়ভারতীর তিবোধানের পর আচার্য্য শঙ্কর মণ্ডনমিশ্র এবং  
 অগ্ন্যচ্ছ শিষ্যবৃন্দ সমভিব্যাহারে মাহেশ্বরী পুরী ত্যাগ করিয়া প্রত্নত্ন্যা  
 অবলম্বন পূর্বক দেশদেশান্তর অতিক্রম করিয়া শৃঙ্গগিরি পর্বতে উপস্থিত  
 হন। যে মণ্ডনমিশ্র সংসারাশ্রমে আচার্য্য শঙ্করের প্রতি বীতশ্রদ্ধ  
 ছিলেন তিনিই এখন গুরুপরিচর্যায় গুরুর একান্ত শরণাগত।  
 বিথকপ অন্তরঙ্গ শিষ্যগণের মধ্যে প্রধানতম স্থান অধিকার করিয়া  
 গুরুদত্ত মুদেখরাচার্য্য নামে সমগ্রভাষ্যে প্রসিদ্ধিসাধন করিলেন,  
 এবং আচার্য্য শঙ্করের মনুগ্রন্থে সমগ্র বেনাস্বপাত্তের নিমূচত্ব

তত্ত্বের নারীগণ নির্দিষ্ট পথেব সন্ধান দিয়া বলেন যে ভবনের  
 চতুর্পার্শ্বে নীড়স্থিত শুক-সারী পক্ষীগণ বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য বা  
 পরতঃ প্রমাণ্য, জগৎ নিত্য অথবা অনিত্য, ঈশ্বর কর্মকল দাতা  
 অথবা কর্মই কর্মকলদাতা এই সকল শব্দ উচ্চারণ কবিয়া বলরব  
 করিতেছে সেই ভবনই বিশ্বরূপেব ভবন বলিয়া জানিবেন।  
 নারীগণের প্রদর্শিত পথে গমন কবিয়া আচার্য্য শঙ্কর ঠিক মধ্যাহ্ন  
 সময়ে অতীব সম্পন্ন মণ্ডনমিশ্রের বহির্বাটীতে উপস্থিত হইলেন।  
 ঐদিন মণ্ডনমিশ্র নিজ ধর্মপত্নী উভয়ভারতীর সহায়তায় সন্ধ্যাবন্ধন  
 প্রকৃতি অগ্নিহোত্র পর্য্যন্ত বিধিবিহিত নিত্যকর্মালুষ্ঠান সমাপনান্তে  
 পিতৃশ্রাদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ঐ সময়ে বহির্দেশ হইতে কোনও  
 পরিজন কিশোর সম্মাসীব আগমন বার্তা নিবেদন করিলে বিশ্বরূপ  
 ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন অন্তর্বাটিকার সকল প্রবেশ পথ বন্ধ করিয়া  
 দাও, মুণ্ডিত মস্তক তিস্কু যেন কোনও ক্রমেই প্রবেশের সুযোগ  
 না পায়। মিশ্রের আদেশে সকল প্রবেশ পথ বন্ধ হইল। বিশ্বরূপও  
 তদ্ব্যভাবে পিতৃশ্রাদ্ধে ব্যপ্ত হইলেন, তখন শঙ্কর যোগবলে  
 সকল তথ্য অবগত হইয়া শিষ্ণুগণকে বহির্বাটীতে অপেক্ষা করিতে  
 বলিলেন। নিজে যৌগিক শক্তিপ্রভাবে পিতৃশ্রাদ্ধে ব্যপ্ত মণ্ডনমিশ্রের  
 সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। বিশ্বরূপ দেখিলেন তপ্তকাকনবর্ণ, প্রশস্ত  
 ললাট, আজ্ঞানুলম্বিত বাহু, জ্যোতির্ময় এক দিব্য কিশোর সম্মাসী  
 সম্মুখে উপস্থিত। যদিও মণ্ডনমিশ্র বিশ্ববে অভিবৃত্ত তথাপি নিজের  
 ভাব অব্যক্ত রাখিয়া ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন মুণ্ডিত মস্তক তিস্কু! আমার  
 পিতৃশ্রাদ্ধকালে কেন আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছ? যদি আমার  
 গৃহে আতিথ্য স্বীকার তোমার অভিলষিত হয় তবে বহির্বাটীতে  
 গমন করিয়া অপেক্ষা কর, আমার পরিজনগণ তোমাদের ভিক্ষার  
 সমুচিত ব্যবস্থা করিয়া দিবে। আচার্য্য শঙ্কর স্বিতনুখে অতি বিনীত-  
 ভাবে বলেন আমি অন্নভিক্ষা করিতে আপনার নিকট উপস্থিত হই  
 নাই, কিন্তু প্রয়াগধামে জিবেগী মসনে আপনার গুহ ভট্টপাদ  
 কুমারিদে গুহবধের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্ত তুমিআগে আঘাত  
 প্রদান করিবার মনয়ে আমাকে বলিয়াছেন আপনার সঙ্গে বিচারে



প্রবৃত্ত হইয়া যেই পক্ষ বিজিত হইবেন সেই পক্ষ বিজয়ীর শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্বক বৈদিক ধর্মসিদ্ধান্ত ভারতবর্ষেব প্রচারের সহায়তা করিবেন আমার ইহাই একমাত্র ভিক্ষা। শঙ্করের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া পিতৃ-শ্রাদ্ধ সমাপ্তির পরে আচার্য্য শঙ্করের সহিত কথোপকথন প্রসঙ্গে বিচারে সম্মত হইলেন। মিশ্র প্রশ্ন করিলেন তুমি অদ্বয় ব্রহ্মবাদী আমি কর্মকাণ্ডবাদী মীমাংসক, আমাদের উভয়েব মধ্যে বিচার সময়ে কে মধ্যস্থতা করিবে কেউ বা জয় পরাজয় ঘোষণা করিবে। উত্তরে আচার্য্য শঙ্কর বলেন বর্তমান ভারতবর্ষে আমার সহিত মণ্ডন-মিশ্রের বিচারে একমাত্র আপনার ধর্মপঞ্জী উভয়ভারতীই মধ্যস্থতা করিবার যোগ্য পাত্রী। ইনি যাহাকে বিজয়ী বলিয়া ঘোষণা করিবেন তিনিই বিচারে বিজয়ী হইয়া বিজিতকে শিষ্যত্ব গ্রহণে বাধ্য করিবেন।

বিশ্বরূপ আচার্য্য শঙ্করের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। উভয় ভারতীয় মধ্যস্থতায় পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা অবলম্বনে তুগুল শাস্ত্রীয় বিচার আরম্ভ হইল। এইভাবে দীর্ঘদিন বিচারের পর আচার্য্য শঙ্করের নিকট বিশ্বরূপ পরাস্ত হইলেন। এবং পূর্ব প্রতি-শ্রুতিমত শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমে দীক্ষিত হইলেন। পতিপ্রাণা সাধ্বী উভয়ভারতীও নিজ পতির সম্মুখে যোগ অবলম্বন-পূর্বক দেহত্যাগ করিলেন। মণ্ডনমিশ্র এবং শঙ্করের সুগভীর শাস্ত্রীয় বিচারে উভয়ভারতীর মধ্যস্থতা দৃষ্টে মনে হইত তদানীন্তনকালেও ভারতবর্ষে নারীগণ বিবিধ বিচার চর্চা করিয়া পারদর্শিনী হইতেন।

উভয়ভারতীর তিরোধানর পর আচার্য্য শঙ্কর মণ্ডনমিশ্র এবং অগ্ৰ্য্য শিষ্যবৃন্দ সমভিব্যাহারে মাহেন্দ্রতী পুরী ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন পূর্বক দেশদেশান্তর অতিক্রম করিয়া শৃঙ্গগিরি পর্বতে উপস্থিত হন। যে মণ্ডনমিশ্র সংসারশ্রমে আচার্য্য শঙ্করের প্রতি বীতশঙ্ক ছিলেন তিনিই এখন গুফগরিচর্ধ্যায গুরুর একান্ত শরণাগত। বিশ্বরূপ অন্তরঙ্গ শিষ্যগণের মধ্যে প্রধানতম স্থান অধিকার করিয়া গুফদত্ত সুরেশ্বরচার্য্য নামে সমগ্রভারতে প্রসিদ্ধিসাধ করিলেন, এবং আচার্য্য শঙ্করের অনুগ্রহে সমগ্র বেদান্তশাস্ত্রের নিপুণত্ব

হৃদযজ্ঞম করিয়া জীবমুক্তি অবস্থায় উন্নীত হন। আচার্য্য শঙ্কর ও প্রিয়তম শিষ্য সুরেশ্বরচার্য্যকে শৃঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন।

আচার্য্য সুরেশ্বর গুরু কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া 'নৈকর্মাঙ্গিকি' নামক একখানি বেদান্তের গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। আচার্য্য শঙ্কর শৃঙ্গেরী মঠে অবস্থানকালে সুরেশ্বরচার্য্য প্রণীত নৈকর্মাঙ্গিকি গ্রন্থখানি সমাদ্ধ পর্্যালোচনা করিয়া বৃক্কিলেন, সুরেশ্বরচার্য্য যদিও পূর্বাশ্রমে কর্ম-মীমাংসার পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু নৈকর্মাঙ্গিকি গ্রন্থে আচার্য্য শঙ্করের অদ্বৈতব্রহ্মবাদ সুনিপুণভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। উক্তগ্রন্থে কর্মবাদ এবং জ্ঞানকর্ম-সমুচ্চওবাদ পূর্বপক্ষরূপে গ্রহণপূর্বক শাঙ্কর সিদ্ধান্ত অনুসরণ কবিয়া ঋগুন কবিয়াছেন এবং কর্ম, চিত্তশুদ্ধির উপায়রূপে পরম্পরায় উপযোগী হইলেও অদ্বিতীয় ব্রহ্মসাক্ষাতকারই অপবর্গের সাক্ষাত কারণ এই শঙ্কর সিদ্ধান্তই বিবিধ যুক্তি সহকারে সমর্থন করিয়াছেন। এই নৈকর্মাঙ্গিকি গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে সর্বদেহে আত্মা যদি অভিন্ন হয় তাহা হইলে জ্ঞানী ব্যক্তির অজ্ঞানীর দেহ সম্বন্ধপ্রযুক্ত সুখ দুঃখ বোধ হইবে না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আচার্য্য সুরেশ্বর বলেন যে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ সংসারবীদশায় অগ্ৰাণ্ণ আয়তনে অনুভূত সুখ দুঃখাদির যখন আমাদের অনুভব হয় না সুতরাং তত্ত্বসাক্ষাতকার হইবার পরে জীবমুক্ত অবস্থায় অপরাপর দেহাশ্রিত সুখ দুঃখানুভূতির সম্ভাবনা কোথায়? বিশেষতঃ নিজ অনুভূত সুখ দুঃখ যখন অসৎ তখন আগ্রব সুখ দুঃখ তত্ত্বদর্শী পুরুষের সংসক্ত হইবে কি প্রকারে? আচার্য্য সুরেশ্বরের মতে শরীর ইন্দ্রিয় প্রভৃতির ভেদ নিবন্ধন সুখ দুঃখ প্রভৃতিও পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং চৈত্রগত সুখ দুঃখ মৈত্রীে অনুভূত হইতে পারে না। অতএব অজ্ঞানাবস্থায় যখন একের অনুভূত সুখ বা দুঃখ অন্নের অনুভূত হয় না তখন তত্ত্বজ্ঞান উদ্ভিত হইলে দুঃখের মুগীভূত অজ্ঞান নিবৃত্তি হওয়ার পরে অজ্ঞানী সংসারীর সুখ ও দুঃখ কোনও ক্রমেই মুক্ত পুরুষে সংসক্ত হইতে পারে না। এই নৈকর্মাঙ্গিকি গ্রন্থের চতুর্থাধ্যায়ে বলা হইয়াছে আত্মা দৃশ্য

নহে, পরন্তু সকল দৃশ্য বস্তুই সাক্ষী আত্মতত্ত্বসাক্ষাতকারের উদয়  
 হইলে অনায়াসে অর্থাৎ জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় প্রভৃতি আবিষ্কৃত  
 বস্তুমাত্রের নিবৃত্তি হওয়াই অদ্বিতীয় অথও অবিকারী আত্মতত্ত্ব-  
 সাক্ষাতকার হইয়া থাকে। ঐ জ্ঞানের প্রভাবে বৈতপ্রপক তিরাহিত  
 হয়। ইহাই আচার্য্য সুরেশ্বরের সিদ্ধান্ত।

আচার্য্য সুরেশ্বরের আরও তিনখানি বাস্তবিকপ্রবণ পাওয়া যায়।  
 ১। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ব্যবাস্তবিক ২। তৈত্তিরীয়াপনিষদ্ব্যবাস্তবিক  
 ৩। পক্ষীকরণবাস্তবিক। ইহাদের মধ্যে বৃহদারণ্যকভাষ্যবাস্তবিক প্রথমে  
 তৃতীয় ভাষ্যে প্রথমতঃ আচার্য্য সম্প্রদায়ের প্রচলিত বেদান্ত সিদ্ধান্ত  
 সুনিপনভাবে নিরূপণ করা হইয়াছে। পরে অথও শুদ্ধচৈতন্যের  
 বিরোধী বক্ষ্যমান বৌদ্ধমত পূর্বপক্ষরূপে উপস্থাপিত করেন। 'যং  
 সং তং ক্ষণিকং যথা জলধরঃ সন্তুষ্টি ভাবা অমী' ইত্যাদি বৌদ্ধ-  
 সিদ্ধান্তনুসারে প্রত্যেক ভাব পদার্থ যেহেতু সং অতএব সকল ভাব  
 পদার্থই ক্ষণিক, সুতরাং নিত্য প্রত্যগাত্মা অসিদ্ধ এই পূর্বপক্ষ  
 স্থাপন প্রসঙ্গে ক্ষণভঙ্গবাদীগণের সিদ্ধান্ত এই যে, রূপ, বেদনা,  
 বিজ্ঞান, নজ্জা ও সংস্কার নামক রূপপঞ্চকের দ্বারা জাগতিক সমস্ত  
 পদার্থই ব্যাপ্ত। এই রূপপঞ্চায়ক বস্তুমাত্রই বাসনারূপ সংস্কারের  
 দ্বারা সংস্কৃত এবং উৎপত্তিক্ষণমাত্রে স্থিতিশীল বলিয়া ক্ষণিকা।

উক্ত ক্ষণভঙ্গবাদ বওন প্রসঙ্গে বাস্তবিককার বলেন যে—ভাব  
 পদার্থ মাত্রই যদি ক্ষণিক এবং ব্যাপাবশূণ্য হয় তাহা হইলে চৈত্রঃ  
 প্রতিকরণংছুড়াক্ত' ইত্যাদি স্থলে চৈত্রীয ভোজন ক্রিয়াতে আবৃত্তি

- ১। ক্ষণিকাঃ সর্বসংস্কারা অস্থিবাধাং কৃতঃক্রিয়া।  
 স্মৃতির্ধেয়াং ক্রিয়া সৈব কাবকং সৈব চোচ্যতে ॥  
 যাবদ যাবচ্চ ভাবাইদং প্রত্যক্ষেন প্রতীযাত ॥  
 তাবৎ স বর্তমানস্থা নান্তকালবিশেষণঃ ॥  
 একক্ষণচ্চ কালোহয়ং বর্তমান ব্যবস্থিতম্ ॥  
 তস্মাৎ প্রত্যক্ষং তৎসর্বং ক্ষণিকং নতং মম ॥

হৃদয়ঙ্গম করিয়া ধীবন্ধু,ক্তি অবস্থায় উন্নীত হন। আচার্য্য শঙ্কর ও প্রিয়তম শিষ্য সুরেশ্বরচার্য্যকে শৃঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন।

আচার্য্য সুরেশ্বর গুরু কর্তৃক আনিষ্ট হইয়া 'নৈকর্মাঙ্কি' নামক একখানি বেদান্তের গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। আচার্য্য শঙ্কর শৃঙ্গেরী মঠে অবস্থানকালে সুরেশ্বরচার্য্য প্রণীত নৈকর্মাঙ্কি গ্রন্থখানি সম্যক পঠ্যালোচনা করিয়া বুদ্ধিলেন, সুরেশ্বরচার্য্য যদিও পূর্বাশ্রমে কর্ম-মীমাংসার পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু নৈকর্মাঙ্কি গ্রন্থে আচার্য্য শঙ্করের অদ্বৈতব্রহ্মবাদ শূনিপুণভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। উক্তগ্রন্থে কর্মবাদ এবং জ্ঞানকর্ম সমুচ্চওবাদ পূর্বপক্ষরূপে গ্রহণপূর্বক শাঙ্কর সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন এবং কর্ম, চিত্তশুদ্ধির উপায়রূপে পরম্পরায় উপযোগী হইলেও অদ্বিতীয় ব্রহ্মসাক্ষাতকারই অপবর্গের সাক্ষাত কারণ এই শঙ্কর সিদ্ধান্তই বিবিধ যুক্তি সহকারে সমর্থন করিয়াছেন। এই নৈকর্মাঙ্কি গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে সর্বদেহে আত্মা যদি অভিন্ন হয় তাহা হইলে জ্ঞানী ব্যক্তির অজ্ঞানীর দেহ সধ্বকপ্রযুক্ত সুখ দুঃখ বোধ হইবে না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আচার্য্য সুরেশ্বর বলেন যে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ সংসারীদশায় অজ্ঞাত আবেতনে অনুভূত সুখ দুঃখাদির যখন আমাদের অনুভব হয় না সুতরাং তত্ত্বসাক্ষাতকার হইবার পরে জীবন্মুক্ত অবস্থায় অপরাপর দেহাশ্রিত সুখ-দুঃখানুভূতির সম্ভাবনা কোথায়? বিশেষতঃ নিজ অনুভূত সুখ দুঃখ যখন অসৎ তখন অশ্রের সুখ দুঃখ তত্ত্বদর্শী পুরুষের সংস্কৃত হইবে কি প্রকারে? আচার্য্য সুরেশ্বরের মতে শবীর ইঞ্জিয় প্রভৃতির ভেদ নিবন্ধন সুখ দুঃখ প্রভৃতিও পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং চৈত্রগত সুখ দুঃখ মৈত্রী অনুভূত হইতে পারে না। অতএব অজ্ঞানাবস্থায় যখন একের অনুভূত সুখ বা দুঃখ অশ্রের অনুভূত হয় না তখন তত্ত্বজ্ঞান উদ্ভিত হইলে দুঃখের মুগীভূত অজ্ঞান নিবৃত্তি হওয়ার পরে অজ্ঞানী সংসারীর সুখ ও দুঃখ কোনও ক্রমেই মুক্ত পুরুষের সংস্কৃত হইতে পারে না। এই নৈকর্মাঙ্কি গ্রন্থের চতুর্থাধ্যায়ে বলা হইয়াছে আত্মা দৃশ্য

নহে, পরন্তু সকল দৃশ্য বস্তুই সাক্ষী আত্মতত্ত্বসাক্ষাতকারের উদয়  
 হইলে অন্যথাবোধ অর্থাৎ জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় প্রভৃতি আবিষ্কৃত  
 বস্তুমাত্রের নিবৃত্তি হওয়াই অধিতীয় অর্থও অবিকারী আত্মতত্ত্ব-  
 সাক্ষাতকার হইয়া থাকে। ঐ জ্ঞানের প্রভাবে দ্বৈতপ্রপঞ্চ তিরোহিত  
 হয়। ইহাই আচার্য্য শুরেশ্বরের সিদ্ধান্ত।

আচার্য্য শুরেশ্বরের আরও তিনখানি বাস্তবিকপ্রবৃৎ পাওয়া যায়।  
 ১। বৃহদারণ্যকোপনিষত্তত্ত্ববাস্তবিক ২। তৈত্তিরীয়াপনিষত্তত্ত্ববাস্তবিক  
 ৩। পঞ্চীকরণবাস্তবিক। ইহাদের মধ্যে বৃহদারণ্যকভাষ্যবাস্তবিক গ্রন্থের  
 তৃতীয় ব্রাহ্মণে প্রথমতঃ আচার্য্য সম্প্রদায়ের প্রচলিত বেদান্ত সিদ্ধান্ত  
 সুনিপণভাবে নিরূপণ করা হইয়াছে। পরে অর্থও শুদ্ধচৈতন্যেব  
 বিরোধী বক্ষ্যমান বৌদ্ধমত পূর্বপক্ষরূপে উপস্থাপিত করেন। 'সৎ  
 সৎ তৎ কনিকং যথা জলধরঃ সমস্তচ ভাবা অমী' ইত্যাদি বৌদ্ধ-  
 সিদ্ধান্তানুসারে প্রত্যেক ভাব পদার্থ যেহেতু সৎ অতএব সকল ভাব  
 পদার্থই কনিকং, সুতরাং নিত্য প্রত্যগাত্মা অসিদ্ধ এই পূর্বপক্ষ  
 স্থাপন প্রসঙ্গে কনভঙ্গবাদীগণের সিদ্ধান্ত এই যে, রূপ, বেদনা,  
 বিজ্ঞান, সঙ্খা ও সংস্কার নামক স্বরূপকণ্ডের দ্বারা জাগতিক সমস্ত  
 পদার্থই ব্যাপ্ত। এই স্বরূপকণ্ডক বস্তুমাত্রই বাসনাস্বরূপ সংস্কারের  
 দ্বারা সংস্কৃত এবং উৎপত্তিক্রমমাত্রে স্থিতিশীল বলিয়া কনিকং।

উক্ত কনভঙ্গবাদ ঋগুন প্রসঙ্গে বাস্তবিককার বলেন যে—ভাব  
 পদার্থ মাত্রই যদি কনিকং এবং ব্যাপারশূণ্য হয় তাহা হইলে চৈত্র্যঃ  
 প্রতিকরণংহুত্ত্বং ইত্যাদি স্থলে চৈত্রীয ভোজন ক্রিয়াতে আবৃত্তি

† কনিকং: সর্বসংস্কারা অস্থিরাণাং কৃতংক্রিয়া।  
 ভূত্বির্ধেয়াং ক্রিয়া সৈব কারকং সৈব চোচ্যতে ॥  
 যাবদ যাবচ্চ ভাবাইয়ং প্রত্যক্ষেন প্রতীক্যত।  
 তাবৎ স বর্তমানাত্মা নাশকালবিশেষকঃ ॥  
 এককণ্ঠ কালোহয়ং বর্তমান ব্যবস্থিতম্ ॥  
 তস্মাৎ প্রত্যকং তৎসর্বং কনিকং মতং যম ॥

হৃদয়ঙ্গম করিয়া জীবশুক্তি অবস্থায় উন্নীত হন। আচার্য্য শঙ্কর ও প্রিয়তম শিষ্য সুরেশ্বরীচার্য্যকে শৃঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন।

আচার্য্য সুবেশ্বর গুরু কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া 'নৈকর্মাঙ্গি' নামক একখানি বেদান্তের গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। আচার্য্য শঙ্কর শৃঙ্গেরী মঠে অবস্থানকালে সুরেশ্বরীচার্য্য প্রীত নৈকর্মাঙ্গি গ্রন্থখানি সম্যক পৰ্যালোচনা করিয়া বুলিলেন, সুরেশ্বরীচার্য্য যদিও পূর্বাশ্রমে কর্ম-মীমাংসার পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু নৈকর্মাঙ্গি গ্রন্থে আচার্য্য শঙ্করের অদ্বৈতব্রহ্মবাদ সুনিপুণভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। উক্তগ্রন্থে কর্মবাদ এবং জ্ঞানকর্ম সমুচ্চওবাদ পূর্বপক্ষরূপে গ্রহণপূর্বক শঙ্কর সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন এবং কর্ম, চিত্তশুদ্ধির উপায়রূপে পরম্পরায় উপযোগী হইলেও অদ্বিতীয় ব্রহ্মসাক্ষাতকারই অপবর্গের সাক্ষাত কারণ এই শঙ্কর সিদ্ধান্তই বিবিধ যুক্তি সহকারে সমর্থন কবিয়াছেন। এই নৈকর্মাঙ্গি গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে সবদেহে আত্মা যদি অভিন্ন হয় তাহা হইলে জ্ঞানী ব্যক্তির অজ্ঞানীর দেহ সত্বকপ্রযুক্ত সুখ দুঃখ বোধ হইবে না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আচার্য্য সুরেশ্বর বলেন যে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ সংসারীদশায় অজ্ঞাত আধতনে অনুভূত সুখ দুঃখাদির যখন আমাদের অনুভব হয় না সুতরাং তত্ত্বসাক্ষাতকার হইবার পরে জীবশুক্তি অবস্থায় অপরাপর দেহাশ্রিত সুখ-দুঃখানুকৃত্তির সম্ভাবনা কোথায়? বিশেষতঃ নিজ অনুভূত সুখ দুঃখ যখন অসৎ তখন আন্তর সুখ দুঃখ তত্ত্বদর্শী পুরুষের সংসক্ত হইবে কি প্রকারে? আচার্য্য সুরেশ্বরের মতে শবীর ইন্দ্রিয় প্রভৃতিব ভেদ নিবন্ধন সুখ দুঃখ প্রভৃতিও পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং চৈত্রগত সুখ দুঃখ মৈত্রে অনুভূত হইতে পারে না। অতএব অজ্ঞানাবস্থায় যখন একেব অনুভূত সুখ বা দুঃখ আন্তের অনুভূত হয় না তখন তত্ত্বজ্ঞান উদিত হইলে দুঃখের মূলীভূত অজ্ঞান নিবৃত্তি হওয়ার পরে অজ্ঞানী সংসারীর সুখ ও দুঃখ কোনও ক্রমেই মুক্ত পুরুষে সংসক্ত হইতে পারে না। এই নৈকর্মাঙ্গি গ্রন্থের চতুর্থাধ্যায়ে বলা হইয়াছে আত্মা দৃশ

হইবে। যদি উৎপন্ন বস্তুর নাশই তিরোভাব বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে পুনরায় সিদ্ধসাধন দোষ অনিবার্য হইবে, কারণ উৎপন্ন বস্তুর নাশ কেবল বৈশেষিকাদি সিদ্ধান্তই নহে বেদান্ত-সিদ্ধান্তও বটে। সুতরাং স্থিরবস্তু ব্যতিরেকে উৎপন্ন বস্তুর নাশ সম্ভবপর নহে, ফলে ক্ষণভঙ্গুরত্ববাদ ব্যাহত হইবে।

যদি ক্ষণভঙ্গবাদী বলেন উৎপত্তিক্ষেপে তিরোভাব আমাদের অভিপ্রেত এই বস্তুসত্ত্বও সম্ভব নহে, কারণ একই ক্ষেপে কার্যেও উৎপত্তি ও বিনাশ বৈনাশিকদিগেও স্বীকৃত নহে। সুতরাং অতি প্রসক্তিদোষ অবশ্যসম্ভাবী। পরিদৃশ্যমান অর্থক্রিয়াকাবিভ নিবন্ধন রূপ প্রভৃতির ক্ষণিকত্ব যেকপ অসিদ্ধ দীপ সন্তানস্থলেও অনুরূপ অর্থক্রিয়াকাবিভই দীপাদির ক্ষণিকত্বের বাধক হইবে। এই সকল যুক্তিও অস্বাভাবিক বিবিধ যুক্তি অবলম্বন করিয়া ব্যক্তিককার ক্ষণভঙ্গবাদ বিশেষভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। এক্ষেপে ক্ষণভঙ্গবাদের অনুরূপ বৌদ্ধ-সম্প্রদায় প্রদর্শিত যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকম্' ইত্যাদি অনুমান প্রসঙ্গে বেদান্ত ও বৌদ্ধমতের ব্যাপ্তি জ্ঞান ও তাহার উপায় সম্বন্ধে বার্তিকার যাহা বলিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে।

শ্রায়মতে যেমন ব্যক্তিকারজ্ঞানবিগ্রহ এবং সহচারজ্ঞানকে ব্যাপ্তি গ্রহের উপায় বলা হইয়াছে আচার্য্য্য শুরেশ্বরের মতেও ব্যাপ্তিচারের সম্ভাবনা যদি না থাকে তাহা হইলে পূর্বানুভূত সহচারমূলক সংস্কাররূপ কারণ এবং ধূমাদিকল্প ব্যাপাদর্শন হইতে ধূমাদির ব্যাপক বহাদির অনুমান হইয়া থাকে।

ব্যাপ্তিগ্রহের উপায় সম্বন্ধে শ্রায়মতে ও বেদান্তমতে কোনও পার্থক্য না থাকিলেও শ্রায়মতে লিঙ্গদর্শনের দ্বারা উৎপন্ন ব্যাপ্তিগোচর সংস্কার হইতে ব্যাপ্তির স্মৃতি হওয়ার পর তৃতীয় লিঙ্গপর্যায় উৎপন্ন

ঃ মহাগলভসংস্কারাৎ পুনর্ধর্মৈকদর্শনাৎ।

সাইনুমা সম্ভবস্তত্র ব্যক্তিকারস্ত চেন্নহি ॥ বার্তিক ৭১৭

প্রতীক্ষমান হইতে পারে না এবং 'পর্যন্তো বৃক্ষং বৃক্ষং প্রতিসিদ্ধতি'<sup>†</sup> 'গ্রামো গ্রামো রমণীয়ঃ' এই সকল স্থলে বীজিত পদার্থবোধ যাহা সর্বসম্মত, ক্ষণভঙ্গবাদী বৌদ্ধমতে নাশক্রিয়্যার দ্বারা যুগপৎ অনেক অব্যবস্থার ব্যাপ্তি অসম্ভব। তাৎপর্য্য এই যে, পূর্বোক্তনৃসদস্যের প্রথম স্থলে সকল বৃক্ষগত এবং বৃক্ষাশ্রয়দেশগত সেচন ক্রিয়্যার ব্যাপ্তি এবং দ্বিতীয় স্থলে সকল গ্রাম এবং গ্রামের আশ্রয় দেশগত রমণীয়তার ব্যাপ্তিরূপে যে বীজিত পদার্থবোধ ইহা সকলেই স্বীকার করেন। যদি ক্ষণভঙ্গবাদ স্বীকৃত হয় তাহা হইলে নাশক্রিয়্যার দ্বারা পদার্থের অস্থিরতাপক্ষে অনেক অব্যবস্থার ব্যাপ্তি বিকল্পে সম্ভব হইতে পারে।

ক্ষণবাদীগণকে জিজ্ঞাস্য এই যে, 'বিনতানি ক্ষণিকানি' এই প্রতিজ্ঞা বাক্যের ঘটক ক্ষণিকপদের যদি ক্ষণনয়নরূপে নতুং অর্থ বিবক্ষিত হয় তাহা হইলে সিদ্ধ সাধন দোষ অনিবার্য্য। কারণ নিমেষ বা ক্ষণরূপে যে ষণ্ডকাল তাহার সহিত স্থির বস্তুর সম্বন্ধ বৈদান্তিকগণের সিদ্ধান্তঃ। যদি ক্ষণিক শব্দের ক্ষণে তিরোভাব এইরূপ অর্থ ক্ষণভঙ্গবাদীদের অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য-এখানে 'ক্ষণে' এই পদের দ্বারা কোন্ ক্ষণ গৃহীত হইবে। যদি সম্ভাষণে তিরোভাব বিবক্ষিত হয় তাহা হইলে সৰ্বং ক্ষণিকম্' এই নিজ সিদ্ধান্ত ব্যতীত হওয়ায় প্রতিজ্ঞাহানিরূপে দোষ হইবে। যদি ক্ষণান্তরে তিরোভাব বিবক্ষিত হয় তাহা হইলে কাৰণ হইতে উদ্ভূত কার্য্যনিবৃত্তিই ক্ষণান্তরের তিরোভাব পদের অর্থ স্বীকার করিতে হইবে। উক্ত অর্থ স্বীকৃত হইলে তিরোভাব কারণ স্বরূপই হইবে, ফলে স্থির ধর্ম্মা ব্যতিরেকে তাদৃশ তিরোভাব সম্ভব হইতে পারে না। স্থির বস্তু স্বীকৃত হইলে ক্ষণিকত্ববাদের ব্যাঘাত উপস্থিত

† বার্তিক, শ্লোক ৫৮২ - ৫৮৩

বৃ: আ: ৩য় ব্রাহ্মণ।

‡ বার্তিক, শ্লোক ৫৮৩ - ৫৮৪



হইবে। যদি উৎপন্ন বস্তুর নাশই তিরোভাব বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে পুনর্বায সিদ্ধসাধন দোষ অনিবার্য হইবে, কারণ উৎপন্ন বস্তুর নাশ কেবল বৈশেষিকাদি সিদ্ধান্তই নহে বেদান্ত-সিদ্ধান্তও বটে। সুতরাং স্থিরবস্তু ব্যতিরেকে উৎপন্ন বস্তুর নাশ সম্ভবপন নহে, ফলে ক্ষণভঙ্গুবাদ ব্যাহত হইবে।

যদি ক্ষণভঙ্গবাদী বলেন উৎপত্তিক্ষণে তিরোভাব আমাদের অভিপ্রেত এই বস্তুস্তরও সম্ভব নহে, কাবণ একই ক্ষণে কার্য্যেব উৎপত্তি ও বিনাশ বৈনাশিকবিগেরও স্বীকৃত নহে। সুতরাং অতি প্রসক্তিদোষ অবগ্ৰাহ্যবী। পরিদৃশ্যমান অর্থক্রিয়াকারিত্ত্ব নিবন্ধন রথ প্রভৃতির ক্ষণিকত্ব যেকুপ অসিদ্ধ দীপ সম্ভানস্থলেও অনুকূপ অর্থক্রিয়াকারিত্ত্বই দীপাদিব ক্ষণিকত্বের বাধক হইবে। এই সকল যুক্তিও অগ্রান্ত্র বিবিধ যুক্তি অবলম্বন কবিয়া বাস্তিককার ক্ষণভঙ্গবাদ বিশেষভাবে ঋণন করিয়াছেন। এক্ষণে ক্ষণভঙ্গবাদের অনুকূল বৌদ্ধ-সম্প্রদায় প্রদর্শিত যৎ সং তৎ ক্ষণিকম্' ইত্যাদি অনুমান প্রসঙ্গে বেদান্ত ও বৌদ্ধমতের ব্যাপ্তি জ্ঞান ও তাহার উপায় সম্বন্ধে বাস্তিকার যাহা বলিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে।

শ্রায়মতে যেমন ব্যক্তিরজ্ঞানবিগ্ৰহ এবং সহচারজ্ঞানকে ব্যাপ্তি গ্রহের উপায় বলা হইয়াছে আচার্য্য যুরেখরের মতেও ব্যাপ্তিচারের সম্ভাবনা যদি না থাকে তাহা হইলে পূর্বানুভূত সহচারমূলক সংস্কাররূপ কাবল এবং ধূনাদিরূপ ব্যাপাদর্শন হইতে ধূনাদির ব্যাপক বহাদির অনুমান হইয়া থাকে।

ব্যাপ্তিগ্রহের উপায় সম্বন্ধে শ্রায়মতে ও বেদান্তমতে কোনও পার্থক্য না থাকিলেও শ্রায়মতে সিদ্ধদর্শনের দ্বারা উৎসূক্ত ব্যাপ্তিগোচর সংস্কার হইতে ব্যাপ্তির স্মৃতি হওয়ার পর তৃতীয় সিদ্ধদর্শন উৎপন্ন

• মহোপলম্বসংখ্যারং পুনর্বাযৈককেশনাং।

সাইনুমা সম্ভবপত্র ব্যক্তিগোচর চেম্টি। বাস্তিক ৭১৭

প্রতীয়মান হইতে পারে না এবং ‘পর্জন্তো বৃক্ষং বৃক্ষং প্রতিসিক্তি’  
 ‘গ্রামো গ্রামো রমনীয়ঃ’ এই সকল স্থলে বীজিত পদার্থবোধ যাহা  
 সর্বসম্মত, ক্ষণভঙ্গবাদী বৌদ্ধমতে নাশক্রিয়ার দ্বারা যুগপৎ অনেক  
 দ্রব্যের ব্যাপ্তি অসম্ভবা। তাৎপর্ধ্য এই যে, পূর্বোক্তস্থলদ্বয়ের প্রথম  
 স্থলে সকল বৃক্ষগত এবং বৃক্ষাশ্রয়দেশগত সেচন ক্রিয়ার ব্যাপ্তি এবং  
 দ্বিতীয় স্থলে সকল গ্রাম এবং গ্রামের আশ্রয় দেশগত রমনীয়তার  
 ব্যাপ্তিকপ যে বীজিত পদার্থবোধ ইহা সকলেই স্বীকার করেন। যদি  
 ক্ষণভঙ্গবাদ স্বীকৃত হয় তাহা হইলে নাশক্রিয়ার দ্বারা পদার্থের  
 অস্থিরতাপক্ষে অনেক দ্রব্যের ব্যাপ্তি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে।

ক্ষণবাদীগণকে জিজ্ঞাস্য এই যে, ‘বিমতানি ক্ষণিকানি’ এই  
 প্রতিজ্ঞা বাক্যের ঘটক ক্ষণিকপদের যদি ক্ষণমথ্বক্ষীকপ মতুপ্ অর্থ  
 বিবক্ষিত হয় তাহা হইলে সিদ্ধ সাধন দোষ অনিবাধ্য। কারণ  
 নিমেষ বা ক্ষণকপ যে ষড়কাল তাহার সহিত স্থির বস্তুর সম্বন্ধ  
 বৈদান্তিকগণের সিদ্ধান্ত। যদি ক্ষণিক শব্দের ক্ষণে তিরোভাব  
 এইকপ অর্থ ক্ষণভঙ্গবাদীদের অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য-  
 এখানে ‘ক্ষণে’ এই পদের দ্বারা কোন্ ক্ষণ গৃহীত হইবে। যদি  
 সত্তাক্ষণে তিরোভাব বিবক্ষিত হয় তাহা হইলে সর্বং ক্ষণিকম্’ এই  
 নিজ সিদ্ধান্ত ব্যহত হওয়ার প্রতিজ্ঞাহানিকপ দোষ হইবে। যদি  
 ক্ষণান্তরে তিরোভাব বিবক্ষিত হয় তাহা হইলে কারণ হইতে  
 উদ্ভূত কার্যনিবৃত্তিই ক্ষণান্তরের তিরোভাব পদের অর্থ স্বীকার করিতে  
 হইবে। উক্ত অর্থ স্বীকৃত হইলে তিরোভাব কাবণ স্বরূপই হইবে,  
 ফলে স্থির ধর্মী ব্যতিবেকে তাদৃশ তিরোভাব সম্ভব হইতে পারে  
 না। স্থির বস্তু স্বীকৃত হইলে ক্ষণিকত্ববাদের ব্যাঘাত উপস্থিত

† বার্তিক, শ্লোক ৫৮২ - ৫৮৩

বুঃ আঃ ৩য় ভাগ।

‡ বার্তিক, শ্লোক ৫৮৩ - ৫৮৪

হইবে। যদি উৎপন্ন বস্তুব নাশই তিরোভাব বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে পুনর্বায সিদ্ধসাধন দোষ অনিবার্য হইবে, কারণ উৎপন্ন বস্তুব নাশ কেবল বৈশেষিকাদি সিদ্ধান্তই নহে বেদান্ত-সিদ্ধান্তও বটে। সুতরাং স্থিতিবস্তু ব্যতিরেকে উৎপন্ন বস্তুব নাশ সম্ভবপর নহে, ফলে কণভঙ্গুরত্ববাদ বাহত হইবে।

যদি কণভঙ্গবাদী বলেন উৎপত্তিক্রমে তিরোভাব আমাদের অভিজ্ঞেত এই কল্পাস্তবও সম্ভব নহে, কারণ একই ক্ষণে কার্যের উৎপত্তি ও বিনাশ বৈনাশিকদিগেবও স্বীকৃত নহে। সুতবাং অতি-প্রসক্তিদোষ অবশ্যজ্ঞাবী। পবিতৃশ্রুমান অর্থক্রিয়াকারিত্ত নিবন্ধন রথ প্রভৃতির ক্রমিকত্ব যেকপ অসিদ্ধ দীপ সম্ভানস্থলেও অনুকপ অর্থক্রিয়াকাবিভ্বই দীপাদির ক্রমিকত্বের বাধক হইবে। এই সকল যুক্তিও অগ্রান্ত বিবিধ যুক্তি অবলম্বন করিয়া বাস্তিককার কণভঙ্গবাদ বিশেষভাবে খণ্ডন কবিয়াছেন। এক্ষণে কণভঙ্গবাদের অনুকূল বৌদ্ধ-সম্প্রদায় প্রদর্শিত যৎ সং তৎ ক্রমিকম্ ইত্যাদি অন্তমান প্রসঙ্গে বেদান্ত ও বৌদ্ধমতের ব্যাপ্তি জ্ঞান ও তাহার উপায় মথক্ষে বাস্তিকার যাহা বলিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে।

শ্রায়মতে যেমন ব্যাভিচারজ্ঞানবিরহ এবং সহচারজ্ঞানকে ব্যাপ্তি গ্রহের উপায় বলা হইয়াছে আচার্য্যী সুরেশ্বরের মতেও ব্যাভিচারের সম্ভাবনা যদি না থাকে তাহা হইলে পূর্বানুভূত সহচারমূলক সংস্কাররূপ কারণ এবং ধূনাদিকপ ব্যাপ্যদর্শন হইতে ধূনাদির ব্যাপক বহাদির অনুমান হইয়া থাকেঃ।

ব্যাভিচারগ্রহের উপায় মথক্ষে শ্রায়মতে ও বেদান্তমতে কোনও পার্থক্য না থাকিলেও শ্রায়মতে সিদ্ধপর্শনের দ্বারা উৎপন্ন ব্যাপ্তিগোচর সংস্কার হইতে ব্যাপ্তির স্মৃতি হওয়ার পর তৃতীয় সিদ্ধপর্শন উৎপন্ন

ঃ মহোপমন্ত্রসংস্কারঃ পুনর্দ্বীকরণনাং।

শান্তিনুমা সম্ভবন্তব্য ব্যাভিচারস্ত চেত্রহিঃ। বাস্তিক ৭১৭

হইলে পরক্ষণে পক্ষীভূত পর্বত প্রভৃতিতে বহ্যাদির অনুমিতি স্বীকৃত হইয়াছে। বেদান্ত-সিদ্ধান্তে ব্যাপ্তিস্বরূপ বা পরামর্শ স্বীকৃত নহে। বার্তিককার বলেন ধূমদর্শনাধীন পূর্বানুভূত ব্যাপ্তিবিষয়ক সংস্কার হইতেই মহানস প্রভৃতিতে পূর্বদৃষ্ট বহ্যাদির যে ধী অর্থাৎ পর্বত প্রভৃতি পক্ষে অবধাবন তাহাই অনুমা বা অনুমিতি। বার্তিককারের 'সহোপলম্ব' প্রভৃতি উক্তির ফলে ইহা আমরা স্পষ্টতই বুঝিতে পারি। অব্যভিচারী সাধ্যসাধন সম্বন্ধই ব্যাপ্তি। ঐ ব্যাপ্তির আশ্রয় হেতু গমক অর্থাৎ অনুমাপক হইয়া থাকে। এই বেদান্তসিদ্ধান্তেব বিকক্ষে বৌদ্ধগণ বলেন পূর্বোক্ত বেদান্তসিদ্ধান্তও ঠিক নহে। কারণ স্বভাব, কার্যকারণভাব এবং অনুপলক্ষি এই তিনটি হেতুর গমকতার উপাধি অর্থাৎ অভিনাভাবরূপ ব্যাপ্তি গ্রাহক। দৃষ্টান্তস্বরূপে বৌদ্ধগণ বলেন 'অহং বৃক্ষঃ শিশেপাষাঃ' এই সকল স্থলে স্বভাব অর্থাৎ তাদাত্মামূলে অভিনাভাবরূপ ব্যাপ্তিগ্রহ হইয়া থাকে। ধূমাদিলিঙ্গের দ্বারা পর্বত প্রভৃতিতে ধূমের ব্যাপক বহিব যে অনুমান হব সেখানে কার্য- কারণভাবমূলক অর্থাৎ উৎপত্তিমূলক অভিনাভাবগ্রহ হইয়া থাকে। ব্যতিরেকি অনুমানস্থলে ধূমের ব্যাপক যে বহি তাহাব অভাবকে হেতু করিয়া বহির ব্যাপ্য যে ধূম তাহার অভাবকে সাধ্য করিয়া হ্রদ প্রভৃতিতে বহিব্যাপ্য ধূমের অভাব অনুমিত হয়। বৌদ্ধগণ এই ব্যতিরেকি অনুমানে অনুপলক্ষিমূলক বহ্যভাবেয় জ্ঞান হয় বলিয়া অনুপলক্ষিই এখানে বহ্যভাবে ধূমভাবেয় ব্যাপ্তিব গ্রাহক।

আচার্য্য সুরেশ্বর উক্ত বৌদ্ধমত স্বপ্ন প্রসঙ্গে বলেন কেবল সহচারমাত্র জ্ঞান হইতে ব্যাপ্তিগ্রহ হইতে পারে না। যেমন পিতা ও পুত্র, শিষ্য ও আচার্য্য উভয়ের মধ্যে কদচিৎ সহচারদর্শন হইলেও কখনও ভিন্নদেশে অবস্থিত থাকায় উভয়েই পরস্পরের ব্যভিচারী হইয়া থাকে। এইজন্য সহচারজ্ঞান থাকিলেও পিতা পুত্রাদির মধ্যে বা শিষ্যাতার্ব্যের মধ্যে ব্যাপ্তিগ্রহের উদয় হয় না। অতএব অব্যভি- চরিত সাধ্যসাধনের সম্বন্ধকেই ব্যাপ্তি বলিতে হইবে। বৌদ্ধসম্মত অভিনাভাবরূপ ব্যাপ্তিগ্রহের কারণরূপে ব্যভিচারগ্রহাভাবকে স্বীকার না করায় তাদৃশ ব্যাপ্তিগ্রহ সম্ভবপর নহে। বৌদ্ধসম্প্রদায়ের অভিমত

ব্যতিরেক্যানুমান প্রশঙ্গে বাস্তবিকভাবে আচার্য্য সুব্রহ্মণ্যর বলেন সাধ্য-  
 ভাব সিদ্ধের দ্বারা হেতুর অভাব কিভাবে সিদ্ধ হইবে? যদি  
 বলা যায় ধূমের ব্যাপক যে বহি তদ্বিষয়ক জ্ঞানের কারণ সমুদায়  
 উপস্থিত থাকিলেও বহি অনুপলক্ষি প্রযুক্ত বহ্যভাব অবগত  
 হইয়া সেই অবগতির ফলে ব্যাপ্য যে ধূম তাহার অভাব অনুমিত  
 হইয়া থাকে। অতএব কোনও বিশেষ কারণ ব্যতিবেকে ব্যাপক যে  
 বহি তাহার অনুপলক্ষি মাত্র হইতে বহ্যভাবের প্রতীতি হওয়া  
 পরে ধূমভাব অনুমিত হইয়া থাকে। অতএব বহিধূমের অধ্যানু-  
 মান হওয়ার পরে বহ্যভাবে ধূমভাবের পূর্বোক্তপ্রকারে অবিনাভাব  
 গৃহীত হইয়া ব্যতিরেকি অনুমান হইবে। ইহার ফলে ব্যভিচারজ্ঞানকে  
 ব্যাপ্তিগ্রাহ্য বিরাধী স্বীকার করিলাও ব্যভিচারগ্রহণাত্মকে ব্যাপ্তি-  
 গ্রহের উপায় স্বীকার করিবার প্রয়োজন রহিল না। কারণ যেখানে  
 অধ্যানুমানের পরে প্রকৃতসাধ্যভাবকে হেতু করিয়া প্রকৃতহেতুভাবের  
 ব্যতিরেক্যানুমান সম্ভবপর হয় সেখানে ব্যভিচারশব্দ বা নিশ্চয় হওয়ার  
 স্ভাবনা থাকে না।

বৌদ্ধগণের এই ব্যতিরেক্যানুমান যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ পার্বত্য  
 উপত্যাকাপ্রদেশ অর্থাৎ সম্মিহিত স্থানে লোষ্টবিশেষে অনুপলক্ষিমূলক  
 বহ্যভাব নিশ্চিত হইলেও ধূমভাবের অনুমিতি হয় না। অধিকন্তু  
 অনুপলক্ষিমূলক যেকোন বহ্যভাবের নিশ্চয় হয় তদ্রূপ ধূমভাবেরও  
 অনুপলক্ষিমূলে নিশ্চয় হইয়া থাকে। যদি বৌদ্ধগণ বলেন পূর্বোক্ত  
 সম্মিহিত স্থানে বহ্যভাবের প্রাত্যক্ষিক নিশ্চয়ই হইয়া থাকে অনুপ-  
 লক্ষিমূলক নহে। এই বক্তব্যও ঠিক নহে। যদি বহ্যভাবের  
 প্রাত্যক্ষিক নিশ্চয় স্বীকৃত হয় তথা হইলে ধূমভাবেরও সেখানে  
 প্রাত্যক্ষিক নিশ্চয়ই হইবে। সুতরাং সেখানে ব্যতিরেকি অনুমান  
 কল্পনা করা নিঃপ্রয়োজনঃ\*

\* প্রত্যক্ষগোচর সাধ্যভাবসেই প্রতিপাত্তে।  
 প্রত্যক্ষগোচর সিদ্ধবানমুদৈবং ১৫৩ ভাঃ ২।  
 বাস্তবিক প্রোগ ৭০৪

হইলে পরক্ষণে পক্ষীভূত পর্বত প্রভৃতিতে বহ্যাদির অনুমিতি স্বীকৃত হইয়াছে। বেদান্ত-সিদ্ধান্তে ব্যাপ্তিস্মরণ বা পরামর্শ স্বীকৃত নহে। বাস্তবিককার বলেন ধূমদর্শনাধীন পূর্বানুভূত ব্যাপ্তিবিষয়ক সংজ্ঞাব হইতেই মহানন্দ প্রভৃতিতে পূর্বদৃষ্ট বহ্যাদির যে ধী অর্থাৎ পর্বত প্রভৃতি পক্ষে অবধারণ তাহাই অনুমা বা অনুমিতি। বাস্তবিককারের 'সহোপলম্ব' প্রভৃতি উক্তির ফলে ইহা আমরা স্পষ্টতই বুঝিতে পারি। অব্যভিচারী সাধ্যসাধন সম্বন্ধই ব্যাপ্তি। ঐ ব্যাপ্তির আশ্রয় হেতু গমক অর্থাৎ অনুমাপক হইয়া থাকে। এই বেদান্তসিদ্ধান্তের বিকল্পে বৌদ্ধগণ বলেন পূর্বোক্ত বেদান্তসিদ্ধান্তও ঠিক নহে। কারণ স্বভাব, কার্যকারণভাব এবং অনুপলক্ষি এই তিনটি হেতুর গমকতাব উপায় অর্থাৎ অভিনাভাবরূপ ব্যাপ্তি গ্রাহক। দৃষ্টান্তস্বরূপে বৌদ্ধগণ বলেন 'অথঃ বুদ্ধঃ শিংশপায়াঃ' এই সকল স্থলে স্বভাব অর্থাৎ তাদাত্ম্যমূলে অবিনাভাবরূপ ব্যাপ্তিগ্রহ হইয়া থাকে। ধূমাদিলিঙ্গের দ্বারা পর্বত প্রভৃতিতে ধূমের ব্যাপক বহিব যে অনুমান হয় সেখানে কার্য-কারণভাবমূলক অর্থাৎ উৎপত্তিমূলক অবিনাভাবগ্রহ হইয়া থাকে। ব্যতিরেকি অনুমানস্থলে ধূমের ব্যাপক যে বহি তাহাব অভাবকে হেতু করিয়া বহির ব্যাপ্য যে ধূম তাহাব অভাবকে সাধ্য করিয়া হ্রদ প্রভৃতিতে বহিব্যাপ্য ধূমের অভাব অনুমিত হয়। বৌদ্ধগণ এই ব্যতিরেকি অনুমানে অনুপলক্ষিমূলক বহ্যভাবের জ্ঞান হয় বলিয়া অনুপলক্ষিই এখানে বহ্যভাবে ধূমভাবের ব্যাপ্তিব গ্রাহক।

আচার্য্য সুরেশ্বর উক্ত বৌদ্ধমত ঋণন প্রসঙ্গে বলেন কেবল সহচারমাত্র জ্ঞান হইতে ব্যাপ্তিগ্রহ হইতে পারে না। যেমন পিতা ও পুত্র, শিষ্য ও আচার্য্য উভয়ের মধ্যে কদচিৎ সহচারদর্শন হইলেও কখনও ভিন্নদেশে অবস্থিত থাকায় উভয়ই পবম্পর্কের ব্যভিচারী হইয়া থাকে। এইজন্য সহচারজ্ঞান থাকিলেও পিতা পুত্রাদির মধ্যে বা শিষ্যচার্য্যের মধ্যে ব্যাপ্তিগ্রহের উদয় হয় না। অতএব অব্যভি-চরিত সাধ্যসাধনের সম্বন্ধকেই ব্যাপ্তি বলিতে হইবে। বৌদ্ধসম্মত অভিনাভাবরূপ ব্যাপ্তিগ্রহের কারণরূপে ব্যভিচারগ্রহাভাবকে স্বীকার না করার তাদৃশ ব্যাপ্তিগ্রহ সম্ভবপর নহে। বৌদ্ধসম্প্রদায়ের অভিমত

বাদ প্রভৃতি বিশেষ যুক্তিসহকারে খণ্ডন করিয়া পূর্বপ্রদর্শিত যুক্তিবলে  
 বাহ্যার্থবাদী, বিজ্ঞানবাদী : এবং মাধ্যমিকগণের শূণ্যবাদ নিরাকরণ  
 করিয়াছেন\* ।

বৈভাষিক এবং সৌত্রাস্তিক বৌদ্ধগণ ব্রহ্মবাদের বিক্ষেপে বলেন  
 যে ধী অর্থাৎ বুদ্ধিব্যতিরিক্ত বুদ্ধিসাক্ষী প্রত্যক্ষগম্য নহে সুতরাং  
 বৈদান্তিকগণ যাহাকে প্রত্যক্ষচৈতন্য বলেন--ঐটৈতন্য বুদ্ধি বিশেষ,  
 অশ্রু কিছু নহে। আমরা প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটি প্রমাণ  
 স্বীকার করি। তৃতীয় কোনও প্রমাণ নাই। অতএব দ্বন্দ্বিক-  
 বিজ্ঞানসম্মতিকালে পূর্বপূর্ববিজ্ঞানাত্যিক চৈতন্য অর্থাৎ দ্বির আত্মা  
 যখন প্রত্যক্ষগম্য নহে তখন প্রত্যক্ষচৈতন্য প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ  
 নহে। যাহা দৃশ্য তাহা স্বাতিরিক্ত কোনও বস্তুর দ্বারা দৃশ্য হইয়া  
 থাকে যেমন ঘটাদি। উক্ত দৃষ্টান্তমূলে বুদ্ধিকে পক্ষ করিয়া দৃশ্যকে  
 হেতু করিয়া বুদ্ধ্যতিরিক্ত প্রকাশরূপে আত্মা যদি সাধ্যের ঘটক  
 হয় তাহা হইলে সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষ হইবে। কারণ আমাদের  
 মতে বুদ্ধি স্বয়ং প্রকাশ। সুতরাং আত্মা প্রত্যক্ষ বা অনুমানের  
 দ্বারা অসিদ্ধ হওয়ায় আত্মার শুদ্ধতা, নিত্যতা প্রভৃতি ধর্মও অসিদ্ধ  
 হইবে। যদি বৈদান্তিকগণ বলেন যে বুদ্ধি এবং আত্মা উভয়ের  
 মধ্যে ভাস্য ভাসক সম্বন্ধ থাকার ফলে আত্মা বুদ্ধি হইতে ভিন্ন  
 ইহা সিদ্ধ হইতে পারে। ইহার প্রতিবাদে বৌদ্ধগণ বলেন--  
 বৈদান্তিকগণের চিন্মাত্রা বুদ্ধি হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নহে পরন্তু  
 বুদ্ধিস্বরূপ। কখনও সেই বুদ্ধি স্বয়ংপ্রকাশ ; কখনও বা বিষয়াকারে  
 প্রকাশিত। বুদ্ধির এই দুইটি ভাব। অতএব ধীর অতিরিক্ত  
 প্রত্যক্ষাত্মা প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ না হওয়ায় বুদ্ধিসাক্ষী

- \* বৈভাষিক ও সৌত্রাস্তিক বাহ্যার্থবাদী  
 : যোগাচার বিজ্ঞানবাদী, মাধ্যমিক শূণ্যবাদী  
 : খোট্টোবাপক্ষুভেতঃ কংস্ববস্ত্রনোহতো ন যগতে ।  
 নিবাচিকৌষয়া শূণ্যবাদিনোহবিষয়ভেতঃ ।  
 † : বাস্তবিক ৮৩৭ প্রোগ

উক্ত ঋগ্ণের প্রত্যুত্তরে যদি বৌদ্ধগণ বলেন সন্নিকৃষ্টদেশে পূর্বেক্ত ব্যতিরেকি অনুমান আমাদের অভিজ্ঞত নহে পবস্ত অসন্নিকৃষ্ট দেশে ব্যতিরেকি অনুমান আমাদের অভিজ্ঞত। বৌদ্ধদের এই মতও যুক্তিসিদ্ধ নহে। কারণ পার্বত্য অধিত্যাকাপ্রদেশে অর্থাৎ উক্তপ্রদেশে অসন্নিকৃষ্ট অংশবিশেষে অগ্নিব উপলদ্ধি সম্ভবপব নহে বলিয়া বহ্যভাবে নিশ্চয় অবশ্যই স্বীকাব কবিত্তে হইবে। অথচ সেখানে ধূম প্রত্যক্ষসিদ্ধ হওয়াব কোনও প্রকাবেই বহ্যভাবরূপ লিপ্তের দ্বারা ধূমভাবের অনুমিত্তি হইতে পারে না।

সুতরাং বৌদ্ধদের ব্যতিরেকি অনুমান প্রমাণসিদ্ধ নহে† ।

আচার্য্য সুরেশ্বর পূর্বেক্ত প্রকারে ব্যতিরেকি অনুমান ঋগ্ণ কবিয়া বলেন বৌদ্ধদের অধ্যয়নুমানও সম্ভবপর নহে। কারণ পূর্বেক্ত যুক্তিতে বহ্যভাব যখন ধূমভাবের ব্যতিকারী সিদ্ধ হইয়াছে তখন বহিঃসূত্রের অধ্যয়ন সহচারমূলক অবিভাবগ্রহও সম্ভবপর নহে। অনুসন্ধান করিলে বৃষ্টিতে পারা যায় যে পার্বত্য অধিত্যাকা প্রদেশে ধূমদর্শন হইলেও বাবৎকাল পর্য্যন্ত অগ্নির দর্শন না হয় তাবৎকাল পর্য্যন্ত সেখানে অগ্নি নিশ্চিত হইতে পারে না। সুতরাং বৌদ্ধ মতানুযায়ী অধ্যয়নুমানও অসিদ্ধ‡ ।

এইভাবে আচার্য্য সুরেশ্বর অধ্যয়নুমান এবং ব্যতিরেকানুমান ঋগ্ণ করিয়া বেদান্তসম্মত অধ্যয়নব্যতিরেকানুমান প্রদর্শন করেন, পরে বৌদ্ধদের বিবক্ষিত গম্যগমকভাব, স্বভাব বাদ, কার্য্যকারণভাব, অপোহ-

† অধিত্যাকাদৌ দেশে তু হ্যুপলঙ্করনস্তবৎ ।

‡ তুদগ্ধ্যাত্তভাবেহপি কদাচিত্তুমসম্ভবঃ ॥

বৃঃ ব্যক্তিক ৭২৫ শ্লোক

‡ তাবপ্রাবসিতুং শক্যং তবিত্তবামিহাশ্রিতা ।

ইতি ধূমোপলম্বত্বাঙ্কুপ্ত্রীধূমোপলম্ববৎ ॥



বাদ প্রভৃতি বিশেষ যুক্তিসহকারে খণ্ডন করিয়া পূর্বপ্রদর্শিত যুক্তিবলে  
 বাহার্যবাদী, বিজ্ঞানবাদ : এবং মাধ্যমিকগণের শূণ্যবাদ নিবাকবণ  
 করিয়াছেন :\* ।

বৈভাষিক এবং সৌত্রাস্তিক বৌদ্ধগণ ত্রয়বাদের বিক্ষেপে বলেন  
 যে ধী অর্থাৎ বুদ্ধিব্যতিরিক্ত বুদ্ধিসাক্ষী প্রত্যক্ষগম্য নহে সুতরাং  
 বৈদাস্তিকগণ যাহাকে প্রত্যক্ষচৈতন্য বলেন—ঐচৈতন্য বুদ্ধি বিশেষ,  
 অথ কিছু নহে। আমরা প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটি প্রমাণ  
 স্বীকার করি। তৃতীয় কোনও প্রমাণ নাই। অতএব দ্বন্দ্বিক-  
 বিজ্ঞানসম্মতিকালে পূর্বপূর্ববিজ্ঞানাতিরিক্ত চৈতন্য অর্থাৎ স্থির আত্মা  
 যখন প্রত্যক্ষগম্য নহে তখন প্রত্যক্ষচৈতন্য প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ  
 নহে। যাহা দৃশ্য তাহা স্বাতিরিক্ত কোনও বস্তুর দ্বারা দৃশ্য হইয়া  
 থাকে যেমন ঘটাদি। উক্ত দৃষ্টান্তমূলে বুদ্ধিকে পক্ষ করিয়া দৃশ্যত্বকে  
 হেতু করিয়া বুদ্ধাতিরিক্ত প্রকাশকরূপে আত্মা যদি সাধ্যের ঘটক  
 হয় তাহা হইলে সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষ হইবে। কারণ আমাদের  
 মতে বুদ্ধি স্বয়ং প্রকাশ। সুতরাং আত্মা প্রত্যক্ষ বা অনুমানের  
 দ্বারা অসিদ্ধ হওয়ায় আত্মার শুদ্ধত্ব, নিত্যত্ব প্রভৃতি ধর্মও অসিদ্ধ  
 হইবে। যদি বৈদাস্তিকগণ বলেন যে বুদ্ধি এবং আত্মা উভয়ের  
 মধ্যে ভাস্য ভাসক সম্বন্ধ থাকার ফলে আত্মা বুদ্ধি হইতে ভিন্ন  
 ইহা সিদ্ধ হইতে পারে। ইহার প্রতিবাদে বৌদ্ধগণ বলেন—  
 বৈদাস্তিকগণের চিদাত্মা বুদ্ধি হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নহে পরন্তু  
 বুদ্ধিস্বরূপ। কখনও সেই বুদ্ধি স্বয়ংপ্রকাশ ; কখনও বা বিষয়াকারে  
 প্রকাশিত। বুদ্ধির এই দুইটি ভাব। অতএব ধীর অতিরিক্ত  
 প্রত্যগাত্মা প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ না হওয়ায় বুদ্ধিসাক্ষী

- \* বৈভাষিক ও সৌত্রাস্তিক বাহার্যবাদী  
 : যোগাচার বিজ্ঞানবাদী, মাধ্যমিক শূণ্যবাদী  
 : স্বোক্তোবাধাপহৃত্তঃ স্তম্ভবপ্তনোহতো ন যতাত্তে ।  
 নিরাচিকীষয়া শূণ্যবাদিনোহবিষদ্রহতঃ ।  
 : ব্যতিক ৮০৭ শ্লোক

বলিয়া কোনও পদার্থান্তর নাই। এইরূপে বৈভাসিক এবং সৌত্রাস্তিক বুদ্ধি ও ভাসক আত্মার অভিন্নতা প্রতিপাদন করিলে আচার্য্য সুরেশ্বর অভ্যুপগমবাদ অবলম্বনপূর্বক বলিয়াছেন—তোমাদের ঐমত অর্থাৎ ভাস্ত্র ভাসকের অভিন্নতা বৈদাস্তিকগণেরও সম্মত। বাস্তবিক-পক্ষে পরমার্থদৃষ্টিতে প্রত্যগাত্মাও বুদ্ধির মধ্যে কোনও বিভিন্নতা নাই। এইভাবে আচার্য্য সুরেশ্বর অদ্বয় ব্রহ্মবাদ স্থাপন করিয়াছেন।

আমরা যতদূর বাস্তবিকগ্রন্থ আলোচনা করিয়াছি তাহাতে মনে হয় আচার্য্য সুরেশ্বর বৌদ্ধমত পর্যালোচনা করিয়া যেভাবে খণ্ডন করিয়াছেন তদ্রূপ বিস্তৃতভাবে গ্রামবৈশেষিকমত খণ্ডিত হয় নাই। প্রসঙ্গক্রমে একটি শ্লোকের মাধ্যমে অন্ত্যন্ত দার্শনিকগণের মতবাদের সহিত গ্রামবৈশেষিক মতও সংক্ষিপ্তভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। ইহার সমর্থনে আচার্য্য সুরেশ্বর বলেন—

এবমাগমতঃ সিদ্ধ ঐকাত্ম্যেহ মুভবাশ্রবাৎ।

নাত্তসিদ্ধান্ত সংসিদ্ধির্গ্ৰভাতে সর্বতাকিকৈঃ ॥ ১

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, নৈসর্গিকগণ যে প্রমাণ, প্রমেয় প্রভৃতি ষোড়শ পদার্থের এবং বৈশেষিকগণ দ্রব্য, গুণ প্রভৃতি ষট্ পদার্থের পারমার্থিকত্ব স্বীকার করেন ইহা তর্ক বা প্রমাণসিদ্ধ নহে। কারণ ঋতিবিকল্প প্রমাণ প্রমাণ নহে, পরন্তু প্রমাণাভাস। ঋতিবিকল্প তর্ক তর্ক নহে তর্কাভাস মাত্র। আরও বলা যায় ঋতিবিকল্প যে অন্ত্যন্ত তর্কিক আগম তাহা আগমাভাস মাত্র। সুতরাং নৈসর্গিক এবং বৈশেষিকগণের সম্বন্ধিত তর্ক, প্রমাণ বা আগমের সাহায্যে যে সকল পদার্থ নিশ্চিত হইয়াছে সেই সকল পদার্থ কোনও ক্রমেই পারমার্থিক মতা হইতে পারে না। বেদান্ত মতে কিন্তু ভগবতী ঋতি 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্, তৎ সত্যং স আত্মা তত্তমসি শ্বেতকেতুঃ' এই সকল মন্ত্রের মাধ্যমে অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। আচার্য্য সুরেশ্বর কেবলমাত্র যে আচার্য্য শঙ্করের অনুগত শিষ্য ছিলেন তাহা নহে পরন্তু নির্বৃত্তভাবে আচার্য্য শঙ্করের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কেবল ভারতবর্ষে নহে সমগ্র জগতে অদ্বৈতব্রহ্মবাদের বিজয়বৈজয়স্ত্রী উড্ডীন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইতি শম্।

# [ ॥ श्रीसुरेश्वराचार्यस्तकृतबौद्धादिमतसमीक्षा च ॥

( बंगालीनापालेखसंप्रदः )

॥ प्रबन्धेऽस्मिन् संक्षेपेण श्रीसुरेश्वराचार्यस्य पूर्वश्रमवृत्तान्तो वर्णितः । ततश्च भगवता शङ्कराचार्येण सह परिचयः, शाब्दार्थविचारणया मण्डन-  
मिश्रनामवेयस्य श्रीविद्धारूपस्य पराजयवीकारः । ततो गृहस्थाश्रमत्यागः ।  
मावच्छङ्कराचार्यपादेन साधनचतुष्टयसम्पन्नोऽयं सन्न्यासाश्रमे दीक्षितः ।  
शार्तिकादिग्रन्थप्रणयने समुत्साहितश्च । तदनन्तरं श्रीसुरेश्वराचार्यप्रणीतस्य  
नैशक्यसिद्धिनामधेयग्रन्थस्य संक्षेपेण प्रतिपाद्यविषयवर्णनम् । समनन्तरश्च  
बौद्धसम्प्रदायानां क्षणिकविज्ञानवादः पूर्णपक्षरूपेणोपस्थापितः । ततः  
श्रीसुरेश्वराचार्यविवक्षितविवेकेन क्षणिकवादखण्डनम् । अनन्तरं बौद्धसम्मत-  
व्याप्तिमहोपायप्रदर्शनप्रसङ्गे नैयायिकवैदान्तिकयोर्व्याप्तिमहोपायविषये  
रेकमत्यमुपदर्शितम् । तदनन्तरश्च रूपत्रयोपपन्नस्य हेतोरविनाभावग्राहकत्वं  
गमकत्वश्चाशङ्क्य बौद्धमतसिद्ध्या व्याप्तेः स्यभावतदुत्पत्तिप्रयोज्यत्वमाशङ्क्य  
निराकृतम् । वैनाशिकसम्मतस्यानुमानस्य अन्वयित्वं व्यतिरेकित्वञ्च युक्त्या  
निराकृत्य वैदान्तिकसम्मतमन्वयव्यतिरेक्यनुमानमुपदर्शितम् । अतः परं  
वैभाषिकसौत्रान्तिकयोः प्रत्यक्षैतन्यविरोधिमतवादमालोच्य अद्वैतवेदान्तमत-  
सिद्धं प्रत्यक्षैतन्यमन्युपगमवादेन निर्बूढमुपपादितम् । उपसंहारे च संक्षेपतो  
नैयायिकसम्मतानां वैशेषिकसम्मतानाम् पदार्थानां पारमार्थिकत्वं निराकृत्य  
श्रीतप्रमाणसिद्धं अद्वैतब्रह्मत्वं सुप्रविष्टिमिति संक्षेपः ॥

— मधुघटनमहाचार्यः । ]

(Summary)

## SRI SUREŚVARĀCĀRYA AND HIS INVESTIGATION INTO BAUDDHA AND OTHER FAITHS

(Madhusudan Bhattacharya)

Beginning with a brief sketch of Śrī Sureśvara's life, the paper mentions the Ācārya's works with an analytical study of *Natṣkarmyasiddhi*. Then comes the Ācārya's exposition of the fallacies of the Buddhist schools of philosophy—Kṣāṇika Viñāna Vada, Vaiśeṣika, Vaiśāṅhika, and Sautrāntika, and finally are the refutation of the supremacy that Naiyāyikas and Vaiśeṣikas ascribe to *padarthas* (or categories) and the assertion of the supremacy and reality of Advaita *Brahmatattva* based on the authority of the *Śruti*



1. Sri Suresvarācārya	...	1
Ācharya Bhai Shankar Purohit, Pradānācārya, (Principal) Mumbādevī Samskrita Mahāvīdyālaya, Bhāratīya Vīdyā Bhavan, Bombay-7.	...	7
Summary in English	...	

# શ્રી. સુરેશ્વરાચાર્ય

વે. આચાર્ય ભાઈશંકર પુરેલિત,  
પ્રધાનાચાર્ય, સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલય,  
ભારતીય વિદ્યા ભવન, મુંબઈ.

અદ્વૈતવેદાન્તના પુસ્કર્તા અને પ્રતિષ્ઠાપક ભગવત્પાદ શ્રી શંકરાચાર્યનું પ્રમુખ ચાર શિષ્યોમાં શ્રી સુરેશ્વરાચાર્ય એક હતા, સુરેશ્વરાચાર્યને 'વાર્તિકકાર' તરીકે પણ વિદ્વાનો સંબોધે છે. અદ્વૈતવેદાન્તના મૂર્ધન્ય અને મૌલિક પ્રમાણભૂત ગ્રંથોમાં વાર્તિકોનો સમાવેશ થાય છે. જ્યોત્ષી વેદાન્તા વાર્તિકાન્તા : એવી પ્રસિદ્ધિ છે. તાત્પર્ય એ કે વાર્તિકકાર સુરેશ્વરાચાર્યને પ્રમાપક આચાર્ય ગણવામાં આવે છે.

ભગવાન શંકરાચાર્યે ભારતની અનેક વાર પદયાત્રાઓ કરી, અદ્વૈતવેદાન્તને સિદ્ધાન્ત તરીકે નિર્દુર્લભ પ્રસ્થાપિત કરી, જનસમુદાયમાં તત્ત્વજોષ અને પરમનિષ્ઠા જાળવાઈ રહે એ માટે ભારતની ચારે દિશાઓમાં ચાર મઠો સ્થાપ્યા. ચારે મઠોમાં તેમણે પોતાના વિદ્યાપારંગત અને બહુનિષ્ઠ ચાર શિષ્યોને પ્રતિષ્ઠિત કર્યા. દક્ષિણમાં શ્રી સુરેશ્વરાચાર્યને શ્રી ગેરીમા પ્રતિષ્ઠિત કર્યાં. પ્રાચીન ગ્રંથોમાં આ બન્ને તીર્થભૂમિઓના મહત્તા સ્થાન તરીકે ઉલ્લેખ થયેલો જોવા મળે છે. વળી સદૃશ્યને આ બન્ને મઠોને પરમવિરક્ત અને શોનિય આચાર્યોની પરંપરા સંપત્તિ છે જ્યોત્ષી જનસાપારણમાં પણ બન્ને મઠો પ્રભે ભકિતભાવ પ્રવર્તે છે.

## શ્રી સુરેશ્વરાચાર્યની પૂર્વાવસ્થા

શ્રી સુરેશ્વરાચાર્ય પૂર્વાશમમાં ખંતદેશમાં આવેલી માણિખતી નગરમાં વસતા હતા ત્યાં ચારે મંડનમિત્રા' નામથી સત્તર ભારતમાં વિખ્યાત હતા. તંત્રજા નિકતા લેખક અને મીમાંસાદર્શનના પ્રવાસક પ્રખર વૈદિક શ્રી કુમારિય બટુના તેઓ શિષ્ય હતા. મંડનમિત્રા મુન્ના કાવિને સમર્થ રીતે આગળ પપાવો રચ્યા હતા. મીમાંસાના ઉપાલયા મંડનમિત્રાના પત્નિ જ્ઞેની એનાં ઉર્વિ સદસ્થોને તાન બેતવના આચાર્ય મંડનમિત્રાને લાગણ્ય રિત્યા શ્રી શંકરાચાર્યને દિગ્વિજય અપૂર્વ તપાષ આપી શ્રી શંકરાચાર્ય મંડનમિત્રા પાસે રચ્યા. મંડનમિત્રાને ઘેર તનદિવત ઘાઓ

વચાઓ અવિરતપણે ચાલ્યા કરતી આથી, કહેવાય છે કે એમના ઘેર પાંજરાઓમાં રહેતાં મેના અને પોપટો પણ શસયર્થીઓ કરતાં. આ જ ઓળાણીથી શંકરે મંડનનું ઘર યોધી કાઢ્યું.

### શાસ્ત્રાર્થ અને મંડનનો સન્યાસ સ્વીકાર

સમગ્ર ભારતના ઉત્તમ જ્યોતિર્ધિની ચર્ચા વખતે બલાબલનો નિર્ણય કરનાર પ્રતિભાસંપન્ન વ્યક્તિની શોધ ચાલી, આખરે મંડનની યરસ્વતી સમી પત્ની ભારતીનું નામ આચાર્ય પોતે જ નિર્ણયકના કામ માટે સૂચવ્યું. ભારતીની આમાં વિદ્વતાની જ નહિ પણ તટસ્થતાની જે ભારે કસોટી હતી. છતાં જે તેણે તે કાર્ય સર્વને આશ્ચર્ય પમાડે એવી કુશળતાથી પૂર પાડ્યું. સચનિ રૂતિ ભારતીએ શ્રી શંકરાચાર્યના વિજય જાહેર કર્યો. પરિણામે ઘરત પ્રમાણે મંડનમિત્રે શ્રી શંકરાચાર્યના શિષ્ય બની સન્યાસ લીધો. અને શંકરે જ એમનું નામ 'સુરેશ્વરાચાર્ય' પાડ્યું.

લોગ જ સમયમાં પરમ વિચક્ષણ મંડનમિત્ર એ અદ્વૈતવેદાન્તના સમગ્ર વાગ્ડમયને પચાવી ગયા. મીમાંસાશાસ્ત્રના અજ્ઞેડ વિદ્વાન હોવા ઉપરાંત વેદાન્તનાએ અપ્રતિમ જ્ઞાતા બન્યા. આ યોગ્યતાને ધ્યાનમાં લઈ શ્રી શંકરાચાર્યે એમને પોતાના બ્રહ્મસૂત્ર પરના ભાષ્ય પર વાર્તિક વિવરણાત્મક ટીકા લખવા જણાવ્યું. પરંતુ શ્રી શંકરના બીજા શિષ્યોને આ વાત ન જમી. તેમને લાગ્યું કે સુરેશ્વરાચાર્ય પરમ-મીમાંસક હોવાથી અદ્વૈતશિષ્ટાન્તોને નિષ્પક્ષપણે રજૂ ન કરી શકે. એમની આ આશંકા પૂર્વગ્રહીત હોવા છતાં જે એમનું વૈમનસ્ય ટાળવા શ્રી શંકરે સુરેશ્વરને નૈત્તરીય અને બૃતદ્વારણ્યક ઉપનિષદોના ભાષ્ય પર વાર્તિક લખવા કહ્યું છે જ એમણે પૂર્ણ યોગ્યતાથી સંપન્ન કર્યું.

# પૂર્ણ ચોગ્યતાથી સંપન્ન કર્યું

અંતરચનાઓ

ઉપર જણાવેલાં બે વાતિકો ઉપરાંત એમણે આચાર્યના દક્ષિણામૂર્તિસ્તોત્ર પર શ્લોક વાતિક લખ્યું છે. આને 'માનસોલ્લાસ' નામ આપવામાં આવ્યું છે, આચાર્ય સ્વયં 'પંચીકરણ' નામના લઘુ ગ્રંથ પર સુરેશ્વરે વાતિક લખ્યાં છે. આમ સુરેશ્વરશાસ્ત્રીનાં મોટાભાગનાં લખાણો પોતાનાં ગુરુનાં લખાણોને સ્પષ્ટ બનાવવા કે વિસ્તારવા માટે હતાં. પરંતુ, એમની સ્વાતંત્ર રચનાઓ પણ મહત્વપૂર્ણ છે. સંન્યાસ ગ્રંથો કરતાં પહેલાં એમણે 'બ્રહ્મસિદ્ધિ' 'ભાવનાવિવેક' અને 'વિભ્રમવિવેક' એમ ત્રણ ગ્રંથો રચ્યા હતા. આ પૈકી બ્રહ્મસિદ્ધિ ગ્રંથના અવતરણે પ્રસિદ્ધ ટીકાકાર શ્રી શ્રીધર સ્વામી અને અન્ય ટીકાકારોએ ટાંક્યાં છે.

સંન્યાસી થયા પછી શ્રી સુરેશ્વરશાસ્ત્રી વાતિકો ઉપરાંત (૧) મહાવાક્યાર્થ પત્રીકરણ, (૨) મોક્ષનિર્ણય અને (૩) નૈષ્કર્મ્યસિદ્ધિ, એમ ત્રણ સ્વાતંત્ર રચનાઓ અનુત્પન્નરૂપે સ્પષ્ટ કરવાં કરી હતી. આ ત્રણ કોઈ રચનાઓ કરી હોય તે તે અજ્ઞાત કરી છે. આ ત્રણ રચનાઓ પૈકી "નૈષ્કર્મ્યસિદ્ધિ" સર્વોત્તમ છે. શ્રી સુરેશ્વરશાસ્ત્રી આભાસવાદના મુખ્ય પ્રવર્તક હતા તે ધાણશથી વિવશ્યકાર પ્રકાશન-મુનિજા અને વ્યવસ્થિત રીતે રજૂ કર્યો એમ કેટલાક વિદ્વાનો માને છે. જે કે આભાસ-વાદના પુસ્તકો તરીકે મુખ્યત્વે વિવશ્યકારનું જ નામ લેવાય છે.

નૈષ્કર્મ્ય<sup>૧</sup>.સાધ્ય

ઉપર જણાવ્યું તેમ શ્રી સુરેશ્વરશાસ્ત્રીની મૌલિક રચનાઓમાં 'નૈષ્કર્મ્ય સિદ્ધિ' સર્વોત્તમ નમ્બાય છે. આ ગ્રંથમાં કોઈ નવા નિદાનનો ઉદ્દેશ્ય ક્યાંયે તેમનો દાવો નથી શ્રી સમ્બંધાર્થ સ્વયં ઉપદેશનપદાલોકીમાં બુધાવેશ વિષયોની વિનય રીતે છત્રાવટ કરવી એ જ નૈષ્કર્મ્યસિદ્ધિ નો ઉદ્દેશ્ય હોવાનું લેખક જણાવે છે. મુરુના આદેશને માન આપીને જામ 'પુનરુક્તિનો દોષ વર્ણવ્યો છે.' એમ સુરેશ્વર જણાવે છે. છતાં જે વિવશ્યકાર વાચકને જણાવે કે આ સુરેશ્વરનો નમ્બાય છે. નૈષ્કર્મ્યસિદ્ધિમાં વિવશ્ય-નમ્બાય ત્રણ નાટકો અને સાંકિત રીતે જણ્યું છે એમ સ્પષ્ટપણે જણાવે છે.



## વિષય

નેકર્મભિદિના પ્રથમ અધ્યાયમા પ્રારભમા જ પ્રતજ્ઞાન માટે કર્મની નિરર્થકતાનુ પ્રતિપાદન કરતો ઉપક્રમ આ રીતે કર્યો છે

બ્રાહ્મસ્તપવર્ચન્તે સર્વપ્રાણિભિઃ સર્વપ્રકારસ્ય  
 વુ લસ્ય જિહાસિતન્વાગ્નિચક્ષુર્ધર્ષા પ્રવૃત્તિરસ્તિ  
 સ્વરસત એવ . . . દ્વયમારભ્યતે ।

“બ્રહ્માથી લઈને વનસ્પતિ સુધીના જીવો સર્વ પ્રકારનાં દુષ્ટોને દૂર કરવા ઈચ્છે છે એને તેને લગતા ઉપાયો કરવા સ્વાભાવિક રીતે પ્રવૃત્ત થાય છે પરંતુ દેહની સાથે સુખદુઃખ જણાયેલા છે એટલે દેહ હોય ત્યાં સુધી તે રહેવાના જ વળી પૂર્વસ્થિત પુણ્યપાપ હોય ત્યાં સુધી દેહ ધર્મા વગર છૂટક થતો નથી ધર્મ અને અધર્મ અર્થાત પુણ્ય અને પાપ સારા અને માઠા કર્મોમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે કર્મો રાગ અને દ્રોષમાંથી અને રાગદ્રોષ વસ્તુ વિષેના સારા માઠા ખ્યાલોમાંથી પેદા થાય છે ‘બ્રહ્મ જ એક માત્ર સર્વત્ર વિલસે છે’ એ સત્યના અજ્ઞાનથી દ્વેતબુદ્ધિ થાય છે તે દ્વેતબુદ્ધિમાંથી વસ્તુ પ્રત્યે સારા નરસાનો ભાવ જાગે છે તાત્પર્ય એ આજુ કે, પોતે, જગત અને બ્રહ્મ બધું એક જ છે એ સત્યના અજ્ઞાનથી બધી અનર્થ પરપરા ઊભી થાય છે સત્યનું જ્ઞાન અજ્ઞાતની નિવૃત્તિથી જ થઈ શકે પરંતુ સત્ય

વેદાન્તોદરસગુહ સતારોત્સારિ વસ્તુવમ ।

જ્ઞાન વ્યાજ્ઞતમવન્યર્વઠદે ગુવનુજિલયા ॥ ૧-૩

વેદાન્તગ્રથોના ઉદરમા દુષ્ટાયેલા, સત્યને દૂર કરનારા વસ્તુ સમ્બંધી જ્ઞાનને જે બીજાઓ પહેલા પ્રગટ કર્યું જ છે અહીં ગુરુની આજ્ઞાથી નિરૂપીય વળી કહે છે

ગુહસ્તો વેદરાહ્યાન્તસ્તગ્નો વચ્ચ કિત ।

સહસ્રકિરણઘવાને લલ્યોન કિ પ્રકાશવેન ॥ ૧-૫

અતીન્દ્રીય હોવાથી પ્રત્યક્ષ, અનુમાન જેવા પ્રમાણો જ્ઞાનના ઉપકરણોથી સમજાઈ તેમ નથી માટે વેદાન્ત ઉપનિષદો જ બ્રહ્મ અને આત્માની એકતા સમજવાનું એક માત્ર પ્રમાણ છે આવી સમગ્ર વેદાન્ત શ્રુતિઓના સારસ્વ આ ગ્રંથનો આરભ કરાઈ છે”

આ જ વાત ગ્રંથકારે આગળ આઠમી કારિકામા જણાવી છે -

વેદાલ્પજ્ઞાનશક્તો યસમ્બજ્ઞાનાનુગુણત્તિ ।

વન્દ્યહીરાત્યમનો મોહ ન કર્માપ્રતિકલત ॥ ૧-૮ ।

ઉપનિષદોના વાક્યોમાંથી પ્રગટલેલા જ્ઞાનાગ્નિ આત્માને છાઈ રહેલા મોરને અજ્ઞાનને બાળીને ભસ્મ કરી નાખે છે. કર્મ અને અજ્ઞાનનો પરસ્પર વિરોધ નથી એટલે કર્મ-અજ્ઞાનનો નાશ ન કરી શકે.

પ્રથમ અધ્યાયની શરૂઆતમાં કર્મ અને જ્ઞાનના બળાબળનો વિચાર કરી કર્મ આત્મસાક્ષાત્કારનું સાક્ષાત કારણ ન બની શકે, એમ સિદ્ધ કર્યું છે. જ્ઞાન જ પ્રતિષ્ઠાદનમાં સૌ શુનિવાક્યોની 'એકમતિ' છે એ વિષય પ્રથમાધ્યાયમાં બતાવાયો છે.

બીજા અધ્યાયમાં બ્રહ્મજ્ઞાન માટેનાં આંતરબાહ્ય સાધનોનો વિચાર કર્યો છે બાહ્ય ચતુષ્ટયમાં ચતુષ્પદમાં બ્રહ્મમુક્તફલભોગવિરામઃ, અર્થાત વેરાગ્યનો સવિશેષ વિચાર કર્યો છે તે એને જીવનમાં આણવા કયા ઉપાયો લેવા પડે એની વિશદ ચર્ચા છે. બ્રહ્મ બ્રહ્મસ્મિ વગેરે ચાર મહાવાક્યોથી સાંપડતો આત્મા અને બ્રહ્મનો અભેદ પરોક્ષજ્ઞાનરૂપ જ રહે છે. સહસ્રથઃ શુનિવાક્યોનું રટણ થાય કે વાક્યોના અર્થનો વિચાર થાય પણ અપરોક્ષજ્ઞાન અર્થાત બ્રહ્મભાવની અપરોક્ષ અનુભૂતિ થતી નથી. તે તો 'અર્થકાર' નિરોધ થાય તો જ બને.

'નિવસ્તાવામહમ્બુદ્ધો'મનઘોઃ પ્રથિલોચતે ।'

મહમ્બુદ્ધો જા હિ સા તિલ્લેતમોડમાલે કુતઃક્લ્લો ॥ ૨-૩૦

અર્થકારની વૃત્તિ ટપી જતાં મમત્વશુદ્ધિનો લય થાય છે, કારણ કે અર્થ-વૃત્તિ બીજરૂપ છે, તે મમવૃત્તિ વૃક્ષરૂપઃ જેમા અર્થકાર દૂર થતાં દિશ્યમાં સાપની કંપનનો લય થાય છે. (અર્થકારરૂપી અજ્ઞાનાંપકાર દૂર થતાં આત્મારૂપી દિશ્યમાં આરોપેલા સંચારિક ભાવો સંવિત અંધનની -સર્પની નિવૃત્તિ થાય છે.)

જગતની ઉત્પત્તિ અને સ્થિતિનો આકાશ આત્મા જ છે એ બાબત આ શ્લોકમાં કેટલી ત્રયોટ રીતે બતાવી છે:-

ઘવા વિશુદ્ધ પ્રાકાશો સહસ્રંવામ્બ્રમજ્જલમ ।

મૂલવા ભલીવત્તે સદ્વાસમનોહાભિલં જગત ॥ ૨-૬૮

જેમ વિશુદ્ધ આકાશમાં વાદળોં ઓચિતાં ચડી આવે છે તે એવી જ રીતે ઓચિતાં વિષય પામે છે તેવી જ રીતે આત્મામાં આ જતીની ઉત્પત્તિ અને પ્રલય થાય છે.

ત્રીજા અધ્યાયમાં શુનિગત મહાવાક્યોનો અર્થ એમ સમજવો તે બતાવ્યું છે. મહાવાક્યો આ છે:

તત્ત્વમસિ, બ્રહ્મ બ્રહ્મસ્મિ, ધ્રુવમાત્મા બ્રહ્મા  
અને પ્રજ્ઞામ બ્રહ્મ.

પુસ્તકો જ નિરાજન વેદસારરૂપે પ્રતિષ્ઠાપિત કર્યો છે એમાં ઉમેરે કરવાનું માડું નહીં નથી. જ્યાં સૂર્યકિરણો દેખાયાં હોય ત્યાં આનિરોધ મું પ્રકાશ પાથરવાનો હશે!

આ વાક્યોનો વાચ્યાર્થ પદાર્થ લેવા 'જતાં' ને પરસ્પર વિરોધી અર્થાત તાત્પર્યશૂન્ય માલુમ પડે છે માટે લક્ષ્યાર્થ લેવો. લક્ષ્ય દ્વારા તાત્પર્યાર્થ લક્ષ્યાર્થ ગ્રહણ કરવાથી પદાર્થોથી ઉપજતી ખંડબુદ્ધિ ટળી જાય છે અને 'અખંડબુદ્ધિ' પ્રગટે છે. આ જ અખંડબુદ્ધિ જીવાન્મૈક્યબુદ્ધિ કહેવાય છે. મનન અને નિદિધ્યાસન રૂપી આંતરસાધનોને ત્રીજા અધ્યાયમાં વિચાર થયો છે. છેલ્લો ચોથો અધ્યાય છે. તેમાં આત્મ-બ્રહ્મની એક્યાનુભૂતિ થતાં સમગ્ર કહેણોની નિવૃત્તિ થાય છે એમ ફલરૂપે બતાવ્યું છે. મોક્ષનો અર્થ શરીર કે સંસારનો દૂરસંનહિ પણ શરીર, મન અલગર વગેરે આધ્યાત્મિક તેમ જ જાતિક પદાર્થો મિથ્યા હોવાની દ્રષ્ટિ, એ થાય છે.

આમ બ્રહ્મસૂત્રો પરના ચાંકરભાષ્યમાં ચારે અધ્યાયોની જે ક્રમથી ઉપપત્તિ વર્ણવી છે તે ક્રમથી જ સુરેશ્વરાચાર્યે પણ નૈષ્કર્મ્યસિદ્ધિના ચાર અધ્યાયોમાં વિચાર કર્યો છે.

### ઉપરાંહાર

નૈષ્કર્મ્યસિદ્ધિ ગ્રંથની શૈલી સંગ્રહપ્રધાન હોવાથી અર્થધન અને કવચિત કિલ્લ છે. ટુંકમાં વધુ વિચારો વ્યક્ત કરવા જતાં ઘાસપ્રાણીની ઘરેણી ન દેવાયેલા માટે કિલ્લતાનો અનુભવ થાય એ સ્વાભાવિક છે છતાં જે લેખકે બને તેટલા સરળ ઘઠ્ઠાનો અને દીર્ઘસમાસશૂન્ય વાક્યોનો પ્રયોગ કર્યો છે. ઉપર ટાંકેલાં અવતરણો એના નમૂનારૂપ છે. વિષયની રજૂઆત મામિક તથા ચોટદાર ભાષામાં થઈ છે જેથી વેદાન્તના સિદ્ધાન્તોને સ્મૃતિગમ્ય કરવા ઈચ્છનાર માટે ખૂબ ઉપયોગી છે.

નૈષ્કર્મ્યસિદ્ધિ પર સંસ્કૃતમાં પાંચ ટીકાઓ લખાયેલી છે. પરંતુ, પ્રો. જેકોબે શુભઈ ઘાતકીય મુદ્રણાલય દ્વારા ઈ. ૧૯૯૦ માં પ્રકાશિત કરેલી મહામહોપાધ્યાય જ્ઞાનોત્તમ મિશરવિત 'ચદ્વિકા' નામની ટીકા સિવાય અન્ય કોઈ મુદ્રિત યથાનું જાણમાં નથી.

(Summary)

**SRI SURESVARACHARYA***(Acharya Bhaishankar Purohit)*

Sri Suresvaracharya was one of the direct disciples of Bhagavatpada Adi Sankaracharya. He was the first Sankaracharya of the Southern Matha established by Sankara. He had written Vartikas on Sankara's eminent works such as Brihadaranyaka Bhashya, Taittiriyaopanisad Bhashya, Dakshinamurti Stotra, etc. He had also written several books of great value on Mimamsa (when he was grihastha) and Vedanta. Among his Vedanta works "Naishkarmya Siddhi" is considered to be the best. This work contains four Adhyayas dealing with various important topics of Advaita Siddhanta. In the first chapter, he refutes the arguments put forth by Mimamsakas that Karma is the sole content of Vedas and also the only source of salvation. In the second chapter, he deals with the inner and outer sadhanas for realising unity of Brahma and Atma. In the third, he discusses Pramanas and comes to the conclusion that Mahavakyas are the only guide for realising the truth. In the fourth chapter, he narrates the state of salvation in which everything other than Brahman is discarded as illusory. The realised soul while experiencing oneness with Brahman is oblivious of the prapancha. This is the Highest State or Purushartha one should aspire for.

MARATHI



Sri Suresvaracharya

Dr. Vinayak Shastri Vasudeo Paranjape,  
M. A., Ph. D.

Deccan College,  
Poona-6.

... 1

Summary in English

... 5

## श्रीसुरेश्वराचार्य

लेखक : डॉ. वि. वा. परांजपे, एम् ए. पीएच् डी.

हिंदुधर्माविर बौद्ध, जैन वगैरे नास्तिक धर्मपंथानी केलेले हल्ले परतवून लावून त्या धर्माला औपनिषदिक अद्वैत-तत्त्वज्ञानाच्या भर-भक्कम पायावर अविचल उभा करण्याचे कार्य भगवान शंकराच्या अवतारभूत श्रीशंकराचार्यांनी केले. हे कार्य करीत असता शंकराचार्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रापासून म्हणजेच केरळच्या परिसरातून निघून हिमाचलापर्यंत संपूर्ण भरतखंड पायी यात्रा करीत हिडणे भाग पडले. या भारतायात्रेत आचार्यांनी शास्त्रीय भूमिकेवहन घाब करून सर्वत्र वैदिक धर्माचा प्रसार केला.

त्या काळात भारतातील बहुतेक राजे बौद्धजनादि धर्मपंथाचे पुरस्कर्ते होते. त्या राजांच्या मदती असलेल्या पंडितांशी वादविवाद करून त्यांचा पराभव करावा आणि त्या पंडितांना आणि त्यांच्या आश्रयदात्या राजांना वैदिक धर्माचा स्वीकार करायला लावावा असा त्यांचा कार्यक्रम सतत चालू असे. या अवैदिक धर्मपंथाचा यीमोड करण्याच्या कामगिरी-बरोबरच शंकराचार्यांना मोमासकासारख्या काही एकांतिक मतांचा पुरस्कार करणाऱ्या पंडितांशी दोन हात करावे लागले. त्याचप्रमाणे फेवळ बुद्धिप्रामाण्याची कास धरणाऱ्या नैयायिकवंशैविकादि शास्त्रांचा पुरस्कार करणाऱ्या पंडितांशी वाद करावा लागला.

त्या त्या शास्त्रांत अग्रगण्य असलेल्या अत्यंत बुद्धिमान पंडितांचा वादात पराभव करून त्यांना अद्वैत तत्त्वज्ञानाचा प्रसार करण्याच्या कामी जुपण्याचा उपग्रह आचार्यांनी केला. अशा पंडितांपैकी ज्यांचे प्रचाराजतापासून अद्वैततत्त्वज्ञानाची प्रजा फडकवत ठेवण्याच्या कामी उपयोगी पडत आहेत, अशा आचार्यांच्या निवडक शिष्यांमध्ये सुरेश्वराचार्यांना मानाचे स्थान द्यावे लागेल.

पाश्चात्य-विद्यया-विभूषित पंडितांत शंकराचार्यांशी वाद करण मीमांसकाप्रणी मंडनमिथ आणि ब्रह्मसिद्धिसारख्या ग्रंथाची रचना व पणारा मंडनमिथ एकच, कां दोन? असा वाद चालू आहे. इतकेच नव्हे जन्मभर मीमांसाशास्त्राचा व्यासंग करून शंकराचार्यांशी वाद करण दिगंत पंडित मंडनमिथ मीमांसाशास्त्राची प्रमेयें खंडन करतो हें देखें असंभाव्य मानणारे विद्वान आपणांस भेटतील. परंतु आज त्या वादवि दांत न शिरतां विद्यारण्यांनी लिहिलेल्या शांकरदिग्विजयांत सुरेश्वरांस संबंधी जी माहिती मिळते तिच्या आधारानेंच त्यांच्या कार्याचा परि आपण करून घेऊं.

वादांत पराभूत झालेल्या मंडनमिश्रानें आपला पराभव तर मा केलाच पण त्यांच्या पाठोपाठ आचार्यांनीं संन्यासदीक्षा देऊन अद्वैतत ज्ञानाचाहि उपदेश करावा अशी प्रार्थना त्यांनी केली. आचार्यांनीं त्यां इच्छा मान्य करून त्यांना संन्यासदीक्षा तर दिलीच आणि अद्वैतज्ञाना उपदेश करण्याकरितां सर्व उपनिषदें त्यांना शिकविलीं.

उपजतव अत्यंत बुद्धिशाली आणि जन्मभर शास्त्रांचा अभ्य करून ज्यांच्या बुद्धीला विलक्षण धार आलेली होती अशा मंडनमिथ संन्यासदीक्षा घेतल्यानंतर 'सुरेश्वर' असें नांव घेतलें. आचार्यांच्या अध पनानंतर त्यांच्याच भाष्यावर विवरणात्मक सुबोध टीका लिहिण्या आपला मनोदय त्यांनीं व्यक्त केला. शिष्याची बुद्धिमत्ता लक्षांत घेव आचार्यांनीं ताबडतोब त्याला भाष्यावर टीका लिहिण्यास परवान दिली. त्याबरोबरच त्या टीकेला 'वार्तिक' असें नांव देण्याची सूच पण त्यांनीं केली. गुरूंची संमति मिळाल्यानें मोठ्या आनंदानें सुरेश्वराचार्य आपल्या पणकुटींत परत गेले.

परंतु आचार्यांच्या सान्निध्यांत राहून त्यांच्या पदयात्रेंत बरी वर्षे घालविणाऱ्या दाक्षिणात्य शिष्यांना या नवीनच बनलेल्या शिष्या 'वार्तिक' लिहिण्याची संधि मिळालेली पाहून त्यांचा मत्सर वाढूं लागल त्यांच्या कार्यांत व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न त्यांनीं ताबडतोब सुरू केला त्या सर्व शिष्यांनीं एरुमुखानें आचार्यांकडे तक्रार केली की, सुरेश्व

आपला नवखा शिष्य. मीमांसा शास्त्राचीं तत्त्वे मांडण्यांत त्याने आपली ह्यात घालविली. वादांत पराभव झाला म्हणून नाइलाजाने त्याने संन्यास घेतला. तेव्हां आपल्या भाष्यावर 'वार्तिक लिहिण्याचें काम तो कसें कळू शकेल ? ही तक्रार करूनच ते थांबले नाहीत तर आपल्या सहवासांत अनेक वर्षे राहून उपनिषदांचा अभ्यास करणाऱ्या वेंराय-संपन्न शिष्यांपैकी पद्मपाद, तोटक किंवा हस्तामलक यांनाच वार्तिक लिहिण्याची कामगिरी आपण सांगावी, असा आग्रह त्यांनीं धरला.

शिष्यांच्या आग्रहापात्र आपण सुरेश्वराला वार्तिक लिहिण्याची बंदी करीत आहों असें आचार्यांनीं भासविले. पण त्यांची अशी मनोगत खात्री होती कीं सुरेश्वरच सर्व शिष्यांपेक्षा सरस असून तोच अद्वैत-तत्त्वज्ञान मुलभ शब्दांत सांगू शकेल. म्हणूनच त्यांनीं सुरेश्वराला तूं वार्तिक लिहूं नको असें सांगितलें, पण त्याचतेज्जिं तूं अद्वैततत्त्वप्रतिपादन करण्याकरितां स्वतंत्र ग्रंथ लिही अशी सुरेश्वराला आज्ञा केली.

गुरुंचो आज्ञा ऐकतांच नानवी स्वभावाप्रमाणें किवित् सट्ट झालेल्या सुरेश्वरानें नवीन ग्रंथ लिहून आक्षेप घेणाऱ्या मत्सरी सहा-ध्यायांना घडा शिकविण्यावा निश्चय केला. थोडक्याच काळांत अथवा चार अध्यायांचा आणि चारशे श्लोकांचा "नेध्कर्म्यंतिडि" हा ग्रंथ सुरेश्वराचार्यांनीं लिहिला. आपल्या प्रयांत ब्रह्मसूत्रांत आलेलेच विषय अत्यंत मुद्देसूद भाषेंत त्यांनीं मांडले होते. ज्ञानरुमंसमुच्चयवादाचें पद्धत-शीर संडन करून त्यांनीं 'एकं सत्' या तत्त्वाचा परिपोष करणाऱ्या सर्व उपनिषद्वाक्यांचा तबिस्तर विचार केलेला आहे. अविद्येचें स्वरूप स्पष्ट करून ब्रह्मसाक्षात्कारानेंच अविद्येचा नाश कसा होतो ? याचें पण उत्कृष्ट विवेचन त्यांनीं केले आहे. याप्रमाणें वार्तिक लिहून ज्या तत्त्वांचा पुरस्कार करायचा होता, तेंच कार्य सुरेश्वरानें 'नेध्कर्म्यं-तिडि' या छोट्याना नवीन प्रयानें रुजून दाराविलें.

या नवीन प्रथाच्या उदयानें आपोआप सर्व मत्सरी सहाध्यायांचो तांचें पंथ मारलो. त्यांनीं लिहिलेल्या वार्तिकावा नाय-पत्तादेगोन आज आपणास आपत नाहो. अर्थातच ह्या सर्व आचार्य शिष्यांना सुरेश्वराच्या



बुद्धिमत्तेची खात्री पटली. अद्वैततत्त्वाचे खरे आकलन सुरेश्वरानांचे झाले असेंहि त्यांनी मान्य केले. अर्थातच सुरेश्वरांनी आचार्यांच्या भाष्यावर वार्तिक लिहिण्यास देखील आतां त्यांचा विरोध राहिला नव्हता.

त्यानंतर सुरेश्वरांनी आचार्यांच्या बृहदारण्यकोपनिषदाच्या भाष्यावर वार्तिक लिहिले. त्यांच्या पाठोपाठ तैत्तिरीय उपनिषदाच्या भाष्यावर पण वार्तिक त्यांनी लिहिले. शंकराचार्यांच्या उपनिषदांवरील भाष्यार्पणं महत्त्वाच्या दोन भाष्यांवर वार्तिके लिहून आचार्यांनी मांडलेल्या अद्वैततत्त्वज्ञानाचा सुबोध परिचय सुरेश्वराचार्यांनी या मुद्देसूद आणि सविस्तर वार्तिकांच्या द्वारा करून दिला आहे.

सुरेश्वराचार्यांनी आचार्यांच्या सुप्रसिद्ध अशा दक्षिणामूर्तिस्तोत्रावर 'मानसोल्लास' नांवाची विस्तृत टीका लिहिली असून त्यालाही वार्तिक असे नांव दिले आहे. त्याचप्रमाणे पञ्चीकरण-वार्तिक व यति-संध्याविधि-वार्तिक असेही दोन वार्तिकग्रंथ त्यांनी लिहिले असे मानले जाते.

शंकराचार्यांनी लिहिलेल्या भाष्यावर विस्तृत टीका लिहून त्यांच्या अद्वैततत्त्वज्ञानाचा पुरस्कार करण्याची महनीय कामगिरी सुरेश्वराचार्यांनी बजावली आहे. त्यांचे ग्रंथ मोजकेच असले तरी अद्वैततत्त्व समजून घेऊं इच्छिणाऱ्या जिज्ञासूंचें समाधान करण्यास पुरेसे आहेत. म्हणूनच भारतीय तत्त्वज्ञानाच्या अभ्यासूंना सुरेश्वरांचे ऋण सदैव मान्य करावेंच लागेल.

\* \* \*

(Summary)

## SRI SURESHVARACHARYA

(*Dr. Vinayak Shastri Vasudeo Paranjape*)

Suresvara was the most devoted disciple of Sankara. At the desire of his preceptor, he wrote a small treatise "Naishkarmya-siddhi", an independent work presenting the quintessence of Advaita Vedanta. This work is free from the exegesis and thus stands as a self-explaining unfoldment of the principles of Vedanta. Among Sankara's Upanishad Bhashyas, "Brahmadaranyakopanisad Bhashya" and "Taittiriyaopanisad Bhashya" are of great importance. Suresvara wrote Vartikas on both of them. His Vartikas are of great help for the understanding of the Bhashya. There are two more Vartikas ascribed to Suresvara:—(i) Manasollasa, a running commentary on Dakshinamurti Stotra of Sankara and (ii) Panchikarana Vartika. It may be stated that Suresvara's works will remain for ever as the most valuable and reliable aid to the students of Advaita Vedanta in interpreting "Sankara" as he was his direct disciple at Sringeri where Sankara lived for most of his life and established Sarada Pitha which is the first of the four Mutts instituted by him.

**SUPPLEMENT**

॥ श्रीः ॥

श्रीसुरेश्वराचार्यकृतं

पञ्चीकरणवार्तिकम् ॥

अभिनवनारायणेन्द्रसरस्वतीविरचितं वार्तिकं कामरणाख्यं व्याख्यासहितम्

PAÑCĪKARANA VĀRTIKAM

BY

SRI SUREŚVARĀCĀRYA

*with the commentary*

VĀRTIKĀBHARAṆAM

by

NĀRĀYAṆENDRA SARASVATĪ

1970



**Sri Vani Vilas Press,  
Srirangam, Tiruchirapalli-6.**

*(Separately sold at Re. 1-50 a copy)*

*Edited by*

**T. H. VISWANATHA SASTRI,**  
Nyāyāsiromaṇi; Vyākaraṇa-  
siromaṇi; Vedānta Vidvān;  
formerly of the Government  
Oriental Manuscripts Library,  
Madras, now of the Oriental  
Manuscripts Library, Adyar,  
Madras.

**CONTENTS**

Foreword	... 1-ii
Introduction	... 1-iii
Pañcikaraṇam by Sri Saṅkara Bhagavatpāda	— 1-2
Pañcikaraṇa Vārtikam by Sri Sureśvaraśāstrya with commentary	... 3-33
Index of verses	... 1-ii

## FOREWORD

Sri T. K. Balsubramania Iyer, of revered memory, the founder of Sri Vani Vilas Press, Srirangam, unearthed from among the manuscripts in the Tanjore Sarasvati Mahal Library, two unpublished works attributed to Sri Sureśvarācārya, viz. *Vedāntasāra-Vārtikarāja-saṅgraham* and *Pañcīkaraṇa-Vārtikam* and published them as one booklet many decades ago. The latter is genuinely a work of Sri Sureśvarācārya.

At the request of the Sringeri Sureśvarācārya Adhiṣṭhāna Jirnoddhāra Mahotsava Committee and the Akhila Bharata Saṁkara Seva Samiti, Śrīromaṇi T. H. Viswanatha Sastrī selected from the Govt. Oriental Manuscript Library, Madras, an instructive Samskrit commentary *Pañcīkaraṇavārtikam*, known as *Vārtikābharaṇam*, written by Śrī Nārāyanendra Sarasvati. It is very lucid and will benefit all interested in Advaita philosophy. A detailed preface from the pen of Śrī T. H. Viswanatha Sastrī, a learned Samskrit research scholar, has been added to it. The text with the commentary and the Preface, along with the text of Śrī Ādi-Saṁkarācārya's *Pañcīkaraṇam*, has been issued as a supplement to the commemoration volume published by the above committee at the time of the Kumbhābhiṣekam at Sringeri. Finding that the supplement would be

servng a larger public if printed and issued as a separate booklet, the Sri Vāni Vilās Syndicate Ltd, Srirangam applied for permission to the committee to do so and the committee has been kind enough to grant it. The syndicate expresses its gratitude to the committee for the same.

∨ The importance of the work will easily be realised once it is read. It should be in the hands of every *āstika*, who seeks after Truth. It is priced moderately. The syndicate hopes that the public would make the best use of this booklet. ∴ b. r.

Srirangam }  
May, 1970 }

K. V. SUBBARATNAM,  
Chairman, Sri Vani Vilas Syndicate Ltd.



## P R E F A C E

*Pañcikaraṇam* is one of Śrī Śaṅkara Bhagavatpāda's *prakaraṇas* and, like the *Dakṣiṇāmūrti aṣṭaka*, is very popular. The latter is the cream of advaita Vedānta, and the former elucidates the nature of *samādhi* and deep meditation on the *praṇava*. The two works have several commentaries, and are held worthy of recitation thrice a day. Śivanārāyaṇa Tīrtha emphasises this point in the concluding verses of his commentary:

सुदुर्मुहुः प्रियं शिष्यं संबोध्यद् सुरेश्वरः ।  
 प्रमादस्तु न कर्तव्यः इत्यभिप्रत्य सादरम् ॥  
 इमां विद्यां प्रयत्नेन योगी सन्ध्यास्तु सर्वदा ।  
 समभ्यसेदिहामुत्र भोगानासक्तधीः सुधीः ॥

There is another *Pañcikaraṇam* in the Government Manuscript Library, Madras, (D. No 4636), a much later work composed by Abhinava Sadāśivendra, a disciple of Rāmacandrendra.

The following are the commentaries on Bhagavatpāda's *Pañcikaraṇam* :—

1. *Pañcikaraṇa Vārtika* by Śrī Sureśvarācārya.
2. *Pañcikaraṇa Vivaraṇam* by Ānandagiri (Ānandajñāna) with a sub-commentary called *Tattvacandrikā* by a disciple of Kṛṣṇa Tīrtha and Jagannātha Āśrama.
3. *Pañcikaraṇa bhāva prakāśikā* by Abhinava Nārāyaṇendra.
4. *Pañcikaraṇa Vivaraṇam* by Prajñānandayati
5. *Pañcikaraṇa Vyākhyā (Tātparya candrikā)* by Rāmananda Sarasvatī
- and 6. *Pañcikaraṇa Vyākhyā (Aimānusādhana)* commentator not known,

Śrī Sureśvara's *Pañcikaraṇa Vārtika* has the following commentaries:—

1. *Pañcikaraṇa Vārtika Vyākhyā-Vārtikābharanam*  
by Abhinava Nārāyaṇendra Sarasvatī
2. *Vārtika Vivaraṇam* by Śivanārāyaṇānanda Tīrtha, a disciple of Śivarāmānanda — both in prose and verse.
3. *Pañcikaraṇa Vārtika Vyākhyā* (author not known).

Number one in the above list is the present publication. The text of the *Vārtika* (consisting of 64 verses) has been published by the Śrī Vāṇī Vilās Press, Srirangam, along with another work, *Vedānta Sāra Vārtikarāja saṅgraham*, also, on doubtful grounds, attributed to Śrī Sureśvara.

The commentator Abhinava Nārāyaṇendra Sarasvatī, was a disciple of Jñānendra Sarasvatī, who was a disciple of Kaivalyendra Sarasvatī. It is not known whether this Jñānendra was the same person who composed *Tattvabodhini*, a commentary on Bhaṭṭoji Dīkṣita's *Siddhānta Kaumudī*. Nothing more is known about Abhinava Nārāyaṇendra. Since he refers to Ānandagiri who belonged to the fourteenth century, he is a much later writer and may be assigned to the seventeenth century.

The other works of Abhinavanārāyaṇendra include *Pañcikaraṇa Vyākhyā-Abhiprāyaprakāśika* a direct commentary on Bhagavatpāda's *Pañcikaraṇam Tikas* on *Aitareyaopaniṣad bhāṣya*, *Cāndogyopaniṣad bhāṣya*, *Praśnopaniṣad bhāṣya*, *Muṇḍakopaniṣad bhāṣya*, *Kaṣhopaniṣad bhāṣya* and *Kenopaniṣad bhāṣya* and *Ānandalahari*.

The *catalogus catalogorum* mentions two other persons bearing the name of Abhinava Nārāyaṇendra Sarasvatī. One was the Guru of Paramaśivendra Sarasvatī, and author of *Vedānta nāmaratnasāhasram* and *Śivagītītātparya prakāśikā*, and the other was the Guru of Śamkara Yati, author of *Subrahmaṇya bhujāṅga*.

The manuscripts used in editing this work are as under:—  
A paper manuscript written in Devanāgarī script preserved in

the Government Oriental Manuscripts Library, Madras, under R No. 2724 d which was transcribed in 1918-19 from a manuscript of Śālapāṇi Warrior of Tekkemaḍam, Trichur. It has been bound with three other works, *Kṣurikōpaniṣad dīpikā*, *Atharvaśikhōpaniṣad dīpikā* and *Gopālātāpini Upaniṣad dīpikā*. The press copy is based on this manuscript.

A manuscript D No 4641 in Telugu script contained in a palm leaf bundle. This was used for purposes of collation.

My thanks are due to the Curator, Government Oriental Manuscripts Library, Madras for kind permission to use the manuscripts and to the Akhila Bharata Samkara Seva Samiti for affording the opportunity to edit and publish this work.

Madras,  
March 1970.

T. H. VISWANATHAN



## ॥ पञ्चीकरणम् ॥

(श्रीमच्छंकरभगवत्पादाचार्यप्रणीतम्)

अथातः परमहंसानां समाधिविधिं व्याख्यास्यामः ॥

ॐ सच्छब्दवाच्यमविद्याशबलं ब्रह्म ! ब्रह्मणोऽव्यक्तम् ।  
अव्यक्तात् महत् । महतोऽङ्कारः । अङ्कारात्पञ्चतन्मात्राणि । पञ्च-  
तन्मात्रेभ्यः पञ्चमहाभूतानि । पञ्चमहानुभूतेभ्योऽखिलं ब्रह्म ॥

पञ्चानां भूतानामेकैकं द्विधा विभज्य स्वार्धभागं विहायाध-  
भागं चतुर्धा विभज्येतरेषु योजिते पञ्चीकरणं मायारूपदर्शनं ।  
अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्चयते ॥

ॐ पञ्चीकृतपञ्चमहाभूतानि तत्कार्यं सर्वं विराडित्युच्यते ।  
एतत्स्यूलग्ररीमात्मनः । इन्द्रियैर्धोषलब्धजगति । एतदुभयाभि-  
मान्यात्मा विश्वः । एतत्प्रपञ्चकारः ॥

अपञ्चीकृतपञ्चमहाभूतानि पञ्चतन्मात्राणि, तत्कार्यं च पञ्च-  
प्राणाः द्योन्द्रियाणि मनो बुद्धिश्चैव सप्तदशकं त्रिंशत् मौक्तिकं  
द्विरभ्यगर्भं इत्युच्यते । एतत्स्यूलग्ररीमात्मनः । करगेपूरान्द्वेदु-  
जागरितसंस्कारजः प्रत्ययः तत्रिपयः स्वप्न इत्युच्यते । तदुभयाभि-  
मान्यात्मा वैजसः । एतत्प्रपञ्चकारः ॥

शरीरद्वयकारणमात्माज्ञानं साभासमव्याकृतमित्युच्यते । एतत्  
कारणशरीरमात्मनः । तच्च न सत्, नासत्, नापि सदसत् । न  
भिन्नम्, नाभिन्नम्, नापि भिन्नाभिन्नं इतथित्, न निरवयवम्, न  
सावयवम्, नोभयम् । किं तु केवलब्रह्मात्मैकत्वज्ञानापनोद्यम् ।  
सर्वप्रकारज्ञानोपसंहारे बुद्धेः कारणात्मनाऽवस्थानं सुपुष्टिः । तदुभया-  
मिमाम्नायात्मा प्राज्ञः । एतत्त्रयं मकारः ॥

अकार उकारे, उकारो मकारे, मकार ओंकारेऽहम्येव ॥

अहमात्मा साक्षी केवलधिन्मात्रस्वरूपः, नाज्ञानम्, नापि  
तत्कार्यम् । किं तु नित्यशुद्धबुद्धमुक्तसत्यस्वभावं परमानन्दाद्वयं  
प्रत्यग्भूतचैतन्यं ब्रह्मैवाहमस्मीत्यभेदेनावस्थानं समाधिः । 'तत्त्वमसि'  
'ब्रह्माहमसि' 'प्रज्ञानमानन्दं ब्रह्म' 'अयमात्मा ब्रह्म' इत्यादि-  
श्रुतिभ्यः ॥ इति पञ्चीकरणं भवति ॥

पञ्चीकरणं संपूर्णम् ॥

॥ श्रीः ॥

## ॥ पञ्चीकरणवार्तिकम् ॥

(वार्तिकाभरणसहितम्)

श्रीगणपतये नमः ॥ अविज्ञमस्तु ॥

१ भौ-नत्या श्रीदक्षिणामूर्तिं ज्ञानेन्द्रगुरुकृपिणम् ।  
बिबृणोमि यथान्याय पञ्चीकरणवार्तिकम् ॥

इह खलु परमेश्वराराधनार्थमनुष्ठितैर्नित्यादिकर्मभिः परिशुद्धान्तः-  
करणानां तत एव नित्यानित्यवस्तुविवेकेहामुत्तार्यभोगविरागशमादिसाधन-  
सम्पन्मुमुक्षुत्वाख्यसाधनचतुष्टयवतां प्रत्यजिज्ञासूना परित्यक्तसर्वकर्मणां परमहंस  
परिब्राजकानां श्रयणमनननिदिध्यासनपराणामरुणोपनिषदि<sup>२</sup> 'सन्धि समाधा-  
वात्मन्याचरे'दिति समाधिर्विहितः । स च समाधिरोहारेण कर्तव्य  
इति ओमित्यात्मानं युञ्जीतेति तैत्तिरीयश्रुतौ विहित । युज समाधाविति  
स्मृते । स समाधिरोहारेण कथं कर्तव्य इत्याकाश्या तं प्रकारं वक्तुं  
भगवता भाष्यकारेण पञ्चीकरणं नाम प्रकरणमुपदिष्टम् । तत्प्रकरणं  
व्याख्येयसुर्भगवान् वार्तिककारश्चिकीर्षितस्वोक्तानुक्त दुरुक्तचिन्तात्मकस्य  
तद्व्याख्यान<sup>३</sup>स्य वार्तिकस्य निर्विघ्नपरिसमाप्तिप्रचयगमनसिद्धयर्थं,

ओङ्कारश्चापशब्दश्च द्वावेव प्रक्षणः पुरा ।

कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गळिकावुभौ ॥

1. D 464] अ रडौकोऽप न टरपते ।

2. अ [अरण्योपनिषदा]

3. अ. १५- ।

इति स्मृतोद्धारोद्धारणं <sup>१</sup> तदर्थतत्त्वानुस्मरणान्मर्कं मन्त्रज्ज्वाचरन् प्रकरणस्यार्थं  
संक्षेपेण श्रोतुमुद्धिसौकर्यार्थं रुधयवि

ओङ्कारस्मर्ववेदानां सारस्तत्रप्रकाशकः ।

तेन चित्तसमाधानं मुमुक्षुणां प्रकाश्यते ॥ १ ॥

ओङ्कार इति । तेनोद्दारेण चित्तसमाधानं प्रकाश्यते इति सम्बन्धः ।  
चित्तसमाधानं ब्रह्मात्मभेदाकारतयावस्थानं, अक्वण्डमहाङ्कारवृत्तिरूपेण परिणामः,  
न तु शाब्दान्तरप्रसिद्धचित्तवृत्तिनिरोध इत्यर्थः । अहं ब्रह्मास्मीत्यभेदेनावस्थानं  
समाधिरिति मूले बक्ष्यमाणत्वात् । 'समाधिस्मिद्धिवृत्तिः परजीवैकतां प्रती'ति  
स्मृतेश्च । <sup>२</sup>तच्चित्तस्याखण्डाङ्कारवृत्तिरूपं ज्ञानं येन प्रकारेणोद्दारेण जायते स  
प्रकारः प्रकाश्यते इत्यर्थः । ओङ्कारस्य ज्ञानजननप्रकाश<sup>३</sup>सामर्थ्यमाह—तत्त्व-  
प्रकाशक इति । तत्त्वमस्यादिवाक्यवन्महावाक्यविधया विधिमुखेन नेति, नेतीति  
वाक्यवन्निषेधविधया च तत्त्वप्रकाशकत्वं तस्य श्रुतिस्मृतिप्रसिद्धमित्यर्थः ॥

ननु तत्त्वमस्यादिवाक्येभ्यः ओङ्कारस्य को वा विशेषः ? येन ओङ्कारेणैव  
चित्तसमाधानं प्रकाश्यते तत्राह — सर्ववेदानां सार इति । मृदिव घट-  
शरावादीनां सर्ववेदानुस्यूततया कारणत्वात्तेषां सारः <sup>४</sup>ओङ्कारेण सर्वा वाक्  
संतृणोति' श्रुतेरित्यर्थः । अयमाशयः — तत्त्वमस्यादिवाक्यानां मध्ये केनचित्  
वाक्येन चित्तसमाधानप्रकारे प्रकाशिते अप्रकाशितवाक्यान्तर <sup>५</sup>ध्यायिना ततो  
वाक्यात् समाधानासिद्धेः वाक्यान्तरेष्वपि तत्प्रकाशयितव्यं स्यादिति यत्तगौरव  
स्यात् । ओङ्कारेण तत्प्रकाशने तु तस्य सर्ववेदवाक्यसारत्वात् सर्वत्र वाक्ये  
समाधानप्रकारः <sup>५</sup>प्रकाश्यते इति न पृथक् कार्यः स्यात् । ओङ्कारेणैव सर्वेषां  
चित्तसमाधानसिद्धेश्च न यत्नान्तरं कार्यमिति वा लाघवमिति ॥

१. अ. तदर्थपरिसमाप्सर्वं ।

२. अ. तच्चित्तस्य ।

३. अ. नास्ति ।

४. अ. न्तराध्यायिनां ।

५. अ. प्रकाश्यते ।

## सव्याख्यम् ।

किं च . वेदोच्चारणस्य . पापनिवर्तकत्वस्मरणालौकिकवाक्यापेक्षया  
 वेदवाक्योच्चारणस्यार्थस्मरणद्वारा ' ज्ञानप्रतिबन्धककल्मषनिवर्तकत्वेन शीघ्रम-  
 प्रतिबन्धज्ञानोत्पादकरत्वं विशेष इति वक्तव्यम् । ' अर्थबोधकत्वस्योभयत्रापि  
 तुल्यत्वेन प्रकारान्तरेणातिशयस्य वक्तव्यत्वत्वात् । एवं च सति ओंकारस्य  
 सर्ववेदसारत्वेन सर्ववेदात्मकत्वात्तदुच्चारणस्य सर्ववेदोच्चारणत्वात्ततो बहुकल्मष-  
 निवृत्त्या शीघ्रमप्रतिबन्धज्ञानं ततो भवति ॥

किं च, ओमित्यात्मानं युञ्जीतेत्यादिबहुभ्रुतिषु तस्मिन्नादरदर्शनाच्च  
 तेन<sup>१</sup> चित्तवमाधानं प्रकाशनीयमिति । तत्राधिकारिणमाह- मुमुक्षूणामिति ॥

अत्र चोद्धारप्रकाश्यं तर्ह्य विषय . मोक्ष काव्यमानत्वान्मुह्यं प्रयोजनं,  
 चित्तसमाधानशब्दितं तत्त्वज्ञानमवान्तरप्रयोजनम् , प्रकरणस्य फलस्य च  
 जन्यजनकभावसंबन्ध , अधिकारिण स्वकीयप्रयोजनकार्त्वं<sup>२</sup> प्रकरणेन  
 संबन्ध , मुमुक्षुरधिकारीत्यनुबन्धचतुष्टयं प्रवृत्त्यङ्गमर्थादुक्तमिति द्रष्टव्यम् ॥१॥

इह भगवता भाष्यकारेणाध्यारोपापवादान्याम् ओंकारेण प्रत्यग्रत्वा-  
 भेदप्रतिपत्तिप्रकारं दर्शयितुमधिष्ठानस्य वास्तवं रूपम् अध्यारोप्यप्रपञ्चस्य सृष्टिं च  
 सिद्धककृत्य अध्यारोपमात्मनूदितम् ॥

वार्तिकाचार्यस्तु उक्तानुक्तद्विरुक्तचिन्तात्मकत्वाद्वातिरुक्त्यानुक्तं तदुभयं  
 वक्तुकाम आदावध्यारोपात्पूर्वमवस्थितमधिष्ठानात्मस्वरूपमाह —

आसीदेकं परं ब्रह्म नित्यमुक्तमनिक्रियम् ।

तत्स्वमावासमावेशाद्बीजमव्याकृतात्मकम् ॥ २ ॥

आसीदेकमिति । ब्रह्म देशकालवस्तुपरिच्छेदशून्यं अत एव एकं  
 सजातीयत्रिजातीयस्वगतभेदशून्यं परं परमानन्दरूपं नित्यमुक्तं कालत्रयेऽपि



सर्वानर्थप्रपञ्चसंबन्धशून्यं सच्चिदानन्दात्मकं ब्रह्मवासीत्सुष्टेः प्रागित्यर्थः ।  
 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत् एरुमेवाद्वितीयं', 'आत्मा वा इदमेक एवाग्र  
 आसीजान्यत्किञ्चन मिपत्', 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म'  
 इत्यादिश्रुतिभ्यः इत्यर्थः । यद्यप्यद्वितीयस्य आसीदिति कालसंबन्धो न  
 युक्तस्तथापि श्रोतॄणां प्रतिपत्तिसौकर्यार्थं कालसंबन्धमारोप्योपदिशतीति बोध्यम् ॥

ननु जगदुपादानस्य कालत्रयेऽपि कथं तत्संबन्धशून्यत्वं तत्राह —  
 अविक्रियमिति । निरवयवत्वेन विभुत्वेन च परिणामपरिस्पन्दयोरसंभवा-  
 दुपादानत्वमपि न तस्यास्तीत्यर्थः । <sup>1</sup> कथं तर्हि तच्चेजोऽसृजतेत्यादिश्रुतिभि-  
 रुपादानत्वाभिधानं ब्रह्मण इत्याशङ्क्य तत्त्वतोऽन्यथाभावित्वलक्षणपरिणाम्यु-  
 पादानत्वासंभवेऽपि माययाऽतत्त्वतोऽन्यथाभावित्वलक्षणं विवर्तोपादानत्वं  
 संभवतीत्याह — तत्स्वमाद्येति । स्वस्य ब्रह्मणः शक्तिभूता स्वस्मिन्ने-  
 वाध्यस्ता माया स्वमाया तस्याः समावेशः आध्यासिकतादात्म्यं तस्माद्बीज-  
 मुपादानमित्यर्थः । शुक्लादेर्विक्रियां विनापि रजताद्युपादानत्वदर्शनात्,  
 अविक्रियस्यापि जगद्विवर्तोपादानत्वमविरुद्धमिति भावः ॥

ननु यत्र यत्कार्यं सूक्ष्मरूपेण वर्तते तदेव तस्य कार्यस्य बीजं,  
 अन्यथा तन्तूनामपि घटं प्रति <sup>2</sup> कारणत्वं स्यात्तथा च नित्यमुक्ते ब्रह्मणि  
 प्रागुत्पत्तेः जगतः सूक्ष्मरूपासंभवात् कथं तद्बीजत्वमत आह — अव्या-  
 कृतात्मकमिति । <sup>3</sup> स्वभावतो नित्यमुक्तस्य सूक्ष्मकार्याश्रयत्वासंभवेऽपि  
 मायायां तत्संभवात् तद्द्वाराऽव्याकृतात्मकमनमिव्यक्तनामरूपात्मकजगदाश्रयः ।  
 'तद्देदं तर्हि अव्याकृतमासीत्तन्नामरूपाभ्या'मिति श्रुतेः । अतो बीजत्वं युक्त-  
 मित्यर्थः ॥ २ ॥

एवं ब्रह्मणः प्रपञ्चोपादानत्वमुपपाद्येदानीं तस्मिन्नगत अध्यारोपार्थं  
 तत्सृष्टिमाह —

संवाच्यम् ।

तस्मादाकाशमुत्पन्नं शब्दतन्मात्ररूपकम् ।

स्पर्शात्मकत्वतो वायुस्तेजो रूपात्मकं ततः ॥ ३ ॥

आपो रसात्मिकास्तस्मात्ताभ्यो गन्धात्मिका मही ।

<sup>१</sup> तस्मादिति । तस्य स्थूलाकाशवैलक्षण्यमाह — शब्दतन्मात्र-  
रूपकमिति । शब्द एव तस्मिन्नाकाशे मात्रा मीयते न त्वक्काशदानृत्व-  
शान्तत्वघोरत्वादयो यस्मिन् तच्छब्दतन्मात्रं, तदेव रूपं यस्य गुणगुणिनोर-  
मेदान् । तदा शब्दमात्रमेव गम्यते । अवकाशदानादिव्यवहारविशेषादयो न  
सन्ति यस्मिन् तत्सूक्ष्माकाशमित्यर्थः । तदुक्तं विश्वसुराणे —

तस्मिन्नास्मिन् सा मात्रा तेन तन्मात्रता सृता ।

न शान्ता नापि ते घोरा न मूढास्ते विशेषतः ॥

इति । स्पर्शात्मक इत्यादावेषमेव योज्यम् ॥

तत्तद्भूतानामसाधारणगुणान् शूर्पूर्वकारणगुणानुस्यूया प्राप्तगुणान्त-  
राणि च संगृह्याह —

शब्देकगुणमाकाशं शब्दस्पर्शगुणो मरुत् ॥ ४ ॥

शब्दस्पर्शरूपगुणेष्विगुणं तेज उच्यते ।

शब्दस्पर्शरूपरसैः गुणैरापथतुंगुणाः ॥ ५ ॥

शब्दस्पर्शरूपरसगन्धैः पञ्चगुणा मही ।

शब्देऽस्तुगमिति । शूर्पूर्वभूतानामसाधारणानां मरुत् उन्नतोत्त-  
मूलोत्तमत्वत् शूर्पूर्वगुणानुस्यूयाः परस्मिन्वाप्येति मध्यः ॥

सूक्ष्मभूतानानुस्यूयाः तेषां स्वर्गद्वयं —

तेभ्यः समभवत्, भूतं लिङ्गं सर्वात्मकं महत् ॥ ६.॥

तेभ्य इति लिङ्गशरीरं च ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चैवेत्यादिना वक्ष्यमाणं । ननु इन्द्रियाणि अहंकारकार्याणि, प्राणास्तु करणानां सामान्यवृत्तिरिति साख्याः पौराणिकाश्चाहुः । तत्कार्यं भूतकार्यत्वं अत आह—भूतमिति । भूतात्मकं तत्कार्यमित्यर्थः । 'अन्नमयं हि सोम्य मनः' इत्यादिश्रुतेश्चक्षुरादीनां तेजआदिभूतैः उपचयदर्शनात् तेजआदिभूतप्राहकत्वाच्च भौतिकत्वमित्यर्थः । सर्वात्मकमिति । हिरण्यगर्भोपाधिभूतस्य समष्टिलिङ्गशरीरस्य सर्वव्यष्टि-लिङ्गशरीरव्यापित्वात् सर्वात्मकत्वमित्यर्थः ॥

यद्वा वैशेषिकादयस्तु चक्षुरादीन्द्रियाणि भौतिकान्येव ; तानि शरीरेण सह जायन्ते, सहैव नश्यन्ति । न तु शरीरान्तरसंचारिवक्षुरादिकरणसङ्घातरूपं लिङ्गं नाम किञ्चिदस्ति । मन एव तु केवलं शरीरान्तरसंचारीत्याहुः । तन्मत्तं निराकरोति — सर्वात्मकमिति । क्रमेण प्रतिपद्यमानदेवादिसर्वशरीरेषु प्रविश्य तेषामात्मतया वर्तमानमित्यर्थः । केवलस्य व्यापकस्यात्मनः स्वत उत्कान्त्यादीनामसभवात्, 'तनुःकामन्तं प्राणोऽनूत्कामति प्राणमनूत्कामन्तं सर्वं प्राणा अनूत्कामन्ति' इति श्रुतेश्च, 'तदापीतेः ससारव्यपदेशादिति' न्यायाच्च करणसमुदायरूपमात्मन उत्कान्त्याद्युपाधिभूतं लिङ्गं शरीरान्तरसंचारीति अङ्गीकर्तव्यमित्यर्थः ॥

अत्रेदमवधेयम्— मायायास्त्रिगुणात्मकत्वात् तत्कार्याणि भूतान्वयि तादृशांश्वेव । अत्र भूतानां सात्त्विकाशेभ्यः प्रत्येकं श्रोत्रादीनि पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि जायन्ते । तेभ्यो मिलितेभ्यः पञ्चभ्यो मनोबुद्धयहंकारचिच्छात्मकमन्तकरणं जायते । तेषामेव राजसाशेभ्यः प्रत्येकं कर्मेन्द्रियाणि वागादीनि पञ्च क्रमेण जायन्ते । तेभ्य एव मिलितेभ्यः प्राणादिपञ्चवृत्तिकः प्राणो जायते । तत्र चिच्छादकारयोर्मनोबुद्धयोरन्तर्भावान्तकरणस्य द्वैतमध्ये सति ज्ञानेन्द्रियपञ्चकं,

कर्मेन्द्रियरश्मिकं, वृत्तिभेदेन पञ्च प्राणाः, मृतो बुद्धिश्चेति सतदशकं लिङ्गं तेभ्यस्समभवदिति । एवमेव समष्टिलिङ्गशरीरं हिरण्यगर्भोपाधिभूतं गोव्यक्तिप्र गोत्वमिव व्यष्टिलिङ्गेऽनुस्यूतं जायते । इयास्तु विशेष —

कृत्स्नतृष्णाण्डकारणतयाऽनुस्यूतेभ्यः सात्त्विकेभ्यः सूक्ष्मभूतेभ्य एकेकतः समष्टिज्ञानेन्द्रियाणि, समुदितेभ्यस्तेभ्य एव समष्टयन्तःकरणं, एवं राजसेभ्य कर्मेन्द्रियाणि प्राणाश्च जायन्ते । समष्टिलिङ्गारभकतया तदनुस्यूतेभ्यः कृत्स्नेभ्य सात्त्विकादिभूतेभ्यः व्यष्टिकरणानीति अत एव सगुणतृष्णोपासकस्य समष्टयपरिच्छिन्नसगुणब्रह्मभावेन परिच्छेद्यभिमाने निवृत्ते व्यष्टिलिङ्ग समष्टि- लिङ्गता प्रतिपद्यते । तत्रश्च हिरण्यगर्भोपाधिलिङ्गाभिमानेन हिरण्यगर्भता- प्राप्तिरिति तत्र तत्र भाष्यकारादिभिर्दृश्यमान संगच्छते । अंशकार्यस्य अशिकार्यान्तर्भावदिति ॥ ६ ॥

एवं लिङ्गशरीरवत्तेभ्य एव भूतेभ्य पञ्चीकरणेन स्थूलतानापनेभ्य समष्टिव्यष्टिस्थूलशरीर जातमित्याह —

ततः स्थूलानि भूतानि पञ्च तेभ्यो विराडभूत् ।

पञ्चीकृतानि भूतानि स्थूलानीत्युच्यते बुधैः ॥ ७ ॥

तत इति । सूत्रेभ्यो भूतेभ्यः स्थूलत्वाविष्टवेगेन जाताति स्थूलानि भूतानि । तेभ्यो विराट् स्थूल शरीरं द्विप्रकारमपि अभूदित्यर्थ । अन्तापि भूतेभ्योऽशिम्योऽण्डं तदंशेभ्य पिण्डमिति उपाख्यवैश्वानरात्प्रकृत्यति पूर्वोक्तरीत्या द्रष्टव्या । सूक्ष्मभूतेभ्यः भिन्नानि स्थूलानि जातानीति अत्रं वापयति — पञ्चीकृतानीति । तांभ्येव पञ्चीकृतानि सन्ति स्थूलानीत्यर्थ ॥

पञ्चीकरणवकारमाह —

पृथिव्यादीनि भूतानि प्रत्येकं विभजेद्द्विधा ।  
एकैकं भागमादाय चतुर्धा विभजेत्पुनः ॥ ८ ॥

एकैकं भागमेकस्मिन् भूते संवेशयेत्क्रमात् ।  
ततश्चाकाशभूतस्य भागाः पञ्च भवन्ति हि ॥ ९ ॥

वाय्वादिभागाश्चत्वारो वाय्वादिष्वेवमादिशेत् ।  
पञ्चीकरणमेतत्स्यादित्याहुस्तत्त्ववेदिनः ॥ १० ॥

पृथिव्यादीनीति । एकैकं भूतं द्वेधा विभज्य तदोरेकं चतुर्धा विभज्य चतुरे विभागान् तच्चद्वयतिरिक्तभूतचतुष्टये योजयेत् । ततश्च स्वाशोऽर्धमितरभूतानामंशाथत्वारोपि मिलित्वाऽर्धमिति एकैकं भूतं पञ्चात्मकं सपञ्चत इत्यर्थः । वाय्वादीति । वाय्वादिभागाश्चत्वार आकाशभागोऽर्धं च मिलित्वा आकाशभूतस्य भागाः पञ्चेति पूर्वेण अन्वयेन योज्यम् । वाय्वादिष्विति । वायुभागोऽर्धं भूतान्तराणां चतुर्णां भागाश्चत्वारस्ततश्च वायो-र्भागाः पञ्च भवन्तीत्येवं क्रमेण सर्वत्रातिदिशेदित्यर्थः ॥

अत्र केचिद्वाचस्पतिमिश्रमतानुसारिणः पञ्चीकरणं यद्यपि संप्रदायसिद्धं तथापि युक्तिविह्वलत्वात्तद्वृत्करणमेवादरणीयं । पञ्चीकरणपक्षे पृथिव्यादिभागानां आकाशवायोः प्रवेशे रूपवत्त्वात्मइत्वाच्च तयोश्चाक्षुषत्वं स्यात् । यथाकाशादि-भागानामाधिक्यादितरभागानां च स्वल्पत्वादधिकेत् स्वल्पस्याभिभूतत्वात् 'वैशेष्यास्तु तद्वादस्तद्वाद' इति न्यायेन चाक्षुषत्वाभावः, तर्हि आकाशादौ

## सव्याख्यम् ।

श्रुतिज्ञावदापर्यणो 'पृथिवी च पृथिवीमात्रा च' इत्यादिना स्थूलसूक्ष्मभूतकथन-  
 प्रस्तावे 'वायुश्च वायुमात्रा चाकाशश्चाकाशमात्रा न' इति तयोरपि स्थूलसूक्ष्मभेदं  
 दर्शयति । स्थूलत्वं च पञ्चीकृतत्वमेवान्यस्यासंभवात् । 'पञ्चीकृतानि भूतानि  
 स्थूलानीत्युच्यते बुधैः' इत्युक्तत्वाच्च । स्मृतिरपि स्कान्दे ब्रह्मगीतासु पञ्चीकृत्य  
 शिवाइषेत्यादिः । न्यायश्च श्रुतौ त्रिवृत्करणोक्तिबलादत्रिवृत्कृतानां स्थूल-  
 व्यवहारानर्हत्वं गम्यते ; अन्यथा तदुक्तिवैयर्थ्यात् । अत्रिवृत्कृतमृतकार्याणा-  
 मिन्द्रियादीनामतीन्द्रियत्वेन स्पष्टव्यवहारदर्शनाच्च त्रिवृत्करणमर्थवदिति वक्तव्यं ।  
 एवं पञ्चीकरणाभावे आकाशवायुभ्यामपि स्पष्टवकाशदानादिस्थूलव्यवहारो  
 न स्यादित्येवं श्रुतिस्मृतिन्यायादिमतं पञ्चीकरणमङ्गीकृतव्यम् । त्रिवृत्करणश्रुतिस्त,  
 छान्दोग्ये भूतत्रयसृष्टिश्रुतिः यथा पञ्चभूतोपलक्षणार्था विपदधिकरणन्यायेन,  
 तथा त्रिवृत्करणश्रुतिरपि पञ्चीकरणोपलक्षणार्था । चाक्षुषत्वापत्तिस्तु वैशेष्यासु  
 तद्राद इति न्यायेन अर्धमूपस्त्वादेव परिहृतेति भावः ॥ ८-१० ॥

एवमुपोद्घाततया सृष्टिमभिधाय नित्यमुक्ते आत्मनि अतस्मिन्-  
<sup>१</sup>दुबुद्धित्वेन मायाकार्यत्वेन च तस्य आरोपत्वं चोक्तम् । इदानीं तस्य  
 ओङ्कारेणापवादसौकर्याय आरोपितस्य वृत्तस्य त्रिविधकरणार्थं पर्याहृते-  
 त्याद्याचार्यवाक्यं व्याचष्टे — पञ्चीकृतानीत्यादिना ।

पञ्चीकृतानि भूतानि तत्कार्यं च <sup>२</sup>विराड्भवेत् ।  
 स्थूलं शरीरमेतत्स्यादशरीरस्य चात्मनः ॥ ११ ॥

विराट्शब्दार्थमाह — स्थूलं शरीरमिति । अनेन व्यष्टिसमष्टि-  
 शरीरद्वयमप्युक्तम् । ननु तस्य स्थूलशरीराङ्गीकारे, अस्थूलमिवादि-  
 श्रुतिविरोध इत्याशङ्क्य वस्तुतः अशरीरस्य शरीरत्वस्यासंभवं परन्तु तस्य  
 मृगान्तरमाह — अशरीरस्य वेति । नोऽत्राग्रे । वस्तुतः पात्रत्रयेऽपि  
 शरीरसम्बन्धव्यतिरेकत्वार्थः ॥ ११ ॥

१. उपलक्षणम् । २. विराट्भवेत् । ३. अत्रोपलक्षणम् ।

ननु इन्द्रियैरथोऽपलब्धिरिति मूलमनुपपन्नं । अद्वितीयात्मनि इन्द्रियादि-  
भेदाभावात् । आरोपितस्य तस्य सर्वेऽपि इन्द्रियाणां जडानां स्वतः  
प्रवृत्त्यसंभवः । न चात्माऽमङ्गः तत्प्रवृत्तौ भवति । अतस्तेषां विषय-  
संबन्धाभावादर्थोऽपलब्धिर्न संभवतीत्याशङ्क्याह —

अधिदैवतमध्यात्ममधिभूतमिति त्रिधा ।

एकं ब्रह्मविभागेन भ्रमाद्भाति न तत्रतः ॥ १२ ॥

अधिदैवतमिति । अधिदैवतमित्यादिषु ससम्बन्धेऽव्ययीभावं ।  
देवताषु विद्यमानं दिगादिकमधिदैवतम् । आत्मनि कार्यकरणसंवाते शरीरे  
विद्यमानं श्रोत्राद्यध्यात्मम् । भूतेषु विद्यमानं विषयभूत शब्दादिकमधिभूतम् ।  
'तेभ्यः' संभव इति 'वार्तिके भूतानामिन्द्रियाणां च' 'सृष्टिः कण्ठरवेणोक्ता ।  
इन्द्रियसृष्ट्युक्तैव समष्टीन्द्रियाभिमानिर्चैतन्धानामैव देवतात्वात् तत्सृष्टि-  
रप्यर्थादुक्तेति त्रिविधस्याप्यात्मन्यन्यारोपो दर्शित इति भावः ॥ १२ ॥

एवं सति इन्द्रियैरथोऽपलब्धिरिति वाक्यमुपपन्नं, तेन देवानां इन्द्रिय-  
प्रवृत्तकत्वोपपत्तिरित्याह —

इन्द्रियैरर्थविज्ञानं देवतानुग्रहान्निर्तेः ।

शब्दादिविषयं ज्ञानं तज्जागरितमुच्यते ॥ १३ ॥

इन्द्रियैरिति । एवं सति देवतानुग्रहान्निर्तेरिन्द्रियैरर्थविज्ञानं जायते ।  
तत् ज्ञानं जागरितमुच्यते इत्येवं वाक्यभेदेन ज्ञानपदद्वयस्याऽन्वयो द्रष्टव्यः ।  
यद्वा, इन्द्रियजन्यज्ञानम्, अन्यत्त शाब्दानुमानादिजन्यं ज्ञानं च सर्वं जागरितमिति  
ज्ञानपदद्वयस्यापुनरुक्तिः । अतोऽपलब्धिरित्युक्ते तुरीये गतः, अतः अर्थेति ।  
विषयोऽपलब्धिरित्यर्थः । सुषुप्ते अज्ञानस्य विषयस्योऽपलब्धेरर्थपदं शब्दादिपरत्वेन  
व्याख्यातं शब्दादिविषयमित्यनेन । तथापि स्वप्ने वासनारूपशब्दाद्यर्थोऽपलब्धे-

## सव्याख्यम् ।

स्तत्वात् अतिव्याप्तिवारणाय इन्द्रियैरित्युक्तम् । न च तत्रापि इन्द्रियाणि  
 दृश्यन्ते इति वाच्यं तेषां वासना<sup>१</sup>रूपत्वात् । न च वासनारूपैरपि तैरर्थो-  
 पलम्बिस्तत्रास्तीति वाच्यम् — वासनारूपाणां तेषामर्थानामिवाविषयत्वेन<sup>२</sup>  
 साक्षिणा<sup>३</sup> भास्यमानत्वमेव न रूपलम्बौ करणत्वं । तत्रप्रतीतिस्तु आप्रत्काले  
 करणत्वप्रतीतेः तद्भासनामात्रं देवतानुग्रहाभावेन मुख्यकरणत्वाभावादित्याशयेन  
 देवतानुग्रहान्वितैरित्युक्तम् ॥

नचैवमपि मनः करणं तत्रास्तीति वाच्यं तस्येन्द्रियत्वाभावात्  
 'मनस्सर्वेन्द्रियाणि च' इत्यादिश्रुतौ इन्द्रियेभ्यः पृथग्गणनात् । अत एव  
 श्रुतेरिन्द्रियत्वाभावनिक्षयात् 'मनश्च्यवनीन्द्रियाणि' इत्यत्र विजातीयैर्नैव संख्या-  
 पूरणं कार्यं । यजमानपञ्चमा इडां 'प्राशयेत्तानृत्विजापि विजातीयेन यजमानेन  
 संख्यापूरणदर्शनात् । 'सजातीयैर्नैव संख्यापूरणंथायस्तु गुहां पविष्टाविव्यधि-  
 करणसिद्धसन्देहस्थल एव, न तु मानान्तरेण विजानीयत्वनिश्चयस्थलेऽपीति  
 भावः । स्वप्ने मनस अपोऽस्थिं प्रत्युपादानत्वेन करणत्वाभावाच्च न  
 तदादापातिव्याप्तिरिति ॥

न चैवमपि समाधिपूर्वधोऽव्याप्तिः । तत्रेन्द्रियैरुपलब्ध्यभावात्  
 तयोर्जागरणत्वादिति वाच्यं, मूर्छायाः 'मुग्धेऽर्धसम्पत्तिः परिशेषादिति  
 न्यायेनाजागरणत्वात्, समाधेस्तुरीयावस्थात्वेन अजागरणत्वाच्चेत्ति ॥ १३ ॥

इदानीमध्यात्मादिविभागं सुखप्रतिपत्त्यर्थं विविच्य दर्शयति — क्षेत्र-  
 मित्यादिना ईश्वरोऽत्माधिदैवतमित्यन्तेन ।

श्रोत्रमध्यात्ममित्युक्तं श्रोतव्यं 'शब्दलक्षणम्' ।

अधिभूतं तदित्युक्तं दिशस्तत्राधिदैवतम् ॥ १४ ॥

१. मात्र ।

३. भास्यत्वादेव ।

२. विषय विषयत्वेन ।

४. मध्यगणित्वात् ।



अत्राधिभूतमिति तत्तदिन्द्रियविषय उच्यते । शब्दस्वरूपं श्रोत्रेन्द्रियस्य विषय इत्यर्थः । एवं सर्वत्र योज्यम् ।

दिश इति । दिशः श्रेष्ठ भूत्वा कर्णौ प्राविशन्नित्यादिश्रुत्या दिगादीनामधिष्ठातृदेवतात्वावगमोत्तेषु तथात्वमङ्गीकार्यमित्यर्थः एतेन जीवाधिष्ठितानामेवेन्द्रियाणां प्रवृत्त्युपपत्तेस्तदधिष्ठातृदेवता न सन्तीति वदन्तो वैशेषिकादयो निरस्ताः । श्रुतिविरोधादसंगस्य जीवस्याधिष्ठातृत्वानुपपत्तेः । यद्यपि श्रुतौ अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशदित्यादिना वागन्यादिक्रमेणाध्यात्मादिविभाग उक्तः तथापि तदुत्पादकतद्प्राह्यभूतक्रमेण तत्रापि ज्ञानेन्द्रियपूर्वकत्वात् क्रमेन्द्रियप्रवृत्तेः तदुत्पादकप्राह्यभूतक्रमेणाध्यात्मादिक्रम इहोक्तः ॥ १४ ॥

त्वगध्यात्ममिति प्रोक्तं स्पष्टव्यं स्पर्शलक्षणम् ।

अधिभूतं तदित्युक्तं वायुस्तत्राधिदैवतम् ॥ १५ ॥

वायुरिति । यद्यपि 'ओषधिबनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशन्निति' श्रुतौ ओषधिबनस्पतीना त्वग्देवतात्वमुक्तम् । तथापि तेषां देवतात्वाप्रसिद्धेस्तेषामधिष्ठाता वायुरेव ओषध्यादिशब्देनोक्त इति मत्वा इह वायुरित्युक्तम् । वृक्षाणां वायव्यत्वं च श्रुत्यादिप्रसिद्धमिति भावः ॥

चक्षुरध्यात्ममित्युक्तं द्रष्टव्यं रूपलक्षणम् ।

अधिभूतं तदित्युक्तमादित्योऽत्राधिदैवतम् ॥ १६ ॥

जिह्वाध्यात्मं तथाऽऽस्वाद्यमधिभूतं रसात्मकम् ।

वरुणो देवता तत्र जिह्वायामधिदैवतम् ॥ १७ ॥

जिह्वेति । रसात्मकमास्वाद्यमधिभूतमित्यन्वयः । वरुणो वा तं गृह्णातीत्यादौ व्याधिविशेषे वरुणशब्दप्रयोगात् तद्रथावृत्त्यर्थं देवतारूपो वरुणो-

ऽधिदेवतमित्युक्तम् । - वरुणस्याधिष्ठातृत्वात् रसस्य चात्रात्मकत्वात् 'शन्नो  
नित्तश्शं वरुणः' इत्यत्र <sup>१</sup> देवतानुगतस्य गणनाच्च तत्र देवतेति भावः ॥

घ्राणमध्यात्ममित्युक्तं घ्रातव्यं गन्धलक्षणम् ।

अधिभूतं तदित्युक्तं <sup>२</sup> पृथिव्यन्नाधिदेवतम् ॥ १८ ॥

घ्राणेन्द्रियस्य पार्थिवत्वात् पृथिव्यभिमानिदेवतायास्तत्र देवतात्वमुचित-  
मिति पृथिव्यन्नाधिदेवतमित्युक्तम् । यद्वा 'दिग्गतात्कर्मप्रचेतोऽपीति'  
संप्रदायलोके आँश्चनोर्घ्राणाधिदेवतात्वोक्तः, वद्वामभुतसूर्यपत्नीनासिकाग्यां  
निर्गतत्वेन पुराणप्रसिद्धेश्च तयोरेवाधिदेवतत्वोदित्याच्च इह पृथिवीशब्देन  
तावेवोक्तौ । अपूती वा इमी मनुष्यचरावित्यत्र तयोर्मनुष्यत्वात् पृथिवीसम्बन्ध-  
श्रवणात् । यद्यपि 'वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविश' इत्यत्र वायो-  
देवतात्वमुक्तं तथापि नासिकासंवादिश्चात्सूर्यपत्नीनासिकाग्यां तयोर्देवतत्वेन  
तयोक्तम् । वस्तुतस्तु तत्र वायुशब्देन तत्सदचारी पूर्वोक्तदेवतेषु प्राप्नोति  
न विरोधः ॥ १८ ॥

वेशेन्द्रिकादयः — कर्मेन्द्रियाणि न सन्त्येव इक्ष्वाक्यच्छिन्नात्मनि  
प्रपतोत्वचो ततः एव इक्ष्वाक्यो व्यापारोत्पत्तिसंभवादित्याहुः । तदुक्तं,  
आग्निर्वाग्भूत्वेत्यादिभुतिविरोधात् । कुण्डलादिप्रापककर्मप्रतिवेदेन्द्रियाभावे  
कुण्डलादिप्रपत्तिसंभवेन । अन्यथा तत्तद्रोड इक्ष्वाक्यच्छिन्नात्मनस्तस्योपादेव  
ज्ञानोत्पत्तिसंभवेन ज्ञानेन्द्रियाणामप्यभासप्रसङ्गाद्येवमित्येव कर्मेन्द्रियेषु  
विभागमाह चागित्यादिना ।

वागप्यात्ममिति प्रोक्तं यत्कव्यं शुन्दलक्षणम् ।

अधिभूतं तदित्युक्तमपिस्तत्राधिदेवतम् ॥ १९ ॥

वागादयश्च यथाकर्म राजसात्तदाधिभूतत्वात्तानि बोद्धव्यम् ॥ १९ ॥

१. व. इन्द्रिय इवरा ।

२. अग्निगुणधिदेवतम् ।

इस्तावध्यात्ममित्युक्तमादातव्यं च यद्भवेत् ।

अधिभूतं तदित्युक्तमिन्द्रस्तत्राधिदैवतम् ॥ २० ॥

इन्द्र इति । 'इन्द्रो मे बले श्रितः' इति श्रुत्या इन्द्रस्य बलाधिष्ठा-  
तृत्वाद्वल्स्य बाहोर्बलमिति श्रुत्या बाह्वधर्मत्वादिन्द्रो ह्यस्त्राधिदैवतमित्यर्थः ॥

पादावध्यात्ममित्युक्तं गन्तव्यं तत्र यद् भवेत् ।

अधिभूतं तदित्युक्तं विष्णुस्तत्राधिदैवतम् ॥ २१ ॥

विष्णोर्विक्रमगादिकर्तृत्वाद्दिक्रमणहेतुपादाधिष्ठातृत्वं तस्योचितमित्यर्थः ॥

पायुरिन्द्रियमध्यात्मं विसर्गस्तत्र यो भवेत् ।

अधिभूतं तदित्युक्तं सृष्ट्युस्तत्राधिदैवतम् ॥ २२ ॥

उपस्थेन्द्रियमध्यात्मं स्याद्यानन्दस्य कारणम् ।

अधिभूतं तदित्युक्तमधिदैवं प्रजापतिः ॥ २३ ॥

प्रजापतिरिति । यद्यपि 'आपो रेतो भूत्वा शिश्रं प्राविशन्ति'ति  
श्रुतावर्षा देवतात्वमुक्तम् ; तथाप्यन्नापशब्देन तदुपलक्षितपञ्चभूतोपाधिकः  
प्रजापतिरेवोक्त इति भावः ॥ २२-२३ ॥

मन्तव्यबोद्धव्यादिकं सर्वं यद्यपि ध्योतव्यादिरूपमेव तथापि मन्तव्यत्वादि-  
रूपेण ध्योतव्याद्यपेक्षया भेदमङ्गीकृत्य तेषां नानादिविषयत्वमाह मन्तव्य-  
मित्यादिना —

मनोऽध्यात्ममिति प्रोक्तं मन्तव्यं तत्र यद्भवेत् ॥ २४ ॥

अधिभूतं तदित्युक्तं चन्द्रस्तत्राधिदैवतम् ॥ २५ ॥

बुद्धिरध्यात्ममित्युक्तं बोद्धव्यं तत्र यद्भवेत् ।

अधिभूतं तदित्युक्तं अधिदैवं बृहस्पतिः ॥ २६ ॥

बृहस्पत्यादीनां तु बुद्ध्यादिदेवतात्वमागमादवगन्तव्यम् । इतरेषां तु  
'अग्निर्वाग्भूत्वा' इत्यादिश्रुतौ तथात्वं स्पष्टमिति ॥ २४-२५ ॥

अहङ्कारस्तथाध्यात्ममहंकार्तन्वमेव च ।  
अधिभूतं तदित्युक्तं रुद्रस्तत्ताधिदैवतम् ॥ २६ ॥

चित्तमध्यात्ममित्युक्तं चैतव्यं तत्र यद्भवेत् ।  
अधिभूतं तदित्युक्तं क्षेत्रज्ञोऽत्ताधिदैवतम् ॥ २७ ॥

तमोऽध्यात्ममिति प्रोक्तं विकारस्तस्य यो भवेत् ।  
अधिभूतं तदित्युक्तमीश्वरोऽत्ताधिदैवतम् ॥ २८ ॥

क्षेत्रज्ञः साक्षी ; ईश्वरस्तु मायाप्रवर्तकः जगत्कारणमिति भेदः ॥

एवमध्यात्मादिविभागं प्रदर्श्य इन्द्रियैरर्थोपलब्धिर्जागरितमिति वाक्ये  
इन्द्रियग्रहणं कारणोपलक्षणार्थमित्यभिप्रेत्य वदन् वाक्यार्थमुपसंहरति—

वाहान्तःकरणैरेवं देवतानुग्रहान्वितैः ।

स्वं स्वं च विषयं ज्ञानं तज्जागरितमुच्यते ॥ २९ ॥

वाहोति । अत्र ज्ञानमिति कर्मेन्द्रियव्यापाराणामुपलक्षणं, अन्यथा  
कर्मेन्द्रियस्यासंप्रज्ञापातात् स्वरूपनिरूपणविषयं स्यादिति ॥ २९ ॥

तदुभयानिमानीत्यत्रोभयशब्दार्थं वदन् तद्वक्तव्यार्थमाह—

येयं जागरितावस्था शरीरं करणाश्रयम् ।

यस्तयोरनिमानी स्याद्विद्य इत्यभिधीयते ॥ ३० ॥

येयमिति । विद्यस्य स्पृष्टसूक्ष्मकारणशरीरत्वानिमानीत्वात् सूक्ष्म-  
शरीरप्रदणाय शरीरं करणाश्रयमित्युक्तं । अत एव तमःसंभ्रितशरणाशरीरं अपि

तमोऽध्यात्ममित्यत्रोक्तम् । अन्यया जागरावस्थोक्तिप्रस्तावे तस्यानवसरप्रसङ्गात् ।  
तच्चेह शरीरप्रज्ञेन गृहीतमिति बोध्यम् ॥ ३० ॥

ननु 'तत्कार्यं च विराड्भवे' दित्यत्र समष्टिव्यष्टिशरीरयोःभिधानात्  
समष्टौ च वैश्वानरसन्धितस्य वैराजस्याभिमानित्वात् कर्म व्यष्टयभिमानिनो  
विश्वस्य तद्गुभयाभिमानित्वमित्यत आह—

विश्वं वैराजरूपेण पश्येद्भेदनिवृत्तये ।

विश्वमिति । वैराजस्य रूपमिव रूपं यस्य सः तथा । भावप्रधानो  
निर्देशः, वैराजरूपत्वेनेत्यर्थः । वैराजं विश्वाःमात्वेन पश्येदित्यर्थः । हिरण्य-  
गर्भरूपेण चिन्तयेदित्यादावप्येवमेवार्थः । यथाश्रुते विश्वस्य वैराजान्तर्भावे  
विश्वस्य प्राधान्यं न स्यात् । तथा च सति प्रत्यगात्मबोधनं न भवेत् ।  
वैराजादीनामीश्वरावस्थामेदत्वेन प्रत्यगात्मावस्थामेदत्वाभावात् । तथा सति  
'अकारमात्रं विश्वः स्यात्' 'अकारं पुरुषं विश्वमुक्तारे प्रविष्टापयेत्' इत्यादि-  
वक्ष्यमाणा विश्वादिप्रधानव्यपदेशाः विरुद्धेरङ्गिति । एतदुक्तं भवति—  
एकस्यैव चैतन्यस्य समष्टिव्यष्टयभिमानभेदेन भेदात्, जीवानामपि 'सर्वे  
जीवाः सर्वमयाः' इति श्रुत्या अपरिच्छेदात् परिच्छिन्नव्यष्टयभिमानकृतः  
परिच्छेदभ्रमः । तत्र समष्टिव्यष्टयोः स्थूलत्वसाम्येनामेदे चिन्तिते <sup>१</sup>परिच्छेदाभि-  
माननिवृत्त्या परिच्छेदभ्रमनिवृत्तौ तदभिमानिनोरपि विश्ववैराजयोरभेददर्शनं  
स्यादिति ॥

'एतन्नयमकारः' इत्यादिनोक्तम् पादानां मात्राणां चाभेदं  
श्रीतन्ममनुसृत्यैव, 'अकारमात्रं विश्वः स्यात्' इत्यादिना वक्ष्यामीत्यभि-  
संधाय अपञ्चीकृतेत्यादिनोक्तं द्वितीयपादं व्याज्जेषे ज्ञानेन्द्रियाणीत्यादिना-

ज्ञानेन्द्रियाणि पश्येव पञ्च कर्मेन्द्रियाणि च <sup>२</sup> ॥ ३१ ॥

सध्याख्यम् ।

श्रोत्रं त्वङ् नयनं<sup>१</sup> घ्राणं जिह्वा धीन्द्रियपञ्चकम् ।  
वाक्पाणिपादपायूपस्थाः कर्मेन्द्रियपञ्चकम् ॥ ३२ ॥

मनो बुद्धिरहङ्कारश्चित्तं चेतश्चतुष्टयम् ।  
सङ्कल्पाख्यं मनोरूपं बुद्धिर्निश्चयरूपिणी ॥ ३३ ॥

अभिमानात्मकस्तद्वदहङ्कारः प्रकीर्तितः ।  
अनुसन्धानरूपं च चित्तमित्यभिधीयते ॥ ३४ ॥

सङ्कल्पाख्यमिति । सङ्कल्पवृत्तिरूपेण परिणतमन्तःकरणं मनः  
इत्यर्थः । निश्चयाद्यवृत्तिपरिणतं च बुद्धिः । अभिमानवृत्तिपरिणतमन्तः-  
करणं अहङ्कारः । पूर्वोत्तरानुसन्धानरूपवृत्तिमच्चित्तमित्यर्थः ॥

मनो बुद्धिरहङ्कारश्चित्तं चेति चतुष्टयम् ।  
सशयो निश्चयो गर्वः स्मरणं विषया इमे ॥

इत्यभिधुक्तोक्तेः । तत्र गर्वोऽभिमानः, स्मरणमनुसन्धानं, विषया. साध्या  
वृत्तय इत्यर्थः ॥ ३४ ॥

प्राणोऽपानस्तथा व्यान उदानाख्यस्तथैव च ।  
समानश्चेति पञ्चैताः कीर्तिताः प्राणवृत्तयः ॥ ३५ ॥

सं वाय्वग्न्यम्युक्षितयो भूतयक्ष्माणि पञ्च च ।  
अविद्याकामकर्माणि लिङ्गं पुर्णष्टकं विदुः ॥ ३६ ॥

पुर्णष्टकमिति । एकैकं पञ्चरूपेणैवा पुरी, मनआदिचतुष्टयमेवा  
पुरी, कामादिकं प्रत्येकमेकैवा पुरीति पुर्णष्टकं । एतच्च ज्ञानेन्द्रियादिपञ्चकं  
जीवस्य भोगसाधनत्वात् तदुपाधित्वेन तदवस्थानप्रदेशत्वाच्च पुरीव राटः  
पुरीत्यर्थः ॥

१. न. जिह्वा प्राण धेन्द्रियपञ्चकम्

‘ज्ञानेन्द्रियाणि खलु पञ्च तथापराणि

कर्मेन्द्रियाणि मनआदिचतुष्टयं च ।

प्राणादिश्च तप्तयो विद्यदादिकं च

कामश्च कर्म च तमः पुनरष्टमी सूः <sup>१</sup> ॥

इत्यभिपुक्तोक्तेरिति । तत्र वार्तिके अभिपुक्तश्लोके ‘च अविद्यातमश्शब्दौ पूर्वपूर्वभ्रमजन्यव्रासनारूपाविद्यापरी । मूलाविद्यायाः कारणशरीरत्वेन सूक्ष्मशरीरान्तर्भावसंभवात् । पूर्वपूर्वभ्रमजन्यव्रासनायामध्यविद्याशब्दः प्रयुक्तो वाचस्पतिमिश्रैः ‘अनिर्वाच्याविद्याद्वितयसचिवस्य’इत्यत्र । यद्यपि —

पञ्चप्राणमनोबुद्धिदशेन्द्रियसमन्वितम् ।

अपञ्चीकृतभूतोत्थं सूक्ष्माङ्गं भोगसाधनम् ॥

इति प्राणादिसप्तदशकमेव लिङ्गशरीरमिति आत्मबोधादावुक्तम् । अत्र च कामकर्मादीनामपि लिङ्गशरीरान्तर्भाव उच्यते ‘एतत्सूक्ष्मशरीरं स्यादिति’ तयाप्यात्मबोधादिश्लोकेषूपलक्षणपरत्वेन कामकर्मादीनामपि ग्रहणं स्वीकर्तव्यम् । अन्यथा तेषां शरीरत्रयेऽपि अन्तर्भावभावेन शरीरत्रयापलापेऽपि तदपलाप-भावप्रसंगात् । तथा च स्थूलप्रपञ्चसर्वोऽपि स्थूलशरीरं, सूक्ष्मप्रपञ्चः सर्वोऽपि सूक्ष्मशरीरं, मूलप्रकृतिः कारणशरीरमिति शरीरत्रयापलापे सर्वप्रपञ्चापलाप-सिद्धिरिति दृश्यम् ॥ ३६ ॥

एतत्सूक्ष्मशरीरं स्यात् मायिकं प्रत्यगात्मनः ।

एतत्पुर्यष्टकं । तस्य निरसनयोग्यतां दर्शयितुं मायिकं इति विशेषणम् ।

एवं <sup>१</sup>सूक्ष्मशरीरं निरूप्य तस्य यस्यानवस्थायां भोगसाधनत्वं तामवस्थां दर्शयति —

करणोपरमे जाग्रत्संस्कारोत्थप्रबोधरात् ॥ ३७ ॥

ग्राह्यग्राहकरूपेण स्फुरण स्वप्न उच्यते ।

करणोपरम इति । करणानां चक्षुरादीनां उपरमे सति जाग्रदनुभव-  
जन्यसंस्कारोत्थान्त कारणवृत्तिरूपप्रबोधयुक्तं यद्द्राह्यद्राह्यरूपेण स्फुरणं  
चैतन्यमस्ति तद्विषयभूतरथगजादिः तद्विषयकान्तःकरणवृत्तिश्चेति द्वयं स्वप्न  
इत्यर्थः । मूले 'जागरितसंस्कारजः प्रलयस्मविषयः स्वप्नः' इत्युक्तत्वात्तदनु-  
सारेणैवं व्याख्यातम् । अन्यथा चैतन्यस्य स्वप्नावस्थान्तर्भवे तस्याप्यपलापपत्तेः ॥

एवं शरीरमवस्थां चोक्त्वा तदभिमानिनं दर्शयति —

अभिमानी तयोरेवस्तु तैजसः परिकीर्तितः ॥ ३८ ॥

अभिमानीति । तयोः स्वप्नसूक्ष्मशरीरयोः । तैजस इति । तेजसिं  
वासनायामभिमानित्वेन निर्वृत्तो भवतीति तैजस इत्यर्थः ॥ ३८ ॥

द्विरण्यगर्भरूपेण तैजसं चिन्तयेद्बुधः ।

अत्र द्विरण्यगर्भशब्देन समष्टिसूक्ष्मशरीराभिमानि सूत्रात्प्रोच्यते ।  
यथा व्यष्टिभूतपत्रपुष्पशाखादिकं समष्टिभूतवृक्षरूपेण पश्यति एको वृक्ष इति,  
तथा व्यष्टिभूतसूक्ष्मशरीराभिमानिनं आत्मानं व्यष्टिसूक्ष्मशरीराभिमानं हित्वा  
समष्टिसूक्ष्मशरीराभिमानित्वेन ध्यायेदित्यर्थः ॥

एवं सूक्ष्मशरीरं स्वप्नावस्थां तदभिमानिनं चोकारार्थमुक्त्वा मकारार्थं  
यत्तु कारणशरीरं तस्य भोगसरादिकामवस्थां तदभिमानिनं च दर्शयति —

चैतन्याभास' खचितं शरीरद्वयकारणम् ॥ ३९ ॥

आत्मानं तदव्यक्तमव्याकृतमितीर्यते ।

चैतन्येति । केवलाज्ञानस्य शरीरद्वयकारणत्वासंभवाच्चैतन्याभास-  
खचितमित्युक्तम् । चैतन्यप्रतिबिम्बसहितमित्यर्थः । अत्र यदित्यध्याहारः ।  
यच्छरीरद्वयकारणमज्ञानमस्ति तदव्यक्तमव्याकृतमितीर्यते इति संबन्धः ॥



ननु शरीरद्वयकारणत्वे तस्यार्थक्रियाकारित्वेन सत्तावश्यंभावात्तत्कार्य-  
शरीरद्वयस्यापि सत्तासम्भावत्तदपलापो न संभवतीत्याशंक्य नार्थक्रियाकारित्वमेव  
सत्त्वं किं तु अवाध्यत्वं, तच्चाविष्टानतत्वज्ञानवाध्यत्वादज्ञानस्य नास्तीत्यभि-  
प्रायेणाह — .

न सच्चासन्न सदसद्भिन्नाभिन्नं न चात्मनः ॥ ४० ॥

न सदिति । तर्हि शशशृङ्गादिवदसदेव स्यादित्याशंक्याह —  
नासदिति । अज्ञोऽहमस्मीत्यपरोक्षतया प्रतीयमानत्वात् नाल्पन्तमेसदित्यर्थः ।  
न च सत्त्वनिषेधेऽमर्त्वं असत्त्वनिषेधे सत्त्वं वा वक्तव्यं । परस्परविरुद्धयोरन्यतर-  
निषेधेऽन्यतरावश्यंभावादिति वाच्यं ; परमते घटाल्यन्ताभावे घटतदत्यन्ता-  
भावयोरभाववत् सत्त्वासत्त्वयोरप्यभावोपपत्तिरिति भावः । तर्हि केवलसद-  
सद्रूपत्वाभावेऽपि तदुभयरूपत्वं स्यादित्याशंक्याह — .

न सदसदिति । एकस्यैकदेव सदसद्रूपत्वस्य विरुद्धत्वादित्यर्थः ।  
ननु तदज्ञानमात्मनः सत्ताशाद्भिन्नं न वा ? भिन्नत्वे अद्वैतहानिः । अभिन्नत्वे  
वाप्याज्ञानाभिन्नत्वेनात्मनोऽपि वाध्यत्वापत्तिरित्यत आह — भिन्नाभिन्नमिति ।  
भिन्नत्वाभिन्नत्वयोः परस्परविरुद्धयोरपि भावः पूर्ववदेव द्रष्टव्यः । यद्यपि  
न भिन्नं नाभिन्नं नापि भिन्नाभिन्नं कुतश्चिदित्यस्य सतोऽसतः प्रत्येकं निष्ठितस्य  
च प्रतियोगित्वमुच्यत इति आनन्दगिरिये व्याख्यातम् । तथापि वार्तिके  
आत्मन एव कण्ठरवेण मेदादिप्रतियोगित्वमुक्तमिति एवं व्याख्यातम् ॥ ४० ॥

ननु सत्त्वादिना निर्वक्तुमशक्यत्वेऽपि सभागत्वादिना निर्वक्तुं शक्यत  
एवेत्याशंक्य सभागत्वं नाम सावयवत्वं । तच्चावयवरूपकारणसमवेतत्वं ।  
तच्चाज्ञानस्यानादित्वेन नास्तीत्याह —

न सभागं न निर्भागं न चाप्युभयरूपकम् ।

अज्ञातमैकत्वविज्ञानहेयं मिथ्यात्वकारणात् ॥ ४१ ॥

## अध्यायम् ।

न सभागमिति । तर्हि निर्भाग भविष्यतीत्याशंक्य तद्भागभूतानामशभूताना पृथिव्यादीना विद्यमानत्वान्न निर्भागमित्याह — न निर्भागमिति । अत, एव नोभयरूपत्वमित्याह — न चापीति ॥

ननु सर्वात्मना, निर्वाक्यमशक्यत्वे तत्स्वरूपाधिगतिरेव न- स्यात् । लक्षणाभावे लक्ष्याधिगतेरसम्भवादित्याशंक्य सत्त्वादिना निर्वचनान्नावेऽपि आत्मज्ञानापनोद्यत्वादिरूपेण निर्वचनं संभवतीत्याह— ब्रह्मेति । ब्रह्मात्मैकत्वविषयज्ञानस्यैवानर्थहेतुत्वात्तद्विषयज्ञानमेव तन्निवर्तकमित्यर्थ । हेयमिति । नादयमित्यर्थ । ननु अन्यज्ञानेन अन्यस्य नाश कथमित्याशंक्य मिथ्यात्वात् तदधिष्ठानतत्त्वज्ञानेन तदज्ञानस्य निवृत्ति संभवतीत्याह— मिथ्यात्वेति ॥

एवं कारणशरीरस्य स्वरूपं निरूप्यावस्या निरूपयति —

ज्ञानानामुपसंहारो बुद्धेः कारणतास्थितिः ।

वदवीजे वदस्येव सुषुप्तिरभिधीयते ॥ ४२ ॥

ज्ञानानामिति । अत्र ज्ञानानामिति बहुवचनात् स्थूलसूक्ष्मार्थविषयक्या जाग्रत्समावस्थयासंबन्धिना सर्वेषां ज्ञानानामभावो विवक्षितः । तर्हि वृत्तीनामभावे बुद्धेरप्यभाव स्यादित्याशङ्क्याह — बुद्धेरिति । कारणतास्थितिरिति । कारणान्मना ज्ञानान्मना स्थितिरवस्थानं । पुनर्बुद्धयुत्पादनयोग्ययासनात्मना अवस्थानमित्यर्थ । उपरत<sup>१</sup> वृत्तिरनया बुद्धेः कारणान्मनावस्थिति सुषुप्तिरभिधीयत इत्यर्थ । ज्ञानानामुपसंहारो मुक्ताकीति बुद्धेः कारणतास्थितिरियुक्तम् । तावद्युक्ते जाग्रदशायांमतिश्याप्ति, कार्यदशायांमपि तत्रातुरूपं दृष्ट्वा तमाह— वदति ॥ ४२ ॥

अभिमानां तपोर्यस्तु प्राज्ञ इत्यभिधीयते ।

जगत्कारणरूपेण प्राज्ञात्मानं विचिन्तयेत् ॥ ४३ ॥

तयोः कारणशरीरसुषुप्तवस्त्वयोः । जगदिति । व्यष्टिकारणशरीरभि-  
मानिनं प्राज्ञात्मानं समष्टिभायावच्छिन्नैश्वर्यात्मना चिन्तयेदित्यर्थः ॥ ४३ ॥

ननु विश्वतैजसादीनां बहूनामङ्गीकारे चिदात्मकमेकं तत्त्वमित्यद्वैत-  
हानिः स्यादित्याशङ्क्य तेषां भेदस्य तत्तदुपाधिकृत्वात् स्वतश्चिदात्मनो न  
भेद इत्याह—

विश्वतैजससौप्तविराट्सूत्राक्षरात्मभिः ।

विभिन्नमिव <sup>१</sup>संमोहादेकं तत्त्वं चिदात्मकम् ॥ ४४ ॥

विश्वेति । अक्षरात्मभिरिति तृतीया इत्यंभावे । चिदात्मकमेकमेव  
तत्त्वं विश्वादिरूपेण विभिन्नमिव भासत इति शेषः । तत्र हेतुमाह—  
संमोहादिति । चिदात्मकमेकं तत्त्वमित्यज्ञानादित्यर्थः ॥ ४४ ॥

तादृशं ज्ञानं कथं भवतीत्याशङ्क्य तादृशज्ञानार्थं प्रपञ्चापलापप्रकारं  
दर्शयति विश्वादिकेत्यादिना ।

तत्र प्रथमं विश्वादीनां त्रयाणां वीराजादीनां त्रयाणां च भेदाभाव-  
सिद्धयर्थं ऐक्यचिन्तनं दर्शयति—

विश्वादिकं त्वं यस्माद्वीराजादिव्रयात्मकम् ।

एकत्वेनैव संपश्येदन्याभावप्रसिद्धये ॥ ४५ ॥

विश्वेति । यस्मादेवं संपश्येत्तस्मादात्मानमद्वयं पश्येदित्युत्तरेण  
संबन्धः । <sup>२</sup> तथा भेदचिन्तनेऽभेद एव भवतीत्यर्थः । तत्र प्रथमेनादिशब्देन  
तैजसप्राज्ञयोर्मिष्टं द्वितीयेनादिशब्देन सूत्राक्षरात्मनोर्मिहणं । एकत्वेनेति ।  
यथा व्यष्टिपक्षपुष्पफलशाखादिकमेको पृष्ठ इति एकत्वेन पश्यति तथा

## संख्याख्यम् ।

व्यष्टिविधादीन् समष्टिवैराजात्मना पश्येदित्यर्थः । अन्याभावेति । अन्यत्वा-  
भावसिद्धये इत्यर्थः ॥ ४५ ॥

तथा च त्रयः परिशिष्टा भवन्ति । तेषां त्रयाणामपि चिदात्मनि विलापनं  
वक्तुं अकारादिशब्दस्याप्यपलापसिध्यर्थं, शब्दार्थयोरेतदं दर्शयति —

ओंकारमात्रमखिलं विश्वप्राज्ञादिलक्षणम् ।

वाच्यवाचकताभेदाद्भेदेनानुपलब्धतः ॥ ४६ ॥

ओंकार इति । विश्वप्राज्ञादिलक्षणमखिलमर्थजातं सर्वशब्दात्मक-  
प्रणवमात्रं अकारोकारमकारमात्रं तत्र च स्थूलप्रपञ्चवाचकसर्वशब्दात्मकत्व-  
मकारस्य, सूक्ष्मप्रपञ्चवाचकसर्वशब्दात्मकत्वमुकारस्य, कारणवाचकमर्व-  
शब्दात्मकत्वं मकारस्य च द्रष्टव्यम् । एतत्सर्वं माण्डूक्यभाष्यादौ स्पष्ट-  
मुक्तम् । सर्वशब्दात्मकत्वं च प्रणवस्य तथाया शंकुनेत्यादि छान्दोग्योपनिषदि  
स्पष्टमुक्तम् । तत्र हेतुमाह — वाच्यवाचकनेति । भवितुमर्धानो निर्देशः ।  
वाच्यवाचकताभेदादित्यर्थः । वाच्यवाचकताभेदे हेतुमाह — भेदेनेति । वाच्याद्भेदेन  
माच्यकस्य, वाचकाद्भेदेन वाच्यस्यानुपलब्धेरित्यर्थः । वाच्यवाचकताभेदे  
माण्डूक्योपनिषद्भाष्ये दो मण्डूक्यनिरूपित इति नेह प्रवृज्यते ॥ ४६ ॥

एवं मामाप्तवत् प्रणवत्रययोरेतदुक्तं वा इदानीं विशिष्य प्रणवावपवधानां  
तदर्थानां चाभेदं दर्शयति —

अकारमात्र विश्वः स्यादुकारस्तैजसः स्मृतः ।

प्राज्ञो मकार इत्येवं परिपश्येत्क्रमेण तु ॥ ४७ ॥

अकारमात्रमिति ॥ ४७ ॥

एवं समाभिःकालपूर्वकृत्यमुक्त्वा समापेरव्यवहितपूर्वकालकर्तव्यं प्रवि-

छापनप्रकारमाह —

समाधिकालात्प्रागेवं विचिन्त्यातिप्रयत्नतः ।

स्थूलसूक्ष्मक्रमत्सर्वं चिदात्मनि विलापयेत् ॥ ४८ ॥ ।

समाधीति । विश्ववैराजाद्यभेददृष्टीनां प्रणवावयवतदर्थभेददृष्टीनां

चासुलभत्वादतिप्रयत्नत इत्युक्तम् ॥ ४८ ॥

स्थूलादिक्रमेण सर्वं चिदात्मनि विगपयेदिति संक्षेपेणोक्तं विलापन-

प्रकारं विशिष्य दर्शयति —

अकारं पुरुषं विश्वसुकारे प्रविलापयेत् ।

उकारं तैजसं सूक्ष्मं मकारे प्रविलापयेत् ॥ ४९ ॥

मकारं कारणं प्राज्ञं चिदात्मनि विलापयेत् ।

अकारमिति । उकारे प्रविलापयेदिति । अकार उकार एवेत्येवं-

प्रकारेणेत्यर्थः । मकारे प्रविलापयेदिति । उकारो मकार एवेति

प्रकारेणेत्यर्थः । प्राज्ञं चिदात्मनि विलापयेदिति । मकारोऽहमेवेत्येवं-

प्रकारेणेत्यर्थः । एवं च मकार ओंकार एव । ओंकारोऽहमेवेति, पाठान्तरं

वार्तिकाननुगुणमेवेति वेदितव्यम् । तादृशपाठस्य सर्वोपनिषद्वाख्यानाननु-

गुणत्वात् । प्रपञ्चस्तु पञ्चीकरणभावप्रकाशिकायां द्रष्टव्यः ॥

एवं चिदात्मनि विलापयेदिति सर्वप्रपञ्चप्रविलापनमुक्त्वा चिदात्मा

कीदृश इत्याकाङ्क्षायां चिदात्मस्वरूपं कथयन् संप्रज्ञातसमाधिप्रकारमाह —

चिदात्माहं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तसदद्वयः ॥ ५० ॥

परमानन्दसन्दोहो वासुदेवोऽहमिति ।

चिदात्मेति । अत्र च वाक्यद्वयाङ्गीकारात् पूर्वोत्तरार्धयोरहमित्यस्य

न पौनरुक्त्यं । नित्यपदं शुद्ध इत्यादिषु सर्वत्रान्वेति नित्यशुद्धो नित्यबुद्धो

## सध्याख्यम् ।

नित्यमुक्तो, नित्यसद्रूपो नित्यमद्वयरूप इति । तथा च शुद्धत्वादीनां  
कादाचित्कत्वं निरस्तम् । एतादृशचिदात्मरूपस्य इष्यमाणत्वे हेतुं दर्शयति—  
परमेति तस्य पूर्णतां दर्शयति वासुदेव इति ॥

सर्वत्रासौ समस्तं च वसत्यत्रेति वै यतः ।

ततस्त वासुदेवेति विद्वद्भिः परिपठ्यते ॥

इति विष्णुपुराणवचनात्तस्य पूर्णत्वार्थकत्वादित्यर्थः परमानन्दसन्दोहधासौ  
वासुदेवश्चेति समानाधिकरणसामः । आनन्दमन्दोहरूपत्वं च सर्वेशानन्दानां  
ब्रह्मानन्देऽन्तर्भावादिति द्रष्टव्यम् । वासुदेवस्य प्रणवार्थत्वात् प्रणवभिन्नत्वादो-  
मित्यस्य तदाचक्रवासुदेवादिशब्दैः सामानाधिकरण्यं द्रष्टव्यम् । अथवा  
पूर्वाधोक्तस्य महावाक्यार्थस्य स्वानुभवेनाङ्गीकारार्थो वा ओमिति ॥

एवं शब्दानुविद्धसंप्रज्ञातसमाधिमुक्त्वाऽसंप्रज्ञातसमाधि वक्तुं संप्रज्ञात-  
समाधिरूपवृत्तिविलयप्रकारमह —

ज्ञात्वा <sup>१</sup> विवेचितं चित्तं तत्साक्षिणि विलापयेत् ॥ ५१ ॥

ज्ञात्वेति । गङ्गाकूलं संप्रज्ञातसमाधी स्थित्वेत्यर्थः । तत्साक्षिणीति ।  
विवेचरुचित्तसाक्षिणीत्यर्थः ॥ ५१ ॥

इदानीमसंप्रज्ञानसमाधिमाह —

चिदात्मनि विलीनं <sup>२</sup> चेत्तच्चित्तं न विचालयेत् ।  
पूर्णोघात्मनाऽऽसीत् पूर्णाचलममुद्रन् ॥ ५२ ॥

चिदात्मनीति । पुनः किं कुर्यादित्यत्र आह—पूर्णेति । तत्र दृष्टान्त-  
माह— पूर्णेति । न चञ्चलीत्यत्र । पूर्णेः अचञ्च योऽयं समुद्रः तद-  
दासीतेत्यर्थः ॥ ५२ ॥

एवं समाधिप्रकारमुक्त्वा तत्परिपाकफलभूततत्त्वसाक्षात्कारप्रकारं दर्शयति —

एवं समाहितो योगी श्रद्धाभक्तिसमन्वितः ।

जितेन्द्रियो जितक्रोधः पश्येदात्मानमद्वयम् ॥ ५३ ॥

एवमिति । एवमुक्तप्रकारेण समाहितः समाधियुक्तो योगी तत्परिपाकानन्तरं अद्वयमात्मानं पश्येत् । ज्ञाने विश्वसंभवात् साक्षात्कारोक्तीत्यर्थः । ज्ञाने विध्यसंभवे तादृशसाक्षात्कारोत्पत्त्यर्थं समाधिकालेऽपि श्रद्धाभक्तीन्द्रियत्रयक्रोधत्रयादीनामावश्यकता दर्शयति श्रद्धेत्यादिना ॥५३॥

ननु लौकिकं व्यागरं विज्ञाय सर्वदा तत्त्वनिष्ठात्पनमाधिः कर्तुं न शक्यत इत्याशङ्क्याधिकारिविशेषणीभूतवैराग्यस्यैव दार्ढ्याय समाधिदशायामपि वैराग्यं दर्शयति—

आदिमध्यावसानेषु दुःखं सर्वमिदं यतः ।

तस्मात्सर्वं परित्यज्य तत्त्वनिष्ठो भवेत्सदा ॥ ५४ ॥

आदीति । आदी भोगसाधनीमूलद्रव्यार्जने दुःखं, मध्ये तत्परिपालने दुःखं, अवसाने तत्राशे दुःखमित्येवंप्रकारेण सर्वमपि सर्वदा दुःखहेतुरेव । एवं ब्रह्मलोकान्तलोकसाधनकर्माद्यार्जनमपि दुःखहेतुरेवेति निश्चित्य सातिशयानित्यफलसाधनं सर्वं परित्यज्य नित्यनिरतिशयपुरुषार्थसिद्धयर्थं सर्वदा तत्त्वनिष्ठारूपसमाधिमान् भवेदित्यर्थः ॥ ५४ ॥

एवं समाधिनिष्ठया तत्त्वसाक्षात्कारलामे किं फलं भवतीत्याशङ्क्य कृतकृत्यता भवतीत्याह —

यः पश्येत्सर्वमं शान्तमानन्दात्मानमद्वयम् ।

न तेन किञ्चिदाप्तव्यं ज्ञातव्यं वावशिष्यते ॥ ५५ ॥

## सव्याख्यम् ।

कृतकृत्यो भवेद्विद्वान् जीवन्मुक्तो भवेत्सदा ।  
आत्मन्यारूढभावस्तु जगदेतन्न वीक्षते ॥ ५६ ॥

कदाचिद्व्यग्रहारेषु द्वैतं यद्यपि पश्यति ।  
बोधात्मव्यतिरेकेण न पश्यति चिदन्वयात् ॥ ५७ ॥

य इति । सर्वत्र परिपूर्णपरमानन्दद्वयप्रभरूपं आत्मानं साक्षात्कुर्वतः  
सर्वानन्दानां ब्रह्मानन्द एवात्मर्भावादाप्तव्यान्तरं नास्ति । 'यस्मिन्विज्ञाते  
संमिदं विज्ञातं स्यादिति' ज्ञानव्यान्तरमपि नास्तीत्यन- कृतकृत्यो भवतीत्यर्थः ।  
कृतकृत्यो भवेदित्यस्य विवरणं जीवन्मुक्तो भवेदिति । सदेति —  
सदा ममाधिकाले तदितरभिक्षाटनादिव्यवहारकाले चेत्यर्थः । अन्यथा जीव-  
न्मुक्तवत्स्य ज्ञानापूर्वकाले विदेऽकैवल्यकाले चाभावेन विरोधात् । अत एव  
समाधिकाले तदितरभिक्षाटनादिव्यवहारकाले द्वैतदर्शनेऽपि तस्य मिथ्यात्वेनैव  
दर्शनान्न जीवन्मुक्तताया विरोध इति दर्शयति — कदाचिदिति । यद्ब्रजन-  
साधारणद्वैतदर्शनमङ्गीकरोति—द्वैतं यद्यपि पश्यतीति । तर्हि यद्ब्रजनात्को  
विशेष इत्यत आह—बोधात्मेति । यद्ब्रजन- सर्वदा द्वैतं पश्यति । विद्वान्  
कदाचिसमाधिअनिरिक्तकाल एव, इत्येको विशेषः । अपरस्तु, यद्ब्रजनो  
बोधात्मव्यतिरेकेण द्वैतं सत्यतया पश्यति, विद्वान्स्तु सत्यतया न पश्यति ।  
तत्र हेतु-चिदन्वयादिति । सर्वत्र प्राये चित्त एव सत्ताप्रदर्शनेनानुभूतत्व-  
ज्ञानादित्यर्थः ॥ ५७ ॥



यथा एकस्यैवेन्दोर्भेदेन भानं नेत्रावष्टम्भाद्यपाधिवशात्तथैकस्यैव ब्रह्मणस्तत्-  
दुपाधिवशाद्देवतिर्षब्दानुभ्यादिरूपेण भेदभानमित्यर्थः ॥

ननु तत्त्वसाक्षात्कारानन्तरमज्ञाननाशेऽपि पुनश्शरीरादिप्रतिभासाङ्गी-  
कारेऽनिर्मोक्ष एव स्यादित्याशङ्क्य तस्यावधिमाह —

प्रतिभासश्शरीरस्य तदाऽऽप्रारब्धसंक्षयात् ॥ ५८ ॥

प्रतिभास इति । तदा ज्ञानकालेऽपि शरीरस्य प्रतिभासः  
आप्रारब्धसंक्षयादिति च्छेदः । मर्यादायामाह् प्रारब्धसंक्षयपर्यन्तं । तन्नाशे तु  
शरीरादिप्रतिभासोऽपि नश्यतीत्यर्थः । तदुक्तमभियुक्तैः —

शास्त्रेण नश्येत्परमार्थरूपं कार्यक्षमं नश्यति चापरोक्ष्यात् ।

प्रारब्धनाशात् प्रतिभासनाश एव त्रिधा नश्यति चात्ममाया ॥ इति ।

अस्मिन्नर्थे श्रुति प्रमाजयति —

तस्य तावदेव चिरमित्यादि श्रुतिरब्रवीत् ।

तस्येति । तस्य ज्ञानिनस्तावदेव तावत्पर्यन्तमेव चिरं विलम्बः  
यावत्प्रारब्धकर्मणा न विमोक्ष्ये न विमोक्ष्यते । अथ प्रारब्धकर्मविमोचनानन्तरं  
संपत्स्ये संपद्यते । लकारपुरुषव्यत्ययश्छान्दसः । ज्ञानेनाज्ञानस्यावरणशक्ति-  
नाशेऽपि तत्कृतो विक्षेपः कंचित्कालं चक्रभ्रमिन्त्यायेन, परमते तन्वादि-  
नाशानन्तरमपि पटादिवच्चानुवर्तत इति भावः ॥

तर्हि विदुषो बद्धजनस्यैव शरीरादिप्रतिभासाङ्गीकारे तत्कृतसुख-  
दुःखादिकमपि स्यादित्याशङ्क्य तस्य मिथ्यात्वेन ज्ञातत्वात् दुःखादिहेतुत्व-  
मित्याह —

प्रारब्धस्यानुवृत्तिस्तु मुक्तस्याभासमात्रतः ॥ ५९ ॥

सर्वदा मुक्त एव स्यात् ज्ञातवच्चः पुमानसौ ।

प्रारब्धस्येति । प्रारब्धस्य प्रारब्धकार्यस्य शरीरादेरित्यर्थः ।  
मुक्तस्य जीवन्मुक्तस्य आभासमात्रतः प्रतीतिनामान तु वस्तुतोऽनुवृत्ति-  
रस्तीत्यर्थः । तथा च — यथा सर्वभ्रानन्तरं रज्जुवत्वं ज्ञातवचः अति-  
सादृशपाद्मज्ज्वाः सर्पाकारतया प्रतीनावपि न भयरूपादीनि एवं जीवन्मुक्तस्य  
शरीरादिप्रतीनावपि विध्यात्वेन ज्ञानान् दुःखादिहेतुवन्मिति भावः । तत्र हेतु-  
माह—सर्वदेति । ज्ञातवच्चः पुमान् सर्वदा समाधिक्काले तदित्येव्यवधार-  
काले च मुक्त एव । 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति' इति श्रुत्या ज्ञानसमकालमेव  
मुक्तेः सिद्धत्वात् । ततो विदुषः शरीरादिप्रतिभासेऽपि न दुःखादिप्रसक्तिरिति  
भावः ॥

प्रारब्धक्षयानन्तरं विदेहकैवल्यप्राप्तिप्रकारमाह—

प्रारब्धभोगशेषस्य संशये तदनन्तरम् ॥ ६० ॥

अविद्यातिमिरातीतं सर्वाभासविरजितम् ।

आनन्दममलं शुद्धं मनोवाचामगोचरम् ॥ ६१ ॥

प्रारब्धेति । अविद्या शक्रेण नश्येदित्यादिछोक्तेनोक्ता त्रिविधा,  
सैव तिमिरं वस्तुस्वरूपाच्छादकत्वात् तदतीतं निवृत्ताविषयमित्यर्थः । कारणा-  
भावमुक्त्वा कार्याभावमप्याह—सर्वेति । आभास्यन्त इत्याभासा. शरीरादयः  
तद्विरजितमित्यर्थः । अविद्यानिविरातीतंवादेवामठे सर्वाभासविरजितत्वादेव  
शुद्धम् । अत एव केषानन्दरूपं । तत्पाररिनिनतां दर्शयति—मन इति ।  
मनांसि वाचश्च मनोवाचः तासांमगोचरं अपरिभिन्नादित्यर्थः ॥ ६१ ॥

तदानीं तत्स्वरूपप्रतिपत्त्यर्थं चन्द्राय-वेत्तव्याःप्राप्त्यर्थाह —

याच्ययाचरुनिर्मुक्तं हेयोपादेयविरजितम् ।

प्रज्ञानपनमानन्दं येष्वयं पदमरजुते ॥ ६२ ॥

वाच्येति । तदशायामिष्टानिष्टपरिहारार्थं प्रवृत्त्यादिकं वारयति —  
हेयेति । आनन्दस्वाशयमानस्य पुरुषार्थ-वाभावादाह — प्रज्ञानघनमानन्द-  
मिति । स्वप्रकाशतया ज्ञायमानानन्दरूपमित्यर्थः । प्रज्ञानघनमित्यनेन भाट्टादि-  
मत इव चिदचिदात्मकं न भवति, किं तु केवलज्ञानस्वरूपमेवेति दर्शितम् ।  
आनन्दस्वरूपस्यात्यन्तमभिलषितत्वात् पुनर्वचनम् । विप्लव्यासाविति विधिधातु  
निष्पन्नत्वात् विष्णुशब्देन त्रिविधपरिच्छेदरहितं ब्रह्मोच्यते । विष्णोरिदं  
वैष्णवं ब्रह्मस्वरूपं राहोश्शिखर इत्यादिवदमेदेऽपि मेदोपचारः । पद्यत इति  
पदं अश्नुते प्राप्नोति । ब्रह्मस्वरूपो भवतीत्यर्थः । न तु विष्णोः पदं  
वैकुण्ठाख्यं लोकं प्राप्नोति । तस्योपासनाफलत्वेन तत्त्वसाक्षात्कारफलत्वा-  
संभवात् । ब्रह्मसाक्षात्कारस्य 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवती'त्यादिश्रुत्या ब्रह्मैक्यप्राप्ति-  
फलकत्वादिति भावः ॥ ६२ ॥

एवं सुखं धनुप्रहार्यं कृतस्य प्रकरणस्वार्थप्रहणे प्रकारमाह—

इदं प्रकरणं यत्नात् ज्ञातव्यं भगवत्तमैः ।

अमानित्वादिनियमैर्गुरुभक्तिप्रसादतः ॥ ६३ ॥

इदमिति । इदं पञ्चीकरणवार्तिकरूपं प्रकरणं यत्नात् गुरुशुश्रूषादि-  
यत्पूर्वकं ज्ञातव्यं अर्थतो ज्ञातव्यं, मुमुक्षुमिरिति शेष । कीदृशैर्गुरुभि-  
र्ज्ञातव्यमित्यत आह — भगवत्तमैरिति । वेदान्तजन्यज्ञानवन्तो भगवन्तः  
तेषां भगवद्रूपत्वात् । तत्त्वसाक्षात्कारवन्तस्तु भगवत्तमास्तैर्निमित्तैस्तान् गुरुन्  
कृत्वेत्यर्थः । 'गुरुभिर्ज्ञात्वा गुरुणां मन'मित्यादिदर्शनात् । पुनः कीदृशैरित्यत  
आह — अमानित्वादीति । अमानित्वादयः अमानित्वमदम्भित्वमित्यादि  
भगवद्गीतोक्ता नियमा येषां तैरित्यर्थः । 'तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्  
समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठमित्यादिश्रुतेः । एवंविधा गुरुव. प्राप्या  
इत्यर्थः । न च तादृशाः कृतकृत्यतया किमर्थं मामुपदिशन्तीति वाच्यम् ।  
'तद्विद्धि प्रणिपातेन परिभ्रजेन सेवया । उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्व-

दर्शिनः ॥' इति गीतावचनात् तादृश्या अपि केवले कृपया उपदिशन्तीति भावः । गुरुभक्तीति । गुर्वा च सा भक्तिश्चेति गुरुभक्तितया य प्रसादः, गुरुणामनुग्रहस्तस्मात् ज्ञातव्यमित्यर्थः । गुरुषु भक्तिरिति वा ॥ ६३ ॥

एवं विशिष्टगुर्वनुग्रहादिदं प्रकरणमर्थतो ज्ञात्वा किं कर्तव्यमित्यत आह —

इमां विद्यां प्रयत्नेन योगी संप्यासु सर्वदा ।  
समभ्यसेदिदामुत्तमोगानासक्तधीःसुधीः ॥ ६४ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्रान्ताचार्यवर्ये श्रीमच्छंकरभगवत्पादशिष्य श्रीसुरेश्वराचार्यविरचितं पञ्चीकरणं संपूर्णम् ॥

इमामिति । विद्यां विद्याहेतुभूतमिदं प्रकरणमित्यर्थं । उपनिषच्छब्द-  
वाच्यविद्याहेतुभूतवेदान्तवाक्येषु उपनिषच्छब्दवद्द्रष्टव्यम् । प्रयत्नेनेति ।  
लोकयातृदिविद्यया यथा न सुस्तया प्रयत्ने शृणोत्यर्थः । संप्यासु साधनान्तः  
संप्यासु समभ्यसेत् सम्यगभ्यसेत् अर्थानुसंधानपूर्वकं जपेदित्यर्थः । तत्तापि-  
कारिणं दर्शयति—इहेति । वेदात्म्यं साधनचतुष्टयसंयुतलक्षणार्थः । गुपीरिति  
श्रवणमननजन्यज्ञानवानित्यर्थः । इतश्चरगन्तव्येषु त्रिदिशासनैऽधिसत्परिति ।

अनया पञ्चीकरणवार्तिकामरणरूपया श्रुत्या ।

भीठ्ठ्याः प्रीतो भक्त्याद्विबुधाधैनां सनीश्व मोदन्तम् ॥

इति शम् ॥ ६४ ॥

इति श्रीपरमहंसपरिव्रान्ताचार्ये श्रीवेङ्कटेश्वरस्वामीश्रुतवशादिति  
श्रीमच्छंकरभगवत्पादशिष्य श्रीमदमिनरनासायनेन्द्र-  
सत्स्वतीमिः विरचिते पञ्चीकरणवार्तिकामरणे सप्तमम् ॥

## ॥ श्लोकानुक्रमणिका ॥



	पृ-सं			पृ-सं
<b>अ</b>		एतत्सूक्ष्मशरीरं स्यात्		20
अकारं पुरुषं विश्व	28	एवं समाहितो योगी		28
अकारमात्रं विश्वः	25	ओ		
अधिदैवतमध्यात्म	12	ओंकारमात्मखिलं		25
अभिमानात्मकस्तद्	19	ओंकारस्सर्ववेदानां		4
अभिमानो तयोर्षस्तु	28	क		
अविद्यातिमिरातीतं	31	कदाचिद्व्यवहारेषु		29
अहंकारस्तथाध्यात्म	17	किंतु पश्यति मध्येव		"
<b>आ</b>		कृतकृत्यो भवेद्विद्वान्		"
आत्माज्ञानं तदन्यक्त	21	ख		
आदिमध्यावसानेषु	28	खं वाय्वग्न्यम्बु		18
आपो रसात्मिकाः	7	ग		
आसीदिकं परं ब्रह्म	5	ग्राह्यग्राहकरूपेण		20
<b>इ</b>		घ		
इदं प्रकरणं यत्नात्	32	प्राणमध्यात्ममित्युक्तं		15
इन्द्रियैरयंविज्ञानं	12	च		
इमां विशां प्रयत्नेन	33	चक्षुरध्यात्ममित्युक्तं		14
<b>उ</b>		चित्तमध्यात्ममित्युक्तं		17
उपसर्गेन्द्रियमध्यात्मं	16	चिदात्मनि विलीनं चेत्		27
<b>ए</b>		ज		
एतेकं मागमेकस्मिन्	10	जिह्वाध्यात्मं तथा		14
		ज्ञानानामुपसर्गद्वारो		28

	पृ-सं		पृ-सं
		य	
ततः स्थूलानि भूतानि	9	यः पश्येत् सर्वगं शान्त	28
तमोऽध्यात्ममिति प्रोक्तं	17	येयं जागरितावस्था	17
तस्मादाकाशमुत्पन्नं	7	व	
तस्य तावदेव चिर	30	वागध्यात्ममिति प्रोक्तं	15
त्वगध्यात्ममिति प्रोक्तं	14	वाच्यवाचकनिर्मुक्तं	31
न		वाप्यादिभागाक्षत्वरो	10
न सभागं न निर्भागं	22	विभ्रं वैराजरूपेण	18
प		विघ्नतैजससौप्त	24
पञ्चीकृतानि भूतानि	11	विघ्नादिकं त्रयं यस्मा	19
परमानन्दसन्दोहो	26	श	
पादावध्यात्ममित्युक्तं	18	शब्दस्पर्शरूपगुणै	7
पापुरिन्द्रियमध्यात्मं	19	शब्दस्पर्शरूपरस	19
पृथिव्यादीनि भूतानि	10	श्रोत्रं त्वङ्मनसं	19
प्राणोऽपानस्त्रया ज्ञान	19	श्रोत्रमध्यात्ममित्युक्तं	13
ब		स	
बाह्यान्तःकरणैरेवं	17	समाधिकालात्प्रागेवं	26
बुद्धिरध्यात्ममित्युक्तं	16	सर्वदा मुक्त एव स्यात्	31
म		ह	
मकारं कारणं प्राज्ञं	26	हस्तावध्यात्ममित्युक्तं	16
मनोऽध्यात्ममिति प्रोक्तं	16	हिरण्यगर्भरूपेण	21
मनो बुद्धिरहंकार	19		